

रसः न स

(रस-संबंधी अनूठा काव्य-ग्रंथ)

रचयिता

साहित्यवाचस्पति, साहित्यरत्न, कविसम्राट्

पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

प्रकाशक

हिंदी-साहित्य-कुटीर

बनारस


द्वितीय संस्करण

मार्गशाष, २००१

[मूल्य ४।।]

प्रकाशक
हिंदी-साहित्य-कुटीर
बनारस

मुद्रक—
ह० मा० सप्रे,
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी ।



प्रन्थकार—

गहिन्यद अस्मिन् रान्हिन्यत्त मरि प्रद्

पं० कृष्णोत्त मरि ह् अस्मिन् 'हरिऔध'

विशेष वक्तव्य

‘रसकलस’ का जन्म देना सामयिक है या नहीं, इसका विचार रसिक वृन्द करे। मुझे जो निवेदन करना है, उसे निवेदन करता हूँ। यह सच है कि ब्रजभाषा का वह आदर अब नहीं रहा, किंतु यह भी सत्य है कि जबतक वह बोलचाल की भाषा है, तबतक उसमें जोवन है। उसकी पद अर्चना करनेवाले आज भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, और उस समय तक उपस्थित रहेंगे, जबतक उसके बोलनेवाले धराधाम पर विद्यमान रहेंगे। भारतवर्ष की जितनी प्रांतिक भाषाएँ मरहठी, बँगला, पंजाबी और गुजराती आदि हैं, उन सबमें रचनाएँ हो, भोजपुरी और मैथिली जैसी बोलियों में कविताएँ लिखी जावे, किंतु ब्रजभाषा का ही यह स्वत्व छीन लिया जावे, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं, जो जिसका प्राकृत अधिकार है, उससे उसको वंचित करना टेढ़ी खीर है, यह किसी के बूते की बात नहीं। इसलिये यह कहना कि अब ब्रजभाषा में कविता करना भूल मारना और समय-प्रवाह के विरुद्ध चलना है, यदि प्रमाद नहीं तो अज्ञान अवश्य है। रही शृंगार रस की बात, इस विषय में मुझे यह कहना है, कि क्या शृंगार रस की रचनाएँ इस योग्य हैं कि उनको वक्र दृष्टि से देखा जावे, और उनकी कुत्सा की जावे। कदापि नहीं, शृंगार रस ही साहित्य का शृंगार है, जिस दिन वह इस गौरव से वंचित होगा, उसी दिन उसका सौंदर्य नष्ट हो जावेगा। शृंगार रस पर जो खड्ग हस्त हैं, वे उसका मर्म जानते ही नहीं, वे अमृत को विष समझ रहे हैं। अश्लील शृंगार रस अवश्य निदनीय है, फिर भी उस निदा की सीमा है, जहाँ वह किसी कला का अंग होगा, वहाँ उसको उसी दृष्टि से ग्रहण करना होगा। जिन्होंने शृंगार रस की कुत्सा करने का बीड़ा ले रखा है वे कलेजे पर हाथ रखकर बतलावें कि क्या

वे सचमुच हृदय से उसे कुन्सा योग्य समझते हैं, या अंध-परंपरा में पड़े हैं। यदि वास्तव में हृदय से उसे ऐसा समझते हैं, तो उनकी रचनाओं में उसका स्रोत क्यों बह रहा है? और वे क्यों उसकी सरसता, मोहकता और व्यापकता पर लट्टू हैं। समझ लेना चाहिये नायिका भेद की रचनाएँ ही शृंगार रस नहीं हैं। जिन निरूपणों में प्रेम का आभास है, जिन कविताओं में प्रकृति की छटाओं का वर्णन है, जहाँ मधुरता, सरलता, हृदयप्राहिता, और सौंदर्य है, वहाँ शृंगार रस विराजमान है।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि प्राचीन प्रणाली का अनुकरण ही आजकल भी अधिकांश वर्तमान ब्रजभाषा के कवि कर रहे हैं, निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी त्रुटि है। ममय को देखना चाहिये, और सामयिकता को अपनी कृति में अवश्य स्थान देना चाहिये। देश-संकटों की उपेक्षा देश द्रोह, और जाति के कष्टों पर दृष्टि न डालकर अपने रंग में मस्त रहना महान् अनर्थ। मातृभूमि की जिसने उचित सेवा समय पर न की वह कुल-कलंक है, और जिसने पतित समाज का उद्धार नहीं किया वह पामर। यह विचार कर ही प्राचीन प्रणाली के कवियों की दृष्टि इधर आकर्षण करने के लिये 'रसकलस' की रचना की गई है। आज तक जितने 'रस-ग्रंथ' बने हैं, उनमें शृंगार रस का ही अयथा विस्तार है, और रसों का वर्णन नाम मात्र है। इसके अतिरिक्त संचारी भावों के उदाहरण भी प्रायः शृंगार रस के ही दिये गये हैं, ऐसा न करके अन्य विषयों का उदाहरण भी उनमें होना चाहिये था। 'रसकलस' में इन सब बातों का आदर्श उपस्थित किया गया है, और बतलाया गया है कि किस प्रकार अन्य रसों के वर्णन का विस्तार किया जा सकता है, और कैसे जाति, देश और समाज संशोधन संबंधी विषयों को उनमें और संचारी भावों में स्थान दिया जा सकता है। इस ग्रंथ में देशप्रेमिका, जातिप्रेमिका और समाजप्रेमिका आदि नाम देकर कुछ ऐसी नायिकाओं की भी कल्पना की गई है, जो बिल्कुल नई है, परंतु समाज और

साहित्य के लिये बड़ी उपयोगिनी हैं। इस समय देश में जिन सुधारों की आवश्यकता है, जिन सिद्धांतों का प्रचार वांछनीय है, उन सबों पर प्रकाश डाला गया है, और उनके सुंदर साधन भी उसमें बतलाये गये हैं। पाश्चात्य विचारों के प्रवाह में पड़कर देश की कुलांगनाओं में, अंध अनुकरणकारियों एवं विदेशी भावों के प्रेमियों में जो दोष आ रहे हैं, उनका वर्णन भी उसमें मिलेगा, साथ ही उनकी भर्त्सना भी। नव रसों में शृंगार रस प्रधान है, इसलिये ग्रंथ में उसके सब अंगों का वर्णन है, किंतु कविता की भाषा संयत है। कुछ अत्यंत अश्लील विषयों को छोड़कर शृंगार रस-बंधों सब विषय मैंने ले लिये हैं, और सब का वर्णन यथास्थान किया है; केवल इस उद्देश्य से कि जिसमें यह बतलाया जा सके कि जहाँ अश्लीलता की संभावना हो, वहाँ संयत और गूढ़ भाषा लिखकर किस प्रकार उसका निवारण किया जा सकता है। संभव है कहीं मैं अपने इस उद्देश्य में पूर्णतया सफल न हो सका होऊँ, परंतु ऐसे स्थल की अधिकांश कविताओं को विचारपूर्वक पढ़ने से प्रत्येक सहृदय पुरुषों पर प्रकट हो जावेगा कि मैं इस विषय में कितना परिश्रम किया है और कितनी सावधानी से काम लिया है। मैं ऐसे कुछ और विषयों को भी छोड़ सकता था, परंतु ऐसा करने पर मेरे उद्देश्य में व्याघात होता, अतएव मैं उन्हें न छोड़ सका। ब्रजभाषा में 'रसविलास' 'रसराज' और 'जगद्विनोद' आदि ऐसे बड़े अपूर्व 'रसग्रंथों' के होते, 'रसकलस' की रचना की कोई आवश्यकता नहीं थी, और न मैं ऐसा करता, यदि इन उद्देश्यों से मैं प्रेरित न होता, और यदि प्राचीन प्रणाली के कवियों की दृष्टि को सामयिकता और देश प्रेम की ओर आकृष्ट करना इष्ट न होता। मैं नहीं कह सकता कि अपने उद्देश्य में मुझको कितनी सफलता मिली, परंतु वास्तविक बात का प्रकट करना आवश्यक था। सहृदय विबुध समाज मेरे कथन को कहाँ तक स्वीकार करेगा, यह समय बतलावेगा।

इस समय हिंदी संसार के कुछ विद्वानों की शृंगार रस पर बड़ी कड़ी दृष्टि है, संभव है ग्रंथ में कुछ ऐसा स्थान या अंश पाया जावे, जो उन्हें अश्लील ज्ञात हो। ऐसी दशा में उन सज्जनों से मेरा निवेदन यह है कि ग्रंथ के कुछ अंशों अथवा विशेष स्थानों के आधार से उसके विषय में कोई सिद्धांत निश्चित करना युक्ति-सगत न होगा। ग्रंथ के अधिकांश स्थानों को देखकर ही मेरे उद्देश्य की उचित मीमांसा हो सकेगी। दूसरी बात यह कि अश्लीलता का निर्णय उचित दृष्टि से ही करना पड़ेगा, दोष-प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं। आलोचक को न्याय तुला हाथ में रखना चाहिये और आवेश में न आना चाहिये; अन्यथा सत्य का अपलाप होगा। प्रायः देखा गया है कि एक विद्वान् जिसे अश्लील नहीं मानता, दूसरा उसी को अश्लील मानकर वाद करने के लिये कमर कस लेता है। इसका हेतु रुचिवैचित्र्य अथवा मत-भेद है—जो सर्वत्र दृष्टिगत होता है। दोनों आलोचना-विचार के उत्पादक हैं, किंतु अविवेक उन्हें उत्पीड़क बना देता है। मैं अश्लीलता के विषय में पहले बहुत कुछ लिख चुका हूँ, इससे इस विषय में यहाँ विशेष लिखना पिष्ट पेषण मात्र होगा। परंतु इतनी प्रार्थना अवश्य है कि अश्लीलता की मीमांसा के समय अपने पक्ष को न देखकर दूसरे के पक्ष को भी देखना चाहिये। शरीर में ऐसे अनेक पदार्थ हैं, जो उससे अलग होकर अश्लीलतम बन जाते हैं, परंतु अपने स्थान पर उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। मेरे कथन का यह प्रयोजन नहीं कि ग्रंथ के गुण दोष की आलोचना न की जावे, और जहाँ-जहाँ वास्तव में अश्लीलता हो, उससे मुझे अभिज्ञ न किया जावे। प्रायः मनुष्य अपने दोषों के विषय में अंधा होता है, इसलिये यदि बंद आँखें खोल दी जावें, तो इससे बढ़कर दूसरी कौन कृपालुता होगी ? आँखें खुल जाने पर अथवा अपना दोष जान लेने पर मैं सावधान तो हो ही जाऊँगा, दूसरे संस्करण में ग्रंथ के संशोधन की भी चेष्टा करूँगा। इसलिये जिस मार्ग से ऐसे दो महान् कार्य हो सकें, उसको रोकने की चेष्टा मैं

क्यों करूँगा ? केवल विद्वज्जन से इतनी ही प्रार्थना है, कि विचार के समय उचित विवेक दृष्टि से ही काम लिया जावे ।

इस ग्रंथ के, विशेषकर भूमिका के लिखने में मुझको जितने ग्रंथों से सहायता मिली है, उनकी एक तालिका ग्रंथ में लगा दी गई है । मैं इन सब ग्रंथों के रचयिताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ । क्योंकि मेरे ग्रंथ में जो कुछ विभूति है, वह सब उन्हीं के विशद ग्रंथों अथवा उन्हीं के ग्रंथों से उद्धृत विशेष अंशों का प्रसाद है । मैं क्या और क्या मेरी प्रतिभा, यदि इन ग्रंथों का अबलबन न होता, तो शायद मैं इस ग्रंथ की रचना में समर्थ न होता । भूमिका में मैंने 'साहित्यदर्पण' और 'रसगंगाधर' से बहुत अधिक सहायता ली है । 'साहित्यदर्पण' की साहित्याचार्य्य श्रीमान् पं० शालिग्राम शास्त्री विरचित 'विमला' नाम्नी हिंदी टीका, और श्रीमान् पंडित पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी के 'हिंदी-रसगंगाधर' से मुझको संस्कृत के वाक्यों और अवतरणों का हिंदी अनुवाद प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता मिली है, मैंने प्रायः यथातथ्य उन्हीं के हिंदी अनुवाद को अपने ग्रंथ में रख दिया है, अतएव मैं इस विषय में उन दोनों सज्जनों का विशेष ऋणी हूँ । मैंने रसों अथवा संचारी भावादि के लक्षण स्वयं लिखे हैं, किंतु कहीं-कहीं किसी-किसी ग्रंथ के लक्षणों को ही उत्तम समझकर अपने ग्रंथ में उठाकर रख दिया है, मैं इसके लिये उन ग्रंथों के रचयिताओं का भी कम उपकार नहीं मानता ।

अयोध्यासिंह उपाध्याय

प्राक्कथन

अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि इधर हमारी भाषा और हमारे साहित्य की उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि होती जा रही है, प्रत्येक विद्वान् और सुयोग्य महानुभाव इनकी उन्नति के लिये अनुदिन तन, मन धन से प्रयत्नशील हो रहा है। नये-नये सुंदर सराहनीय ग्रंथ रत्नों से भाषा-भंडार के भरन का स्तुत्य कार्य किया जा रहा है। विशेष प्रसन्नता होती है यह देखकर कि अब हमारे विद्वज्जन स्थायी साहित्य के निर्माण में भी नवीन विधानों के साथ, वैज्ञानिक ढंग से, अपनी सुरुचि दिखलाने लगे हैं और ऐसे-ऐसे ग्रंथ-रत्न उपस्थित करने लगे हैं जिन पर वास्तव में हिंदी-भाषा भाषियों को गर्व हो सकता है और जो अन्य भाषाओं के रत्नों की श्रेणी में रखे जाकर भी निस्संकोच भाव से मूल्यवान् कहे जा सकते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ-रत्न 'रसकलस' इसी प्रकार का एक परम मूल्यवान्, नया अथर्व न्यारा रत्न है। हम मुक्तकंठ से कहते हैं कि यह ग्रंथ हिंदी-साहित्य की रीति-ग्रंथ-माला में सुमेरु के समान ही सर्व-शिरोमणि है। रस-सिद्धांत पर इधर वैज्ञानिक विवेचन की शैली से कोई भी सुंदर सर्वांगपूर्ण ग्रंथ न लिखा गया था, अतएव इस प्रकार के एक ग्रंथ की महती आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति श्री० उपाध्यायजी ने इस ग्रंथ-रत्न के द्वारा करके हिंदी-साहित्य तथा तत्प्रेमियों का चिर-स्मरणीय हित किया है। प्राचीन कवियों में से कुछ ने इस विषय पर अपने रीति-ग्रंथों में प्रकाश डाला है अवश्य, किंतु बहुत ही सूक्ष्म रीति से। उनका प्रधान उद्देश्य अपने काव्य एवं कवित्व का प्रदर्शन करना मात्र था, वे वास्तव में कवि-कर्म-कुशल कलाकार थे, काव्य-शास्त्र सुधार-रसाम्बुधि-सिद्धांत-तरंगरनात आचार्य न थे। इसीलिये उन्होंने केवल मूल-बाते देकर उनकी उदाहरण-रचना को ही अपना अभीष्ट लक्ष्य रखा था

और तदनुसार आचरण भी किया था। उनके ग्रंथों में सिद्धांत-समीक्षा या मीमांसा तो एक प्रकार से गौण और उदाहरण-रचना-कौशल का प्रदर्शन ही प्रधान है। इसके साथ ही कुछ कवियों ने तो रस-सिद्धांत का पूरा प्रदर्शन भी नहीं किया, उसके किसी एक विशेष अंग पर ही प्रकाश डाला है। नखशिख-वर्णन और नायक-नायिका का भेद ही प्रायः रचना के लिये प्रधान विषय रहे हैं, जगद्विनोद-दिक् पुस्तकें इसके उदाहरण हैं। तात्पर्य यह है कि इस विषय की मार्मिक तथा विस्तृत विवेचना की ओर हमारे विद्वानों ने कोई विशेष ध्यान न दिया था।

यद्यपि इस समय इस विषय की दो-चार पुस्तकें हिंदी-साहित्य-सङ्घ में उपस्थित हैं, जिनमें से श्री० अयोध्या-नरेश कृत “रस-कुसुमाकर”, “हिंदी-काव्य में नव रस” एवं “काव्य-प्रभाकर” अति प्रधान और प्रचलित मानी जाती हैं, किंतु वास्तव में ये सब पुस्तकें सर्वांगपूर्ण, सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से संतोषप्रद नहीं सिद्ध होतीं। इस अभाव की ऐसे सुंदर ग्रंथ के द्वारा स्तुत्यपूति करने के लिये श्री० उपाध्यायजी को जितना भी साधुवाद दिया जाय, थोड़ा ही है। इस ग्रंथ-रत्न से उपाध्यायजी कवि-काव्याचार्य-श्रेणी में उच्चस्थान प्राप्त कर अमर यश के भव्य भाजन होते हुए शाश्वत स्मरणीय हो गये हैं।

यथार्थ में काव्यशास्त्र के ऐसे गूढ़ और जटिल विषयों पर प्रकाश डालने के लिये कमनोय कवि-कर्म-कौशल, काव्य-कला-कोविदत्व और विशद विद्वत्ता की आवश्यकता है। केवल कवि प्रतिभा ही न तो इसके शास्त्रीय विवेचन में सफल और समर्थ सिद्ध होती है और न केवल विद्वत्ता या आचार्य्यता ही सर्वथा पर्याप्त हो सकती है। वस्तुतः काव्य-शास्त्र के मार्मिक विवेचन के लिये कवि-प्रतिभा और विद्वत्ता दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। कहा भी गया है—

“कविः कवयते काव्यं मर्मं जानाति पंडितः”—तथा—

“अपूर्वो भाति भारत्याः काव्यामृतफले रसः”

“चर्वणे सर्वसामान्य स्वादविकेवल कविः” ।

कहना न होगा कि श्री० उपाध्यायजी में दोनों गुण सुंदर रूपों में विद्यमान हैं। आप उच्चकोटि के “कवि-सम्राट” भी हैं और प्रशस्त काव्याचार्य भी हैं, इसीलिये आप काव्य-कला के सभी प्रकार मान्य, मर्मज्ञ और काव्य-कौशल-तत्त्वज्ञ हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे इस कथन पर किसी कारण कुछ कितु-परतु करते हुए नाक-भौं सिकोड़ें, कितु न्याय के लिये हम उसको सर्वथा उपेक्षा ही करते हैं। “सत्ये नास्ति भयं क्वचित्” पर विश्वास रखकर हम स्पष्टवादिता तथा सत्य-प्रियता को ही महत्त्व देते हुए उपाध्यायजी की वर्तमान समय का एक मात्र महाकवि तथा प्रशस्त आचार्य कहने में रंचक भी नहीं हिचकिचाते।

यदि सत्य और न्याय को हृदय में रखकर देखा और कहा जाय तो उपाध्यायजी का स्थान इस समय हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक सिद्ध होता है। भाषा के समस्त प्रधान और साहित्यिक रूपों पर—चाहे वह खड़ी बोली हो, चाहे ठेठ हिंदी या कथित (So called) हिंदुस्तानी (चलती हुई बामुहावरा साधारण हिंदी), चाहे ब्रजभाषा हो और चाहे अवधी, सभी पर आपको असाधारण और पूरा अधिकार प्राप्त है। उनके सब रूपों की समस्त उत्कृष्ट और साधारण शैलियों के सुप्रयोग में भी आप सर्वथा सफल और प्रशस्तरूपेण पटु सिद्ध हुए हैं। आपके ‘प्रिय-प्रवास’, चोखे चौपदे, बोलचाल, ठेठ हिंदी का ठाठ, कबीर-वचनावली की भूमिका, सभापति के रूप में दिये गये भाषण आदि रचनाओं से आपको खड़ी बोली के विविध रूपों और ढंगों में प्रकामा-भिराम पटुता तो हिंदी-संसार को प्रकट हो ही चुकी है, अब इस “रस-कलस” के द्वारा आप की ब्रजभाषा-मर्मज्ञता का भी यथेष्ट परिचय प्राप्त हो जायगा। वास्तव में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा तथा पांडित्य-परिपुष्ट काव्य-कला-कुशलता के साथ भाषा-भांडार-भांडारिना विरत्ते ही मशहूरियों के

सौभाग्य में देखी जाती है। हम कह सकते हैं कि न केवल इस वर्तमान समय में ही उपाध्यायजी हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में सर्वोच्च कवि-कीर्ति की कल कम्पनीय-कांति-कौमुदी के कलित कलाधर हो रहे हैं, वरन् इसी प्रकार चिरकाल तक बने रहेंगे।

हिंदी-साहित्य के इतिहास से यह सर्वथा स्पष्ट है कि हिंदी-साहित्य के अलंकृत या कला-काल में रीति-ग्रंथों की रचना करने की एक परिपाटी चल पड़ी थी, जो लगभग दो सौ वर्ष तक बड़ी प्रबलता और प्रचुरता के साथ साहित्यागार को रुचिर रीति-ग्रंथों से सुसज्जित करती रही। इसी परिपाटी या प्रणाली के प्राबल्य-प्रभाव से प्रेरित होकर आचार्य महाकवि केशव, मतिराम, भूषण, देव, दास, पद्माकर आदि कविवरों ने अलंकार एवं रसादि-संबंधी कतिपय सुंदर ग्रंथ रचे थे। इस परंपरा को १८०० ई० के लगभग से शिथिलता प्राप्त हो चली और धीरे-धीरे वर्तमान समय में इसका एक प्रकार से लोप-सा हो गया। इधर की ओर कुछ महानुभावों ने देश-काल के अनुसार रीति-ग्रंथों की रचना-शैली में कुछ रूपांतर उपस्थित करने का सफल प्रयास किया और दोहों आदि छंदों में न देकर गद्य में ही अलंकारादि की परिभाषाएँ देने तथा उनकी मार्मिक विवेचना करने की नवपद्धति चलाई। परंतु प्रायः विद्वानों ने अलंकार-विवेचन पर ही विशेष ध्यान दिया था, रस-सिद्धांत के विवेचन की ओर वे अग्रसर न हुए थे। सच पूछिये तो रस, नायक-नायिका-भेद तथा नख-शिल्प-वर्णन वाली परंपरा की इस नव युग में एक प्रकार से इतिश्री ही हो गई थी। परंतु श्री० उपाध्यायजी ने इस परंपरा को भी ठीक उसी प्रकार नये जीवन का दान दिया, जिस प्रकार आपने अपने परम प्रशस्त “प्रिय-प्रवास” के द्वारा कृष्ण-काव्य को परंपरा को विशेषत्व प्रदान किया है। कृष्ण-काव्य की रचना-परंपरा में ब्रजभाषा का ही प्राधान्य रहा है क्योंकि वह उस ब्रज की मंजु-मधुर भाषा है जहाँ ब्रज-विपिन-विहारी ने अपनी अति प्रियशीला ललित लीला की थी। उपाध्यायजी ने उसमें

खड़ी बोली का संचार कर युगांतर ही उपस्थित नहीं कर दिया, वरन् खड़ी बोली को भी वृष्ण-लीला के सुधारस से सिंचित कर भंजीवन रस प्रदान किया है। इतना ही नहीं, खड़ी बोली की कविता कामिनी को भी उन्होंने सुधेय गेय गोविन्द-पदारविन्द मकरंदानन्द सेविनी मल्लिन्द महिषी होने का सुअवसर दिया और इस प्रकार उसे सोभ ग्य शालिनी भी बनाया है। संस्कृत सरस पद-विन्यास संयुक्त, भावमय, सु-प्रवृत्त संपन्न, सुवर्ण-वृत्तालंकृत और मोहन-मन मोहिनी बनाकर उ-हाने सदा के लिये उसे जिस सरस सुमनासन पर बिठला दिया है वह भी सर्वसुलभ नहीं।

जिस प्रकार “प्रिय-प्रवास” के वाणी-विलासकर अनुपम आवास में आपने लोकोपकारादि अन्य, स्वभावजन्य, गेय गुणों को, विशद विकाश-प्रकाश देनेवाले, नये न्यारे रम्य रंगों से अनुरंजित, विविध विचार-विधि-भ्यंजित, ब्रजेश के विचित्र चारु-चित्र चित्रित कर, समया-नुकूल मंजु-मौलिकता दिखलाई है, उसी प्रकार इस “रस-कलस” में भी देश-कालोपयुक्त, युक्ति-युक्त, पाश्चात्य दुर्गुण-विमुक्त अर्यावर्तीय सभ्यता-संस्कृति-सुकृति सूचक, ध्रुवधार्य, आर्य कार्य के आदर्श उपस्थित कर, ब्रजभाषा की प्राचीन रचना-परंपरा में, भव्य रूपेण नव्य-मौलिकतामयी जीवन स्फूर्ति के द्वारा उसकी अपूर्ति में पूर्ति के लाने का भी सफल प्रयास किया है। कतिपय नई नायिकाओं को भी आपने देश-कालानुकूल मौलिक कल्पना की है—यथा देश प्रेमिका, जाति सेविका आदि जो सराहनीय एवं अनुकरणीय है।

नायक-नायिका-भेद जैसे विषय पर रचना करते हुए भी आपने शिष्टता (श्लीलता) का सर्वत्र सुंदर और सराहनीय निर्वाह किया है। वस्तुतः यह बड़ा ही कठिन कार्य है और आप ही जैसे सुयोग्य महाकवि का काम है। सर्वत्र भव्य भारतीय नव्य भावनाओं की ही गहरी छाप है, अपने ही समाज के सुदर-स्तुत्य आचारों-विचारों की महत्ता-सत्ता

स्थान-स्थान पर दिखलाई गई है। दूर से देखने पर दिव्यदामाभिराम पाश्चात्य देशों के उन दुर्गुणों की मिथ्या मनोहरता के बड़ी युक्ति तथा मार्मिकता से दिखलाने की चेष्टा की गई है, जिनकी बहिरंग-रंग रुचिरता से समाकृष्ट हो, भ्रांत नवयुवक मृगतृष्णा में भूले-भटके तथा तंग आये कुरंग वृद्ध से पथ-भ्रष्ट अथच ताप-तप्त बन पश्चात् पश्चात्ताप करते फिरते हैं। यही उपाध्यायजी का कवि-संदेश देश के लिये जान पड़ता है। रचना का एक दूसरा प्रधान उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है। वास्तव में प्रत्येक लेखक एवं कवि का यही मुख्य कर्तव्य-कर्म तथा परिपालनीय धर्म है कि वह अपनी रचना के द्वारा अपने देश तथा समाज की समय-संमानित सभ्यता-संस्कृति का सरक्षण करता हुआ प्राचीन परंपरा का यथेष्ट (यथावश्यकता) परिमार्जन एवं परिशोधन कर अपने वास्तविक धर्म-कर्म का प्रचार करे, और पर-प्रभाव-प्रभावित एवं भ्रम-भूल से भूले हुए नवयुवकों को सत्पथ पर अप्रसर कर देश-जाति के हित-संपादन में लगे-लगाये। जो लेखक या कवि अपने ऐसे उत्तरदायित्व को नहीं समझते और देश-जाति के हिताहित का ध्यान नहीं रखते या परखते वे वास्तव में रचयिता-राजि-भूषण होकर भी देश-दूषण ही ठहरते हैं। उनकी अमूल्य रचनाएँ भी बिना मूल्य हो लुप्त होती हुई अपने साथ समय के गुप्त-गह्वर में उन्हें भी सदा के लिये सुप्त कर देती हैं। कोई भले ही इस प्रकार के कवि को उपदेशक तथा समाज-सुधारक कहता हुआ उसके स्थान को कुछ दूसरा दिखलाने का प्रयत्न करे और उसे कुछ कम महत्त्व दे—यद्यपि वास्तव में इन गुणों के कारण उसका स्थान एवं महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है—कितु ऐसा समझदार संसार उस व्यक्ति के ऐसे कथन को ही महत्त्व न देगा जो यह जानता है कि कवि ही वह व्यक्ति है जो देश-जाति को उन्नत एवं अवनत करने, बनाने-बिगाड़ने, योग्यायोग्य पद देने में समर्थ होता है। कवि तो वस्तुतः सृष्टि का स्रष्टा है (“कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः”—वेद) वही अखि-

लेश है, किंतु हो वह सच्चा कवि । जितने भी सच्चे कवि हुए हैं, सभी ने समाज-हित के लिये अपनी रुचिर रसना से सुधार-रस-धारा प्रवाहित की है, सभी ने उचित उन्नतिकारी, उपकारी उपदेश देश-समाज को दिये हैं । यही कार्य उपाध्यायजी ने भी किये हैं ।

“रस-कलस” शब्द ही ग्रंथ के वर्ण्य विषय को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है, इसलिये इस संबंध में यहाँ केवल इतना ही कहना सर्वथा अलम् है कि इस ग्रंथ में काव्य के शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्साद्भुत और शान्त नामक नवों रसों, उनके ६ स्थायी और ३३ संचारी भावों, विभावो (आलंबन—जिसके अंतर्गत है समस्त नायक नायिका-भेद और उनका नख-शिख-वर्णन, और उद्दीपन—जिसके अंदर आते हैं सखा-सखी-भेद और कर्म, समय, स्थान, प्रकार तथा षट्शतु-वर्णन) और ४ प्रकार के अनुभावों (जिनके अंदर अंगज, अयत्नज और स्वभावज हाव-भावादि अलंकार आ जाते हैं) का यथोचित और यथाक्रम सर्वांग-पूर्ण सुंदर और सराहनीय विशद वर्णन किया गया है। सर्वत्र उदाहरण मंजु, मृदु, मधुर और मौलिक दिये गये हैं। प्रायः अन्य रस-ग्रंथों में शृंगार रस का ही विस्तार दिखलाया जाता है और विभावानुभावादि-संबंधी उदाहरणों में भी इसी रस को प्रधानता दी जाती है, तथा अन्य रसों का केवल सूक्ष्म परिचय मात्र दे दिया जाता है जिससे वाचक वृंद का यथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। यह ग्रंथ इस न्यूनता से सर्वथा मुक्त होकर समस्त रसों के विशद वर्णन से संयुक्त हो अधिक उपयुक्त बन गया है। शृंगार रस चूँकि सर्व-रस-प्रधान रसराज तथा साहित्य-शिरमौर माना गया है, इसलिये उसके समस्त अंग-प्रत्यंग का नवरंग ढंग-रंजित तथा विविध-विचार-व्यंजित विमल-वासना-वलित, सुकल्पना-कलित, अति ललित वर्णन किया गया है। केवल कुछ ऐसे ही विषय छोड़ दिये गये हैं जो इतने अश्लील हैं कि उनका सर्वथा सुशिष्ट और सुरुचिमिष्ट बनाना असंभाव्य ही सा ठहरता है, जहाँ तनिक भी ऐसे

विषय अपने साधारण रूप में भी आ गये हैं वहाँ उनके अनीप्सित प्रभाव के अभाव को दूर करने के लिये भाषा दुर्बोध, गूढ़ तथा कुछ जटिल कर दी गई है, जिससे उस प्रसंग का अंतरंग, अंग उन्हीं सज्जन वाचक-वृन्द को अवगत हो सके जो कला-कौशल-प्रेमी और नीति-रीति-नेमी होकर सत्सार-सराहक और गुण ग्राहक हैं और जिनके विद्या-व्रत-स्नात-वर-विवेक-जन्य-विचार उनके मनोविकार पर पूर्णतया प्रभाव डाल कर उन्हें स्वच्छंद छल-छंद की ओर नहीं दौड़ने देते। वास्तव में यही सत्कवि का कर्तव्य-कर्म और रचना-रस-रंग के नैर्मल्य का मुख्य मर्म है।

प्रायः यह देखा जाता है कि कवि लोग किसी एक विशेष रस (प्रायः शृंगार, वीर, करुण) में रचना करने का अभ्यास कर लेते हैं और इसी-लिये उस रस में वे चोखी तथा कभी-कभी अनोखी रचना भी करते हैं। किंतु अन्य रसों की रचना करने में वे प्रथम तो समर्थ ही नहीं होते और यदि कुछ होते भी हैं तो सर्वथा सफल नहीं होते। यह परम-प्रखर-पांडित्य-पूर्ण, पटु-प्रतिभावान् सत्कवि-महान् का हो कार्य होता है कि वह प्रत्येक रस में सराहनीय सफलता से सुंदर, सुखद और रोचक रचना कर ले। महाकवि का यह एक प्रधान और विचक्षण लक्षण है। श्री० उपाध्यायजी में भी यह लक्षण आकर उन्हें महाकवि मानने के लिये पाठकों को उसी क्षण प्रेरित करता है जब वे उनकी विलक्षण रचना का सम्यक् समावलोकन कर चुकते हैं। इस ग्रंथ में जिस रस के जो उदाहरण दिये गये हैं उन सब में उस रस का यथोचित परिपाक पाया जाता है, जिससे उनमें सरसता के साथ ही साथ सफल सार्थकता तथा स्वाभाविकता-सी मिलती है। साकारता और सजीवता तो कहीं भी किसी प्रकार कम हुई ही नहीं। इन उदाहरणों में भी उपाध्यायजी ने बड़ी मार्मिक, धार्मिक, उपयुक्त तथा उपादेय बातें कही हैं। अद्भुत रस के उदाहरणों में आपने “रहस्यवाद” के सच्चे स्वरूप और उसके गूढ़-गहन, मोहन, मर्म अथवा रुचिर-रोचक रहस्य का चारु

चित्रण सहज, सूक्ष्म किंतु मूल-मंत्र सूचक रूप से किया है और इस प्रकार रहस्यवादियों को भी सच्चे रहस्यवाद की पथरीली राह को रसीली करके दिखलाया है। यों ही अन्यत्र कतिपय स्थानों पर भी उन्होंने कितनी ही आवश्यक समस्याओं के सुलभाने, समझने तथा समझाने की ओर न्याय निकेत सुंदर संकेत दिये हैं।

ग्रंथ की रचना-वस्तु-संबंधी इन अवश्य अवलोकनीय और अनिवार्य रूपेण प्रशसनीय मौलिक विशेषताओं की ओर सूक्ष्मतया इस प्रकार संश्रुत करके यहाँ हम इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में भी संक्षेप से प्रकाश डालना उचित समझने हैं, क्योंकि भाषा की महत्ता भाव-सत्ता के संमुख यदि अधिक नहीं तो न्यून भी कदापि नहीं है। कह भी सकते हैं कि रचना-क्षेत्र में भावों की अपेक्षा भाषा का ही महत्त्व अधिक प्रबल और प्रधान है। यद्यपि भाषा को भावों का परिधान-सा कहा जाता है तथापि यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो परिधान होते हुए भी यही प्रधान, भाव-प्रभाव-निधान और विचार-विधान विधायक ठहरती है। बिना भाषा के विचारों या भावों का विकास तथा विद्या-बुद्धि-विलास का प्रकाश हो ही नहीं सकता। भाव चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हो—यदि वे अच्छी भाषा में अच्छे ढंग और रुचिर रचना-रंग के साथ व्यक्त न किये गये तो वे सर्वथा अरोचक और अन्यथा ही से हो जाते हैं। चारु चोखी भाषा और अनोखी रीति-नीति से प्रकट किये गये विचार साधारण होते हुए भी असाधारण से होकर धारणा में धारण करने के योग्य और मनोज्ञ हो जाते हैं। इसीलिये भाषा को रचना-कला में विशेष महत्त्व देकर सुसज्जित तथा वैचित्र्य-विनिमज्जित करके मृदु, मधुर, मनोहर बनाने के विविध विधान भाषा-भाव-भूषणों के रूपों में बनाये गये हैं, अस्तु।

उपाध्यायजी ने इस ग्रंथ की रचना उस परम प्रशस्त परंपरा-प्रचलित सुललित ब्रजभाषा में की है जो अपने मार्दव, माधुर्य आदि गेय गुणों

की गरिमा के कारण, काव्य की एकमात्र उपयुक्त भाषा के रूप में साहित्य-स्रष्टा कवि-राज-समाज में सर्व साधारण द्वारा अनुमोदित होकर धारण की गई है उसी के लोक-प्रिय अनुपम आलोक से साहित्यादित्य* आलोकित हाकर अद्यापि अवलोकित होते हैं। आपने अपनी रचना में ब्रज-भाषा का तो प्रयोग किया है, किंतु यह ब्रजभाषा अन्य साधारण कवियों की-सी नहीं, वरन् अपने रंग-ढंग की विशेष ब्रजभाषा है। कहा जाता है कि भारतेन्दु बाबू ने ब्रजभाषा तथा उनकी रीति-नीति में देश-कालानुसार नवीन विशेषताओं का संचार किया था, कुछ अंशों में यह ठीक है। किंतु यदि विचारपूर्वक एक निष्पन्न न्याय-पोषक निरीक्षक की भौति सूक्ष्म और विचार-पूर्ण दृष्टि से देखा जाय तो वा तत्र में ब्रजभाषा को नवीन रूप से परिमार्जित और संस्कृत करने का स्तु-य काय इस काल में विशेषतया श्री० स्व० 'रत्नाकर' जी ने ही किया है। उन्होंने साहित्यिक ब्रजभाषा का एक रूप निश्चिन कर उसे परिष्कृत तथा परिशुद्ध कर प्रचलित किया है आजन्म उन्होंने इसी भाषा की पूरी देख-भाल और सेवा की, और तब उसे अपने अनुकूल चलाने में समर्थ हो सके। श्री० 'रत्नाकर' जी ने ब्रजभाषा को साहित्यिक सौष्ठव एवं स्थैर्य के साथ एक निश्चिन रूप से परिष्कृत तो किया किंतु उसे रखा प्राचीन ही रंग ढंग में, उन्होंने उसे निखारने का ही सफल सराहनीय प्रयास किया। श्री० उपाध्यायजी ने ब्रजभाषा में दूसरे प्रकार की विशेषताओं के निखारने का प्रयत्न किया है और अपने इस प्रशंसनीय प्रयास में वे सफल भी हुए हैं।

सब से बड़ी विशेषता, जो आप की ब्रजभाषा में स्पष्ट रूप से दृष्टि-गोचर होती है, यह है कि आपने अपनी भाषा में नवीन भावों को व्यञ्जित करने की क्षमता उद्दीप्त कर दी है, इसके लिये कहीं-कहीं उन्हें उसे विशेष रूप से चलाना भी पड़ा है। आपने प्रायः पुराने घिसे-घिसाये और प्रयोगच्युत ऐसे शब्दों के निराकरण या दूरीकरण से भाषा को

स्वच्छ करने का प्रयत्न किया है जिनका प्रयोग केवल परम्परागत रुढ़ियों की प्रेरणा से ही प्रायः प्राचीन परम्परानुयायी कवि किया करते हैं, जिनके प्रयोग, अर्थ आदि से जनता अब परिचित नहीं रह गई और जो भाषा की दुरुहता के ही कारण होते हैं। आपने कतिपय शब्द अपने नवीन भावों के लिये संस्कृत से लेकर बड़ी कुशलता से प्रयुक्त कर भाषा की शब्द-राशि को बढ़ाते हुए भाव-व्यञ्जकता भी बढ़ा दी है। वास्तव में किसी कवि का यह कार्य विशेष महत्ता एवं सत्ता सूचित करता है। जो कवि जितने ही नये, निराले शब्द एवं प्रयोग (मुहावरे) कल्पित कर इस प्रकार प्रयुक्त करता है कि उनसे भाषा की भाव-व्यञ्जक क्षमता, शब्द-राशि तथा विचित्रता बढ़-चढ़ जाती और उसमें विलक्षणता भी आ जाती है वह उतनी ही उत्कृष्ट श्रेणी का कवि माना जाता है। प्रत्येक महाकवि अपनी प्रतिभा के प्रभाव से अपनी एक विशेष भाषा तथा शैली (रीति-नीति) लेकर साहित्य-क्षेत्र में अवतीर्ण होता और जीर्ण शीर्ण प्रयोग-परिचय-च्युत रुढ़िगत शब्दादिकों के चर्चित चर्चण-प्राबल्य से समुत्पन्न अनिष्ट अजीर्ण को अपने अजीर्ण (नये निराले) शब्दादिकों से दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे लोग फिर उसी का अनुकरण या अनुसरण करते हैं और उसे अपना पथ-प्रदर्शक और प्रधान प्रवर्तक मानने लगते हैं। उपाध्यायजी को भी हम इसी श्रेणी का महाकवि कह सकते हैं।

भाषा आपकी सर्वथा सुव्यवस्थित संयत और सुगठित है, शब्दावली सब प्रकार भावानुकूल, रसपरिपोषक और सबल है। कोई भी शब्द शिथिल, अनावश्यक और केवल छंदा या पाद का परिपूरक नहीं है। प्रायः आपने एक प्रधान और भावपूर्ण शब्द को लेकर उसी से बननेवाले अन्य कई प्रकार के शब्दों का यथावश्यकता चारु चमत्कार-चातुर्य के साथ प्रयोग करके एक विशेष प्रकार का कौशल दिखलाया है। सर्वत्र पद-मैत्री और वर्ण-मैत्री अपने सुंदर रूपों में पाई जाती है। शब्दों के

उक्त विशेष प्रयोग से बड़ी विलक्षणता एवं विचक्षणता अनुप्रासोंके रूपों में प्रतिभात होती है ।

शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रकाराकार वाले प्रयोगों से रचना-कला में रचयिता की प्रकामाभिराम पटुता प्रकट होती है । यह दिखलाने का भी पूरा प्रयत्न किया गया है कि शब्द कितने भिन्न-भिन्न अर्थों में कितने भिन्न-भिन्न रूपों या आकारो-प्रकारो से प्रयुक्त किया जाता या जा सकता है, इस कार्य में सफलता भी बहुत हुई है । भाषा को मुहावरेदार रखने का भी अच्छा प्रयत्न किया गया है । इससे भाषा में लालित्य के साथ ही साथ प्रसादगुण की भी वृद्धि हो गई है । शब्द-संचयन और संगुंफन भी बढ़ा ही संयत और सराहनीय है, जिससे प्रकट होता है कि उपाध्यायजी ने शब्द-संग्रह में बड़ा स्तुत्य श्रम किया है । वस्तुतः ऐसे ही उच्चकोट के कवियों का यह काम है जो प्रगाढ़ पांडित्य और भाषाधिपत्य के सूचित करने में सर्वथा समर्थ होते हैं । कवि, यदि यथार्थ कहा जाय, एक कुशल शब्द-संग्रहकार है, शब्दों में ही उसकी शक्ति ❀, अनुरक्ति और भक्ति रहती है, और रहना भी चाहिए । जितनी ही सफलता उसे शब्द-संग्रह में प्राप्त होगी उतनी ही सफलता उसे रचना-कार्य में भी प्राप्त हो सकेगी । कुछ लोगों का कहना है कि शब्दों के चुनाव और कला-कौशल के साथ उनके संगठित करने से रचना की उस स्वाभाविकता को, जो प्रधान और मुख्य है, धक्का पहुँचता है और वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है । कहीं किसी अंश में यह ठीक हो सकता है, किन्तु सर्वत्र इसे चरितार्थ मानना वास्तव में रचना-कला (काव्य-कला) और कवि कर्म-कौशल के मर्म का न समझना ही है । काव्य में वैचित्र्य या वैलक्षण्य का ही पूरा ध्यान रखकर शब्द-चयन और पद-संगुंफन अथवा वाक्य-विन्यास के संगठन का कार्य करना चाहिए । हम कह सकते हैं कि जैसी स्तुत्य एवं चिरस्मरणीय तथा

अनुकरणीय सफलता उपाध्यायजी को खड़ी बोली के प्रयोग में मिली है, प्रायः वैसी ही ब्रजभाषा के प्रयोग में भी प्राप्त हुई है। सच्ची कवि-प्रतिभा वही है कि जो समान सफलता के साथ काव्य-कला के भिन्न-भिन्न अंगों में पृथक्-पृथक्-रोति-नीति (शैली) और भाषा के द्वारा कृतकार्य हो सके।

सारांश यह है कि भाषा, भाव, कला-कौशल आदि सभी दृष्टियों से उपाध्यायजी का यह ग्रंथ-रत्न वस्तुतः अपने रंग-ढंग का अप्रतिम और परम प्रशंसनीय ठहरता है। संभव है कि किसी को इसके मयंक-अंक में कहीं कुछ कालिमा भी दिखलाई पड़े, किंतु यह इसकी कमनीय-कौमुदी-कांति के समस्त निष्पन्न रूप से देखने पर क्या होगी ? कुछ नहीं, केवल दृष्टि-भ्रांति। हाँ, जलौका-प्रवृत्ति वाले भले ही व्यर्थ के लिये छिद्रान्वेषण कर सकते हैं और नीरस, जन स्वार्थ आदि किसी विशेष कारण से निन्दा तक कर सकते हैं, इसके लिये स्वयं उपाध्यायजी ही ने कह दिया है—

‘हरिऔध’ कैसे ‘रसकलस’ रुचैगो ताहि,

जाको उर रुचिर रसन तैं न सोहैगो।

मूलग्रंथ पर इस प्रकार विहंगम-दृष्टि के द्वारा प्रकाश डाल चुकने पर हम ग्रंथ के पूर्वार्द्ध का भी, जो भूमिका के रूप में है, कुछ संक्षिप्त परिचय दे देना चाहते हैं। यह पूर्वार्द्ध भी अपनी विशिष्ट महत्ता और सत्ता रखता है और अनिवार्य रूप से अवलोकनीय, विचारणीय और ग्रहणीय या अनुसरणीय है। इसमें ब्रजभाषा तथा उसके काव्य पर प्रायः जो अनर्गल आक्षेप किये जाते हैं और जिन्हें प्रमादिक, तर्क-प्रमाण-शून्य, ईर्ष्या-द्वेष-जन्य तथा निराधार या निरर्थक समझ कर ब्रजभाषा-प्रेमी विद्वान् उपेक्षा के ही साथ देखते-सुनते आये हैं उनके उत्तर बड़ी ही सतर्कता, योग्यता और गंभीरता से दिये गये हैं और ब्रजभाषा की महान् महत्ता-सत्ता का पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। बड़ी ही न्यायप्रियता, निष्पक्षता तथा युक्ति के साथ उसके पक्ष का विपक्ष-वृंद

कृत वितंडावाद के समक्ष समर्थन भी किया गया है। इससे खड़ी बोलो के **आचार्य उपाध्यायजी का ब्रजभाषा में विशद एवं मार्मिक अध्ययन तथा ज्ञानानुभव स्पष्टतया प्रकट होता है। इसी प्रकार इसी भूमिका में आपने शृंगार रस पर किये जानेवाले कड़े कटाक्षों को भी निस्सारता और निर्मूलता दिखलाई है और उसे सतर्क रसराज सिद्ध किया है। ऐसा करके वस्तुतः उपाध्यायजी ने भूले हुए नवयुवकों की आँखें खोल दी हैं और उन्हें ब्रजभाषा तथा उनके शृंगारात्मक कान्य-कौशल का सच्चा मर्म समझा दिया है, अब कोई समझे, या न समझे, माने चाहे न माने।**

मूलग्रंथ, चूँकि रीति-ग्रंथों की परम्परागत रचना-शैली से लिखा गया है, इसलिये उसमें रस-सिद्धांत से संबंध रखनेवाले विविध मत-मतांतरों, उनके आधार पर होनेवाले क्रमिक विकास आदि की सम्यक् समीक्षा या मीमांसा नहीं की गई और इस प्रकार विषय-विवेचन का एक अत्यंत आवश्यक या अनिवार्य अंग रह गया था। अतएव उपाध्यायजी ने अपनी भूमिका में (जिसका कार्य वस्तुतः विषय में प्रवेश कराना और उसके संबंध की अन्य आवश्यक बातों का यथेष्ट निरूपण या स्पष्टीकरण करते हुए समुचित परिचय देना है) इन सब बातों का बड़ा ही मार्मिक और पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है और इस न्यूनता की परमोपयोगी तथा परमावश्यक पूर्ति कर दी है। भूमिका के इस अंश से उपाध्यायजी के प्रगाढ़ पांडित्य, विस्तृताध्ययन तथा पूर्ण ज्ञान का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

इस प्रकार रस-सिद्धांत के हिंदी में एक सर्वोपरि, सर्वमान्य तथा सर्वथा श्लाघनीय ग्रंथ के उपस्थित करने पर हम उपाध्यायजी को सहर्ष हृदय से बधाई देते हैं और मुक्तकंठ से उनके सफल श्रम की प्रशंसा करते हैं। हमें सुहृद् विश्वास है कि समस्त सहृदय तथा सुयोग्य समाज

हमारे ही समान उपाध्यायजी को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये हृदय खोल कर बधाई देता हुआ इस ग्रंथ-रत्न का समुचित समादर करेगा ।

इस ग्रंथ-रत्न में हमारी समझ से यदि रसों एवं भाव-भावनाओं (Feelings and Emotions) का मनोवैज्ञानिक (Psychological) विवेचन भी और जोड़ दिया जाय (चाहे वह परिशिष्ट के ही रूप में रखा जाये) तो अत्युत्तम होकर सोने और सुगंधि की कहावत को चरितार्थ कर दे । इसी के साथ यह भी दिखला देना उपयुक्तोपादेय सिद्ध होगा कि रस-सिद्धांत नाटक-रचना से प्रारंभ होकर अर्थात् नाटकों के ही आधार पर प्रथम उठाया और उन्हीं के लिये आवश्यक ठहराया जाकर क्यों, कब और कैसे काव्य-शास्त्र के अंदर प्राधान्य प्राप्त कर सका । इस संस्करण में इन बातों के दिये जाने की कठिनाई को देखते हुए हम उपाध्यायजी से दूसरे संस्करण में इनके देने का अनुरोध करते हैं, और इसलिये यह साग्रह कहते हैं जिससे यह ग्रंथ सर्वांग-पूर्ण होकर अपने रंगढंग का अकेला ही रहे और चिरस्थायी बन जावे ।

अन्त में हम फिर उपाध्यायजी को इस ग्रंथ-रत्न के सफलता-पूर्वक प्रणयन करके तथा हिंदी-साहित्य में काव्य-शास्त्र के इस अंग की प्रशंसनीय पूर्ति करने के लिये सहर्ष हार्दिक साधुवाद देते हैं और विश्वास रखते हैं कि भावुक कवि-समाज, सहृदय वाचक-वृंद तथा सुयोग्य समालोचक-समुदाय इसको समुचित समादर देते हुए अनुराग के साथ अपनायेगा । तथास्तु ।

रमेश-भवन
प्रयाग

}

विद्वज्जन कृपाकांक्षी

रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल'

एम० ए०

भूमिका की सूची

रस-निर्देश	१
रस के साधन	२
रस की उत्पत्ति	८
रसास्वादन-प्रकार	१३
रस का इतिहास	१८
रस की आनंदस्वरूपता	२४
रस और ब्रह्मास्वाद	३३
विभावादिको की रसव्यंजकता	३६
रस की कल्पना	३६
परस्पर विरोधी रस	४६
रस-विरोध का परिहार	४८
रस-दोष	५२
रसाभास	६४
शृंगार	७३-१८३
शृंगार रस की परिभाषा	७३
शृंगार रस का विवेचन	७४
शृंगार रस की व्यापकता	८३
शृंगार रस की प्रधानता	८८
शृंगार रस का साहित्य	१०२
संस्कृत-साहित्य और नायिका भेद	१०७
साहित्य और कला	११६
शृंगार रस की उपयोगिता	१२४
शृंगार रस और ब्रजभाषा	१३७
शृंगार रस का दुरूपयोग	१५४
शृंगार रस और वर्तमानकाल	१६७
वात्सल्य रस	१८३-२१६

भूमिका

रस-निर्देश

रस शब्द अनेकार्थक है, व्युत्पत्ति इसकी 'रस्यते इति रसः' है, जिसका अर्थ यह है कि जो चखा जावे अथवा जिसका स्वाद लिया जावे वह 'रस' है। जब हम कहते हैं, 'इनके गले में अथवा इनको बातों में बड़ा रस है' तो उस समय इसका अर्थ मधुरता और मिठास होता है। जब राका-मयंक को देखकर हम कहने लगते हैं, 'वह रस बरस रहा है' उस समय इसका अर्थ आँखों को तर करनेवाला कोई पदार्थ होता है, चाहे उरूको सुधा कहें या और कुछ। जब आम-अंगूर खाते हैं, ईख को चूसते हैं और उस समय यह कह उठते हैं कि इनका रस कितना अच्छा है तब रस का अर्थ वह तरल पदार्थ होता है जो उनमें भरा मिलता है। हरे पत्तों को निचोड़ने पर उनमें से हरे रंग का पानी की तरह का एक पदार्थ निकलता है उसको भी रस कहा जाता है, जैसे, आम अथवा सुदर्शन के पत्ते का रस। खट्टा, मीठा खारा, कड़ुआ, तीखा, कसैला—इन प्रसिद्ध छः रसों को कौन नहीं जानता ? ये भी अपनी अलग सत्ता रखते हैं। वैद्यक के रस भी विशेष अर्थ के द्योतक हैं, कभी उनका प्रयोग एक शरीर-संबंधी धातु के विषय में होता है, कभी रासायनिक रीति से तैयार हुई कुछ औषधों के लिये। जब रहीम खाँ खानखाना के इस दोहे को पढ़ते हैं—

‘कहु रहीम कैसे निमे केर-बेर को सग !

वे डोलत रस आपने उनके फाटत अग ॥’

तो ज्ञात होता है कि रस का अर्थ उमंग और मौज भी है। वेद में

परमात्मा को रस कहा गया है, जैसे 'रसो वै सः'। जल को भी रस कहते हैं, इस तरह रस का प्रयोग बहुत अर्थों में देखा जाता है।

जैसे रस शब्द अनेकार्थक है उसी प्रकार उसकी रसन-प्रणाली भी भिन्न भिन्न है। कान ने जैसे मधुर बातों को सुना, आँखों ने जिस प्रकार मयंक को रस बरसते देखा, जीभ ने जिस प्रकार फलों के अथवा खट्टे-मीठे पदार्थों के रस को चखा—उन सब का प्रकार एक नहीं अलग-अलग है। इससे आस्वादन-प्रणाली की भिन्नता स्पष्ट है। साहित्य में जैसे रस शब्द का ग्रहण इन सबों से भिन्न दूसरे ही अर्थ में होता है उसी प्रकार उसकी व्यापकता भी अधिक है और उसके आस्वादन का ढंग भी विलक्षण।

रस के साधन

शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। जिस समय विभुगंधकरी वंशी बजती रहती है अथवा कोई सुकंठ पक्षी गान करता रहता है उस समय भी हमारे कानों तक उनकी लहर पहुँचती रहती है, परन्तु उनमें भंकार मात्र होती है, वर्णविन्यास नहीं होता। अतएव ऐसे शब्द को 'ध्वन्यात्मक' कहते हैं, क्योंकि वह ध्वनि पर हो अबलम्बित होता है। दूसरा वर्णात्मक शब्द वर्ण-विन्यास-युक्त होता है। एक वर्ण-विन्यास व्यक्त और दूसरा अव्यक्त होता है। जैसे आँय, बाँय, साँय—शब्द वर्ण-विन्यास-युक्त हैं, किन्तु इनका कोई अर्थ नहीं, अतएव ये अव्यक्त हैं। जब हम कहेंगे 'आप कृपा करके आइये' तो यह व्यक्त हो जावेगा, इसलिये कि इसके वर्णों का कुछ अर्थ है। ध्वन्यात्मक शब्दों से व्यक्त वर्णात्मक शब्द अधिक प्रभावशाली और उपयोगी होता है।

ध्वन्यात्मक शब्दों में कितना आकर्षण है यह अविदित नहीं। वाद्यों का मधुर वादन, पक्षियों का कलकूजन, कमनीय कंठों का स्वर, कितना हृदय-विमोहक है, यह सब जानते हैं। शेल सादी कहते हैं—

वेहज रुयज्ञेदास्त आवाज्ञे खुश ।

कि ई हज्जे नफ़सस्त वी कृत रूह ।

सुन्दर मुख से मधुर ध्वनि कही उत्तम है । वह आनंदित करता है और इससे प्राणो की पुष्टि होती है । जिस समय बाजे मधुरता से बजते रहते हैं क्या उस समय वे उन्मादक नहीं होते ? क्या कामिनी-कंठ लोगों पर जादू नहीं करता ? बालकों के कंठ की कूक क्या स्वर्गीय सुधा नहीं बरसाती ? मुरलीमनोहर की मुरली क्या पादप एवं लता-बेलियों तक को स्तम्भित नहीं करती थी ? श्रीमद्भागवतकार लिखते हैं—

वनचरो गिरितटेषु चरन्तीवैष्णुनाह्वयति गाः स यदा हि ।

वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः ।

प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टतनवः सस्रजुः स्म ॥

—श्रीमद्भागवत, १०।३३।८, ९

भगवान् जब वन में प्रवेश कर पहाड़ में विवरनेवाली अपनी गायों को वेणु बजाकर बुलाते हैं तब पुष्प-भारनम्र लताएँ अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करती हुई स्नेह से परिपुष्ट हो तरुसमूह के साथ फूल-फल से मधुधारा की वर्षा करने लगती हैं । कविवर सूरदासजी क्या कहते हैं उसे भी सुनिये—

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।

मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज-बनिता सब धाई ।

जमुनातीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो उरफाई ।

खग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति विसराई ।

द्रुमबल्ली अनुरागु पुलक तनु ससि थक्यो निसि न घटाई ।

सूरस्याम बृदाबन बिहरत चलहु चलहु सुधि पाई ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण की मुरली के विषय में कुछ 'इदं कुतः' हो और उसके वर्णन को रंजित समझा जावे तो लोक की घटनाओं पर ही दृष्टि डाली जावे । क्या नट की तुमड़ी का नाद सुनकर सर्प विरुग्ध

नहीं हो जाता ? क्या अधिक की वीणा पर हरिण अपने प्राण उत्सर्ग नहीं कर देता ? वास्तविक बात यह है कि ध्वनि अपार शक्तिमयी है, अतएव ध्वन्यात्मक शब्द भी प्रभावशालिता में कम नहीं। परन्तु वर्णात्मक शब्द उससे भी लोकोत्तर है। वेद भगवान् जिस ज्ञान का महत्त्व इन शब्दों में प्रकट करते हैं—‘ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः’, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, उस ज्ञान का आधारस्तम्भ वर्णात्मक शब्द है। संसार का साहित्य, जो समस्त सभ्यताओं का जनक है, वर्णात्मक शब्दों की ही विभूति है। इसीलिये ध्वन्यात्मक से वर्णात्मक शब्दों का महत्त्व अधिक है और निम्नलिखित श्लोक में संगीत से साहित्य का स्थान प्रथम।

साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।

‘साहित्य-संगीत-कला-विहीन जन बिना सींग-पूँछ का पशु है ।’

तैत्तिरीय उपनिषद् में लिखा है—

“धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पाप-मपनुदति, धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम् तस्माद् धर्मं परम वदन्ति”

धर्म सारे जगत् की प्रतिष्ठा है, लोक में धर्मिष्ठ पुरुष की ओर प्रजा जाती है, धर्म से पाप कटता है। सब कुछ धर्म पर प्रतिष्ठित है, इसीलिये धर्म को सब से बढ़कर कहा गया है।

जिस धर्म की ऐसी महत्ता है उसके आधार संसार के धर्मग्रन्थ हैं और धर्मग्रंथों के अबलम्बन वर्णात्मक शब्द। मन्त्र की महिमा को कौन नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं—मन्त्र परम लघु जासु वसु, विधि हरि हर सुर सर्व। मन्त्रों के विषय में ऋग्वेद की यह आज्ञा है—

“मन्त्रो गुरुः (१।१६७-४); सत्यो मन्त्रः (१, १, ५२, २); मन्त्रेभिः सत्यैः (१, ६७, ३), तमिद्रोचेमा विदथेषु शम्भुव मन्त्रं देवा अनेहसम् (१, ४०, ६)।

मन्त्र गुरु हैं, मन्त्र सत्य हैं, हे देवतो, हम यज्ञों में उन सब मन्त्रों को कहे जो सुख देनेवाले और पाप से बचानेवाले हैं।

ये मन्त्र क्या हैं ? वर्णात्मक शब्दों के समूह मात्र। इससे अधिक

वर्णात्मक शब्दों की महत्ता और क्या बतलाई जा सकती है। व्यवहार में देखा जाता है कि जिमकी वाचाशक्ति जितनी बढ़ी और सुसंगठित होती है संसार में उसको उतनी ही सफलता मिलती है। 'बात की करामात' प्रसिद्ध है और इस कहावत को कौन नहीं जानता—'बातै हाथी पाइये बातै हाथी-पाँव'। मनुष्य के हृदय पर अधिकार करने की शक्ति जितनी इसमें है, अन्य किसी दूसरी वस्तु में नहीं। जहाँ वचन-रचना और ध्वनि दोनों मिल जाती हैं, वहाँ मणिकांचन योग हो जाता है और असंभव संभव होता है। भाव और विचारों को इनके द्वारा वह सहायता मिलती है कि उनकी सफलता की पराकाष्ठा हो जाती है। जैसा इनके द्वारा बाह्य जगत् प्रभावित होता है वैसा ही अन्तर्जगत् भी।

बाजा कितनी ही मधुरता से क्यों न बजता हो, किंतु उसमें वह तन्मयता नहीं होती जितनी उस समय होती है जब उसके साथ मधुर संगीत भी होता हो। यदि यह मधुर संगीत भावमय हो तो क्या कहना! वह तो बिल्कुल तन्मय कर देता है। उस समय देहाध्यास तक जाता रहता है। ऐसा क्यों होता है? मैं यह बतलाने की चेष्टा करूँगा।

ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्दों के प्रभाव के विषय में ऊपर लिख आया हूँ। जिस समय कोई सुंदर बाजा बजता रहता है अथवा कोई कल ध्वनि वायु में ध्वनित होती रहती है उस समय उसको कान आस्वादन करता है और उसके साहचर्य से हृदय में आनंद की एक लहर-सी उठती रहती है, किंतु उसमें सोचने, समझने, विचारने एवं मनन करने की कोई बात नहीं होती। न तो उनको सुनकर कोई विशेष भाव हृदय में उत्पन्न होता और न धीरे-धीरे बढ़कर वह प्रगाढ़ ही बनता है। समय की कोमलता, मधुरता, सरसता, रूचता और तीव्रता की दृष्टि से जितनी राग-रागिनियों की कल्पना हुई है उनके स्वरों में निस्सन्देह ऐसा विकास मिलता है जो हृदय में अनेक सामयिक भावों को उदित करता है। वंशी की ध्वनि जितनी विरागमयी है, वीणा की

ध्वनि उतनी ही उल्लासकरी। रण-वाद्य जैसा उत्तेजक है, मृदंग वैसा ही मानस-विमोहक। जब कोकिल बोलता है तो ज्ञात होता है कि उन्माद हृदय का आलिंगन करता है, किंतु चातक के स्वर में यह बात नहीं पाई जाती, उसको सुनकर चित्त किसी मर्म-पीड़ा का अनुभव करने लगता है। किसी-किसी पक्षी का स्वर इतना मधुर और मोहक होता है कि वह प्रकृति-वधूटी का वसुन्धरा-विमुग्धकर कोई अलौकिक आलाप जान पड़ता है। यद्यपि इन बातों से हमारी मानसिक स्थिति और संस्कृति का बहुत कुछ संबंध है तथापि स्वरो और ध्वनियों की भाव-प्रवणता अस्वीकार नहीं की जा सकती। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि वचन-रचना उससे अधिक प्रभावमयी है। व्यापकता में चाहे वह उसका सामना न कर सके, किंतु प्रभावशालिता में उसको अवश्य उत्कर्ष है। आप लोगों ने व्यासासन पर से यदि किसी सुवक्ता को किसी विषय का निरूपण करते सुना होगा अथवा किसी हाल में बैठकर किसी प्रसिद्ध वाग्मी का भाषण श्रवण किया होगा तो आप लोगों से यह छिपा न होगा कि वचन-रचना में कितनी शक्ति होती है। जनता को हँसा देना, रुला देना, उत्तेजित कर देना, उसके मन को अपनी मुट्टी में कर उससे मनमानी करा लेना उनके बाएँ हाथ का खेल होता है। भगवान् बुद्ध, महात्मा ईसा और हज़रत मुहम्मद ने अपनी विचित्र वाक्य-रचना-शक्ति से संसार में जो चमत्कार कर दिखलाया वह लोकोत्तर और अभूतपूर्व है। कोई मधुर ध्वनि और मनोहर निनाद आज तक वह कार्य न कर सका। कालान्तर में भी न कर सकेगा। 'सरगम' का समादर है, परंतु क्या उतना ही जितना भावमय गान का ? हारमोनियम की स्वर-लहरी विमुग्ध करती है, किंतु क्या फ़ोनोग्राफ़ के इतना ही ? कनसर्ट का कमाल आप लोगों ने देखा होगा, अनेक सम्मिलित स्वर किस प्रकार उसमें आकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसने उसको सुना होगा वह इस बात को भली भाँति जानता

है। कितु गाना आरंभ होने दीजिये। फिर देखिये, वह किस प्रकार इन समस्त स्वर लहरियों पर अधिकार कर लेता है। उसके एक-एक भावमय पदों को स्पष्ट सुनाई देने के लिये किस प्रकार स्वर-लहरियों को संयत होना पड़ता है और फिर वह किस प्रकार सहृदय जनो को विमुग्ध करके भावमत्त बनाता और उनके आनंद को द्विगुण त्रिगुण करता रहता है, यह अविदित नहीं। कभी-कभी तो एक-एक पद पर लोग लोटपोट हो जाते और तत्संबंधी अन्य पदों को सुनने के लिये इतना उत्कर्ण हो उठते हैं कि क्षण-भर का विलम्ब भी असह्य हो जाता है। यदि आप लोगो ने क़वाली सुनी होगी अथवा किसी संत-समाज में बैठकर भजन-गान होते देखा होगा तो आप लोगों को श्रोताओं की तल्लीनता अविदित न होगी। उस समय की वहाँ की उत्सुकता और उस समय का वहाँ का भावावेश विलक्षण होता है। यह ज्ञात होता है कि चारों ओर से अपूर्व आनंद का समुद्र उमड़ रहा है और उसमें लोग मग्न हो रहे हैं, हाथ-पाँव मार रहे हैं, उछल रहे हैं और जितना ही अलौकिक रस का पान कर रहे हैं उत्तरोत्तर उनकी तृषा उतनी ही बढ़ती जा रही है। कितना ही मधुर बाजा बजे, कितनी ही मुग्धकरी ध्वनि क्यों न हो, उसके द्वारा प्रायः ऐसा भावावेश नहीं होता, क्योंकि उसका रस उतना प्रगाढ़ नहीं हो सकता। भावमय शब्दों को कान सुन सकते हैं, यदि ये शब्द मधुर कंठ से निकले हैं तो उसकी मधुरता का आनंद वे प्राप्त कर सकते हैं, कितु उनमें जो लोकोत्तर अथवा अपूर्व भाव है उसके ग्रहण करने की शक्ति उनमें नहीं होती, अतएव भावमय शब्द-प्रसूत-विह्वलता वे उत्पन्न नहीं कर सकते। यह कार्य हृदय का है और हृदय के भाव विह्वल होने पर ही, इस प्रकार का भावावेश देखा जा सकता है।

कंठस्वर, मधुरध्वनि और वचन रचना के अतिरिक्त वेशविन्यास, भावभंगी, कथन-शैली इत्यादि का प्रभाव भी हृदय पर पड़ता है। इनकी

सहकारिता से वचन-रचना अपने भावों को अधिकाधिक पुष्ट कर सकती है। कर-संचालन, अंग-संचालन, अथवा अंगुलि-निर्देश से अनेक अस्पष्ट भाव स्पष्ट हो जाते हैं और कितनी ही अव्यक्त बातें व्यक्त बनती हैं। नृत्त अथवा नृत्य एवं अभिनय के ढंग की अनेक कलाएँ भी यथावसर भावपुष्टि का साधन बनती रहती हैं। अतएव इनकी उपयोगिता भी अल्प नहीं। जब ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द अंग-संचालनादि अन्य साधनों और कलाओं के आधार से किसी भाव को पुष्ट करते हैं उसकी वास्तविक पुष्टि उसी समय होती है और साहित्य के उस रस की यथार्थ उत्पत्ति भी प्रायः तभी होती है, जो सहृदय-हृदय-संबन्ध माना जाता और जिसका सुख ब्रह्मानन्द समान कहा जाता है। इसीलिये प्रायः दृश्य-काव्यों-द्वारा ही साहित्यिक रस की मोमांसा की गई है क्योंकि उसमें प्रायः सभी साधनों का समीकरण होता है।

रस की उत्पत्ति

यह स्वाभाविकता है कि मनुष्य मनुष्य के सुख से सुखी और उसके दुःख से दुखी होता है। संबन्ध-विशेष होने पर इसकी मात्रा में तारतम्य हो सकता है, किंतु यह असंभव है कि एक मानव के हृदय का प्रभाव दूसरे मानव के हृदय पर न पड़े। संस्कृति, विचार-विभिन्नता और विरोध अंतर डाल सकते हैं, किंतु यह अस्वाभाविक है, साधारण नियम नहीं। जब हम किसी को रोते देखते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है और हम भी उसके दुःख का अनुभव करने लगते हैं और जब किसी को प्रफुल्ल देखते हैं तो हम भी प्रफुल्ल हो जाते हैं और उसके हृदय का आनन्द हमारे हृदय में भी प्रवेश करता है। वास्तव में प्राणी-मात्र का हृदय एक है और एक गुप्त तार सदा उसको मिलाये रहता है, यह दूसरी बात है कि कोई प्रतिबंध बीच बीच में उसको तोड़ता रहे। एक भूखा हमारे सामने आकर जब पेट दिखा और आँसू बहाकर कुछ माँगता है तो

उसका यह कारुणिक भाव हमारे हृदय में कहुणा उत्पन्न क्रिये बिना नहीं रहता। हमने एक बंगाली को देखा कि जब मधुर स्वर में वह बेला बजाने लगता तो आप भी मस्त हो जाता और अपने मधुर-वादन और भावभंगी द्वारा अन्धों को भी कुछ-न-कुछ मस्त बना देता। जो कवि कविता पढ़ते-पढ़ते स्वयं मुग्ध हो जाता है वह दूसरो को भी मुग्ध बनाये बिना नहीं छोड़ता। भजनानंदी औरों को भी आनंदित कर लेता है। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है कि एक सरस हृदय से निकले हुए प्रभावजनक भाव अन्य हृदय को सरस बनाये बिना नहीं छोड़ते। यह हुई साधारण अवस्था की बात और जब प्रगाढ़ होकर यह अवस्था उच्चतर हो जाती है तभी रस की उत्पत्ति होती है। नाट्यशास्त्रकार महामुनि भरत लिखते हैं—/

। 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। काव्य-प्रकाशकार इसको टीका यो करते हैं—

“कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ।
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ।
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ।”

लोक में रति आदिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारा होते हैं नाटक और काव्य में वे ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी—क्रम से—कहलाते हैं। इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायी भाव की रस संज्ञा होती है।

अब यहाँ प्रश्न यह होगा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव किसे कहते हैं। इस विषय में साहित्य दर्पणकार यह लिखते हैं—

१—विभाव—‘रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः’

लोक में जो रति आदिक के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नाटकों में 'विभाव' कहलाते हैं, इसकी व्याख्या ग्रन्थकार ही यों करते हैं—

“अथ हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्बोधकारणानि सीतादयस्त एव काव्ये नाट्ये च निवेशिताः सन्तः विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरप्रादुर्भावयोग्या क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावाः एभिः इति विभावा उच्यन्ते ।”

“लोक में सीता आदिक जो रामचंद्रादि की रति आदि की उद्बोधक प्रसिद्ध हैं वे ही यदि काव्य और नाटक में निवेशित किये जावें तो 'विभाव' कहलाते हैं, क्योंकि वे सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं के रत्यादिक भावों को विभावित करते हैं अर्थात् उन्हें रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं ।”

विभाव के दो भेद हैं—पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन । रति आदिक स्थायी भावों के आधार नायक-नायिका। 'आलम्बन' और उनके उद्दीप्त करनेवाले चंद्र, चाँदनी, मलय-पवन आदि 'उद्दीपन' कहलाते हैं । साहित्य-दर्पणकार लिखते हैं—

आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।

आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् ।

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

२—अनुभाव—‘अनुभावयन्ति इति अनुभावाः’

रति आदिक स्थायी भावों का जो अनुभव कराते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं । अमरकोशकार लिखते हैं—‘अनुभावो भावबोधकः’ ।

३—व्यभिचारी अथवा संचारी भाव—

साहित्य-दर्पणकार कहते हैं—

‘स्थिरतया वर्तमाने हि रत्यादौ निर्वेदादयः प्रादुर्भावतिरोभावाभिमुख्येन चरणाद्व्यभिचारिताः कथ्यन्ते’ ।

रति आदिक स्थायी भाव में आविर्भूत और तिरोभूत होकर जो

निर्वेद आदि भाव अनुकूलता से व्याप्त रहते हैं उन्हें विशेष रीति से संचरण करते देखकर संचारी कहा जाता है ।

मानव के हृदय में वासना अथवा संस्कार रूप से अनेक भाव सदा उपस्थित रहते हैं, वे किसी कारण-विशेष द्वारा जिस समय व्यक्त होते हैं उसी समय उनकी उपस्थिति का पता चलता है । इन भावों में जिनमें अधिक स्थिरता और स्थायिता होती है, जो किसी भी काव्य-नाटकादि में आद्योपान्त उपस्थित रहते हैं, प्रधानता और प्रभावशालिता में औरों से उत्कर्ष रखते हैं, साथ ही जिनमें रस-रूप में परिणत होने की शक्ति रहती है, उनको स्थायी भाव कहा जाता है । यथा—

रसावस्थः परभावः स्थायिता प्रतिपद्यते ।

जो भाव रस-अवस्था को प्राप्त हो, वही स्थायी होता है । रसगंगाधर में स्थायी भाव के विषय में यह लिखा गया है—

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभाव नयत्याशु स स्थायी लवणाकरः ॥

चिर चित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बन्धन्तेऽटुबन्धिभिः ।

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥

सजातीयविजातीयैरतिरस्कृतमूर्तिमान् ।

यावद्रस वर्त्तमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥

✓ जो भाव विरोधी एवं अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, किंतु विरुद्ध भावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, उसका नाम स्थायी है, उसकी अवस्था लवणाकर के समान होती है, जो प्राप्त समस्त वस्तुओं को लवण बना लेता है ॥ १ ॥ जो भाव बहुत समय तक चित्त में रहते हैं, विभावादिकों से संबंध करते हैं, और रस-रूप बन जाते हैं, वे स्थायी कहलाते हैं ॥ २ ॥ जो मूर्तिमान् भाव सजातीय और विजातीय भावों से तिरस्कृत न किया जा सके और जब तक रस का आस्वादन हो तब तक वर्त्तमान रहे, उसे स्थायी भाव कहते हैं ॥ ३ ॥

भरत मुनि कहते हैं—

यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः ।

एव हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥

जैसे मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुरु, वैसे ही सब भावों में स्थायी भाव श्रेष्ठ होता है ।

काव्यप्रकाशकार पहले अष्ट रसों का नाम बतलाते हैं । वे ये हैं—

शृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः ।

वीमत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

फिर कहते हैं—‘एषां स्थायी भावानाह’ ।

अब इनके स्थायी भावों को बताता हूँ । उनके नाम सुनिये—

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिता ॥

अंत में लिखते हैं—निर्वेदः स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।

इन पंक्तियों के पठन करने से यह स्पष्ट हो गया कि शृंगार, हास्य, करुण आदि नव रसों के जनक रति, हास, शोक आदि नव स्थायी भाव हैं । इन स्थायी भावों में से कोई एक जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से लोकोत्तर आनंद रूप में परिणत होकर व्यक्त होता है, तब उसकी ‘रस’ संज्ञा होती है ।

मान लीजिये कि कहीं कोई रामलीला-मंडली आई है और किसी सुसज्जित स्थान पर रामलीला हो रही है । मधुर स्वर से बाजे बज रहे हैं, कमनीय कंठ से रामायण का गान हो रहा है, और अपार जनता वहाँ एकत्र है । इतने में जयध्वनि हुई, और एक रमणीय वाटिका में किशोर-वयस्क भगवान् रामचंद्र अपने प्रिय अनुज के साथ पुष्पचयन करते दिखाई पड़े । फिर कंकण-किंकिणी की ध्वनि हुई और मंदगति से श्रीमती जनकनंदनी का सखियों समेत उसमें प्रवेश हुआ । धीरे-धीरे पुष्पवाटिका की लीला का समाँ बंधने लगा और चारों ओर

आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। अनेक भावुक, भक्तजनों की तल्लीनता बढ़ गई, और वे परमानंद-पयोधि में ऐसे मग्न हो गये कि सब कुछ भूल गये। कभी वे शिर हिलाते, कभी मूमते, कभी वाह-वाह करते और कभी युगलमूर्तियों की छवि को एकटक देखते रह जाते।

इस दृश्य में भावुक भक्तजनों की रति स्थायी भाव है, क्योंकि रसत्व उसको ही प्राप्त है। भगवान् रामचंद्र और श्रीमती जानकी आलम्बन-विभाव है, क्योंकि उनकी रति अर्थात् प्रेम के आधार वे ही हैं, और वे ही उसको विभावित करते हैं। तरंगायमान स्वरलहरियों का प्रसार, भाव-मय रामायण की चारु चौपाइयों का गान, युगलमूर्तियों का शृंगार आदि उद्दीपन विभाव हैं, क्योंकि वे ही रति के उद्दीप्त करने के कारण हैं। भक्तजनों का शिर हिलाना, मूमना आदि अनुभाव हैं, क्योंकि वे ही रति भाव के बोधक हैं। उत्सुकता और उत्फुल्लता आदि संचारी हैं, जो रति-भाव में समय-समय पर संचरण करके उसको उत्तरोत्तर वर्द्धित करते रहते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव/कार्य को अनुभाव और सहकारी को संचारी भाव कहते हैं। मैं समझता हूँ, जो उदाहरण मैंने उपस्थित किया है, उससे यह बात भली भाँति समझ में आ गई होगी। फिर भी इसको और स्पष्ट किये देता हूँ। भक्तजन के स्थायी भाव रति के कारण-भूत कौन हैं? युगलमूर्ति और उनके शृंगारदि। अतएव आलम्बन और उद्दीपन विभाव दोनों इसमें आ गये। रति के कार्य उनमें किस रूप में प्रकट हुए, मूमने और एक-टक अवलोकन करने आदि में, ये ही अनुभाव हैं। रति को अपने कार्य में किससे सहायता मिलती रही उत्सुकता और उत्फुल्लता आदि से, ये ही संचारी भाव हैं। इसलिये विभाव का कारण, अनुभाव का कार्य और सहकारी का संचारी होना स्पष्ट है।

रसास्वादन प्रकार

आप लोगों को इसका अनुभव होगा कि रामलीला के दृश्यों का

सब के हृदय पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। कोई उनको देखकर अत्यन्त विमुग्ध होता है, कोई अल्प और कोई नाम-मात्र को। कुछ लोग वहाँ ऐसे भी दिखलाई देते हैं, जिनका हृदय रामलीला देख प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता। इससे यह जाना जाता है कि रस का अधिकारी सब का हृदय नहीं होता। जिसमें भावुकता नहीं—जिसको वासना रस-ग्रहणाधिकारिणी नहीं—और जिसकी संस्कृति में रसानुकूल साधनायें नहीं, उनके हृदय में रस की उत्पत्ति नहीं होती। साहित्य-दर्पणकार ने इस बात के प्रमाण में एक विद्वान् का यह वचन उद्धृत किया है—

वासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् ।

निर्वासनास्तु रङ्गान्त' काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः ॥

“वासनायुक्त सभ्यों को ही रसास्वाद होता है। वासना रहित पुरुष तो नाट्य-शाला में काठ, पत्थर और दीवाल के समान ही जड़ बने रहते हैं।’

प्रयोजन यह कि समस्त साधनों के उपस्थित होते भी जिसके हृदय का स्थायी भाव यथातथ्य व्यक्त नहीं होता, उसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती ही नहीं। रस की उत्पत्ति तभी होगी जब स्थायी भाव व्यक्त होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सर्वथा तत्सलीन हो जायगा। साहित्य-दर्पणकार कहते हैं—

ननु तर्हि कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते—

प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते ।

ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम् ।

प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत् ।

यथा खण्डभरिचादीनां सम्मेलनादपूर्वं इव कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे संजायते विभावादिसम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः ।

“अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सब विभावादिकों का एक प्रति-

भास अर्थान् एकरस के रूप में परिणाम कैसे होता है ? भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिए। इसका समाधान करते हैं। पहले विभावादि पृथक् पृथक् प्रतीत होते हैं, उसी समय उन्हें हेतु कहा जाता है, इसके अनंतर भावना के बल से और व्यंजना की महिमा से आस्वाद्यमान सब सम्मिलित विभावादिक सहृदयों के हृदय में प्रपानक रस की भाँति अखंड एकरस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे किसी प्रपानक रस में खाँड़, मिर्च, जीरा, हींग आदि के सम्मेलन से एक अपूर्व उन सब के पृथक्-पृथक् स्वाद से विलक्षण आस्वाद पैदा होता है, उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूर्व रसास्वाद पैदा होता है, जो विभावादिकों के पृथक् पृथक् आस्वाद से विलक्षण होता है।” —विमलार्थदर्शिनी

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि स्थायी भाव के व्यक्त होने का क्या अर्थ ? दूसरी बात यह कि सब दर्शकों के रति भाव को रसता क्यों नहीं प्राप्त होती ?

जितने स्थायी अथवा संचारी भाव हैं वे वासना-रूप से सदैव मानवमात्र के हृदय में वैसे ही विद्यमान रहते हैं जैसे पृथ्वी में गंध। कहा गया है कि ‘गंधवती पृथ्वी’; किन्तु पृथ्वी की गंध, वृष्टि होने पर ही विदित होती है। इसी प्रकार भावोदय भी विशेष कारणों से होता है। जिस समय कोई भाव हृदय में उदित होकर कार्यकारी बनता है, उसी समय उसकी प्रतीति अनुभावों द्वारा होती है। आदि में लहरें समुद्र में अव्यक्त अवस्था में रहती हैं, बाद को वे व्यक्त होती हैं। इस व्यक्ति का भी अनेक रूप होता है, कभी यह रूप बहुत साधारण होता है और कभी बहुत व्यापक, विशाल और अचिंतनीय ! यही अवस्था हृदय और भावों की है। आप हृदय को समुद्र और भावों को लहरें समझें, भावोदय के कारणों को विविध समीर। कैसे अव्यक्त भाव व्यक्त होकर कार्यकारी हो जाता है, तरंगों की स्थिति और उनकी

गति-विधि पर विचार करने से यह बात भी स्पष्ट हो जावेगी। अन्ध रहीं दर्शकों के रति भाव की बात।

मैं पहले कह आया हूँ कि लीला देखने में सब दर्शकों की तल्लीनता समान नहीं होती, ऐसी अवस्था में सब के हृदयों में रति भाव का उदय एक रूप में न होगा, उसमें तारतम्य होगा। कहीं वह तरला-तितरल, कहीं तरल, कहीं प्रगाढ़ और कहीं उससे भी प्रगाढ़ होगा। कोई बाजों का अनुरागी होता है, कोई गाने का; कोई वेषभूषा का, कोई स्वाभाविक दृश्यों का; कोई रामायण सुनने का, कोई उसकी भाव-मय कविताओं का, कोई उसके शब्द-विन्यास का, कोई हाव-भाव-कटाक्ष का, कोई नाच-रंग का और कोई वार्तालाप का, कोई स्वरूपों को साधारण मनुष्य समझेगा, कोई राजकुमार और कोई अवतार। इस दृष्टि से उनमें किसी की रति सामान्य होगी, किसी की उससे अधिक और किसी की अगाध। कोई इनमें से दो-दो तीन-तीन बातों के प्रेमी मिलेंगे, कोई कई एक के और कोई सभी बातों के। जिसकी जैसी रुचि होगी, उसी के अनुसार उसकी भावग्रहिता होगी और उसी के परिणाम से उसकी रति तरल, प्रगाढ़ अथवा अधिक प्रगाढ़ होगी। मैं पहले गान, वाद्य अभिनय इत्यादि साधनों के प्रभाव का विस्तृत वर्णन कर आया हूँ। यह भी बतला चुका हूँ कि सब साधनों का सम्मिलित प्रभाव जितना हृदय-ग्राही, विमुग्धकर और व्यापक होता है, उतना किसी एक अथवा दो-चार का नहीं। ऐसी अवस्था में आप यह सोच सकते हैं कि किसके हृदय का रति भाव किस अवस्था में किस कोटि का होगा। केवल दूध-दही, घी शहद, मोठे को अलग-अलग अथवा इनमें से किसी दो-तीन-चार को एक साथ आस्वादन करने-वाला पंचामृत के स्वाद का आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता और न अनेक सुन्दर और स्वादिष्ट पेय पदार्थों से बने हुए प्रपानक रस पान का पर-मानन्द वह पा सकता है, जिसने उनमें से किसी एक-दो पेय वस्तुओं

का ही स्वाद चखा है। आशा है, इतना निवेदन करने के बाद यह बात समझ में आ गई होगी कि सबके रति-भाव को रसता क्यों नहीं प्राप्त होती। वास्तविक बात यह है कि परमानंद प्राप्ति का अधिकारी पूर्ण ज्ञान-प्राप्त, उदात्त और भावुक हृदय ही होता है और उसी के रति-भाव को रसता प्राप्त होती है। अपनी भावना के अनुकूल थोड़ा-बहुत आनंद लाभ करनेवाले की रति का ऐसा सौभाग्य कहाँ ? भगवान् मरीचिमाली की किरणों अनेक वस्तुओं पर प्रतिफलित होती हैं, किन्तु हिमाचल के हिम-धवल शृंगों का गौरव किसे प्राप्त होता है ?

यहाँ पर मैं यह भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि जितने स्थायी भाव हैं, अनेक अवस्थाओं में वे संचारी ही रहते हैं, विशेष अवस्था में ही उनको रसत्व प्राप्त होता है। रति अथवा अनुराग की भी यही अवस्था है। साहित्य-दर्पणकार लिखते हैं—

अत्र च रत्यादिपदोपादानेन स्थायित्वे प्राप्ते पुनः स्थायिपदोपादानं रत्यन्ती-
नामपि रसान्तरेऽस्थायित्वप्रतिपादानार्थम्। ततश्च हासक्रोधादयः शृंगारवीरादौ
व्यभिचारिण एव।

भावार्थ इसका यह है, 'जो रति आदि एक रस के स्थायी हैं, वे ही दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, अतः शृंगार-वीरादि रसों में हास, क्रोध आदि जो हास्य और रौद्रादि रसों के स्थायी हैं, संचारी (अस्थायी) हो जाते हैं।

'रत्नाकर'-कार भी यही कहते हैं, जिसका प्रतिपादन रसगंगाधर-कार भी करते हैं—

रत्यादयः स्थायिभावाः म्युर्भूयिष्ठविभावजाः।

स्तोकैविभावैरुपज्ञास्त एव व्यभिचारिणः॥

'अधिक विभाव'दिको से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी भाव होते हैं और वे ही जब थोड़े विभावादिकों से प्रसृत होते हैं तो व्यभिचारी कहलाते हैं।' —हिन्दी रसगंगाधर

इससे क्या प्रतिपादित हुआ ? यही न कि जिन दर्शकों के हृदय में रति-भाव संचारी-भाव के रूप में प्रकट होगा, उतमें उतको रसता नहीं प्राप्त हो सकती ! रसता उसी के हृदय के रति-भाव को प्राप्त होगी, जिसमें उनका आविर्भाव स्थायो रूप में होगा । ऐसे भावुक अल्प होते हैं, यही आचार्यों की सम्मति भी है । साहित्य-दर्पण में इसका यह प्रमाण उठाया गया है—

‘पुण्यवन्तः प्रमिष्वन्ति योगिवद्रससनतिम्’ ।

‘जैसे कोई-कोई विशिष्ट योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, इसी प्रकार कोई-कोई पुण्यवान् अर्थात् वासनाख्य संस्कार से युक्त सहृदय पुरुष रस का आस्वाद लेते हैं’ । —साहित्य दर्पण ।

अब आप लोग समझ गये होंगे कि किस लिये अधिकांश दर्शकों की रति को रसता नहीं प्राप्त होती । वास्तविक बात यह है कि जिन हृदयों में रति संचारी-भाव में ही परिणत हुई, उनमें तो उसको स्थायो भाव का पद भी नहीं प्राप्त हुआ, फिर उसको रसता कैसे मिलती ? वसन्तागम से जो उन्माद कोकिल के हृदय में उत्पन्न होता है, जलदागम से जो प्रगाढ़ प्रेम पपीहा के हृदय में उदय पाता है, उसके अधिकारी अन्य पक्षी नहीं हो सकते । श्रावण के मेघ को उपादेयता क्वार के श्वेत बादलों में नहीं मिलती ।

साहित्य में रस किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ? उसका अधिकारी कौन है ? प्रायः अधिकांश दर्शकों के भावों को रसता क्यों नहीं प्राप्त होती ? इन विषयों पर मैं अपना विचार प्रकट कर चुका । रस-संबंधी कुछ और बातें भी सुनिये ।

रस का इतिहास

काव्य के दो भेद हैं—श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य । जो काव्य केवल श्रवण किया जा सकता है, उसको ‘श्रव्य’ कहते हैं, जैसे महा-

भारत, रामायण आदि; और जो काव्य रंगमंच पर खेलकर दिखलाया जाता है, उसे 'दृश्य' कहते हैं, जैसे शकुन्तला और उत्तररत्नचरित आदि। पहले मैं इस बात का प्रतिपादन कर आया हूँ कि रस-उत्पत्ति के लगभग समस्त साधन दृश्य काव्य में पाये जाते हैं। इसीसे पहले-पहल दृश्य काव्य के आधार से ही रस की ओर विद्युधों का विचार आकर्षित हुआ। जिस समय रंगमंच का अभिनय देखकर लोग पुलकित होते थे और तरह-तरह के भावों से उनका हृदय गद्गद होता था, साथ ही जब विचारशील अपने साथ अन्यो को भी आनन्दस्रोत में बहते देखते तो उनको यह विचार होता कि जिस रस की प्राप्ति से दर्शक-मंडली इस प्रकार विमुग्ध होती है, उस रस का आधार कौन है ? और वह कैसे उत्पन्न होता है ? स्मरण रहे, यहाँ पर रस से उस तरह रस और साधारण आनंद से ही प्रयोजन है, जो अभिनय के समय प्रायः सब दर्शकों को प्राप्त होता है। उस परमानंद अथवा प्रगाढ़ रस से नहीं, जिसका निरूपण बाद को गम्भीर गवेषणा के उपरान्त साहित्य मर्मज्ञों ने किया। हृदय में तर्क उपस्थित होने पर सहृदयोने उसपर विचार आरंभ किया और अनेक सिद्धांतों पर पहुँचे। रसगंगाधरकार ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उन्हीं के ग्रंथ के आधार पर मैं इस विषय में यहाँ कुछ लिखता हूँ।

आप लोग जानते हैं कि नाटको में जनता की दृष्टि को अपनी ओर अधिक आकर्षण करनेवाले, उसके पात्र ही होते हैं। अभिनेता में ही यह शक्ति होती है कि अपने अभिनय और कलाकौशल से वह दर्शकों के हृदय में स्थान ग्रहण कर लेवे। अतएव पहले-पहल कुछ लोगों का यही विचार हुआ कि 'भाव्यमानो विभाव एव रसः'। नाटक-पात्रों के वेष में आकर जो अभिनेता हमारे सामने तत्संबंधी प्रेममूलक अथवा अन्य मनोभावों से सम्पर्क रखनेवाले कार्य-कलाप करता एवं नाना प्रकार की लीलाओं और हाव-भाव-कटाक्ष से हमलोगों को विमुग्ध

बनाता है, मूर्तिमान् रस वही है। क्योंकि नाटक-पात्रों के समस्त भावों और व्यापारों का आधार अथवा आलंबन वही होता है।

अनेक विचारशीलों को यह बात न जँची। उन्होंने सोचा, अभिनेताओं में यो तो कोई आकर्षण होता नहीं, जब वे विशेष वेषभूषा में रंगमंच पर आते हैं और अपनी अंगभंगी, चेष्टाओं और रागरंग से लोगों को विमुग्ध करते हैं तभी दर्शकों को आनंद प्राप्त होता है। अतएव रस चेष्टाओं और अंगभंगी आदि ही में रहता है, अभिनेताओं में नहीं। उनके इस विचार को रसगंगाधरकार ने इन शब्दों में प्रकट किया है 'अनुभावस्तथातथेतरे'। भाव इसका यह है कि कुछ लोगों की यह सम्मति है कि 'अनुभावों' में रस रहता है।

कतिपय भावुकों के मन में यह बात भी न जमी। उन्होंने कहा, 'चेष्टाएँ और अंगभंगी आदि अनुभाव किसी मानसिक भाव के परिणाम होते हैं, इसलिये रस रह सकता है तो उसी में रह सकता है, क्योंकि कारण का गुण ही कार्य में होता है' अतएव उनके मुख से यह बात निकली—'व्यभिचार्यैव तथातथा परिणमति', अर्थात् हृदय के व्यभिचारी भाव ही रस-रूप में परिणत होते हैं।

ज्यों-ज्यों इस विषय में तर्क आगे बढ़ा और विचार होने लगा, त्यों-त्यों नई-नई धारणाएँ हुई और एक के बाद दूसरे मत प्रकट होने लगे। किसी ने कहा, 'विभावादयस्त्रयः समुदितौरसाः', विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों मिलकर इसकी सृष्टि करते हैं, क्योंकि वे परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। किसी ने कहा—'त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि नैव' 'तीनों में जो चमत्कारी होगा, उसी की रस-संज्ञा होगी, अन्यथा किसी की नहीं।' जिस समय यह विवाद चल रहा था, उसी समय महामुनि भरत ने यह व्यवस्था दी 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किंतु यह उन्होंने नहीं बतलाया कि इन तीनों का संयोग

किसके साथ होने से, परस्पर होने से अथवा किसी अन्य के साथ होने से। मेरा विचार है, नीचे के चार्तिक में उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। उक्त सूत्र लिखकर वे स्वयं प्रश्न करते हैं—को दृष्टान्तः, इसका क्या दृष्टान्त है ? फिर स्वयं उत्तर देते हैं—

‘यथा हि—गुडादिभिर्द्रव्यैर्व्यञ्जनौषधिभिश्च षाड्वादयो रस निर्वर्तन्ते, तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति’ ।

जिस प्रकार गुड़ादिक द्रव्य व्यंजनों और औषधियों से विविध प्रकार के पानक रस बनते हैं, वैसे ही अनेक भावों से युक्त होकर स्थायी भाव भी रसत्व को प्राप्त होते हैं।

‘नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति’ का ‘स्थायिनो भावाः’ किस भाव का व्यंजक है ? इसी भाव का कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का जब स्थायी भावों से संयोग होगा, तभी रस की उत्पत्ति होगी। रस किससे और कैसे उत्पन्न होता है, इस बात का निर्णय महामुनि भरत ने अपने उल्लिखित सूत्र में स्पष्टतया कर दिया है। किंतु इसके अर्थ में ही मतभिरता हो गई, इसलिये विवाद कुछ दिन और चला, भट्ट लोल्लट आदि विद्वानो ने कहा—

यह स्वीकार कर लिया जाता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति आदिक स्थायी भाव को रसत्व प्राप्त होता है। किंतु यह रति आदिक भाव किनके होते हैं ? उन लोगों का कथन है कि ये रति आदिक भाव नाटक-पात्रों के होते हैं, चाहे वह नायक-नायिका हो, अथवा कोई और अपेक्षित पात्र। यहाँ यह प्रश्न होगा कि वे पात्र तो अतीत के गर्भ में होते हैं, अथवा कल्पना-संसार में विचरण करते रहते हैं, उनके रति आदिक स्थायी भावों से दर्शक-समुदाय कैसे प्रभावित होगा और यदि प्रभावित नहीं होगा, तो उनके करुण, निर्वेद, हास्य और आनंददि का क्या हेतु होगा ? वे लोग कहते हैं, अभिनेताओं पर वे उन पात्रों का आरोप कर लेते हैं, अर्थात् वेष-भूषा और काय-कलाप द्वारा

दर्शक लोग उस समय अभिनेताओं को ही नाटक-पात्र मान लेते हैं और उनका यह ज्ञान ही उनके सुख-दुःख अथवा आनंद का कारण होता है।

शंकर कहते हैं कि आरोप कर लेने में अवास्तविकता है। यदि आरोप करने के स्थान पर अनुमान कर लेना कहा जावे तो अधिक संगत होगा।

भट्टनायक ने आरोप अनुमान की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा—
‘अभिनय देखने के समय जो आनंद का प्रवाह बहता है, अथवा करुण आदि रस जिस भाव का विस्तार करते हैं, वे मोहक और व्यापक होते हैं। इसलिये उस समय दर्शक यह अनुभव नहीं कर पाते कि जिन रति आदिक भावों के आधार से वे रस विशेष का आस्वादन कर रहे हैं, उनके हैं, अथवा किसी नाटकीय पात्र के। वास्तव में उस समय वे बिल्कुल निरपेक्ष होते हैं,

काव्य-प्रकाशकार को किसी की सम्मति पसन्द नहीं आई, उन्होंने स्पष्ट कहा—

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ।
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥
विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।
व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥

लोक में रति आदिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, नाटक और काव्य में ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी कम से कहलाते हैं। इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायी भाव की रस-संज्ञा होती है।

इसके आगे वे लिखते हैं ‘अभिव्यक्तः सामाजिकानाम् वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको..... अलौकिकचमत्कारकारी शृंगारादिको रसः ।’

किस व्यक्त स्थायी भाव की रस-संज्ञा होती है, इस वार्तिक में यह स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने बतलाया कि सामाजिकों (दर्शकों) के हृदय

मे वासना रूप में स्थित स्थायी, रति आदिक भाव को ही रसत्व प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ, निम्नलिखित वार्तिक में इसी बात को नाट्य-शास्त्रकार भरत मुनि उनसे भी पहले कह चुके हैं—

“नाट्ये वाचिनेदशरुद्रिदशरुद्राहोनेन स्थायिभावानास्वादयन्ति
सुमनसः प्रेक्षकास्तस्मान् नाट्यरसा इत्यभिव्याख्याताः।”

नाना भावाभिनय से व्यंजित वचनावली और अंगभंगी द्वारा दर्शक लोग मन में स्थायी भावों के रस का आस्वादन करते हैं इसी-लिये वादकों में ‘रस’ माना गया है।

लगभग यही सम्मति अभिनव गुप्ताचार्य की है, वरन् वास्तविक बात तो यह है कि काव्यप्रकाशकार का विचार उसके प्रभाव से प्रभावित है। साहित्य-दर्पणकार का भी यही मत है और कुछ शाब्दिक परिवर्तन से इसी सिद्धांत को पंडितराज जगन्नाथ भी स्वीकार करते हैं। बीच-बीच में और तर्क-वितर्क भी हुए हैं, परंतु इस समय सर्व-मान्य सिद्धान्त यही है।

हिंदी शब्दसागर के रचयिता विबुधजन इस विषय में जो लिखते हैं, उसे भी देखिये—

“हमारे यहाँ के आचार्यों में इस विषय में बहुत मतभेद है कि रस किसमें तथा कैसे अभिव्यक्त होता है। कुछ लोगों का मत है कि स्थायी भावों की वास्तविक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से उन लोगों में होती है, जिनके कार्यों का अभिनय किया जाता है। (जैसे राम, कृष्ण, हरि-श्रंद्र आदि) और गौण रूप से अभिनय करनेवाले नटों में होती है, अतः इन्हीं में लोग रस की स्थिति मानते हैं। ऐसे आचार्यों का मत है कि अभिनय देखनेवालों का काव्य पढ़नेवालों के साथ रस का कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत अधिक लोगों का यह मत है कि अभिनय देखनेवालों तथा काव्य पढ़नेवालों में ही रस की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे लोगों का कथन है कि मनुष्य के अन्तःकरण में भाव

पहले से ही विद्यमान रहते हैं और काव्य पढ़ने अथवा नाटक देखने के समय वही भाव उदीर होकर रस का रूप धारण कर लेते हैं और यही मत ठीक माना जाता है। तात्पर्य यह कि पाठकों या दर्शकों को काव्यों अथवा अभिनयों से जो अनिर्वचनीय और लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है, साहित्य-शास्त्र के अनुसार वही 'रस' कहलाता है।”

—हिंदी शब्दसागर, पृष्ठ २६०८

रस का विषय बड़ा वादग्रस्त है, कुछ मर्मज्ञ विद्वानों की धारणा है कि अब तक रस की उचित मीमांसा नहीं हुई। जो हो, किंतु मैं यह कहूँगा कि उसका शास्त्रार्थ जिस विस्तृत रूप से ग्रंथों में लिपिबद्ध है, वह साहित्य की बहुमूल्य और मननशीलता की अद्भुत सम्पत्ति है। वह अगाध समुद्र है, डूबने पर उसमें बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, किंतु यह कार्य है, बड़ा उद्वेगजनक और दुस्तर। मैंने थोड़े में जिन बातों का परिचय दिया है, वह कहीं तक यथातथ्य है, यह कहना कठिन है। जहाँ शब्दों की ही पकड़ है और बात-बात में तर्क-वितर्क होता है, वहाँ निश्चित रूप से किसी सिद्धांत का सक्षिप्तोकरण सुनभ नहीं। किंतु यह दुस्साहस मैंने किया है, आशा है पाठकों को इससे रस का इतिहास जानने में कुछ सुविधा अवश्य होगी।

। संस्कृत को छोड़कर रस को कल्पना और किसी भाषा में नहीं हुई। अंगरेजी, अरबी, फारसी और उर्दू में भाव के ही पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, रस के नहीं। रस का विवेचन जितना हो विमुग्धकर है, उतना ही पांडित्यपूर्ण। /

रस की आनंदस्वरूपता

काव्यप्रकाशकार लिखते हैं—

‘पानकरसन्वायेन चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वा-
गीणमिवालिङ्गन् अन्यत् सर्वमिव तिरोदधत् ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन् अलौकिक-
चमत्कारकारी शृंगारादिको रसः’ ।

‘पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट भक्तक जाते, हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सर्वांग को सुधारण-सिद्धि बनाते, अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते और ब्रह्मानन्द के समान अनुभूत होते हैं, वे ही अलौकिक चमत्कारसम्पन्न शृंगारादि रस कहलाते हैं।

यह हुई शृंगारादिक रस की परिभाषा। यहाँ प्रश्न यह होता है कि करुण, भयानक आदि रसों में, जिनके स्थायी भाव शोक, जुगुप्सा और भय आदि हैं, इस परिभाषा की सार्थकता कैसे होगी? क्योंकि वे तो दुःखमय होते हैं।

इसका उत्तर साहित्य-दर्पणकार इस प्रकार देते हैं—

करुणादावपि रसे जायते यत्परमुखम् ॥

सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् ।

किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुत्मुखः ॥

नहि कश्चित् सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवर्तते । करुणादिषु च सकलस्यापि सामिनिवेशप्रवृत्तिदर्शनात्सुखमयत्वमेव ।

‘करुण आदि रसों में भी जो परमानन्द होता है, उसके लिये सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है। यदि करुणादि रसों में दुःख होता हो तो करुणादि रस-प्रधान काव्य नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि में कोई भी प्रवृत्त न हो क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता; परन्तु करुण रस के काव्यों में सभी लोग आश्चर्यपूर्वक प्रवृत्त होते हैं, अतः वे रस भी सुखमय ही हैं।’ —विमलार्थदर्शिनी ।

यह कहकर स्वयं तर्क करते हैं, दुःख के कारण से सुख की उत्पत्ति कैसे होगी? उत्तर देते हैं—

‘लौकिकशोकहर्षादिकारणोभ्यो लौकिकशोकहर्षादयो जायन्ते, इति लोक एव प्रतिनियमः, काव्ये पुनः सर्वेभ्योऽपि विभावादिव्यः सुखमेव जायते ।’

‘शोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने और हर्ष के कारणों से

हर्ष के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही होता है, (काव्य और नाटकों में) विभावादिकों से सुख ही मिलता है ।’

फिर स्वयं तर्क करते हैं—

‘कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनाट्ययोरपि दर्शनश्रवणभ्यामश्रुपातादयो जायन्ते ।’

यदि सुख ही होता है तो हरिश्चंद्र आदि के करुणारसमय चरित को काव्य एवं नाटकों में देखने-सुनने से अश्रुपातादि क्यों होते हैं ?

उत्तर देते हैं—

‘अश्रुपातादयस्तद्वद्द्रुतत्वाच्चेतसो मतः’ ।

चित्त के द्रवित होने के कारण से, प्रयोजन यह कि चित्त दुःख में ही द्रवित नहीं होता आनंद में भी द्रवित होता है और उस समय भी अश्रुपातादि होते हैं ।

साहित्य-दर्पणकार ने जो कुछ कहा है, सूत्र रूप से कहा है । मैं यथामति उसकी व्याख्या करके उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ । मानव-समाज के कुछ संस्कार सार्वभौम हैं, किसी देश अथवा किसी जाति का प्राणी क्यों न हो, गुणों का आदर और दुर्गुणों का अनादर अवश्य करेगा । मानस के जो उदात्त और महान् भाव हैं, उसकी पूजा सब जगह सभी करता है, इसी प्रकार उसके जो कुत्सित, घृणित एवं निन्दनीय विचार हैं, उनको हेय, असत् और तिरस्कार-योग्य कौन नहीं मानता ? सती स्त्री जैसे संसार में वन्द्य है, असती स्त्री वैसे ही अक्षम्य । सदाचारी पुरुष सब स्थानों में देवता समझा जाता है और दुराचारी पुरुष वसुंधरा भर में दानव । जहाँ किसी शिष्ट, उदारचेता, धर्मप्राण, पुरुष को देखकर हृदय प्रफुल्ल और कृतकृत्य होता है, वहाँ दुष्ट, उत्पीड़क एवं धर्मच्युत जन को देख क्रुद्ध और संतप्त बन जाता है । प्रायः देखा गया है कि नरपिशाचों का नाश, दमन और उत्पीड़न देखकर समाज हर्ष-विह्वल हो जाता है और वही महात्माओं की कदर्थना देखकर

कलेजा थाम लेता है। जब यह संसार मनुष्य मात्र का है, वह भी एक देशी नहीं, सर्वदेशी तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काव्य-श्रवण अथवा नाटक-दर्शन के समय भी वह जैसाका तैसा रहेगा, उसमें यदि कारण विशेष से किसी काल में कुछ परिवर्तन होगा, तो नाम मात्र का। अपवाद की बात और है, वह कहाँ नहीं होता ?

जितने साहित्यिक ग्रंथकार और नाटककार होते हैं, सबका उद्देश्य सदादर्श-प्रचार होता है। प्रायः अधिकांश ग्रंथ इस उद्देश्य से लिखे जाते हैं कि उनके द्वारा जाति, देश और समाज का उत्थान हो और उनमें ऐसे भावों का प्रचार हो जिससे उनके सुख-शांति की वृद्धि हो। लक्ष्य सबका यही होता है, लिखने की प्रणाली में भिन्नता हो सकती है। इस सत्र से नाटक आदि में भले-बुरे सभी प्रकार के पात्र होते हैं। भले की भलाई और बुरे की बुराई दिखलाकर एक का उत्कर्ष और दूसरे का पतन दिखलाया जाता है। इसलिये कि जिसमें दर्शकों के हृदयों में भलाई करने और बुराई न करने की रुचि उत्पन्न हो। अपने उद्देश्य की सिद्धि में जिस ग्रंथकार अथवा नाटककार की लेखनी जितनी ही विलक्षण होती है, जितनी ही उसमें मार्मिकता होती है, जितनी ही सुंदरता से वह सूक्ष्म मानसिक भावों का चित्रण कर सकती है, उसकी रचना उतनी ही अपूर्व मनोहारिणी और प्रभावजनक होती है। इसी प्रकार इन भावों का अभिनेता अपने कार्य में जितना ही दक्ष, पटु और भावुक होता है, जितनी ही सहृदयता से भावों का व्यंजन कर सकता है, उसका अभिनय उतना ही सफल होता है, और उतना ही वह दर्शक-जन के हृदय को आकर्षित कर उसे विमुग्ध और आनंदित कर सकता है।

मान लीजिये, रंगालय में जनता समवेत है, रामलीला हो रही है, वनवास प्रकरण है, और चारों ओर करुण-रस प्रवाहित है। सामने न तो महाराज दशरथ हैं, न कौशल्या देवी, न कैकेयी, न मंथरा, न

भगवान् रामचंद्र, न श्रोमती जनकनंदिनी आदि । कुञ्ज अभिनेता इन लोगो का पाठ लेकर अपना अभिनय तन्मयता से कर रहे हैं । फिर भी सहस्रों वर्ष का बीता दृश्य सामने है और जनता आनंदमग्न है । जब कैकेयी और मन्थरा सामने आती हैं, तो उसका हृदय घृणा से भर जाता है, उसकी आँखो से चिनगारियाँ निकलने लगती हैं, वह दौत पीसने लगती है और उसकी भोंहें टेढ़ी हो जाती हैं । जब कौशल्या देवी की करुणामयी मूर्ति देखती है, अश्रुविसर्जन करने लगती है, बारबार रोती है, फिर भी वृत्त नहीं होती । जब भगवान् रामचंद्र की मर्यादामयी मूर्ति को अवलोकन करती है, श्रद्धा से भर जाती है, उनकी पितृ-भक्ति, धैर्य और त्याग को देखकर उनपर निष्ठावर होती है, कभी कलेजा थामती है, कभी मूर्तिमान् आर्य-गौरव की मन-ही मन आरती उतारने लगती है । जब भगवद्दया जानकी देवी दृष्टिगत होती हैं, तब उसकी छाती फटने लगती है । जब वह उन्हें वन जाने के लिये प्रस्तुत देखती है और उनके मुख की ओर ताकती है, आठ-आठ आँसू रोने लगती है । फिर जब भगवान् रामचंद्र भगवती जानकी को वन की भयंकरता बतलाने लगते हैं, उस समय न जाने कइँ का भय आकर उसके जी में समा जाता है । उस समय तो वह और भीन होता है, जब जनकनंदिनी के कुसुमादपि कोमल कलेत्र पर दृष्टिमान करती है । किंतु जनता की ये समस्त दशाएँ क्या उसे दुःखभागिनी बनाती हैं, नही, कदापि नहीं । वरन् प्रत्येक दशा में वह विचित्र सुख और आनंद का अनुभव करती है । क्यों ? इसलिये कि जिस संस्कृति से उसका हृदय संस्कृत है, उसके चरितार्थ करने की उसमें बड़ी ही मुग्ध-कारो सामग्री उसको मिलती है । दूसरी बात यह कि मानसिक भावों को जिस समय जिस रूप में परिणत होना चाहिए, उस समय उसके उस रूप में परिणत होने से ही आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा चित्त बहुत तंग करता है और यह ज्ञात होने लगता है कि

हृदय न जाने किस बोझ से दबा जा रहा है। तीसरी बात यह कि अभिनय करने के समय अभिनेता अपने पार्ट को जब इस मार्मिकता से करता है कि असली और नकली का भेद प्रायः जाता रहता है, तो उस समय दर्शकों को जो आनंद होता है, वह भी अपूर्व ही होता है। चाहे यह अभिनय करण रस का हो, चाहे वीभत्स या भयानक रस का। कारण इसका यह है कि उस समय की अभिनेता की स्वकर्मपटुता और अद्भुत अनुकरणशीलता चुपचाप उनपर विचित्र प्रभाव डाले बिना नहीं रहती।

मौलवी अहमद अली एक मुसलमान थे। उनको हरिश्चंद्र नाटक देखने का बड़ा अनुराग था। वे सहृदय और सुकवि भी थे। इस नाटक के करण स्थलों पर प्रायः उनकी आँखें भर आतीं, पर वे खुलकर न रोना चाहते। परिणाम यह होता कि विशेष स्थलों पर चित्त उनको चैन नहीं लेने देता। जब वे खुलकर रो लेते, तभी उनको सुख मिलता। सबल प्रवाह को रोक दो, देखो जल कैसे चकर में पड़ जाता है। उसको आगे बढ़ने दो, उस समय वह अपनी स्वाभाविकगति से मंद-मंद सानंद बहता दिखलाई पड़ेगा !

एक नाटक का ऐसा दुष्ट पात्र था, जो रास्ते में काँटे बिछाकर, अंधेरे में साँप के समान रस्ती खड़ी कर, चुपचाप लोगों की देह में सुई चुभोकर, बिछावनों में कंकर भरकर, भिड़ के छत्तों को छेड़कर और कभी कभी जलते अंगारे ऊपर फेंककर बच्चों तक को बहुत तंग किया करता। लोगों का उससे नाकों दम था, सब उसके शत्रु हो गये थे। एक दिन एक हट्टेकट्टे मोटेताजे गुरुघंटा ल ने उसको पकड़ा। उसके पास तरह-तरह के साँप, बड़े-बड़े बिच्छू, लोहे के तेज काँटे, नोकदार छुरी, अनेक प्रकार के भाले, और कई तरह के नुकीले दूसरे हथियार थे। उसके साथी के हाथ में एक अँगोठी थी, जिसमें जलते अंगारे दहक रहे थे। जब वह साँप निकालकर उस दुष्ट से कहता—‘कटा दूँ’,

बिच्छू निकालकर कहता—‘क्या डंक मरवा दूँ’, तब उस गी नानी मर जाती और वह इतना डर जाता कि ‘ओः ओः’ छोड़कर उसके मुँह से सीधी बात न निकलती। जब उसकी देह में वह लोहे के काँटे चुभो देता, या नुकीली छुरी या कोई हथियार गड़ा देता, या यह कहता कि यह अँगोठी तुझ पर उलट दूँ, तब वह इतना डर जाता और उसकी घिघी ऐसी बँध जाती कि वह मौत को सामने देखने लगता और ऐसी चेष्टाएँ करता कि मानों अब मरा। पर दर्शक उसकी यह दशा देखकर कभी हँसते, कभी तालियाँ बजाते, कभी कहते, ‘अच्छे से पाला पड़ा।’ इसी को कहते हैं, ‘इस हाथ दे उस हाथ ले।’ एक ओर भयानक रस का उग्र रूप और दूसरी ओर था मूर्तिमान् आनंद। यह विपर्यय क्यों ? केवल संस्कार-वश।

प्रायः देखा जाता है कि जब रंगमंच पर किसी वड़े अत्याचारी, की यातना आरम्भ होती है, लहू-पिपासियों का लहू बहाया जाता है और दूसरों की नाक काटनेवालों की नाक काट ली जाती है, जब देश-हितैषियों के गले पर छुरा चलानेवालों, पेट में कटार भोंकनेवालों का लहू पान किया जाता है, अथवा देशद्रोहियों का शिर गेंद बनाया जाता है, उनके मांस के लोथड़े उछाले जाते हैं, और उनकी अंतड़ी चबाई जाती है तो यह वीभत्स कांड देखकर दर्शक-मंडली के रोंगटे नहीं खड़े होते और न उनके हृदय में कुछ दुःख ही होता है। वरन् वे जितना छटपटाते हैं, जितना रोते कलपते हैं और जितनी हाय-हाय करते हैं, उतनी ही वह हर्षित होती और उल्लासप्रकट करती है। क्यों ? इसलिये कि नाटककार की लेखनी के धौशल से अत्याचारियाँ, देश-द्रोहियों और उत्पीड़कों के प्रति उनके हृदय में इतनी घृणा जाग्रत रहती है कि उनको उनकी नाटकीय यातना देखकर ही सुख मिलता है। दूसरी बात यह कि मनुष्य का संस्कार बड़ा प्रबल होता है, वही अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल उसके हृदय में सुख-दुःख, घृणा और प्रेम की सृष्टि करता

है। अत्याचारियों, देशद्रोहियों, मानव-उत्पीड़को के प्रति मनुष्य मात्र का संस्कार द्वेष और घृणामय है। इसलिये जब वह उसकी दुर्गति होते देखता है तो संतोष तो लाभ करता हो है, यह सोचकर भी उत्फुल्ल होता है कि संसार-कटकों को जितनी दुर्गति दिखलाई जावे, उतना ही उत्तम, क्योंकि उसी को देखकर जनता के नेत्र खुलते हैं, उन्मार्ग-गामियों को त्रास होता है और दुर्जनो से वसुधा सुरक्षित रहती है। नाटक देखने के समय एक भाव और सब दर्शको के हृदय में जाग्रत रहता है वह यह कि वे उसको खेल समझते हैं, तात्कालिक होनेवाली सत्य घटना नहीं। इसलिये रंगमंच के सुख दुःखमय दृश्यों का, अभिनेताओं के कौशल-मय अभिनयों का, रगभूमि के गान-वाद्य और परदों के बहुरंजित सीन सीनरी आदि का प्रभाव तो उनपर पड़ता है और वे प्रभावित भी होते हैं, परन्तु उनको वह शोक, मोह और चोभ नहीं सताता जो वास्तविक घटना के संघटित होने के समय प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी मानव-हृदय को कष्ट पहुँचाता है और इस प्रकार उस समय उनका चित्त उन स्वाभाविक आघातों से भी सुरक्षित रहता है, जो ऐसे अवसरों पर प्रत्येक मानव-हृदय पर साधारणतया होते रहते हैं।

अब तक जो मैंने निवेदन किया है, आशा है, उससे यह अवगत हो गया होगा कि किस प्रकार कृष्ण-रस से भी सुख को प्राप्ति होती है, और कैसे भयानक रस और वीभत्स रस में भी हृदय में आनन्द का संचार होता है। नाटकों में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के जिस व्यापार द्वारा इस प्रकार के रसों की उत्पत्ति, परिणति आदि होती है, उसको विभावन, अनुभावन और संचारण कहते हैं। साहित्य-दर्पणकार लिखते हैं—

“विभावन रस्यादेर्विशेषेणास्वादाद्दुररुद्धतादयनम् । अनुभावनमेवंभूतस्य रस्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम् सञ्चारणं तथाभूतस्यैव तस्य सम्यक् चारणम्” ।

‘रति आदिक स्थायी भावों को आस्वादोत्पत्ति (रसोद्बोध) के योग्य बनाना ‘विभावन’ कहलाता है, विभावन के द्वारा आस्वादोत्पत्ति के योग्य हुए उन रति आदिक को तुरन्त रस-रूप में परिणत कर देनेवाले व्यापार का नाम अनुभावन है। इस प्रकार सुसम्पन्न रति आदिक को भले प्रकार संचारित कर देने का नाम संचारण है’। — विमलार्थदर्शिनी ।

वे यह भी लिखते हैं—

‘ये खलु वनवासादयो लोके दुःखकारणानि इत्युच्यन्ते, त एव हि काव्यनाट्यसमपिता अलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यता विहायालौकिक-विभावशब्दवाच्यत्व भजन्ते’ ।

“लोक मे जो वनवास आदिक दुःख के कारण कहे जाते हैं, वे यदि काव्य और नाटक मे निबद्ध किये जावे तो फिर उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु अलौकिक विभाव शब्द से होता है। इसका कारण यह है कि काव्यादि में उत्पत्ति होने पर उन्ही कारणों मे विभावन नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है।” — विमलार्थदर्शिनी ।

प्रयोजन यह कि लोक में अथवा संसार के साधारण व्यवहार में साक्षात् संबंध से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के जो कार्य-कलाप होते हैं, काव्य में उनका चित्रण और नाटकों में उनका अनुकरण मात्र होता है। नित्य लोक में जितनी घटनाएँ होती रहती हैं, उनका संबंध परिस्थिति के अनुसार सुख-दुःख दोनों से होता है। इन घटनाओं से जिनका संबंध होता है, उनको सुख-दुःख दोनों प्राप्त होते रहते हैं। यह स्वाभाविकता है, संसार की रचना ही सुख-दुःखमयी है। काव्य और नाटकों की रचना का उद्देश्य आमोद-प्रमोद और आनंद-प्राप्ति है, साथ ही शिक्षा और देश-सुधार आदि। इसी इष्ट की प्राप्ति के लिये काव्य पढ़े-सुने और नाटक देखे जाते हैं। अनेक अवस्थाओं में चितित और दुःखित होने पर मन बहलाने के लिये भी काव्य और नाटकों की शरण ग्रहण की जाती है। इसलिये काव्य और नाटक आनंद

के ही साधन हैं, और उनसे आनंद की ही प्राप्ति होती है। लौकिक विभावादि से उनके विभावादि में अंतर होता है, अतएव वे अलौकिक कहलाते हैं। यहाँ अलौकिक का अर्थ लोक से संबंध न रखनेवाला है, अपूर्व अथवा परम विलक्षण नहीं। आशा है, अब तक जो कुछ कहा गया, उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि विभावन-अनुभावन आदि क्या हैं, और इन नामों की कल्पना क्यों हुई। विश्वास है, यह बात भी समझ में आ गई होगी कि नाटकों और काव्यों में करुण, वीभत्स और भयानक रसों में भी आनंद की ही प्राप्ति होती है, दुःखों की नहीं।

रस और ब्रह्मास्वाद

रस का आस्वाद ब्रह्मानंद के समान होता है, समस्त साहित्य-मर्मज्ञों का यही सिद्धांत है। काव्यप्रकाशकार कहते हैं—

‘ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्’।

ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होता है। अतएव अपने ग्रंथ में एक स्थान पर यह वाक्य उद्धृत करते हैं—

‘परमार्थतस्त्वखण्ड एवाय वेदान्तप्रसिद्धब्रह्मतत्त्ववद्वेदितव्यः’

‘वास्तव में रस वेदांत-प्रसिद्ध ब्रह्म की तरह अखंड और वेद्य है’।

ऐसे ही और प्रमाण भी उठाये जा सकते हैं, किंतु इससे व्यर्थ विस्तार होगा। मेरा विचार है, इन उक्तियों का आधार पवित्र वेद की यह श्रुति है—‘रसो वै सः’। अब यह चिंतनीय है कि ऐसी धारणा क्यों हुई? मैं कहूँगा, निम्नलिखित कारणों से—

१—काव्यप्रकाश की बालबोधिनी टीकाकार ब्रह्मास्वाद का यह अर्थ करते हैं—

‘ब्रह्मास्वादे (मुक्तिदशाया) ब्रह्ममात्र प्रकाशते, रसे तु विभावाद्यपीति भेदात् सादृश्यम्’।

‘ब्रह्मास्वाद अर्थात् मुक्ति दशा में ब्रह्ममात्र ही प्रकाशित रहता है

और भावों का तिरोभाव हो जाता है। विभावादि जब स्थायी भावों के साथ मिलकर रस-रूप में परिणत होते हैं, उस समय भी केवल रस विकसित रहता है, और सब उसी में लीन हो जाते हैं, कहा भी है—'अन्यत् सर्वमिव तिरोदधत्'। इसलिये वह ब्रह्मास्वाद सहोदर है, अथवा ब्रह्मास्वाद से उसकी समानता है।

२—कुछ विद्वानों का सिद्धांत है, 'काव्यस्य शब्दार्थौ शरीर रसादिश्चात्मा' शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, और रस आत्मा। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—'वाक्यं रसात्मक काव्यम्' काव्य वह है जिसकी आत्मा रस है, इससे भी उसका ब्रह्म-स्वरूप होना सिद्ध है।

३—अग्निपुराण में लिखा है—

अक्षर परम ब्रह्म सनातनमजं विभुम् ।

वेदान्तेषु वदन्त्येक चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम् ॥

आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन ।

व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ॥

जिसको वेदांत में अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अज, व्यापक, चैतन्य और ज्योतिस्वरूप कहा गया है, उसका सहज आनंद किसी समय जब प्रकट होता है, तो उस अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार अथवा रस कहा जाता है।

४—नाटकों में देखा जाता है कि रस का उद्रेक होने पर एक काल में सहस्रों मनुष्य मन्त्रमुग्धवत् बन जाते हैं, एक साथ हँसते-रोते और तालियाँ बजाते हैं, आनंद-ध्वनि करते हैं, शर्म-शर्म या थू-थू कहने लगते हैं और कभी-कभी अपने से बाहर हो जाते हैं। यह रस की अलौकिकता है, क्योंकि साधारणतया लोक में दो एक प्राणिविशेष में ही उसकी उपस्थिति देखी जाती है। दूसरी बात यह कि वह अपरिमित है, इसलिये कि अनेक श्रोताओं और दर्शकों के हृदय में वह एक ही समय में उदित और विकसित होता है।

५—रस में ज्ञानस्वरूपता और स्वयं प्रकाशता है। साहित्य-दर्पण-कार कहते हैं—

‘अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोचरीकृतः इति च । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमनङ्गीकुर्वतामुपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः’ ।

‘यद्यपि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथापि अनादि वासना के द्वारा उपनीत अर्थात् ज्ञान में प्रतिभासित जो रत्यादिक उनके साथ अभिन्न रूप से गृहीत होता है। इस प्रकार रस की ज्ञानस्वरूपता और उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ। ज्ञान स्वयं प्रकाश है, अतः रस भी स्वयंप्रकाश है।

—विमलार्थप्रकाशिनी

यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या वास्तव में समस्त नाटक देखने और काव्य पढ़ने-सुननेवालों को ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति होती है ? उत्तर यह है कि नहीं। जिसकी जैसी वासना होगी, भाव-ग्रहण की जैसी शक्ति होगी, जिसमें जैसी सहृदयता होगी, रस आस्वाद का वह वैसा ही अधिकारी होगा। रस को भी कोटि है, उसका सब से उच्च कोटि का स्वरूप ब्रह्मास्वाद है, उसके अधिकारी सर्वत्र थोड़े हैं। रस का साधारण रूप जो प्रायः उससे निम्नकोटि का होता है, वही सर्वसाधारण का उपभोग्य कहा जा सकता है, चाहे उसकी मात्रा में कुछ तारतम्य भले ही हो। जिसने नाट्यशाला में बैठकर नाटक देखा होगा, किसी सुवक्ता का व्याख्यान किसी सभा में सुना होगा अथवा किसी प्रसिद्ध संकीर्तन-मंडली का भक्तिमय कीर्तन श्रवण किया होगा, उसको इस बात का अनुभव स्वयं होगा। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। क्यों ? इसलिये कि वह सत् है, चित् है और आनंदस्वरूप है। अतएव आनंद मात्र ईश्वर का स्वरूप है, परंतु इस सच्चे आनंद के अधिकारी कितने हैं ? प्रत्येक प्राणी में, हरे-भरे वृक्षों में, विकसित सुमनों में, रस भरे नाना फलों में। प्रयोजन यह है कि जहाँ शिव है, सत्य है, सौंदर्य है, वहाँ ईश्वर की आनंदमयी सत्ता मौजूद है। परंतु उसका सच्चा उपभोग

करने वाले, कोई महान् हृदय महात्मा ही हैं। सर्वसाधारण अपने ज्ञान, विवेक, विचार और दृष्टि के अनुसार ही उनसे यथाशक्य थोड़ा या बहुत आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। यही अवस्था नाटक-दर्शकों अथवा काव्य आदि श्रवणकर्ताओं की भी समझनी चाहिये। किंतु इससे रस के ब्रह्मास्वाद होने में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि रस परिणति को अंतिम सीमा वही है।

विभावादिकों की रसव्यंजकता

आप लोग पढ़ते आये हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों का संयोग जब रति आदिक स्थायी भावों से होता है, तभी रस की उत्पत्ति होती है। किंतु देखा जाता है कि इनमें से किसी एक के द्वारा भी रस उत्पन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था में इसकी भीमांसा आवश्यक है। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

‘ननु यदि विभावानुभावव्यभिचारिभिमिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य द्वयोर्वा सद्भावेपि स स्यादित्युच्यते’।

‘यदि विभाव, अनुभाव और संचारी इन तीनों के मिलने पर ही रसास्वाद होता है, एक दो से नहीं होता, तो जहाँ कहीं एक अथवा दो ही वर्णन है, वहाँ जो रसास्वाद दीख पड़ता है, सो कैसे होगा?’

उत्तर देते हैं—

‘सद्भावश्चेद्विभावादेर्द्वयोरैकस्य वा भवेत् ।

ऋटित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विद्यते ॥’

‘विभावादिकों में से दो अथवा एक के उपनिबद्ध होने पर जहाँ प्रकरणादि के कारण दोष का भ्रट से आक्षेप हो जाता है, वहाँ कुछ दोष नहीं होता।’

—विमलार्थप्रकाशिनी

आक्षेप का अर्थ है ‘व्यंजनीय रस के अनुकूल शेष (अन्य) दो भावों का भी बोध करा देना।’

कुछ प्रमाण लीजिये—केवल विभाव द्वारा रस की अभिव्यक्ति—

दमदम दमकत दामिनी घहरत नभ घनघोर ।

मान करत कत मानिनी मोर मचावत सोर ॥१॥

इस दोहे में उद्दीपन विभाव का वर्णन है, न तो संचारी का है, न अनुभावों का । परतु मानिनी का मानयुक्त होना, उसके हृदय का सामर्थ्य होना सूचित करता है, जो एक संचारी भाव है । जब वह मान दशा में है तो उसकी भौहें अवश्य चढ़ी होंगी, मुँह भी निस्संदेह बिगड़ा होगा, इसलिये अनुभाव भी उसमें मिले और तीनों के आधार से ही रस की सिद्धि हुई ।

केवल अनुभाव द्वारा रसविकास—

टपटप टपकत सेदकन अग अग थहरात ।

नीरजनयनी नयन में काहे नीर लखात ॥२॥

स्वेद विटु का टपकना, अंगों का कम्पित होना, आँखों में जल आना अनुभाव है, और इन्हीं का वर्णन दोहे में है । किंतु कारण अप्रकट है, किसी विभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है, चाहे वह आलंबन हो अथवा उद्दीपन, अतएव अनुभावों द्वारा ही विभाव की सूचना मिल रही है । किसी श्रम, आवेग, चिंता और शंका के द्वारा ही ऐसी दशा होने को संभावना है, अतएव संचारी का उद्बोध भी उससे हो रहा है ।

केवल संचारी द्वारा रस का आविर्भाव —

करति सुधारस पानसी रस बस है सरसाति ।

कत गयदगतिगामिनी उमगति आवति जाति ॥३॥

इस दोहे में हर्ष और औत्सुक्य पूर्ण मात्रा में मौजूद हैं, जो कि संचारी हैं । वे ही उस विभाव की ओर भी सकेत कर रहे हैं जो उनके आधार हैं । उमग-उमग कर आना-जाना अनुभाव के अप्रदूत हैं ।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के द्वारा ही रस की उत्पत्ति होती है, किसी एक के द्वारा नहीं ।

जहाँ इनमें से कोई एक या दो होता है, वहाँ आक्षेप द्वारा शेष दो या एक का भी ग्रहण हो जाता है। यही बात पंडितराज जगन्नाथ भी रसगंगाधर में कहते हैं—यथा

“एवं च प्रामाणिके मिलिताना व्यञ्जकत्वे यत्र क्वचिदेकस्मादेवा साधारणा-
द्रसोद्बोधस्तत्रैतरद्वयमाक्षेप्यमनोनानैकान्तिकत्वम्”।

“ऐसे स्थलों में अन्य दोनों का आक्षेप कर लिया जाता है, सो यह बात नहीं है कि रस कहीं सम्मिलितों से उत्पन्न होता है, और कहीं एक ही से, किंतु तीनों के सम्मेलन के बिना रस उत्पन्न होता ही नहीं।”

—हिंदी रसगंगाधर

इसके अतिरिक्त एक बात और है। वह यह कि यदि केवल विभास्य या अनुभाव अथवा संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होने लगे तो रस के निर्णय में व्याघात उपस्थित होगा। कारण यह है कि एक विभाव अनेक रसों का विभाव हो सकता है, ऐसे ही एक अनुभाव अथवा संचारी भाव कई रसों में पाया जाता है। काव्यप्रकाशकार लिखते हैं—

“व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरौद्राणाम्। अश्रुपाता दयोऽनु-
भावाः शृंगारस्येव करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृंगारस्येव वीर-
करुणभयानकानामिति, पृथगनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः।”

“भयानक रस के विभाव व्याघ्र आदि वीर, अद्भुत और रौद्र रस के भी विभाव, शृंगार रस के अनुभाव अश्रुपातादिक करुण और भयानक रस के भी अनुभाव और चिन्तादिक व्यभिचारी शृंगार रस के अतिरिक्त वीर करुण और भयानकादि अन्य रसों के भी व्यभिचारी भाव हो सकते हैं। इसीलिये सूत्रकार भरत मुनि ने सूत्र में इन सब के सम्मिलन से ही रस की उत्पत्ति मानी है, पृथक्त्व से नहीं।”

—हिंदी रसगंगाधर

ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि विभाव, अनुभाव, और संचारी,

तीनों के संयोग से ही एक ऐसे रस की उत्पत्ति होगी, जो अन्य रसों से भिन्न होगा और जिसकी समता दूसरे से न हो सकेगी।

रस की कल्पना

रस की कल्पना संस्कृत में हुई है, अँगरेजी अथवा अरबी-फारसी में इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं। वास्तव में परिपुष्ट भाव का ही नाम रस है, इसलिये भाव के पर्यायवाची शब्द ही अन्य भाषाओं में मिलते हैं, अँगरेजी में भाव को 'इमोशन' और फारसी में 'जज्बा' कहते हैं। अभिनय अवलोकन के समय जो तन्मयता दर्शकों में देखी जाती है, उसके आधार से ही रस की कल्पना हुई ज्ञात होती है, क्योंकि नट्यरत्न में ही पहले-पहल इसका नियमबद्ध उल्लेख हुआ है। महामुनि भरत कहते हैं कि 'द्रुहिण' नामक किसी आचार्य्य द्वारा इसका आविष्कार हुआ। वे लिखते हैं—'एते ह्यथै रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना' कितु अग्निपुराण में उसकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी गई है—

अक्षर परमं ब्रह्म सनातनमज विभुम् ।
 आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन ।
 व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ॥
 आद्यस्तस्य विकारो यः सोहङ्कार इति स्मृतः ।
 तताभिमानस्तत्रेद समाप्त भुवनत्रयम् ॥
 अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी ।
 रागाद्भवति शृङ्गारो रौद्रस्तैर्द्वयात्प्रजायते ॥
 वीरोऽवष्टम्भजः सङ्कोचभूर्वीभत्स इष्यते ।
 शृगाराजायते हासो रौद्रात्तु करुणो रसः ॥
 वीराञ्चाद्भुतनिष्पत्तिः स्याद्द्वीभत्साद्भयानकः ।

✓ 'जो अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अज और विभु है, उसका सहज आनन्द कभी-कभी प्रकट हो जाता है। यह अभिव्यक्ति चैतन्य, चम-

त्कार और रसमय होती है। उसके आदिम विकार को अहंकार कहते हैं, उससे अभिमान (ममता) की उत्पत्ति हुई, जो भुवन में व्याप्त है। उस अभिमान (ममता) से रति उत्पन्न होकर परिपुष्ट हुई। बाद को राग (रति) से शृंगार की, तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर की और संकोच से बीभत्स की सृष्टि हुई। फिर शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और बीभत्स से भयानक का आविर्भाव हुआ।

महामुनि भरत भी पहले चार रस की ही उत्पत्ति मानते हैं, और उनसे अन्य रसों की। वे लिखते हैं—‘तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः शृंगारो रौद्रो वीरो बीभत्स इति’ ‘उनके (रसों के) उत्पत्ति के हेतु चार रस हैं— शृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। इनके उपरांत वे यह कहते हैं—

शृंगाराद्धि भवेद्भास्यो रौद्राच्च करुणो रसः ।
 वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः ॥
 शृंगारानुकृतिर्यातु स हास्यस्तु प्रकीर्तितः ।
 रौद्रस्यैव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः ॥
 वीरस्यापि च यत्कर्म सोऽद्भुतः परिकीर्तितः ।
 बीभत्सदर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः ॥

शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, और बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति हुई। शृंगार की अनुकृति हास्य का, रौद्र का कर्म करुण का, वीर का कार्य अद्भुत का और बीभत्स दर्शन भयानक का जनक है।

अग्निपुराण में रसों की उत्पत्ति जिस प्रकार दिखलाई गई है, वह बहुत ही स्वाभाविक है। ईश्वर रस स्वरूप है, श्रुतियों में उसको ‘सो वै सः’, कहा गया है, इसलिये उसको रस का आधार कहना, अथवा उसके द्वारा रस का विकास दिखलाना, वास्तविकता पर प्रकाश डालना है। रस क्या है ? उसके आनंद की अभिव्यक्ति है। आनंद का यथार्थ उद्रेक ही रसत्व को प्राप्त होता है। आनंद का उपभोग अहंभाव ही

इसलिये बाद को हास्य भी एक रस माना गया। क्रोध में आकर यदि कोई किसी को प्रहार कर बैठता है, अथवा किसी को लगतो किंवा कटु बातें कहता है, तो वह व्यथित अथवा आहत हुए बिना नहीं रहता, उसके हृदय में शोक भी उत्पन्न हो जाता है, और वह अपने दुःखों का वर्णन कर के रोने कल्पने भी लगता है, यही करुण रस है, जो रौद्र रस का कार्य है। इसीलिये करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी गई है। इसमें भी स्थायिता और व्यापकता है, अतएव धीरे-धीरे यह भी रस में परिगणित हो गया। यह कौन नहीं जानता कि वीर के कार्य आश्चर्यजनक होते हैं, वीरपुंगव अंजनीनंदन ने, महापराक्रमी भीष्मपितामह ने महाभारत विजयी धनंजय ने जो वीरता के कार्य किये हैं वे किसको चकित नहीं बनाते। महाराणा प्रताप, वीरवर नैपोलियन के वीरकर्म भी लोक विश्रुत हैं, और सब लोग इनको अद्भुतकर्मा कहते हैं। इसलिये वीरता के कर्मों को अद्भुत रस का जनक माना गया है। रणभूमि को रक्ताक्त देखकर, मज्जा मेद मांस को जहाँ तहाँ खाते-पीते नुचते अबलोकन कर, कटे मुंडों पर बैठ काकों को आँखें निकालते, गीधों को अंतड़ियाँ खींचते, शृंगालों को लोथ घसीटते और कुत्तों को हड्डियाँ चबाते देख किसके हृदय में भय का संचार न होगा। इसीलिये बीभत्स दर्शन से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है। मेरा विचार है इस विषय में जो सिद्धांत महामुनि भरत और अग्निपुराण के हैं, वे युक्तिसंगत और उपपत्तिमूलक हैं।

जैसे पहले चार रस, फिर आठ रस की कल्पना हुई, वैसे ही काल पाकर नवाँ रस शांत भी स्वीकृत हुआ। यद्यपि तर्क वितर्क इस विषय में भी हुए, परन्तु आजकल अधिक सम्मति से नव रस ही माने जाते हैं। रसगंगाधरकार लिखते हैं—

‘यैरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाधकाभावांमहाभारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानतया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽवश्यं

इसलिये बाद को हास्य भी एक रस माना गया। क्रोध में आकर यदि कोई किसी को प्रहार कर बैठता है, अथवा किसी को लगतो किवा कटु बातें कहता है, तो वह व्यथित अथवा आहत हुए बिना नहीं रहता, उसके हृदय में शोक भी उत्पन्न हो जाता है, और वह अपने दुःखो का वर्णन कर के रोने कल्पने भी लगता है, यही करुण रस है, जो रौद्र रस का कार्य है। इसीलिये करुण रस की उत्पत्ति रौद्ररस से मानी गई है। इसमें भी स्थायिता और व्यापकता है, अतएव धीरे-धीरे यह भी रस में परिगणित हो गया। यह कौन नहीं जानता कि वीर के कार्य आश्चर्य-जनक होते हैं, वीरपुंगव अंजनीनंदन ने, महापराक्रमी भीष्मपितामह ने महाभारत विजयी धनंजय ने जो वीरता के कार्य किये हैं वे किसको चकित नहीं बनाते। महाराणा प्रताप, वीरवर नैपोलियन के वीरकर्म भी लोक विश्रुत हैं, और सब लोग इनको अद्भुतकर्मा कहते हैं। इसलिये वीरता के कर्मों को अद्भुत रस का जनक माना गया है। रणभूमि को रक्ताक्त देखकर, मज्जा मेद मांस को जहाँ तहाँ खाते-पीते नुचते अबलोकन कर, कटे मुंडो पर बैठ काको को आँखें निकालते, गीधों को अंतड़ियाँ खींचते, शृंगालो को लोथ घसीटते और कुत्तों को हड्डियाँ चबाते देख किसके हृदय में भय का संचार न होगा। इसीलिये बीभत्स दर्शन से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है। मेरा विचार है इस विषय में जो सिद्धांत महामुनि भरत और अग्निपुराण के हैं, वे युक्तिसंगत और उपपत्तिमूलक हैं।

जैसे पहले चार रस, फिर आठ रस की कल्पना हुई, वैसे ही काल पाकर नवाँ रस शांत भी स्वीकृत हुआ। यद्यपि तर्क वितर्क इस विषय में भी हुए, परन्तु आजकल अधिक सम्मति से नव रस ही माने जाते हैं। रसगंगाधरकार लिखते हैं—

‘वैरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाषकाभावांन्महाभार-
तादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानतया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽवश्य

संसार में जितने कामप्रद सुख हैं, जितने दिव्य और महान् सुख हैं, वे वृष्णाक्षय सुख के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं हैं ।

पंडितराज जगन्नाथ ने साधारण निर्वेद को व्यभिचारी माना है, और रस-अवस्था-प्राप्त को स्थायी । उसी को प्रदीपकार ने 'शम' कहा है । सिद्धांत दोनों का एक है । चाहे उसे शम कहें या उच्च कोटि का निर्वेद—किंतु यह स्थायी भाव कितना महत्त्व रखता है, वह महर्षि द्वैपायन के कथन से प्रकट है । कोई समय था, जब भारतवर्ष में शांत रस की धारा बह रही थी, आज भी उसका प्रवाह बहुत कुछ सुरक्षित है । आर्य-संस्कृति में उसकी बड़ी महत्ता है, और इस जाति के समस्त महान् ग्रंथ उच्च कंठ से उसका यशोगान कर रहे हैं । मानव-जीवन में त्याग की बड़ी महिमा है और इसमें संदेह नहीं कि सच्चो शांति और परमानंद की प्राप्ति उसीसे होती है । ऐसी अवस्था में उसका रस में न गिना जाना, असंभव था । काल पाकर मनीषियों की दृष्टि इधर गई और वह भी रसों में गिना गया । यहाँ तक कि नाटक में भी उसको स्थान मिला और इस रस का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक एक क्षमता-शालिनी लेखनी द्वारा निर्मित होकर संस्कृत-साहित्य में समादरणीय स्थान पा गया ।

रस की संख्या नव तक आकर समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा सकता । अब भी नये-नये रसों की कल्पना हो रही है । वास्तविक बात यह है कि भाव ही उत्कर्ष पाकर रस का स्वरूप धारण करते हैं । काव्यप्रकाशकार कहते हैं—'रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः' 'भावः प्रोक्तः' देवादि (अर्थात् देव, मुनि, गुरु, नृप, पिता, ज्येष्ठ भ्राता आदि गुरुजनों और लघु भ्राता एवं पुत्रादि को रति और व्यंजित व्यभिचारी की संज्ञा भाव है ।) इस सिद्धांत के अनुसार देव भक्ति और वात्सल्य आदि भाव हैं, रस नहीं; किंतु कुछ आचार्यों ने इन्हें भी रस माना है । कुछ लोग सख्य को रस कहने लगे हैं । अतएव रस की संख्या कहाँ तक

संसार में जितने कामप्रद सुख हैं, जितने दिव्य और महान् सुख हैं, वे वृष्णाक्षय सुख के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं हैं ।

पंडितराज जगन्नाथ ने साधारण निर्वेद को व्यभिचारी माना है, और रस-अवस्था-प्राप्त को स्थायी । उसी को प्रदीपकार ने 'शम' कहा है । सिद्धांत दोनों का एक है । चाहे उसे शम कहें या उच्च कोटि का निर्वेद—कितु यह स्थायी भाव कितना महत्त्व रखता है, वह महर्षि द्वैपायन के कथन से प्रकट है । कोई समय था, जब भारतवर्ष में शांत रस की धारा बह रही थी, आज भी उसका प्रवाह बहुत कुछ सुरक्षित है । आर्य-संस्कृति में उसकी बड़ी महत्ता है, और इस जाति के समस्त महान् ग्रंथ उच्च कंठ से उसका यशोगान कर रहे हैं । मानव-जीवन में त्याग की बड़ी महिमा है और इसमें संदेह नहीं कि सच्चो शांति और परमानंद की प्राप्ति उसीसे होती है । ऐसी अवस्था में उसका रस में न गिना जाना, असंभव था । काल पाकर मनीषियों की दृष्टि इधर गई और वह भी रसों में गिना गया । यहाँ तक कि नाटक में भी उसको स्थान मिला और इस रस का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक एक क्षमता-शालिनी लेखनी द्वारा निर्मित होकर संस्कृत-साहित्य में समादरणीय स्थान पा गया ।

रस की संख्या नव तक आकर समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा सकता । अब भी नये-नये रसों की कल्पना हो रही है । वास्तविक बात यह है कि भाव ही उत्कर्ष पाकर रस का स्वरूप धारण करते हैं । काव्यप्रकाशकार कहते हैं—'रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः' 'भावः प्रोक्तः' देवादि (अर्थात् देव, मुनि, गुरु, नृप, पिता, ज्येष्ठ भ्राता आदि गुरुजनों और लघु भ्राता एवं पुत्रादि की रति और व्यञ्जित व्यभिचारी की संज्ञा भाव है ।) इस सिद्धांत के अनुसार देव भक्ति और वात्सल्य आदि भाव हैं, रस नहीं; किंतु कुछ आचार्यों ने इन्हें भी रस माना है । कुछ लोग सख्य को रस कहने लगे हैं । अतएव रस की संख्या कहाँ तक

इन वासनारूप भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिरपद का अर्थ है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहीं होती, क्योंकि उनकी चमक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है'। —हिंदी रसगंगाधर

रस की कल्पना कैसे हुई, इस विषय में जो ज्ञात हुआ, लिखा गया। भिन्न-भिन्न रसों का विशेष वर्णन मुख्य ग्रंथ में किया गया है।

परस्पर विरोधी रस

कुछ रसों का कुछ रसों के साथ विरोध है। जिस रस का जिस रस से विरोध नहीं है उस रस का उसके साथ अविरोध माना जाता है।

साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

आद्यः करुणबीभत्सरौद्रवीरभयानकैः ।
 भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक् ।
 करुणो हास्यशृंगाररसाभ्यामपि तादृशः ॥
 रौद्रस्तु हास्यशृंगारभयानकरसैरपि ।
 भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥
 शृंगारवीररौद्राख्यहास्यशान्तैर्भयानकः ।
 शान्तस्तु वीरशृंगाररौद्रहास्यभयानकैः ॥
 शृंगारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ।

इन श्लोकों का यह अर्थ हुआ—

- विरोध है—(१) शृंगार रस का करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक के साथ ।
 (२) हास्य रस का भयानक और करुण के साथ ।
 (३) करुण रस का हास्य, शृंगार के साथ ।
 (४) रौद्र रस का हास्य, शृंगार और भयानक के साथ ।
 (५) भयानक रस का शृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत के साथ ।

इन वासनारूप भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिरपद का अर्थ है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहीं होती, क्योंकि उनकी चमक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है'। —हिंदी रसगगाधर

रस की कल्पना कैसे हुई, इस विषय में जो ज्ञात हुआ, लिखा गया। भिन्न-भिन्न रसों का विशेष वर्णन मुख्य ग्रंथ में किया गया है।

परस्पर विरोधी रस

कुछ रसों का कुछ रसों के साथ विरोध है। जिस रस का जिस रस से विरोध नहीं है उस रस का उसके साथ अविरोध माना जाता है।

साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

आद्यः करुणबीभत्सरौद्रवीरभयानकैः ।
 भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक् ।
 करुणो हास्यशृंगाररसाभ्यामपि तादृशः ॥
 रौद्रस्तु हास्यशृंगारभयानकरसैरपि ।
 भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥
 शृंगारवीररौद्राख्यहास्यशान्तैर्भयानकः ।
 शान्तस्तु वीरशृंगाररौद्रहास्यभयानकैः ॥
 शृंगारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ।

इन श्लोकों का यह अर्थ हुआ—

विरोध है—(१) शृंगार रस का करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक के साथ।

(२) हास्य रस का भयानक और करुण के साथ।

(३) करुण रस का हास्य, शृंगार के साथ।

(४) रौद्र रस का हास्य, शृंगार और भयानक के साथ।

(५) भयानक रस का शृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत के साथ।

ने रौद्र का विरोधी शांत को लिखा है, परंतु साहित्यदर्पणकार ने यह नहीं लिखा, यद्यपि शांत का विरोधी रौद्र को स्वीकार किया है ।

अद्भुत के विषय में साहित्यदर्पणकार बिल्कुल चुप हैं, किंतु रसगंगाधरकार ने उसको शृंगार और वीर दोनों का अविरोधी बतलाया है ।

रसों के विरोध और अविरोध के विषय में यद्यपि इस प्रकार की भिन्नता आचार्यों की सम्मतियों में देखी जाती हैं, किंतु मैं यह कहूँगा कि साहित्यदर्पण की सम्मति बहुत मान्य है, साथ ही अधिकतर निर्दोष और पूर्ण है ।

रस-परिपाक के लिये आवश्यक है कि दो विरोधी रसों का वर्णन साथ साथ न किया जावे, क्योंकि इसका परिणाम यह होता है कि या तो वे परस्पर एक दूसरे के रस-विकास के बाधक होते हैं, जिससे रस-आस्वादन का आनंद क्लुषित हो जाता है । अथवा यदि दोनों सबल हुए, तो संघर्ष उपस्थित होने-पर दोनों का नाश हो जाता है, जिससे वह उद्देश्य विनष्ट होता है, जिसके लिये उनकी सृष्टि हुई ।

रस-विरोध का परिहार

जब दो विरोधी रस एकत्र आ जावें, तो उस समय विरोध-परिहार का उद्योग करना चाहिये, ऐसा हो जाने पर रस-व्याघात की आशंका दूर हो जाती है । विरोध-परिहार कैसे किया जावे, इस विषय में काव्य-प्रकाश को यह सम्मति है—

आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः ।

रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः ॥

स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः ।

अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम् ॥

इन पंक्तियों का अर्थ यह हुआ —

ने रौद्र का विरोधी शांत को लिखा है, परंतु साहित्यदर्पणकार ने यह नहीं लिखा, यद्यपि शांत का विरोधी रौद्र को स्वीकार किया है।

अद्भुत के विषय में साहित्यदर्पणकार बिल्कुल चुप हैं, किंतु रसगंगाधरकार ने उसको शृंगार और वीर दोनों का अविरोधी बतलाया है।

रसो के विरोध और अविरोध के विषय में यद्यपि इस प्रकार की भिन्नता आचार्यों की सम्मतियों में देखी जाती हैं, किंतु मैं यह कहूँगा कि साहित्यदर्पण की सम्मति बहुत मान्य है, साथ ही अधिकतर निर्दोष और पूर्ण है।

रस-परिपाक के लिये आवश्यक है कि दो विरोधी रसों का वर्णन साथ साथ न किया जावे, क्योंकि इसका परिणाम यह होता है कि या तो वे परस्पर एक दूसरे के रस-विकास के बाधक होते हैं, जिससे रस-आस्वादन का आनंद क्लृप्त हो जाता है। अथवा यदि दोनों सबल हुए, तो संघर्ष उपस्थित होने-पर दोनों का नाश हो जाता है, जिससे वह उद्देश्य विनष्ट होता है, जिसके लिये उनकी सृष्टि हुई।

रस-विरोध का परिहार

जब दो विरोधी रस एकत्र आ जावें, तो उस समय विरोध-परिहार का उद्योग करना चाहिये, ऐसा हो जाने पर रस-व्याघात की आशंका दूर हो जाती है। विरोध-परिहार कैसे किया जावे, इस विषय में काव्य-प्रकाश की यह सम्मति है—

आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः ।
 रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः ॥
 स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः ।
 अङ्गिन्यङ्गत्वमातौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम् ॥

इन पंक्तियों का अर्थ यह हुआ —

विरोध का परिहार हो जाता है—

- (१) जब दो विरोधी रसों का आधार एक हो तो उनका आधार भिन्न-भिन्न कर देने से ।
- (२) दो विरोधी रसों के मध्य में एक ऐसे रस को स्थापित कर देने से जो दोनों का अविरोधी हो ।
- (३) जब विरोधी रस का आधार स्मरण हो ।
- (४) जब दो विरोधी रसों में साम्य स्थापित कर दिया जावे ।
- (५) जब दो विरोधी रस किसी अन्य रस के अंगांगी भाव से अंग बन गये हों ।

अब उदाहरण देता हूँ—निम्नलिखित दोहे को देखिये—

वान तानि कै कान लौं खैचे कठिन कमान ।

भमरि भमरि सारे सुभट भागे भीरु समान ॥

वीर और भयानक एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिये किसी पद्य में एक साथ नहीं आ सकते, परंतु इस पद्य में दोनों साथ आये हैं, फिर भी रसप्रवाह में बाधा नहीं पड़ी, कारण यह है कि पहले चरण का आलंबन (आधार) वीर और दूसरे चरण का आलंबन (आधार) भयानक सुभट हैं । यद्यपि दोनों रसों का आधार एक ही पद्य है, किंतु दोनों के दो आलंबन हो जाने के कारण वह बाधा दूर हो गई, जो एक ही आलंबन होने से उपस्थित होती, इसलिये रस का आस्वादन अबाध रहा । पद्य पढ़कर स्वयं आपको इसका अनुभव होगा । रस-परिहार के पहले नियम में यही बात कही गई है । अब दूसरे नियम का उदाहरण लीजिये—

का भो जो उर मैं भखो भव विराग बर चित्त ।

भुवन-बिमोहक माधुरी हरति न काको चित्त ॥

बड़े-बड़े विरागियों के चित्त को भी अलौकिक लावण्य विचलित कर देता है, यह बात अविदित नहीं, इस दोहे में इसी बात का वर्णन

है। पशुली पंक्ति में विराग का निरूपण है, दूमरी पंक्ति के अंत में माधुरी द्वारा चित्त का हरण होना, शृंगार गर्भित है, दोनों परस्पर विरोधी हैं, किन्तु मध्य के 'भुवन-विमोहक' वाक्य ने (जो अद्भुत रस की अवतारणा करता है) दोनों के विरोध का परिहार कर दिया है। भवविरागमूलक शांत रस के उपासक के चित्त को कोई माधुरी कदापि आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि विराग और आसक्ति परस्पर विरोधी हैं। परंतु जो अद्भुत माधुरी भुवन-विमोहक है, उसका उसके चित्त को हरण कर लेना स्वाभाविक है। इसीलिये उसके द्वारा शांत और शृंगार के विरोध का परिहार हुआ। दूसरे नियम का यही वक्तव्य था। अब तीसरे नियम का उदाहरण लीजिये—

सोहै, रुधिर भरो परो महि में सहि-सहि वार ।

कबौ कान्तकर जो हुतौ कलित कंठ को द्वार ॥

किसी वीर रसिकशिरोमणि की भुजा को रुधिर भरी पृथ्वी पर पड़ी देखकर एक सहृदय का यह कथन है। उसकी भुजा को इम बुरी दशा में पाकर वह समय याद आ गया, जब वह सुदरी ललनाओं के कमनीय कंठों में पड़ा रहकर किसी अपूर्व गजरे की शोभा धारण करता होगा, अतएव उसका शोक बढ़ गया और उसके हृदय का भाव दोहे के रूप में परिणत हुआ। यहाँ स्पष्ट शृंगार, करुण रस का सहायक है, बाधक नहीं, इसीलिये यह स्वीकार किया गया है कि स्मरण किये गये विरोधी रस से विरोध का परिहार हो जाता है। चौथे नियम का उदाहरण यह है—

काल बिमुखता का कहौ मुख न कहत बर बैन ।

रस बरसन पावत नहीं रस बरसनपट्ट नैन ॥

यह एक प्रेमिक की उक्ति है, वह अपनी स्वर्गगता प्रेमिका के शरीर को सामने पड़ा देखकर भग्नहृदय है और प्रेम का उद्रेक होने से, अपने हृदय की वेदना को व्यथामय शब्दों में वर्णन कर रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष

नायक का प्रेम (जो शृंगार रस का स्थायी है) शोक का अंग बन गया है क्योंकि वह उसकी वृद्धि कर रहा है । अतएव विरोधी होने पर भी वह रस का बाधक नहीं, वरन वर्द्धक है, इसलिये चौथे नियम का संगत होना स्पष्ट है । पाँचवें नियम का उदाहरण—

कहा भयो जीते समर लहे कुसुम सम गात ।

बात कहत ही मनुज जो काल गाल में जात ॥

इस पद्य के प्रथम चरण में वीर रस और द्वितीय चरण में शृंगार रस विराजमान है । तीसरा-चौथा चरण शांत रस-गर्भित है । वीर और शृंगार परस्पर विरोधी हैं, किंतु वे दोनो शांत रस के अंग बन गये हैं । इसीलिये उनके पारस्परिक विरोध का परिहार हो गया है । शांत रस की प्रधानता ही पद्य में दृष्टिगोचर हो रही है, शेष दोनो रसों ने अंगांगी-भाव से उसमें अपने को विलीन कर दिया है, क्योंकि वे उसकी पुष्टि कर रहे हैं । इसलिये पंचम नियम की विरोध-परिहार-शक्ति स्पष्ट है ।

रसगंगाधरकार कहते हैं—

“यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिस्तत्रापि विरोधो निवर्त्तते”

‘जहाँ एक से विशेषणों के प्रभाव से दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनका विरोध-निवृत्त हो जाता है’—यथा

आहव मै आरक्त है बहि यौवन मदभार ।

कर आलिगन अवनि को सोये सुभट अपार ॥

उनकी यह सम्मति भी है—

‘कि च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छना विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यत्वेन निबन्धन काव्यमेव, तथा हि सति वैरिविजयकृता वर्ण्यस्य कापि शोभा सपद्यते । बाध्यत्व च रसस्य प्रबलैर्विरोधिनो रसस्याङ्गैर्विद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेषु निषर्त्तेः प्रतिबन्धः”

“प्रकरण प्राप्त रस को अच्छी तरह पुष्ट करने के लिये विरोधी रस का बाधित करना उचित है, अतः उसका वर्णन अवश्य करना चाहिये,

क्योंकि ऐसा करने से, जिस रस का वर्णन किया जा रहा है, उसकी शोभा वैरी का विजय कर लेने के कारण अनिर्वचनीय हो जाती है। रस के बाधित किये जाने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अंगों के प्रबल होने के कारण, अपने अंगों के विद्यमान होने पर भी रस की अभिव्यक्ति का रुक जाना। अर्थात् किसी रस के अभिव्यक्त होने की सामग्री के होने पर भी, दूसरे रस की सामग्री के प्रबल होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम है, रस का बाध्य होना।”

—हिदी रसगगाधर (पृ० १३७)।

रस-दोष

रस-दोष का वर्णन काव्यप्रकाशकार और साहित्यदर्पण के रचयिता ने कविता-गत दोषों के साथ किया है, किंतु रसगंगाधरकार ने उसको रस के ही निरूपण में लिखा है। मैं भी इस विचार से इसका वर्णन यहाँ करता हूँ कि जिससे रस-संबंधी सब बातें इस प्रकरण में आ जावें। साहित्यदर्पणकार ने निम्नलिखित रस-दोष बतलाये हैं। यही सम्मति काव्यप्रकाशकार की भी है—

रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसचारिणोरपि ॥
 परिपथिरसागस्य विभावादेः परिग्रहः ।
 आक्षेपः कल्पितः कृच्छ्रादनुभावविभावयोः ॥
 अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः ।
 अंगिनोऽननुसंधानमनङ्गस्य च कीर्तनम् ॥
 अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्ययः ।
 अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥

ये सब रस के दोष हैं—

(१) किसी रस का उसके वाचक पद से अर्थात् सामान्यवाचक रस शब्द से या विशेषवाचक शृंगारादि शब्दों से कथन करना ।

- (२) स्थायीभाव और संचारिभावो का उनके वाचक पदों से अभिज्ञान करना ।
- (३) विरोधी रस के अंगभूत विभाव अनुभावादिकों का वर्णन करना ।
- (४) विभाव और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकना ।
- (५) रस का अस्थान (अनुचित स्थान) में विस्तार या विच्छेद करना—बारबार उसे उद्दीप्त करना ।
- (६) प्रधान को भुला देना अर्थात् अंगी का अनुसंधान न करना ।
- (७) जो अंग नहीं है उसका वर्णन करना ।
- (८) अंगभूत रस को अति विस्तृत करना ।
- (९) प्रकृतियों का विपर्यास करना अर्थात् उन्हें उलट-पलट देना ।
- (१०) अर्थ अथवा अन्य किसी के औचित्य को भंग कर देना ।
- अब उदाहरण देकर प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करता हूँ ।
- १—सामान्यरस शब्द और विशेष शृंगार शब्द का शब्द-वाच्यत्व ।

काके उर उपजत न रस मृगनयनी को चाहि ।

विधु-मुख-छवि शृंगार मैं मग्न करत नहि काहि ॥

इस पद्य के प्रथम भाग में रस शब्द और द्वितीय भाग में शृंगार शब्द आया है, पहला शब्द रस स्वयं अपना वाचक है, अतएव वह सामान्य है, दूसरा शृंगार शब्द रस का विशेष वाचक है अतएव पद्य में दोनो दोष उपस्थित हैं, इसलिये यह रचना सदोष है । प्रयोजन यह कि कविता में व्यंजना ही प्रधान होती है, जहाँ इस शक्ति से काम न लेकर अभिधा द्वारा काम निकाला जाता है, वहाँ कविता अपना महत्त्व खो देती है और उस पद से गिर जाती है, जो उसको महत्त्व प्रदान करता है, अतएव उसका सदोष होना स्पष्ट है । इस पद्य में अभिधा द्वारा काम लिया गया है, रस और शृंगार का नाम लेकर उसकी व्यंजना बिगाड़ दी गई है । उसको इतना खोल दिया गया है कि उसमें

व्यंजना का अवसर ही नहीं रहा। यदि 'काके उर उपजत न रस' के स्थान पर 'काको उर सरसत नहीं' अथवा 'काको उर उमगत नहीं' होता, और शृंगार के स्थान पर 'आनंद' रखा जाता, तो दोष दूर हो जाता। कविता की व्यंजना द्वारा ही रस का ज्ञान होना चाहिये, यदि रस ने प्रकट होकर स्वयं अपना नाम बतलाया तो उसमें कवि-कर्म कहाँ रहा ?

२—स्थायीभाव का स्वशब्दवाच्यत्व—

'भई सचरित रनि हिये छवि लखि बनी निहाल ।'

संचारी भाव का स्वशब्द वाच्यत्व—

'लज्जावश नव बाल के भे कपोल युग लाल ॥'

पहले चरण में रति शब्द का और दूसरे चरण में लज्जा का प्रयोग होने से पहले में स्थायीभाव और दूसरे में संचारी भाव अपने शब्दों में ही प्रकट किया गया, इसलिये दोनों में रस-दोष आ गया। इनमें भी वही बात है, जो ऊपर कही गई है, अर्थात् जिस बात को व्यंजना द्वारा प्रकट होना चाहिये था, उसे अभिधा द्वारा सूचित किया गया है। रसगंगाधरकार लिखते हैं—

“इत्थमविरोधसपादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शृंगारादिशब्दैर्वा नाभिधातुमुचितोऽनास्वाद्यतोपत्तेः । तदास्वादश्च व्यञ्जनमात्रनिष्पाद्य इत्युक्तत्वात् । यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं तत्र को दोष इति चेत्, व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात् । आस्वाद्यता-वच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयकल्पत्वेन विशेषदोष-त्वाच्च । एव स्थायिव्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्व दोषः ।”

“जिस रस का वर्णन किया जावे उसके रस शब्द अथवा शृंगारादि शब्दों से बोल देना अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से रस आस्वाद करने योग्य नहीं रहता, प्रकट हो जाने के कारण उसका मजा जाता रहता है, इसलिये पहले कह चुके हैं, कि रस का आस्वादन केवल व्यंजना वृत्ति से ही सिद्ध होता है। आप पूछ सकते हैं कि जहाँ विभा-

वादिको से अभिव्यक्त हुए रस को उसका नाम लेकर वर्णन कर दिया जावे, वहाँ कौन दोष होता है, तो उत्तर यह है कि व्यंग्य को वाच्य बना देने से सभी व्यंग्यों में 'वमन' नामक दोष होता है। पहले तो हुई सामान्य दोष की बात। पर रसो का जिस रूप में आस्वादन किया जाता है, वह प्रतीति वाच्यवृत्ति (अभिधा) के द्वारा अर्थात् उन रसो का नाम लेने से उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः जहाँ रसो का वर्णन हो, उस स्थल पर ऐसा करना बंदर की सी चेष्टा है, जो अपने घाव को ठीक करने के लिये खोदकर और बिगाड़ डालता है। इसी तरह स्थायी भावो और व्यभिचारी भावो को भी अभिधा शक्ति के द्वारा वर्णन करना अर्थात् उनके नाम ले लेकर लिखना दोष है।" —हिंदी रसगंगाधर (पृ० १३६)।

३—विरोधी रसों के अग-भूत विभाव अनुभावादिकों का वर्णन करना तीसरा दोष है—यथा—

‘मान करत कत कामिनी है यौवन दिन चार’।

यौवन का क्षणिक वर्णन शांत रस का अंग है, वह उसका उद्दीपन विभाव है, जो शृंगार-रस का विरोधी है, अतएव शृंगार-रस में इस प्रकार का कथन सदोष है।

४—विभाव और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकता। प्रयोजन यह कि जो वर्णन ऐसा हो कि जिसमें विभाव-अनुभाव का निर्देश कठिनता से हो सके, जिसके विभाव अनुभाव का निश्चय होना दुस्तर हो तो वह वर्णन भी दोषयुक्त माना जावेगा—

हंसत कलानिधि को निरखि मंद मद मुसुकाति ।

अवलोकहु नवलावधू नयन नचावत जाति ॥

इस पद्य में कलानिधि का उद्दीपन विभाव और नवल वधू का आलंबन विभाव होना स्पष्ट है, किंतु अनुभाव का आक्षेप उसमें सुगमता से नहीं किया जा सकता और यही इस पद्य का रस-दोष है। हृदय में रस का विकास उसी समय यथार्थ रीति से होता है, जब उसकी

अनुभूति में बाधा न पड़ती हो। जिस पद्य के विभाव, अनुभाव, आदि अबाध रीति से हृदयंगम होते हैं, वह पद्य जिस प्रकार सहज बोधगम्य और हृदयग्राही होता है, वैसा वह पद्य नहीं, जिसमें उनके बोध में कोई बाधा आ खड़ी हो। इसीलिये इस प्रकार के व्यापार को सदोष माना गया है। नवला का मंद-मंद मुस्काना और उसका 'नयन नचाते जाना' अवश्य अनुभाव हैं, किंतु नायक के विषय में स्पष्ट निर्देश न होने से यह विदित नहीं होता कि ये दोनों रति संबंधी कार्य हैं, अथवा साधारण विलास-मात्र। दूसरी बात यह कि 'अवलोकहु' के विषय में यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शब्द कौन किससे कहता है, इससे भी अनुभाव के स्पष्ट करने में जटिलता उपस्थित हो जाती है। यदि यह किसी सखी, सखा अथवा अन्य जन को उक्ति है, तो उनका उद्देश्य विलास अवलोकन कराना मात्र है, अथवा रति उत्पादन। कष्ट-कल्पना द्वारा ही कोई बात निश्चित होगी, इसीलिये इस प्रकार की रचना को सदोष कहा गया है।

चिंता की चेरी बनी बारि बिमोचत नैन।

कहा करौ बिचलित बने चूर भयो चित चैन ॥

जिस दशा का वर्णन इस पद्य में है, शृंगार रस में विरहिणी को भी ऐसी दशा हो सकती है और शोकग्रस्त होने पर किसी संतप्ता रमणी की भी यह करुणामयी दशा देखी जा सकती है, ऐसी अवस्था में यह निश्चित करना कठिन है कि यह किसी विरहिणी को उक्ति है, अथवा किसी शोकमयी साधारण रमणी की। अतएव इस पद्य का विभाव-निर्णय सहज नहीं। यह असहजता ही रस-दोष है।

नीचे के पाँच दोष प्रकरण संबंधी हैं, समस्त संस्कृत के लक्षण-ग्रंथों में उनका उल्लेख प्रकरण-द्वारा ही किया गया है। समस्त प्रकरण नाटकों से लिये गये हैं, अथवा काव्य-ग्रंथों से। इधर हिंदी भाषा में जो दो-चार ग्रंथ इस विषय के लिखे गये हैं, उनमें भी प्रकरणों के उदाहरण

संस्कृत के तत्संबंधी ग्रंथों से ही लिये गये हैं। मैं भी उन ग्रंथों के ही उदाहरण आप लोगों के सामने उपस्थित करूँगा। यह अवश्य है कि मैंने उन्हीं नाटक अथवा काव्य ग्रंथों को लिया है, जिनका अनुवाद हिंदी भाषा में हो चुका है। आशा है, इससे विषय के समझाने में असुविधा न होगी।

५—रस का अस्थान में विस्तार या विच्छेद करना, बार बार उसे उद्दीप्त करना—अकांड में अथवा अनवसर रस का विस्तार करना—जैसा वेणीसंहार नाटक के दूसरे अंक में किया गया है। जिस समय युद्ध छिड़ा हुआ था और अनेक कौरव वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, उस समय दुर्योधन का भानुमती के साथ शृंगार-रस-संबंधी विस्तृत वार्ता-लाप कराया गया है।

स्थान में विच्छेद—इसका उदाहरण महावीरचरित में मिलता है—विवाद के अवसर पर जिस समय परशुराम और रामचंद्र आवेश-पूर्ण थे, और वाद उग्र रूप धारण किये हुए था, उस समय कंकणमोचन के लिये रामचंद्र का बुलाकर विवाद का अंत कराया गया—यही स्थान अथवा अकांड-विच्छेद है।

रस का बार-बार उद्दीप्त करना। जैसा कुमारसंभव में रति विलाप के समय कराया गया है। इस विलाप में ऋण रस को बार-बार उद्दीप्त करने की चेष्टा की गई है—चतुर्थ सर्ग के २६ वें श्लोक तक रति का विलाप चलता है। इसके उपरांत उसके आश्वासन के लिये वसंत आता है। उसे देख रति का शोक और बढ़ता है। दो श्लोक में यह दिखलाकर कवि फिर रति के विलाप को प्रारंभ करता है जो ३२ वें श्लोक तक चलता है। एक बार विलाप को समाप्त करके उसको फिर उद्दीप्त किया गया है, अतएव इसको दोष माना है। मेरा विचार है कि इससे रस का परिपाक हुआ है, उसमें दोष नहीं आया किंतु यह एक

उदाहरण है। प्रयोजन यह कि जब रस बार-बार इतना उद्दीप्त किया जावे कि जो उद्वेगजनक हो, तब वह अवश्य दूषित हो जावेगा।

६—अंगी का अनुसंधान न करना—रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में यह वर्णन है कि सिंहलेश्वर का कंचुकी वाभ्रव्य जब आता है—तो सागरिका को ही भूल जाता है, यद्यपि नाटिका की प्रधान-नायिका वही है, उसका यह अननुसंधान काव्य-दृष्टि से दोषयुक्त है, क्योंकि इससे कर्तव्यपरायणता में च्युति दृष्टिगत होती है।

७—अनंग का वर्णन—प्रयोजन इसका यह है कि जो अंग नहीं है, उसका अथवा वर्णन कर्पूरमंजरी में प्रधान नायिका के वसंत वर्णन का उचित समादर न करके सट्टक के प्रधान पात्र ने बंदियों की वर्णना की प्रशंसा की। बंदी सट्टक के अंग नहीं थे, उनकी तो बड़ाई की गई। और प्रधान अंग का अनादर। अतएव यह अनंग वर्णन हुआ, काव्य में यह दोष माना गया है, इसलिये कि इससे वर्णनीय के प्रति वर्णन के एक प्रधान अधिकारी की अपेक्षा प्रकट होती है।

८—अंगभूत रस की विशेष विस्तृति—अभिप्राय यह है कि नाटक में जो रस प्रधान है, उसके अतिरिक्त उसके अंगभूत किसी दूसरे रस का विस्तृत वर्णन। किरातार्जुनीय काव्य में वीर रस प्रधान है। शृंगार रस इस काव्य में वीर रस का एक अंगमात्र है। परंतु कवि ने इस काव्य के आठवे सर्ग में अप्सराओं के विलास का विशद वर्णन किया है, अर्थात् अंगभूत शृंगार रस के वर्णन को विस्तृति दी। ऐसा करना इसलिये सदोष है कि अप्रधान प्रधान पद पा जाता है।

९—प्रकृतियों का विपर्यास करना—मतलब यह है कि जो जिसकी प्रकृति है, उसके विरुद्ध उसको अंकित करना अथवा उसके कार्य-कलाप दिखलाना। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

“प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति । तेषां धीरोदात्तादिता, तेषाम
प्युत्तमाधममध्यमत्वम् । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावर्णने प्रकृतिविपर्ययो दोषः ।

यथा धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छुद्धना बालिवधः । यथा वा कुमारसम्भके
उत्तमदेवतयोः पार्वतीररमेश्वरयोः सभोगशृंगारवर्णनम् । 'इद पित्रोः सभोगवर्णन-
मिवात्यन्तमनुचितम् इत्याहुः ।"

“प्रकृतियों तीन प्रकार की होती हैं—दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य ।
इनके धीरोदात्त आदि (धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, और धीर-
प्रशान्त) भेद भी पहले कहे हैं । उनमें भी उत्तमत्व, मध्यमत्व और
अधमत्व होता है । इनमें से जो जैसी प्रकृति का है उसके स्वरूप के
अनुरूप उसका वर्णन न होने से प्रकृति-विपर्यय होता है । जैसे धीरो-
दात्त नायक श्रीरामचंद्रजी का धीरोद्धत को भाँति कपट से वाली का
वध करना और कुमारसंभव में उत्तम देवता श्रीपार्वती और महादेव
का संभोग शृंगार वर्णन करना । इसके विषय में प्राचीन आचार्य
मम्मट कहते हैं कि माता-पिता के संभोग वर्णन के समान यह वर्णन
अत्यंत अनुचित है ।”

—हिंदी साहित्यदर्पण ।

दिव्य देवताओं की, अदिव्य मनुष्य की और दिव्यादिव्य प्रकृति
अवतारों और संसार के महापुरुषों की मानी जाती है । इसलिये इन
लोगों का वर्णन जिस समय किया जावे, उस समय इस बात का ध्यान
रखना चाहिये कि जो जिस प्रकृति का हो उसका वर्णन वैसा ही हो,
अन्यथा उस वर्णन में प्रकृति विपर्यय दोष आ जावेगा । असंभव कार्यों
को कर दिखलाना, स्वर्ग पाताल को छान डालना, समुद्र का उल्लघन
करना, बिना किसी यंत्र के आधार के शारीरिक शक्तियों द्वारा पत्तियों
के समान आकाश में उड़ना, दिव्य शक्तिवालो अथवा विशेष अवस्थाओं
में दिव्यादिव्य शक्तिवानो का कार्य है, यदि अदिव्य शक्तिवालों से
इस प्रकार के कर्म कराये जावें, तो वही प्रकृति-विपर्यय कहलावेगा,
और यह दोष है । इसी प्रकार यदि मानवों अर्थात् अदिव्य प्रकृतियों
की दुर्बलताएँ, उनकी लम्पटताएँ, उनका दुर्व्यसन, उनका भ्रम, मोह,
प्रमाद, दिव्य अथवा दिव्यादिव्य प्रकृतियों में दिखलाये जावे, तो यह

१—उपमा में असादृश्य अर्थात् साधारण धर्म की अप्रसिद्धि और असंभव अर्थात् उपमान की अप्रसिद्धि हो—

२—उपमान में जाति या प्रमाण न्यूनता या अधिकता विद्यमान हो—

३—‘अर्थात्तरन्यास’ अलंकार में यदि उत्प्रेक्षित अर्थ का समर्थन किया गया हो—तो वहाँ ‘अनुचितार्थ दोष’ होगा। यथा—

“विरचत काव्य कलाकरहिं कला संकलन हेतु।”

“ज्वलित बारि धारा सरिस बरसत बिसिख समूह।”

इन दोनों पद्यों में प्रथम में काव्य का उपमान कलाकर (चंद्रमा) को और दूसरे में विसिख समूह का उपमान ज्वलित वारि-धारा को बनाया है, दोनों में अप्रसिद्ध दोष है, काव्य का उपमान चंद्रमा लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसी प्रकार वारि-धारा जलती नहीं होती, यह बात भी प्रसिद्धि के प्रतिकूल है—अतएव दोनों में अप्रसिद्धि दोष है, इसलिये उनमें अनुचितार्थत्व है। क्योंकि उनमें प्रयोग का औचित्य नहीं है।

‘साहसीक है समर में नृप चंडाल समान’

इस पद्य में राजा का उपमान चांडाल है—जो अनुचित है—उसमें जातिगत न्यूनता है—

‘हैं कपूर के खंडसम चंद्रबिंब छवि देत’

‘क्योंकि कहाँ कर्पूर खंड और कहाँ चंद्रबिंब—इस पद्य में प्रमाणगत न्यूनता है।’

‘बिलसित है हर के सरिस नीलकंठ यह मोर’

इस पद्य के उपमान में जातिगत आधिक्य है, क्योंकि कहाँ तिर्यग्योनि मयूर और कहाँ महामहिम महेश्वर; इसलिये अनौचित्य की पराकाष्ठा है—

‘हैं तिय तेरे कुच युगल काहू अद्रि समान’।

‘ललना तेरो भाल है चमकत चंद्र समान।’

१—उपमा में असादृश्य अर्थात् साधारण धर्म की अप्रसिद्धि और असंभव अर्थात् उपमान की अप्रसिद्धि हो—

२—उपमान में जाति या प्रमाण न्यूनता या अधिकता विद्यमान हो—

३—‘अर्थात्तरन्यास’ अलंकार में यदि उत्प्रेक्षित अर्थ का समर्थन किया गया हो—तो वहाँ ‘अनुचितार्थ दोष’ होगा। यथा—

“विरचत काव्य कलाकरहि कला सकलन हेतु।”

“ज्वलित वारि धारा सरिस बरसत विसिख समूह।”

इन दोनो पद्यों में प्रथम में काव्य का उपमान कलाकर (चंद्रमा) को और दूसरे में विसिख समूह का उपमान ज्वलित वारि-धारा को बनाया है, दोनों में अप्रसिद्ध दोष है, काव्य का उपमान चंद्रमा लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसी प्रकार वारि-धारा जलती नहीं होती, यह बात भी प्रसिद्धि के प्रतिकूल है—अतएव दोनों में अप्रसिद्धि दोष है, इसलिये उनमें अनुचितार्थत्व है। क्योंकि उनमें प्रयोग का औचित्य नहीं है।

‘साहसिक है समर मे नृप चडाल समान’

इस पद्य में राजा का उपमान चांडाल है—जो अनुचित है—उसमें जातिगत न्यूनता है—

‘हैं कपूर के खंडसम चंद्रबिब छवि देत’

‘क्योंकि कहाँ कपूर खंड और कहाँ चंद्रबिब—इस पद्य में प्रमाणगत न्यूनता है।’

‘बिलसित है हर के सरिस नीलकठ यह मोर’

इस पद्य के उपमान में जातिगत आधिक्य है, क्योंकि कहाँ तिर्यग्योनि मयूर और कहाँ अहासहिंस महेश्वर; इसलिये अनौचित्य की पराकाष्ठा है—

‘हैं तिय तेरे कुच युगल काहू अद्रि समान’।

‘ललना तेरो भाल है चमकत चंद्र समान।’

इस पद्य के उपमान में प्रमाणाधिक्य है, अतएव अनौचित्य है, क्योंकि कुच और पहाड़, भाल और चंद्र की समता कैसी ?

दिवा भीत तम को रखत गिरि निज गुहा मम्कार ।

सरनागत लघु जनहुँ को बड़े करत उपकार ॥

जिसकी उपमा दी जाती है, अथवा उदाहरण देकर जिसे पुष्ट किया जाता है, वह कुछ असत्य-सा प्रतीत होता है। यदि ऐसा न होता तो उसके समर्थन को आवश्यकता न होती। तम जड़ पदार्थ है, वह भीत हो नहीं सकता, फिर सूर्य से डरकर उसका गुहा में छिपना कैसा ! यदि यह सत्य नहीं है, तो असत्य का समर्थन और प्रतिपादन करना उचित नहीं। यदि ऐसा किया जावे तो वह अनौचित्य है, इस पद्य में यही किया गया है, अतएव उसमें अनुचितार्थ दोष मौजूद है।

अर्थ के अतिरिक्त अन्य अनौचित्यों के विषय में साहित्यदर्पणकार यह लिखते हैं—

“अन्यदनौचित्य देशकालादीनामन्यथा यद्वर्णनम्”

“इसके अतिरिक्त देशकाल आदि के विरुद्ध वर्णन को भी अनौचित्य के अंतर्गत जानना चाहिये।” —हिंदी साहित्यदर्पण ।

एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं—

“अनौचित्यप्रवृत्तत्व आभासो रसभावयोः”

“अनौचित्य चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे प्रत्येकदेशयोगित्वोपलक्षणपरं बोध्यम् ।”

“रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हो तो उन्हें यथाक्रम रसाभास और भावाभास कहते हैं।”

“अनौचित्य पद को यहाँ एकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना चाहिये, अर्थात् यह पद यहाँ लक्षण से ‘एक संबंध’ का बोधक है। जहाँ भरत आदि से प्रणीत, रसभावादि के लक्षण पूर्ण रूप से संगत न

आश्रम के विरुद्ध—जैसे ब्रह्मचारी और संन्यासी का पान चबाना और स्त्री ग्रहण करना । अवस्था के विरुद्ध—जैसे बालक और बूढ़े का स्त्री-सेवन और युवा पुरुष का वैराग्य । स्थिति के विरुद्ध—जैसे दरिद्रों का भाग्यवानों जैसा आचरण और भाग्यवानों का दरिद्रों जैसा आचरण ।”

विद्वद्वर आनंदवर्द्धन लिखते हैं—

अनौचित्यादृते नाऽन्यद्रसभंगस्य कारणम् ।
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्थोपनिषत्परा ॥

“रस के भंग का, अनौचित्य के अतिरिक्त, अन्य कोई कारण नहीं है । प्रसिद्ध औचित्य का वर्णन करना ही, रस की बड़ी संपत्ति है ।”

—हिंदी रसगंगाधर पृ० १४३, १४५ ।

रसाभास

ऊपर आप पढ़ आये हैं कि रस जब अनौचित्य से प्रवृत्त होता है, तो उसे रसाभास कहते हैं । रसभंग होने पर ही रसाभास होता है और अनौचित्य ही रसभंग का कारण है । अनौचित्य क्या है ? वह भी बतलाया जा चुका है । किंतु इससे यह सीमित नहीं हुआ, उसकी संख्या आगे भी बढ़ सकती है । देश, काल, पात्र एवं सामाजिक आचार-विचार और व्यवहार के अनुसार अनौचित्य अनेक रूपरूपाय है, फिर भी लक्ष्य को ओर दृष्टि आकर्षण के लिये, उसके कतिपय रूपों का वर्णन मिलता है । रसगंगाधरकार ने जिन अनौचित्यों का उल्लेख किया है, वे लिखे जा चुके हैं । साहित्यदर्पणकार क्या कहते हैं, उसे भी सुनिये—

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।
बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् ॥
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते ।
शृंगारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥

आश्रम के विरुद्ध—जैसे ब्रह्मचारी और संन्यासी का पान चबाना और स्त्री प्रहण करना । अवस्था के विरुद्ध—जैसे बालक और बूढ़े का स्त्री-सेवन और युवा पुरुष का वैराग्य । स्थिति के विरुद्ध—जैसे दरिद्रों का भाग्यवानों जैसा आचरण और भाग्यवानों का दरिद्रों जैसा आचरण ।”

विद्वद्भिर आनन्दवर्द्धन लिखते हैं—

अनौचित्यादृते नाऽन्यद्रसभग्न्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

“रस के भंग का, अनौचित्य के अतिरिक्त, अन्य कोई कारण नहीं है । प्रसिद्ध अनौचित्य का वर्णन करना ही, रस की बड़ी संपत्ति है ।”

— हिंदी रसगंगाधर पृ० १४३, १४५ ।

रसाभास

ऊपर आप पढ़ आये हैं कि रस जब अनौचित्य से प्रवृत्त होता है, तो उसे रसाभास कहते हैं । रसभंग होने पर ही रसाभास होता है और अनौचित्य ही रसभंग का कारण है । अनौचित्य क्या है ? वह भी बतलाया जा चुका है । किंतु इससे यह सीमित नहीं हुआ, उसकी संख्या आगे भी बढ़ सकती है । देश, काल, पात्र एवं सामाजिक आचार, विचार और व्यवहार के अनुसार अनौचित्य अनेक रूपरूपाय है, फिर भी लक्ष्य की ओर दृष्टि आकर्षण के लिये, उसके कतिपय रूपों का वर्णन मिलता है । रसगंगाधरकार ने जिन अनौचित्यों का उल्लेख किया है, वे लिखे जा चुके हैं । साहित्यदर्पणकार क्या कहते हैं, उसे भी सुनिये—

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।

बहुनायकविषयाया रतौ तथाभयनिष्ठायाम् ॥

प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते ।

शृगारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥

शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाद्यालम्बने हास्ये ।
 ब्रह्मवधाद्युत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥
 उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र ।

“नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनु-
 राग हो तो वहाँ अनौचित्य जानना । एवं गुरुपत्नी आदि में अथवा
 अनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं)
 किवा प्रतिनायक अर्थात् नायक के शत्रु में या नीच पात्र में यदि किसी
 की रति (अनुराग) वर्णित हो तो वहाँ शृंगार-रस में अनौचित्य के
 कारण शृंगाराभास अथवा रसाभास जानना । इसी प्रकार यदि गुरु
 आदि पर क्रोध हो तो रौद्र रस में अनौचित्य होता है । एवं नीच पुरुषों
 में स्थित होनेपर शांत में, गुरु आदि आलंबन हो तो हास्य में ब्राह्मण-वध
 आदि कुकर्मों में उत्साह होने पर अथवा नीच पात्रस्थ उत्साह होने पर
 वीर रस में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानक रस में अनौचित्य
 होता है । इसी प्रकार और भी जानना चाहिये ।”

कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं—

उपनायकनिष्ठ रति—अथवा परपुरुषानुराग—

लखहु लपटि तरु पुज सो ललित लता लहराहि ।
 पथिक जात हो कित चले इत बिरमत कत नाहि ॥

इस दोहे में किसी विलासिनी का अनुराग एक पथिक के प्रति
 प्रकट होता है, जो उसका अपरिचित है, अतएव उसका उपनायकनिष्ठ
 होना स्पष्ट है ।

बहुनायकनिष्ठ रति—

किन नयनन मे नहि बसे को न इनहि मन देत ।
 बडे छबीले छयल ए काको नहि छरि लेत ॥

जिसके मुख से यह दोहा निकला है उसका मन अनेक सुंदर

युवकों के सौंदर्य-सरोज का मधुप है, इसलिये उसका बहुनायकनिष्ठ होना प्रकट है ।

अनुभयनिष्ठ रति—इसका भाव यह है कि जहाँ नायिका में प्रेमभाव उत्पन्न होकर केवल नायक ही में उसका विकास हुआ हो, अर्थात् ऐसी रति जो नायक नायिका दोनों में उत्पन्न नहीं हुई, यथा—

‘पिय तन छाँह बनन चहत तिय लखि छाँह डराति ।

पति का प्रेम तो इतना वर्द्धित है कि वह प्रायः पत्नी के साथ ही रहना चाहता है, किंतु पत्नी इतनी सलज्ज और संकोचवती है कि पति की छाया देखकर भी घबराती है । रस की पूर्णता दोनों के प्रेमसाम्य ही से होती है, इसलिये यहाँ भी रसाभास है—

प्रतिनायकनिष्ठ रति—अर्थात् ऐसी रति जो नायक के शत्रु में हो, यथा—

हो सुदर सुनयन रुचिर रुचि कामिनि चित चोर ।

कत चितवति है चतुर तिय प्रियतम अरि की ओर ॥

पति के शत्रु की ओर उसके सौंदर्य के कारण किसी स्त्री को बार-बार अवलोकन करते देखकर किसी बुद्धिमती सखी को यह बात असंगत जान पड़ी, अतएव वह उसको सावधान करती है । क्योंकि उसकी चितवन में उसके रूप के आकर्षण की भङ्गक उसे दिखलाई पड़ी । यह प्रत्यक्ष रसाभास है, क्योंकि सहधर्मिणी की यह प्रवृत्ति अनौचित्य के अंतर्गत है ।

अधमपात्रगत रति—अर्थात् जो पात्र रति योग्य नहीं है, उससे प्रीतियुक्त होना, यथा—

काहे लालायित बनत कोऊ द्विजकुल जात ।

मानि मानि यवनीन को नवनी कोमल गात ॥

• एक विप्रवंश जात का किसी युवती को नवनीतकोमलांगी कहकर प्रशंसा करना और उसके प्रेमपाश में बद्ध होना कितना अनुचित है,

इसको प्रत्येक आर्यधर्मावलंबी समझ सकता है। अधमपात्रगत रति का यह रोमांचकर उदाहरण है।

तिर्यग् योनिगत रति— तिर्यग् योनि कीट पतंगादि है, इनको प्रीति का अथवा शृंगारलीला का वर्णन करना तिर्यग् योनिगत रति कहलाती है, यथा—

जाति चमेली कुंज मैं निरखति ललित लतान ।
अलिनी खोजति फिरति है, अलि को करि कलगान ।

तिर्यग् योनिगत रति की वर्णना को इसलिये रसाभास माना है कि उसमें अधिकांश विकल्पना होती है, वास्तविकता कम। मानव-समाज की रति के समान उसमें पूर्णता भी नहीं होती।

रौद्र रसाभास; यथा—

बात कहा बैरीन की को मो सम बलवान ।
बिगारि गये बापहूँ पै हौ बगारि हौ बान ॥

गुरुजन पर क्रोध करना उचित नहीं, पिता सर्वप्रधान गुरु है। इस दोहे में कहा गया है कि यदि मैं बिगड़ जाऊँगा, तो बाप को भी बाण मार दूँगा, इससे बढ़कर क्या अनौचित्य होगा, अतएव इसमें प्रत्यक्ष रौद्र रसाभास है।

भयानक रसाभास—जहाँ किसी नरपुंगव अथवा वीर में भय दृष्टिगत होता है, वहाँ भयानक रसाभास होता है, यथा—

सुने असुर की असुरता सुरपुर सकल सकात ।
देखि दसवदन को वदन सुरपति मुख पियरात ॥

इस पद्य में वीर-शिरोमणि इंद्र के मुख का रावण के भय से पीत होना वर्णित है, इसलिये इसमें भयानक रसाभास है।

करुण रसाभास—जो करुणा अथवा दया का पात्र नहीं है, जब उस पर कृपा अथवा उसके विषय में करुणा की जाती है, तब करुण रसाभास होता है, यथा—

चहत अपावन करन सो भवपावन रस सोत ।
देख पतित की यातना जो दुख निपतित होत ॥

पाप कर्म में रत रहने के कारण जिसका पतन हो गया है, उसकी यातना अथवा ताड़ना होने से ही समाज का मंगल हो सकता है, अतएव वह इस योग्य होता है कि उसकी यातना हो और उसे दड दिया जावे। ऐसी का शासन होते देखकर जो दुःखित होता है, वह दया का अनुचित प्रयोग करता है और उसकी करुणा उचित नहीं होती। इस पद्य में इसी का वर्णन है, अतएव इसमें करुण रसाभास है।

हास्य रसाभास—जब हास्य रस का आलंबन वृद्धजन अथवा गुरुजन होते हैं, अर्थात् जब वृद्धजन अथवा गुरुजन की हँसी उड़ाई जाती है, तब हास्य रसाभास होता है, यथा—

सेत केस मिस अरुनि में पसरी कीरति सेत ।
कौन दाँत के गिर गये दाँत सुमुखि पै देत ॥

इस पद्य में एक वयोवृद्ध की हँसी उड़ाई गई है। प्रायः देखा जाता है कि वृद्धावस्था में हबस बढ़ जाती है, किसी किसी का मन वृद्धावस्था में भी युवा बना रहता है, वे दाँत गिर जाने पर भी सुमुखियों पर दाँत देते रहते हैं। 'दाँत गिर जाने पर दाँत देना' एक अद्भुत बात है; इसलिये पद्य में कहा गया है कि वृद्ध ने अद्भुत कर्मा बनकर श्वेत दाढ़ी के बहाने पृथ्वी पर अपनी श्वेत कोति फैलाई है। यह घोर व्यंग्य है, जो वृद्ध के चरित्र पर कुत्सित कटाक्ष करता है। चित्र सच्चा है, किंतु एक वृद्धजन का उससे संबंध होने के कारण उसे पढ़कर चित्त में क्षोभ होता है। वृद्धजन के साथ ऐसी हँसी उचित भी नहीं होती। अतएव यहाँ हास्य रसाभास है।

वीर रसाभास—जहाँ पर उत्साह औचित्य से गिर जाता है—वहाँ वीर रसाभास होता है, यथा—

वीर वहकि बाहत नही कबहुँ बधिक सम बान ।
बालक-अबला-वधनिरत वृथा बनत बलवान ॥

किसी बालक और अबला वध में उत्साहित जन के प्रति किसी तेजस्वी महात्मा की यह उक्ति है। इसमें कहा गया है कि वीर उत्साह होने पर बधिक के समान निरीह प्राणियों पर बाण नहीं चलाता, क्योंकि यह अनौचित्य है। इसी प्रकार बालक एवं अबला पर हाथ उठाना भी कापुरुषता का परिचायक है, बलवान् द्वारा ऐसा अनुचित कार्य नहीं हो सकता। अतएव इस पद्य में स्पष्ट वीर रसाभास है।

बीभत्स रसाभास—किसी कारण से जहाँ बीभत्स में अनौचित्य दृष्टिगत होता है, वहाँ बीभत्स रसाभास होता है, यथा—

रुधिर पियत तो कत कँपत सुनत नरक को नाम ।
हाड़ चिचोरत रहत तो कहत जात कत राम ॥

रुधिर पान करने के समय किसी रक्त पिपासित का नरक का नाम सुनकर कँप जाना उसकी दुर्बलता का सूचक है, अतएव अनौचित्य है। इसी प्रकार हाड़ चिचोरते समय राम-राम कहते जाना भी समुचित नहीं, क्योंकि इससे एक और नाम की मर्यादा नष्ट होती है, और दूसरी ओर उसकी पाप-प्रवृत्ति की चरितार्थता नहीं होती, अतएव इस पद्य में बीभत्स पूर्ण रूप से विराजमान है।

शांत रसाभास—जहाँ शांत रस के प्रवाह में अनुचित कार्य-कलाप बाधा उपस्थित करें, वहाँ शांत रसाभास होगा, यथा—

का बिराग भो जो रहे राग रग मे लीन ।
रहे रामरत जो न तो का करवा कोपीन ॥

‘विरागभाजन बनकर राग रंग में लीन होना, और करवाकोपीन धारणकर राम में रत न होना, अनौचित्य है। अतएव यहाँ स्पष्ट शांत रसाभास है।’

अद्भुत रसाभास—जब किसी विषय का वर्णन आश्चर्य की सीमा से आगे बढ़कर असंभवता तक पहुँच जाता है, वहाँ अद्भुत रसाभास होता है—क्योंकि इस प्रकार का वर्णन उचित नहीं होता। यथा—

उच्छरि अञ्जनीसुहृन् ने लीलि लियो ततकाल ।
निरखि वाल रविविम्ब को सुमधुर फल सम लाल ॥

‘सूर्यो आत्मा हि जगतः ।’ सूर्य जगत् की आत्मा है, वह हिंदू जाति का आराध्य देव है, उसके विषय में यह लिखना कि उसको नर ने नहीं चरन् बानर ने निगल लिया, कितना बड़ा अनौचित्य है। सूर्य के सामने अंजनीनंदन की सत्ता हिमालय के सामने एक चीटे इतनी भी नहीं, भला वे सूर्य को क्या निगलते। जिस कार्य का उल्लेख दोहे में है, वह अद्भुत क्या महान् अद्भुत है, परंतु प्रलापमात्र है और अनौचित्य पूर्ण भी, अतएव उसमें प्रत्यक्ष रसाभास है। एक दोहा और देखिये—

का न करति ललना, हनति पति को ले करवाल ।
कंपि कलक भय ते बनति कोख लाल को काल ॥

एक ललना का कर में करवाल लेकर पतिदेव का वध करना, अपने फूल से कोमल लाल का कलंक भय से नाश कर देना, कितना विस्मयपूर्ण और आश्चर्यजनक है। किंतु दुःख है कि संसार में ऐसा होता है। दोनों कार्यों में अनौचित्य की पराकाष्ठा है, इसलिये पद्य में अद्भुत रसाभास मौजूद है।

इसी प्रकार के रसाभास के और उदाहरण दिये जा सकते हैं, किंतु मैं समझता हूँ विषय स्पष्ट हो गया, अतएव विस्तार की आवश्यकता नहीं। रसाभास का लक्षण क्या है, और वह रस ही होगा या और कुछ, इसकी सीमांसा रसगंगाधरकार ने विशेषतया की है, अभिज्ञता के लिये उनका विचार भी नीचे उद्धृत किया जाता है—

“तत्रानुचितविभावालम्बनत्व रसाभासत्वम् । विभावादावनौचित्य पुनर्लो-

“तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणं निर्मलस्यैव रसादित्वाद्-
हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेनेत्येके । नह्यनुचितत्वेनात्महानिरपि तु सदोषत्वादाभास-
व्यवहारोऽश्वाभासदिव्यवहारवदित्यपरे” । —मुख्य ग्रंथ ८४ पृ० द्वि० ख०

“रसाभासों के विषय में एक और विचार है । कुछ विद्वानों का कथन है “जहाँ रसादि के आभास होते हैं, वहाँ रस आदि नहीं होते, उन दोनों का साथ साथ रहना नियम विरुद्ध है, क्योंकि जो निर्मल हो जिसमें अनुचितता न हो, उसीका नाम रस है । जैसे कि जो हेत्वाभास होता है, वह हेतु नहीं । दूसरे विद्वानों का कथन है—अनुचित होने के कारण स्वरूप का नाश नहीं हो सकता अर्थात् वह रस ही है, किंतु दोषयुक्त होने से उन्हें आभास कहा जाता है, जैसे कोई अश्व दोषयुक्त हो, तो लोग उसे अश्वभास कहते हैं” । —हिंदी रसगंगाधर २६९, २७०

मैं समझता हूँ, यह अंतिम सम्मति ही ठीक है, कुछ अनौचित्य के कारण रस क्लुषित हो सकता है किंतु यह नहीं हो सकता कि उसमें रस का अभाव हो जावे । यह भी समझ लेना चाहिये कि सब जगह अनौचित्य से रसाभास नहीं हो जाता । जहाँ अनौचित्य से किसी रस की पुष्टि होती हो, अथवा जहाँ अनौचित्य का उद्देश चरित्र सुधार, कलंक अपनोदन, किंवा दोष अवगतकरण हों, वहाँ वह वर्जित नहीं होता । अनौचित्य वही निंदनीय होता है, जो रस के प्रतिकूल हो । यथा—

कंचन-संचय में निपुन रखत कंचनी मान ।

कैसे बनै महंत नहिं महि में महिमावान ॥

किसी धर्माचार्य पर कटाक्ष करना अनौचित्य है, इस पद्य में यही किया गया है, अतएव इसमें रसाभास माना जा सकता है । किंतु महंत के चरित्र शोधन के लिये ही, इस पद्य में उनकी हँसी उड़ाई गई है, अतएव यहाँ अनौचित्य हास्य रस को पुष्ट करता है, उसके प्रतिकूल नहीं है, इसलिये इसमें रसाभास नहीं माना जायगा । इसी प्रकार अन्यों को भी समझना चाहिये ।

“तत्र रसाद्याभासत्व रसत्वादिना न समानाधिकरणं निर्मलस्यैव रसादित्वाद्-
हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेनेत्येके । नह्यनुचितत्वेनात्महानिरपि तु सदोषत्वादाभास-
व्यवहारोऽश्वभासदिव्यवहारवदित्यपरं” । —मुख्य ग्रथ ८४ पृ० द्वि० ख०

“रसाभासों के विषय में एक और विचार है । कुछ विद्वानों का कथन है “जहाँ रसादि के आभास होते हैं, वहाँ रस आदि नहीं होते, उन दोनों का साथ साथ रहना नियम विरुद्ध है, क्योंकि जो निर्मल हो जिसमें अनुचितता न हो, उसीका नाम रस है । जैसे कि जो हेत्वाभास होता है, वह हेतु नहीं । दूसरे विद्वानों का कथन है—अनुचित होने के कारण स्वरूप का नाश नहीं हो सकता अर्थात् वह रस ही है, किंतु दोषयुक्त होने से उन्हें आभास कहा जाता है, जैसे कोई अश्व दोषयुक्त हो, तो लोग उसे अश्वभास कहते हैं” । —हिदी रसगगाधर २६९, २७०

मैं समझता हूँ, यह अंतिम सम्मति ही ठीक है, कुछ अनौचित्य के कारण रस कलुषित हो सकता है किंतु यह नहीं हो सकता कि उसमें रस का अभाव हो जावे । यह भी समझ लेना चाहिये कि सब जगह अनौचित्य से रसाभास नहीं हो जाता । जहाँ अनौचित्य से किसी रस की पुष्टि होती हो, अथवा जहाँ अनौचित्य का उद्देश चरित्र सुधार, कलंक अपनोदन, किंवा दोष अवगतकरण हों, वहाँ वह वर्जित नहीं होता । अनौचित्य वही निंदनीय होता है, जो रस के प्रतिकूल हो । यथा—

कचन-संचय में निपुण रखत कचनी मान ।

कैसे बनै महंत नहिं महि में महिमावान ॥

किसी धर्माचार्य पर कटाक्ष करना अनौचित्य है, इस पद्य में यही किया गया है, अतएव इसमें रसाभास माना जा सकता है । किंतु महंत के चरित्र शोधन के लिये ही, इस पद्य में उनकी हँसी उड़ाई गई है, अतएव यहाँ अनौचित्य हास्य रस को पुष्ट करता है, उसके प्रतिकूल नहीं है, इसलिये इसमें रसाभास नहीं माना जायगा । इसी प्रकार अन्यो को भी समझना चाहिये ।

अथवा प्रदर्शन होगा, वह शृंगार रस कहला सकेगा। आचार्य भरत के 'नाट्याश्रित' वाक्य से केवल नाटकों का ही ग्रहण न होगा, काव्यों और अन्य साहित्यिक विषयों का समावेश भी उसमें समझा जावेगा। कारण यह है कि शृंगार रस की परिभाषा उन सब को अंतर्गत कर लेती है। आचार्य के सम्मुख नाटक का विषय था, इसलिये अपने सूत्र में उसीका उल्लेख उन्होंने किया, और इसका कोई दूसरा हेतु नहीं। काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य और श्रव्य। इसलिये 'रमणीयार्थप्रतिपादक' दोनों हैं, क्योंकि पंडितराज कहते हैं, 'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।' फिर दृश्य काव्य श्रव्य का उपलक्षण क्यों न माना जायगा। साहित्यदर्पणकार कहते हैं कि काम के अंकुरित होने को शृंग कहते हैं, इसलिये उसकी उत्पत्ति के आधार, उत्तम प्रकृतियों के अवलंबन, रस को शृंगार कहा जाता है। इस कथन में भी उत्तम प्रकृति का प्राधान्य है। उत्तम प्रकृति ही पवित्र, उज्ज्वल, और दर्शनीय होगी। अतएव शृंगार रस की परिभाषा के विषय में हम दोनों वावदूक विद्वानों का एक ही सिद्धांत और एक ही विचार अवलोकन करते हैं जिससे उसकी विशेष पुष्टि होती है।

शृंगार रस का विवेचन

शृंगार रस के देवता विष्णु भगवान हैं। नाट्यशास्त्रकार लिखते हैं, 'शृंगारो विष्णुदेवस्तु' यही सम्मति साहित्यदर्पणकार की भी है, वे कहते हैं, 'स्थायिभावो रतिः श्यामवर्णोयं विष्णुदैवतः'। जिस रस का जो गुण, स्वभाव और लक्षण होता है, उसका देवता प्रायः उन्हीं गुणों और लक्षणों का आदर्श होता है, क्योंकि उसीके आधार से उस रस की कल्पना होती है। भगवान् विष्णु में सतोगुण की प्रधानता है, वे सृजनकर्त्ता के भी सृजनकारी हैं। उन्हींकी नाभि से जो विश्व का केंद्र है, ब्रह्मा की सृष्टि हुई, जो शतदल कमल पर विराजमान थे। यह

अथवा प्रदर्शन होगा, वह शृंगार रस कहला सकेगा। आचार्य भरत के 'नाट्याश्रित' वाक्य से केवल नाटको का ही ग्रहण न होगा, काव्यो और अन्य साहित्यिक विषयो का समावेश भी उसमें समझा जावेगा। कारण यह है कि शृंगार रस की परिभाषा उन सब को अंतर्गत कर लेती है। आचार्य के सम्मुख नाटक का विषय था, इसलिये अपने सूत्र में उसीका उल्लेख उन्होंने किया, और इसका कोई दूसरा हेतु नहीं। काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य और श्रव्य। इसलिये 'रमणीयार्थप्रतिपादक' दोनों हैं, क्योंकि पंडितराज कहते हैं, 'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।' फिर दृश्य काव्य श्रव्य का उपलक्षण क्यों न माना जायगा। साहित्यदर्पणकार कहते हैं कि काम के अंकुरित होने को शृंग कहते हैं, इसलिये उसकी उत्पत्ति के आधार, उत्तम प्रकृतियों के अवलंबन, रस को शृंगार कहा जाता है। इस कथन में भी उत्तम प्रकृति का प्राधान्य है। उत्तम प्रकृति ही पवित्र, उज्ज्वल, और दर्शनीय होगी। अतएव शृंगार रस की परिभाषा के विषय में हम दोनों वावदूक विद्वानो का एक ही सिद्धांत और एक ही विचार अवलोकन करते हैं जिससे उसकी विशेष पुष्टि होती है।

शृंगार रस का विवेचन

शृंगार रस के देवता विष्णु भगवान हैं। नाट्यशास्त्रकार लिखते हैं, 'शृंगारो विष्णुदेवस्तु' यही सम्मति साहित्यदर्पणकार की भी है, वे कहते हैं, 'स्थायिभावो रतिः श्यामवर्णोय विष्णुदैवतः'। जिस रस का जो गुण, स्वभाव और लक्षण होता है, उसका देवता प्रायः उन्हीं गुणो और लक्षणादि का आदर्श होता है, क्योंकि उसीके आधार से उस रस की कल्पना होती है। भगवान् विष्णु में सतोगुण की प्रधानता है, वे सृजन कर्त्ता के भी सृजनकारी हैं। उन्हींकी नाभि से जो विश्व का केंद्र है, ब्रह्मा की सृष्टि हुई, जो शतदल कमल पर विराजमान थे। यह

शतदल कमल और कुछ नहीं, अनंत जलराशि में प्रकटीभूत त्नुद्रतम पार्थिव अंश मात्र था। वे शेषशायी हैं, प्रयोजन यह कि विनष्टभूत अखिल ब्रह्मांड के जो शेषांश सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु स्वरूप में, शून्य में, अनंत अगाध समुद्र के समान वर्तमान रहते हैं, वे उन्हींमें विश्राम करते हैं। उनकी सहकारिणी वह शक्ति है जो रमा है, जो उनके समान ही सर्वत्र ही रमण करती है, सबका पालन-पोषण करती है, और जो उन्हीं लोकोत्तर के सदृश लोकोत्तरा है। वे हिरण्यगर्भ हैं, 'कोटिसूर्यसमप्रभ' हैं, अर्थात् असंख्य दिव लोक, अपरिमित सूर्य मंडल, और अनंत दीप्तिमान पिंडों के जनक हैं। उनका पवित्रतम-पद देश पुण्यसलिला भगवती भागीरथी का उत्पादक है, उस भगवती भागीरथी का, जो त्रिपथगा हैं, स्वर्ग, मर्त्य और पतालविहारिणी हैं, जो भगवान् शिव के शिरोदेश की मालती माला हैं, और हैं उस कंठगत कालकूट विषमता की शमन-कारिणी, जिससे त्रिलोक के भस्मीभूत होने की आशंका उपस्थित हो गई थी। वे हैं कोटि मनमथ मनमथन और उस निर्जीव के जीवन दाता, जो अपने किसलय कोमल करों में सुमन शर धारण करके त्रिलोक को आयत्त करता है। फिर यदि यह कहा जावे कि लोक में जो कुछ पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल, और दर्शनीय है, वह शृंगार रस है, तो क्या आश्चर्य ! क्योंकि वह ऐसे अलौकिकता निकेतन, समानविभूति-सर्वस्व, 'रसो वै सः' का ही आदिम विकास तो है।

मैं रस-प्रकरण में ऋत्विपुराण के आधार से लिख आया हूँ; सर्व-व्यापक और सर्वशक्तिमान विभु का स्वाभाविक आनंद अभिव्यक्ति अवस्था में चित्शक्ति सम्पन्न और चमत्कारमय होता है। उसके अहं-भाव से अभिमान का आविर्भाव, और ममता संकलित अभिमान से रति की उत्पत्ति होती है। यही रति शृंगार रस की जननी है, इसलिये रति उसका स्थायीभाव है।

प्रकृतिवाद में रति शब्द का अर्थ लिखा है—

रति—सं० स्त्री० स्मरप्रिया, कामपत्नी, अनुराग, आसक्ति, क्रीड़ा, रमण, संतोष । —पृ० ८११

हिंदी शब्दसागर में यह अर्थ लिखा गया है—

रति—सं० स्त्री० (३) प्रीति, प्रेम, अनुराग, मुहब्बत । —पृ० २८६३
प्रदीपकार लिखते हैं—

“रतिस्तु मनोनुकूलेष्वर्थेषु सुखसवेदनम्” ।

मन के अनुकूल अर्थों में सुखप्रसूत ज्ञान का नाम रति है ।

सुधासागरकार कहते हैं—

‘स्मरकरम्भितान्तः करणयोः स्त्रीपुंसयोः परस्पर रिरसा रतिः स्मृता’ ।

स्त्री पुरुष के कामवासनामय हृदय की परस्पर रमणेच्छा का नाम रति है ।

साहित्यदर्पणकार बतलाते हैं—

‘रतिर्मनोनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्’ ।

प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्मुख होने का नाम रति है ।

जब कहते हैं ‘रतिर्देवादिविषया’ तब रति का अर्थ भक्ति, प्रेम, अनुरागादि होता है, इसलिये रति शब्द का अनेकार्थक होना स्पष्ट है । जहाँ वह अनेकार्थक है, वहाँ उदात्त एवं मनोरम है । क्योंकि ‘प्रेम एव परो धर्मः’ प्रेम ही परम धर्म है ।

भक्तिसूत्रकार कहते हैं—

‘अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूप मूकास्वादनवत्’ ।

प्रेम का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता गूँगे के आस्वादन के समान ।

एक अँगरेजी का विद्वान् कहता है—

Love and life are words with a similar meaning.

‘प्रेम और जीवन एक ही अर्थ के द्योतक शब्द हैं’ ।

सहृदयवर हेनरो वान डाइक कहते हैं—

Love is not getting, but giving; not a wild dream of pleasure and a madness of desire. Oh, no, love is not that. It is goodness and peace and pure living, yes, love is that; and it is the best thing in the world and the thing that lives longest.

प्रेम आदान नहीं, किंतु प्रदान है। वह न तो भोग-विलास का सम्मोहक स्वप्न है, और न वासनाओं का उन्माद। ये सब प्रेम नहीं हो सकते। भलाई, शांति और सदाचारिता को प्रेम कहते हैं। इन सद्गुणों में प्रेम ही का निवास है। संसार में इस प्रकार का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है।

बाबू हरिश्चंद्र कहते हैं—

जाकौ लहि कछु लहन की चाह न चित मैं होय ।
जयति जगत पावन करन प्रेम वरन यह दोग्य ॥

कबोर साहब कहते हैं—

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पण्डित भया न कोय ।
दाई अछर प्रेम का पढ़ै सो पण्डित होय ॥

एक संस्कृत का विद्वान् कहता है—

सर्वे रसाश्च भावाश्च तरगा इव वारिधौ ।
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसंज्ञकः ॥

सब रस और भाव समुद्र में लहरों के समान जिसमें उठते और लीन होते रहते हैं उसका नाम प्रेम है।

ऐसी महिमाभयो, अत्यन्त गुणावलंबिनी रति, जिस श्रृंगार रस का स्थायीभाव है, वह यदि पवित्र, उज्ज्वल, उत्तम एवं दर्शनीय न होगा, तो कौन होगा; क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से स्थायीभाव ही रस में परिणत होता है। यदि

कहा जावे कि 'स्त्री पुरुष के काम-वासनामय हृदय की परस्पर रमणेच्छा का नाम भी तो रति है ! फिर वह इतना प्रशंसनीय कैसे होगा ? तो उत्तर यह है कि काम का वास्तविक स्वरूप न समझने से ऐसा प्रश्न होगा, अतएव मैं काम का यथार्थ स्वरूप समझाने की चेष्टा करूँगा । ऊपर मैं लिख आया हूँ कि 'काम के अकुरित होने का कारण अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त शृंगार रस है' । यह साहित्यदर्पणकार की सम्मति है । हृदय की सकामता क्या है ? यह वह मानसिक प्रवृत्ति है, जो संसार के सृजन का हेतु है । यदि वह न हो तो संसार उत्सन्न हो जावेगा—विश्व में प्राणियों का ही अभाव न हो जावेगा, कहीं हराभरा एक तृण भी दृष्टिगोचर न होगा । स्त्री-पुरुष की रमणेच्छा, सकामता की ही प्रक्रिया है । मंगलमय विधाता की यह वह विधि है, जिसमें संसार की सारी पवित्रता, उज्ज्वलता, उत्तमता और दर्शनीयता एकत्रीभूत है । यह वह रहस्यमय शिवसंकल्प है, जिसपर आत्मात्सर्ग कर काम अनंग बन गया और उसकी सहधर्मिणी रति ने स्त्री-पुरुष को एक सूत्र में बाँध दिया । दोनों की परस्पर सम्मिलनेच्छा स्वाभाविक है और उस पूत कर्तव्य का पालन है, जो नियति का अनुल्लंघनीय विधान है । इसी से उसका आधार उत्तम प्रकृति से युक्त शृंगार रस है—जो प्रशंसनीय है, और जिसमें किसी कुत्सित भाव को स्थान नहीं । अंगरेजी का एक विद्वान् कहता है—

“The purest, noblest and most unselfish aspirations and purposes derive their strength and being from the sweet influences which have their beginning and continuance in this power which draws men and women together in happy and holy wedlock. By these sweet influences the most perfect natures are moulded and ennobled. By them are formed the strongest ties

महर्षि अत्रि का यह वचन है—

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेजीवतो मुखम् ।

ऋणमस्मिन्स नयति अमृतत्वं च गच्छति ।

पुत्र का जन्म होने पर जीवित पुत्र का मुख देखने से ही पिता पितरों के ऋण से मुक्त होता है और उसी दिन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पुत्र पिता को नरक से बचाता है ।

वशिष्ठ देव की यह आज्ञा है—

अनन्ताः पुत्रिणा लोका नापुत्रस्य लोकोस्तीति श्रूयते ।

पुत्रवाले को अनंत काल तक स्वर्ग मिलता है, पुत्र हीन मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।

बौधायन स्मृति का यह वाक्य है—

जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिऋणी जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ।

ब्राह्मण तीन ऋण से युक्त होकर जन्म लेता है, वह ब्रह्मचर्य धारण करने पर ऋषि-ऋण से, यज्ञ करने पर देव-ऋण से और संतान उत्पन्न करने पर पितृ-ऋण से छूटता है ।

—धर्मशास्त्रसंग्रह ।

मंगलमयी सृष्टि के संरक्षण के लिये किस प्रकार इन वचनों के द्वारा मनुष्य जाति को सतर्क किया गया है और कैसे एक धर्म कार्य की ओर प्रवृत्ति दिलाई गई है और कितने रोचकभाव से ; इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । किंतु एक विशेष बात की ओर दृष्टि आकर्षण प्रयोजनीय ज्ञात होता है । वह यह कि संतानोत्पत्ति इसलिये आवश्यक है कि जिससे मनुष्य तीन ऋण से मुक्त हो सके । वे तीन ऋण हैं, देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पितृ-ऋण । देव-ऋण चुकाने का अर्थ है, अनेक यज्ञों और सद्गुणानों द्वारा सर्व भूत हित और लोक सेवा, ऋषि-ऋण से मुक्त होने का भाव है सच्छास्त्रों का पठन और मनन कर जनसाधारण में सद्भावों और विश्व-

महर्षि अत्रि का यह वचन है—

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेजीवतो मुखम् ।
ऋणमस्मिन्स नयति अमृतत्व च गच्छति ।

पुत्र का जन्म होने पर जीवित पुत्र का मुख देखने से ही पिता पितरों के ऋण से मुक्त होता है और उसी दिन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पुत्र पिता को नरक से बचाता है ।

वशिष्ठ देव की यह आज्ञा है—

अनन्ताः पुत्रिणा लोका नापुत्रस्य लोकोस्तीति श्रूयते ।

पुत्रवाले को अनन्त काल तक स्वर्ग मिलता है, पुत्र हीन मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।

बौधायन स्मृति का यह वाक्य है—

जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिऋणी जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो यजेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ।

ब्राह्मण तीन ऋण से युक्त होकर जन्म लेता है, वह ब्रह्मचर्य धारण करने पर ऋषि-ऋण से, यज्ञ करने पर देव-ऋण से और संतान उत्पन्न करने पर पितृ-ऋण से छूटता है ।

—धर्मशास्त्रसंग्रह ।

मंगलमयी सृष्टि के संरक्षण के लिये किस प्रकार इन वचनों के द्वारा मनुष्य जाति को सतर्क किया गया है और कैसे एक धर्म कार्य की ओर प्रवृत्ति दिलाई गई है और कितने रोचकभाव से ; इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । किंतु एक विशेष बात की ओर दृष्टि आकर्षण प्रयोजनीय ज्ञात होता है । वह यह कि सतानोत्पत्ति इसलिये आवश्यक है कि जिससे मनुष्य तीन ऋण से मुक्त हो सके । वे तीन ऋण हैं, देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पितृ-ऋण । देव-ऋण चुकाने का अर्थ है, अनेक यज्ञों और सद्गुणों द्वारा सर्व भूत हित और लोक सेवा, ऋषि-ऋण से मुक्त होने का भाव है सच्छास्त्री का पठन और मनन कर जनसाधारण में सद्भावों और विश्व-

है, पति को अहंभाव के ऊपर उठना पड़ता है। उसकी सत्ता का प्रयोजन अब से दूसरों की वर्तमान भलाई और भविष्य आनन्द में हो है ॥”

—मतिरामग्रंथावली की भूमिका पृ० ७।

एक प्रकार से और इस विषय को देखिये। जिसका श्रृंगार किया जाता है, वह उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय बन जाता है। यह श्रृंगार चाहे प्रकृति करों से किया गया हो, चाहे मनुष्य जाति द्वारा। शरद समयक, समुज्ज्वल राका रजनी, अनंत तारकावलि, विलसित नीलनभो-मंडल, लोकरंजिनी अरुणरागआरंजिता ऊषा, हिम धवल गिरिश्रृंग श्रेणी, हरित-दल-विभूषित पादपावली, अनंत सौंदर्य निकेतन विकच कुसुम समूह, विचित्र चित्रित विहंग वृंद और नाना रंग आकार के चमत्कारमय कीट-पतंग किसको विमुग्ध नहीं बनाते, किसके लोचनों को नहीं चुराते और किसके हृदय को आनंदित नहीं करते। मानव जाति के बनाये संसार के अनेकों मंदिर, सहस्रों स्तंभ, कितने ही ‘पिरामिड’, बहुत से पुल, लाखों पुष्पोद्यान, असंख्य विलास-मंदिर, करोड़ों बाग-बगीचे, अनेक मूर्तियाँ और खिलौने, इतने साफ़ सुथरे सुंदर, मनोहर और देखने योग्य हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। ये समस्त विश्व-विभूतियाँ पवित्र इसलिये हैं कि उनका दर्शन निर्दोष है और वे लोकोत्तर आनंदसदन हैं। यह श्रृंगार का माहात्म्य है।

जब इस श्रृंगार को रसत्व प्राप्त हो जाता है, तो सोना और सुगंध की कहावत चरितार्थ होती है, उस समय वास्तव में मणिकाञ्चन योग उपस्थित होता है, निर्जीवप्राय सजीव बन जाता है और स्वर्ण कलस रवि-किरण-कांत !!

क्या इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह नहीं स्वीकार करना पड़ता कि श्रृंगार रस की पवित्रता और महत्ताओं के विषय में जो कथन किया गया, वह सत्य और युक्तिसंगत है।

है, पति को अहंभाव के ऊपर उठना पड़ता है। उसकी सत्ता का प्रयोजन अब से दूसरों की वर्त्तमान भलाई और भविष्य आनन्द में हो है ॥”

—मतिरामग्रंथावली की भूमिका पृ० ७।

एक प्रकार से और इस विषय को देखिये। जिसका शृंगार किया जाता है, वह उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय बन जाता है। यह शृंगार चाहे प्रकृति करों से किया गया हो, चाहे मनुष्य जाति द्वारा। शरद मयंक, समुज्ज्वल राका रजनी, अनंत तारकावलि, विलसित नीलनभो-मंडल, लोकरंजिनी अरुणरागआरंजिता ऊषा, हिम धवल गिरिशृंग श्रेणी, हरित-दल-विभूषित पादपावली, अनंत सौंदर्य निकेतन विकच कुसुम समूह, विचित्र चित्रित विहंग वृंद और नाना रंग आकार के चमत्कारमय कीट-पतंग किसको विमुग्ध नहीं बनाते, किसके लोचनों को नहीं चुराते और किसके हृदय को आनंदित नहीं करते। मानव जाति के बनाये संसार के अनेकों मंदिर, सहस्रों स्तंभ, कितने ही ‘पिरामिड’, बहुत से पुल, लाखों पुष्पोद्यान, असंख्य विलास-मंदिर, करोड़ों बाग-बगीचे, अनेक मूर्तियाँ और खिलौने, इतने साफ़ सुथरे सुदर, मनोहर और देखने योग्य हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। ये समस्त विश्व-विभूतियाँ पवित्र इसलिये हैं कि उनका दर्शन निर्दोष है और वे लोकोत्तर आनंदसदन हैं। यह शृंगार का माहात्म्य है।

जब इस शृंगार को रसत्व प्राप्त हो जाता है, तो सोना और सुगंध की कहावत चरितार्थ होती है, उस समय वास्तव में मणिकाञ्चन योग उपस्थित होता है, निर्जीवप्राय सजीव बन जाता है और स्वर्ण कलस रवि-किरण-कांत !!

क्या इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह नहीं स्वीकार करना पड़ता कि शृंगार रस की पवित्रता और महत्ताओं के विषय में जो कथन किया गया, वह सत्य और युक्तिसंगत है।

शृंगार रस की व्यापकता

संसार में जो पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय है, उसमें शृंगार रस का विकास है, इस कथन से ही शृंगार रस कितना व्यापक है, यह स्पष्ट हो जाता है। परंतु सूत्र-रूप में कही गई इस विषय की व्याख्या आवश्यक है, जिसमें वह भलीभाँति हृदयंगम हो जावे।

प्राणियों में मनुष्य सर्वप्रधान है। जब उसकी ओर दृष्टि जाती है तब शृंगार रस की व्यापकता अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमें अधिक पाई जाती है। किसी-किसी प्राणी में शृंगार रस का कोई अंश बहुत-ही प्रबल देखा जाता है, परंतु उसका सर्वांश अथवा अधिकांश जितना मानव-जाति में मिलता है, अन्यो में नहीं। दर्शनीयता जितनी सौंदर्य में मिलती है अन्य गुणों में नहीं। जितना आकर्षण और हृदयप्राहिता रूप में होती है, जितना मोहक वह होता है, दूसरा नहीं। इसी लिये काम लोकोत्तर कमनीय और कुसुमायुध है। उसकी रहस्यमिणी रति है, जो प्रेममयी, आसक्तिमयी, रमणशीला और क्रोडाकला-पुत्तलिका है। काम यदि सौंदर्य-सरसीरुह है, तो वह उसकी शोभा, काम यदि राकामयंक है, तो रति उसकी कौमुदी; शृंगार रस का दोनों के साथ आधार-आधेय का संबंध है। शृंगार रस शिशु का एक जनक है, और दूसरी जननी। मानव हृदय काम-रति-परायण है, अतएव उसके प्रांगण में प्रायः शृंगार रस शिशु रमण करता रहता है। जिसका परिणाम वे ललित कलाएँ हैं जिनसे सारा धरातल ललितभूत है।

सुंदर-सुंदर चित्र, तरह-तरह के वसन-आभूषण, कोमल कांत विछौने, नयनरंजन सामग्री, लोकमोहन आलोक, गगनचुंबी प्रासाद, सुसज्जित उद्यान, मनोहर नहरे, अनेक देव दुर्लभ विभव और बहुत-से अपूर्व सुखसाधन, मनुष्य जाति की सौंदर्यप्रियता से ही प्रसूत हैं। संगीत साहित्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म आविष्कार, स्वर ध्वनियों की लालायितकर लहरें, विविध वाद्ययंत्रों के मधुर निनाद, नृत्य और नृत्त के

नाना विभेद, हाव भाव कटाक्ष के महाप्रयोग, हास, विलास के क्रिया कलाप, रूप माधुरी के विविध वर्णन, प्रकृति विभूतियों के मनोहर चित्रण कवि-हृदय के सरस उद्गार, रसिक जनों के रस प्रसूत सम्बल, सौंदर्य्य प्रेम प्रकरण ही के विविध संस्करण हैं। मानव किस प्रकार इनके द्वारा अपनी सकामता को चरितार्थ करता है, कैसे इनमें अनुरक्त रहकर अपने जीवन को आनंदमय बनाता है, यह अविदित नहीं, प्रत्येक सहृदय इसे जानता है।

वधिका की वीणा में कौन-सी वशीकरण विभूति होती है कि उसको श्रवण कर मृग इतना तन्मय हो जाता है कि उसके वाण पर आत्मोत्सर्ग करने में भी संकुचित नहीं होता ? कृत्रिम करिणी को भी देखकर गजराज पर कौन सा जादू हो जाता है कि वह गर्च में ही पतित नहीं होता, उस पराधीनता के बधन में भी बंध जाता है, जो उसको आजन्म-जीवन के स्वतंत्रता सुख से वंचित कर देता है ? घोड़ियों में कौन-सी आकर्षिणी शक्ति है, जिनको अवलोकन करते ही घोड़े आनंद-विह्वल होकर उछलने-कूदने ही नहीं लगते, अपने उच्चरव से दिशाओं को भी ध्वनित करने लगते हैं ? मंथर गति, पीवर ग्रीव, विशाल काय बैलों में कौन-सी मोहनी रहती है कि उनको घूमते देख गाएँ आपे में नहीं रहतीं और पास पहुँच कर परस्पर लेहन करने में ही आनंद लाभ करती हैं ? वह कौन-सी प्रेरणा है कि अपने बच्चों में पशु मात्र का सहज प्यार होता है ? वह कौन-सा भाव है जिसके वशवर्ती होकर पशुओं के जोड़े आपस में एक दूसरे की ओर खिंचते, मुँह से मुँह मिलाते, उछलते-कूदते और तरह-तरह की क्रीड़ाओं में रत रहते हैं ? इन सब बातों का एक ही उत्तर है, वह यह कि ये सब भगवान् कुसुमायुध की विचित्र लीलाएँ हैं।

प्रातःकाल ऊषा की अरुण राग रंजित और कांत रविकर आपीड़ से सुसज्जित अवलोकन कर विहंगवृंद जो अलौकिक-गान आरंभ करता है, जैसी कलकंठता दिखलाता है, जैसे मधुर स्वरों से दिशाओं को पूरित

कर देता है, जैसा चहकता और उमंग में भर जाता है, वह किस प्रवृत्ति का परिचायक है ? क्या उस रागमयी का अनुराग ऐसा कराता है, या उसका सौंदर्य अथवा उसका विकास ? कुसुमाकर जब कुसुमावलि का माल्य धारण कर दिशाओ को सुरभित करता है, पादप्पंक्ति को नवल फल दल संभार से सजाता है, तो कोयल क्यों उन्मादिनी बनती है; क्यों रात रात भर बोलती है ? क्यों कूक-कूक कर कलेजा निकाले देती है । क्या इनका कोई पारस्परिक संबंध है ? क्या प्रेमोन्माद ही तो उसे उन्मादिनी नहीं बनाता । जब घन गगन मंडल में घिर जाते हैं, मद मंद गरजते हैं, कभी घूमते हैं, कभी रस बरसाते हैं, तब पपीहा क्यों पी-पी की रट लगाता है, मयूर क्यों मत्त होकर नर्तन करता है, घन-पटल को अबलोकन कर इनको कौन रस मिलता है ? कौन से आनंद की धारा इनके मानसों में बहने लगती है, क्या इन बातों में कोई रहस्य नहीं ? पारावत कितना प्यारा पक्षी है, सौंदर्य की तो वह मूर्त्ति है । जिस समय वह अपने नीलाभ गले को फुलाकर बोलने लगता है, अपनी पूँछ को झुका और फैलाकर नृत्य आरंभ करता है, उस समय उसकी विहंगिनी ही उस पर मुग्ध नहीं होती, वरन् उसे उस अवस्था में जो देखता है, वही मोह जाता है । उसका यह मोहक रूप क्यों ? क्या ये सब शृंगार रस के ही कौतुक नहीं ?

भृंग फूलों पर गूँजता फिरता है, कभी उनपर बैठता है, कभी उनसे रस ग्रहण करता है और कभी एक पुष्प का रज वहन करके दूसरों तक पहुँचा आता है । तितलियाँ नाचती फिरती हैं, चूम-चूमकर फूलों की बलाएँ लेती हैं । उनसे गले मिलती हैं, अपने रंग में उन्हें और उनके रंग में अपने को रँगती हैं और फिर न जाने कहाँ चकर काटती हुई चली जाती हैं । मधुमक्खी चुपचाप आती है, फूलों के साथ विहार करती है, उनसे रस संचय करती है, कुछ को पी जाती है, और कुछ को लिये संभलती, बचती न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है । यदि हम

आँख उठाकर देखें, तो अपने चारों ओर असंख्य कीट-पतंगों को, इसी प्रकार के कार्यो में रत पायेंगे। प्राणी ही नहीं यदि हम अंतर्दृष्टि से काम लेंगे, तो पेड़ों और लता बेलियों क्या फूल-पत्तों तक में कामदेव के साथ रति देवी विहार करती मिलेंगी, और वहीं रस रूपमें शृंगार देव भी अपना प्रभाव विस्तार करते दृग्गोचर होंगे। वास्तविक बात यह है कि संसार में जो कुछ है, वह सब एक दूसरे के साथ अदृश्य सूत्र से प्रथित है। यह संबंध मानव बुद्धि से परे भले हो हो, किंतु इस संबंध द्वारा कहीं ज्ञात और कहीं अज्ञात रूप से संसार का सृजनादि समस्त मंगल-मूलक कार्य यथा काल होता रहता है। एक अंगरेज विद्वान् कहता है—

“All things by immortal power
To each other linked are,
Near or far, That thou canst not stir a flower.
Hiddenly Without troubling of a star”.

“समस्त वस्तुएँ चाहे वे दूर-दूर हों, चाहे पास पास, एक अनंत शक्ति के द्वारा गुप्त रीति से एक दूसरे से लगाव रखती हैं। तुम बिना एक सितारे को प्रभावित किये हुए, एक फूल को भी नहीं तोड़ सकते।”

—‘सुधा’ सख्या २४ पृ० ५४८।

शृंगार रस की व्यापकता का एक मनोहर चित्र प्रसंग सूत्र से कविकुलगुरु कालिदास ने अपने कुमारसंभव नामक ग्रंथ में बड़ी सहृदयता से अंकित किया है, उसको भी देखिये। जिस समय भगवान् भवानीपति पर आक्रमण करने के लिये, कुसुमायुध अपनी पूर्ण शक्ति का विस्तार कर प्रयाण करता है, उस समय की दशा का वर्णन वे यों करते हैं—

मधु द्विरैफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रिया स्वामनुवर्त्तमानः ।
शृंगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥

ददौ रसात् पकजरेसुगन्धि गजाय गण्डूषजल करेणुः ।
 अर्द्धापभुक्तेन विसेन जाया सभावयामास रथांगनामा ॥
 पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत् प्रवालोल्लसमनोहराभ्यः ।
 लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रशाखाभुजबधनानि ॥

भ्रमरगण अपनी-अपनी प्रिया का अनुगामी बनकर एक पुष्परूप पात्र में मधुपान करने लगा, कृष्णसार मृगों ने अपने-अपने सींगों से मृगीगण के गात्र को खुजलाया, अतएव स्पर्श सुख से विमोहित होकर उन्होंने अपनी आँखें बंद कर लीं। करिणीगण ने पद्म-पराग से सुरभित सरोवर सलिल को करो के द्वारा कुंजर समूह को पिलाया और चकवा ने कमल नाल का एक टुकड़ा लेकर उसमें से आधा स्वयं खाया और आधा अपनी प्रियतमा को खिलाया। इतना ही नहीं, प्रभूत-पुष्प-स्तवक-स्तन और प्रवालोल्लस अधर-पल्लव से सुशोभित लता-वधूटियों ने भी अपनी आनत-शाखा बाहु द्वारा पादप समूह को आलिंगन करना आरंभ कर दिया।

कविकुलतिलक गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस विषय का वर्णन जिस प्रकार किया है, वह भी दर्शनीय है—

सब के हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहि तरु शाखा ।
 नदी उमगि अबुधि कहँ धाई । सगम करहिं तलाव तलाई ।
 जँह अस दसा जड़न कै बरनी । को कहि सकहि सचेतन करनी ।
 पसु पच्छी नभ जल थल चारी । भये काम बस समय बिसारी ।
 देव दनुज नर किन्नर ब्याला । प्रेत पिसाच भूत बैताला ।
 इनकी दसा न कहेउँ बखानी । सदा काम के चेरै जानी ।

मैं समझता हूँ, अब तक जो शृंगार रस की व्यापकता के विषय में लिखा गया, वह पर्याप्त है। एक अंगरेज विद्वान् की सम्मति और सुन लीजिये—

It is under the awakening of reproductive life

that the fields put on their verdure; the flowers unfold their beauty and fragrance, the birds put on their brightest plumage and sing their sweetest song while the chirp of the cricket, the note of the katydid, is but the call to its mate for the many tongued voices, which break the stillness of field and forest are lent myriad notes of love.

“सृजन संबंधिनी प्रेरणाओं से जाग्रत् होकर ही मैदान अपनी सब्जी दिखलाते हैं, फूल अपने सौंदर्य और सुगंध को प्रकट करते हैं, पक्षी-गण अपने चमकीले से चमकोले पर धारण करते हैं, तथा मधुर-से-मधुर गीत गाते हैं। भिल्ली की भंकार, कोयल की कूक अपने जोड़े के आह्वान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैदान और वनों की निस्तब्धता को भंग करनेवाले जो इन नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव सुन पड़ते हैं, ये सब प्रेम के ही असंख्य गीत हैं।”

मतिरामग्रथावली की भूमिका पृ० ४।

शृंगार रस की प्रधानता

शृंगार रस की व्यापकता के विषय में जो कुछ लिखा गया उसे आपने अवलोकन कर लिया, दूसरी विशेषता इस रस में यह है कि यही सब रसों में प्रधान और आदिम माना जाता है—प्रकृतिवादकार लिखते हैं—

शृंगार—सं० पु० आद्यरस—ईहाते रति स्थायोभाव— पृ० ११२।
हिंदी शब्दसागर में शृंगार के विषय में यह लिखा गया है—

शृंगार—सं० पु० साहित्य के अनुसार नौ रसों में से एक रस जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और प्रधान माना जाता है।
इसका स्थायीभाव रति है।यही एक रस है जिसमें संचारी

विभाव, अनुभाव, सब भेदों सहित होता है, और इसी कारण इसे रस-राज कहते हैं ।
—पृ० ३३४५ ।

आचार्य केशवदास कहते हैं—

नवहूँ रस को भाव बहु तिनके भिन्न बिचार ।

सब को केसवदास कहि नायक है सिगार ।— रसिकप्रिया ।

कविपुंगव देव कहते हैं—

भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिगार ।—कुशलबिलास ।

कविवर पद्माकर कहते हैं—

नव रस मे सिगार रस सिरे कहत सब कोय ।— जगद्गिनोद ।

भोजदेव अपने शृंगारप्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं—

शृंगारवीरकरुणाद्भुतहास्यरौद्रबीभत्सवत्सलभयानकशातनाम्नः ।

आश्रासियुर्दशरसान् सुत्रिथोर्वदति शृंगारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥

शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, बीभत्स, वत्सल, भयानक और शांत नामक दस रस बुद्धिमानो ने बतलाये हैं, किंतु आस्वादन पर दृष्टि रखकर शृंगार ही रस माना जा सकता है ।

प्रकृतिवादकार शृंगार को आद्य रस बतलाते हैं, कविपुंगव देव की सम्मति यह है कि सब रसों का मूल शृंगार है, अतएव लगभग दोनों का एक ही सिद्धांत है। मैंने भी रस निरूपण में अग्निपुराण के आधार से यह प्रतिपादित किया है कि आद्य रस शृंगार ही है, और सब रसों की उत्पत्ति इसी से हुई है, अतएव शृंगार रस का प्राधान्य स्पष्ट है। कामदेव को शृंगारयोनि और शृंगारजन्मा कहते हैं, इसलिये काम का उत्पादक शृंगार है, यह स्वीकार करना पड़ता है। साहित्यदर्पणकार की भी सम्मति यही है, पहले के पृष्ठों में इसकी चर्चा हो चुकी है। सृष्टि का सृजन काम पर ही अवलंबित है, ऐसी अवस्था में भी सब रसों में शृंगार को ही प्रधानता प्राप्त होती है ।

मैंने स्थान विशेष में काम और रति को शृंगार का जनक और जननी भी लिखा है। कारण, भरत मुनि का यह वाक्य है—

‘तत्र शृंगारो’ नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मकः ।

‘शृंगार’ रति स्थायिभाव से उत्पन्न हुआ है, और उज्ज्वल वेषात्मक है ।।

जब शृंगार रति से उत्पन्न है, तो वह उसकी जननी हुई, और उसका पति कामदेव उसका जनक है—यह स्पष्ट है। किंतु इस स्थान-पर शृंगार से आद्य अथवा मूल शृंगार से नहीं, वरन् उस शृंगार से मतलब है, जिसको दम्पति का सम्मिलन अथवा स्त्री-पुरुष का सांसारिक सृजन संबंधी कार्य कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं—

जग पितु मातु महेस भवानी ।

तेहि शृंगार न कहौ बखानी ॥

यह शृंगार भी इतना व्यापक है कि प्राणियो क्या, पेड़ों और लता वेलियों में भी उसकी उपस्थिति पाई जाती है। जनक ही जननी मे पुत्र-रूप से उत्पन्न होता है, यह सभी जानता है, ‘आत्मा वै जायते पुत्रः’।

महाभारतकार भी यही लिखते हैं—

आत्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः ।

तस्माद्भार्या नरः पश्येन्मातृवत्पुत्रमातरम् ॥

बुद्धिमानों का कथन है कि आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है, इसलिये नर को स्त्री को मातृ-रूप में देखना चाहिये, क्योंकि पुत्र की माता वही है। ऐसी अवस्था में मूल शृंगार से इस शृंगार में विशेष अंतर नहीं पाया जाता, फिर भी कुछ अंतर अवश्य है। इसी अंतर पर दृष्टि रखकर काम को उसका जनक और रति को उसकी जननी माना जाता है। अस्तु ।

हिंदी शब्दसागरकार कहते हैं कि इसी एक रस में सब संचारी-भाव विभावो एवं अनुभावो सहित आते हैं, इसीलिये इसे रसराज

आकांक्षित मरण का भी वर्णन कर देना चाहिये । यदि फिर शीघ्र हो पुनर्जीवित होना हो तो मरण का भी वर्णन कर देते हैं” ।

विशेष दशा में ही सही, किंतु यदि मरण का वर्णन किया जाता है, तो शृंगार रस में उसका वर्णन हो गया, फिर उसका त्याग कहाँ हुआ ? चित्त से आकांक्षित मरण भी मरण दशा का वर्णन ही है, चाहे उसमें अधिक रस-विच्छेद भले ही न होता हो । भारतेंदुजी के निम्न-लिखित पद्य में इसी भाव की व्यंजना है, परंतु है मरण का ही वर्णन—

‘एहो प्रानप्यारे बिन दरस तिहारे भये,
मुये हूँ पै आँखें ए खुली ही रह जायँगी ॥’

कुछ लोगों की यह सम्मति है कि यदि यह बात सत्य है कि वियोग-जनित पीड़ाधिक्य मरण का कारण भी होता है, तो उसका वर्णन क्यों न किया जावे । वियोग की वास्तविक अंतिम दशा पर दृष्टि रखकर ही आचार्यों ने मरण को काम की दश दशा में स्थान दिया है, फिर उसकी उपेक्षा क्यों ? कविवर बिहारीलाल ऐसे ही विचारवालों में ज्ञात होते हैं । उन्होंने निम्नलिखित पद्य में मरण का वर्णन किया है—

कहा कहौं वाकी दसा हरि प्रानन के ईस ।
बिरहज्वाल जरिबो लखे मरिबो भयो असीस ॥

फारसी के कवि और उन्हीं की देखा-देखी उर्दू के कवि मरण दशा का वर्णन बड़े जोश-खरोश के साथ करते हैं । मरण समय की समस्त वेदनाओं, उस काल की आदर्शनीय यंत्रणाओं, पीड़ाओं और बीभत्सकाण्डों को मजे ले लेकर कहते हैं । क्रम में की आरजूओं और तमन्नाओं को दिल खोलकर सामने रखते हैं । कतल के वक्त के तमाम नज्दरों को इस तरह कलमबंद करते हैं कि उस समय का दृश्य आँखों के सामने आ जाता है, फिर भी अमंगल कामना उनके हृदय में घर नहीं करती—इसको विचार-विभिन्नता छोड़ और क्या कहें । कुछ उनकी तबीयतदारी देखते चलिये—

आकांक्षित मरण का भी वर्णन कर देना चाहिये । यदि फिर शीघ्र हो पुनर्जीवित होना हो तो मरण का भी वर्णन कर देते हैं” ।

विशेष दशा में ही सही, किंतु यदि मरण का वर्णन किया जाता है, तो शृंगार रस में उसका वर्णन हो गया, फिर उसका त्याग कहाँ हुआ ? चित्त से आकांक्षित मरण भी मरण दशा का वर्णन ही है, चाहे उसमें अधिक रस-विच्छेद भले ही न होता हो । भारतेन्दुजी के निम्न लिखित पद्य में इसी भाव की व्यंजना है, परंतु है मरण का ही वर्णन—

‘एहो प्रानायारे बिन दरस तिहारे भये,
मुये हूँ पै आँखे ए खुली ही रह जायँगी ॥’

कुछ लोगों की यह सम्मति है कि यदि यह बात सत्य है कि वियोग-जनित पीड़ाधिक्य मरण का कारण भी होता है, तो उसका वर्णन क्यों न किया जावे । वियोग की वास्तविक अंतिम दशा पर दृष्टि रखकर ही आचार्यों ने मरण को काम की दश दशा में स्थान दिया है, फिर उसकी उपेक्षा क्यों ? कविवर बिहारीलाल ऐसे ही विचारवालों में ज्ञात होते हैं । उन्होंने निम्नलिखित पद्य में मरण का वर्णन किया है—

कहा कहौ वाकी दसा हरि प्रानन के ईस ।
बिरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो भयो असीस ॥

फारसी के कवि और उन्हीं की देखा-देखी उर्दू के कवि मरण दशा का वर्णन बड़े जोश-खरोश के साथ करते हैं । मरण समय की समस्त वेदनाओं, उस काल की आदर्शनीय यंत्रणाओं, पीड़ाओं और बीभत्सकाण्डों को मजे ले लेकर कहते हैं । क्रम में की आरजूओं और तमन्नाओं को दिल खोलकर सामने रखते हैं । कलत के वक्तू के तमाम नज्जारों को इस तरह कलमबंद करते हैं कि उस समय का दृश्य आँखों के सामने आ जाता है, फिर भी असंगल कामना उनके हृदय में घर नहीं करती—इसको विचार-विभिन्नता छोड़ और क्या कहें । कुछ उनकी तबीयतदारी देखते चलिये—

लाश पर इबरत यह कहती है 'अमीर' ।
 आये थे दुनिया मे इस दिन के लिये ॥
 करीबे कब्र हम आये कहीं-कहाँ फिर कर ।
 तमाम उम्र हुई जब तो अपना घर देखा ॥
 खुशी न हो मुझे क्योंकि कज़ा के आने की ।
 खबर है लाश पर उस बेवफा के आने की ॥
 लगी ठोकर जो पाये दिलरुबा की ।
 महीनों तक मेरी तुरबत हिला की ॥
 कहते है आज 'ज़ौक' जहाँ से गुजर गया ।
 क्या खूब आदमी था खुदा मगफरत करे ॥

प्रयोजन यह कि किसी प्रकार हो, परंतु मरण दशा का वर्णन शृंगार रस में होता है । शृंगार रस के स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, कंप और वैचर्य का भय अथवा त्रास भी हेतु होता है । प्रायः आलस्य ही जंभा का कारण होता है, ये सब सात्विक भाव हैं । बिम्बोक हाव शृंगार के ही अंतर्गत है, इसमें जुगुप्सा और उग्रता दोनों संचारी भाव पाये जाते हैं, इसके अतिरिक्त प्रौढ़ा अधीरा और मानिनी नायिकाओं के हृदय में भी अनेक अवसरों पर दोनो संचारी भाव बड़े उग्र रूप में प्रकट होते हैं—कुछ प्रमाण लीजिये—

“नख ते सिख लौ पट नील लपेटे लली सब भॉति कँपै डरपै ।
 मनो दामिनि सावन के घन मैं निकसै नही भीतर ही तरपै ।”
 भई भीति बस, प्रीति बस, किधौ भयो पवि पात ।
 उर धरकत, थरथर कँपत, कत तिय तेरो गात ॥
 दर दर दौरति सदन दुति सम सुगध सरसाति ।
 सेज परी आलस भरी तोरति अग जम्हाति ॥
 'जैहै जो भूखन काहू तिया को तो मोल छला के लला न बिकैहो ।
 'छैल छबीले छुओगे जो मोहि तो गात मैं मेरै गुराई न रैहै ।”

गृहे देखि दृग हे कहा ? तोहि न लाज की छूत ।
 मैं बेटी वृषभानु की, तू अहीर को पूत ॥
 कत मो ढिग आवत रहत बकत कहा बेकाज ।
 तो पै कहा परी न जो गिरी लाज पै गाज ॥

ऐसी दशा में यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो वर्जित संचारी भाव हैं, प्रयोजनवश वे भी उसमें गृहीत होते हैं, फिर यह क्यों न माना जाय कि इस रस में सब संचारी भाव आते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जीवन-संबंधी घटनाओं का जितना अधिक संबंध शृंगार से है, अन्य रसों से नहीं। दाम्पत्य-जीवन में घटना सूत्र से जितनी मानसिक वृत्तियों का विकास एवं विविध नायिकाओं के आधार से जितने भावों का आविर्भाव शृंगार रस में होता है, अन्य रसों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रायः नूतन घटनाएँ उनमें संघटित नहीं होतीं, इसलिये उनमें समस्त संचारी भाव आ ही नहीं सकते। और रसों से शृंगार रस की यह बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिये उसे रस-राज माना जाता है। यह भी उसकी प्रधानता की ही दलील है।

शृंगार रस के ग्रंथों में जहाँ रसों का वर्णन किया गया है, वहाँ सब रसों के संचारी भावों का निर्देश मिलता है। शृंगार रस को छोड़कर शेष आठ रसों में प्रत्येक में आधे से भी कम संचारी भाव आते हैं, किसी-किसी में तो चार-पाँच ही। इसीलिये भोजदेव कहते हैं कि रसन शक्ति जैसी शृंगार रस में है और जैसा आस्वादित वह होता है अन्य रस नहीं। मैं पहले बतला आया हूँ कि संसार के प्राणि-मात्र इस रस के रसिक हैं। क्योंकि जैसी ही इसकी विस्तृत व्यापकता है, वैसा ही विस्तृत इसका आस्वादन है। शांत रस का स्वाद पशु-पक्षी, कीट-पतंग को क्या मिलेगा। हास्य मनुष्य को छोड़कर संसार के किसी प्राणी में नहीं मिलता। विश्व का वैचित्र्य विस्मयमूलक है, यह निश्चय ही अद्भुत रस का जनक है। इस विस्मयका बोध पशु-पक्षी आदि को नहीं

होता, क्योंकि इसका लक्षण उनमें नहीं देखा जाता। प्रातः काल की विलक्षणता पक्षियों को विमुग्ध नहीं करती, वरन् उसका सौंदर्य। इसी प्रकार मयूर मेघ की छटा और पिक कुसुमाकर का विकाश अवलोकन कर मत्त होता है, उनका वैचित्र्य देखकर नहीं। मल-मूत्र अथवा निदनीय पदार्थ देखकर घृणा करना मनुष्य की प्रकृति है, अन्य प्राणियों में यह अनुभव शक्ति नहीं होती, इसलिये बोभत्स रस के पात्र भी वे नहीं होते। पक्षियों में स्वच्छ रहने की प्रकृति देखी जाती है, किसी किसी पशु में भी, किंतु इसका हेतु मल से घृणा नहीं, सौंदर्य-प्रियता है, जिसका आधार शृंगार है। पशु पक्षियों में, कई एक जलचर जन्तुओं में शोक की मात्रा पाई जाती है, शोक करण रस का स्थायीभाव है, अतएव इन सबों में करण रस का अभाव नहीं माना जा सकता, परन्तु मनुष्य जाति में यह रस जिस परिष्कृत और व्यापक रूप में है, जैसा आस्वादन इस रस का वह करता है, अन्य नहीं। वीर और रौद्र रस के विषय में भी यही बात कही जा सकती है, जिनके स्थायीभाव उत्साह और क्रोध हैं। चीटो भी दबने पर काटती है, और उत्साह की तो वह मूर्ति होती है, परन्तु उनके क्रोध में क्षमा को स्थान नहीं और न उनके उत्साह में परहित-परायणता है, अतएव इन दोनों रसों का आस्वादन भी जितना मनुष्य करता है, अन्य प्राणी नहीं; परन्तु प्रश्न यह है कि विशेषता लाभ करने पर भी क्या मानव करण, रौद्र एवं वीर का उतना ही आस्वादन करता है, जितना शृंगार रस का? यदि नहीं तो अन्य प्राणियों का जीवन शृंगार-रस-सर्वस्व क्यों न होगा। हाँ, भय ही एक ऐसा रस है जिसका आस्वादन प्राणिमात्र को समान भाव से होता है। कहा भी है, 'आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नरैः' परन्तु जैसा सहचर शृंगार रस है, भय नहीं। भय कभी होता है, कभी नहीं। उसका विकराल मुख मंडल सदा नहीं डराता रहता, परन्तु शृंगार रस में सौंदर्य का विकाश कब नहीं लुभाता। यह बात समस्त प्राणियों के विषय में कही जा सकती है।

जब इन बातों पर दृष्टि दी जाती है, तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में जितना व्यापक, उदात्त एवं सर्वदेशी, शृंगार रस का आस्वादन है, अन्य रसों का नहीं। यह भी उसकी प्रधानता का असाधारण प्रमाण है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिनपर और विचार होना आवश्यक है। साहित्यदर्पणकार के पितामह यह कहते हैं—

रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतोरसः ॥
तस्माद्द्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥

उत्तर रामचरित्रकार यह लिखते हैं—

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।

आवर्त्तबुद्बुद्गतरगमयान् विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

इसी प्रकार कोई हास्य को प्रधानता देता है, और कोई शांत को। एक विद्वान् ने भक्ति को रस मान कर उसीको सब में प्रधान बतलाया है।

सब रसों में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है, इसलिये सर्वत्र अद्भुत रस पाया जाता है, इस सिद्धांत पर दृष्टि रखकर पंडितप्रवर नारायण एक अद्भुत रस को ही स्वीकार करते हैं। प्रत्येक रस जब पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, तभी उसकी रस संज्ञा सार्थक होती है। यदि करुण रस विकास-प्राप्त है, तो अवश्य शोक स्थायी भाव प्रबल होगा, ऐसी दशा में यदि चमत्कार के आधार विस्मय ने आकर उसको दबा दिया तो करुण का स्थान अद्भुत ने ग्रहण कर लिया, उसको रसत्व प्राप्त ही नहीं हुआ, फिर उसकी सत्ता कैसे लोप हुई। दूसरी बात यह कि यदि पूर्णता प्राप्त करुणरस में चमत्कार का भी प्रवेश हो गया, तो विस्मय के आधार से अद्भुत रस उसका सहकारी मात्र होगा, इसलिये उसका स्थायी भाव, संचारी बन जावेगा, तब उसको रसत्व प्राप्त ही न होगा, फिर वह प्रधान कैसे बन बैठेगा। ऐसी दशा में पंडित जी का कथन युक्ति संगत नहीं। आशा है, यह बात समझ में आ गई होगी। इस विषय में

श्रीमान् पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'काव्य में रहस्यवाद' नामक ग्रंथ के पृष्ठ ६७ में जो लिखा है, वह नीचे उद्धृत किया जाता है; उससे भी मेरे कथन को पुष्टि होती है।

“पण्डितजी (नारायण पंडित) ने इस बात पर ध्यान न दिया कि रस के भेद प्रस्तुत वस्तु या भाव के विचार से किये गये हैं, अप्रस्तुत या साधन के विचार से नहीं। शृंगार रस की किसी उक्ति में उसके शब्द-विन्यास आदि में जो विचित्रता होगी, वह वर्णनप्रणाली की विचित्रता होगी, प्रस्तुत वस्तु या भाव की नहीं। अद्भुत रस के लिये स्वतः आलंबन विचित्र अथवा आश्चर्यजनक होना चाहिये। शृंगार का वर्णन कौतुकी कवि लोग कभी कभी वीर रस की सामग्री अलंकार रूप में रख किया करते हैं। क्या ऐसे स्थानों पर शृंगार रस न मानकर वीर रस मानना चाहिये ?”

करुण रस के विषय में उत्तररामचरितकार ने जो लिखा है, उसके प्रतिपादन में उन्होंने कोई युक्ति नहीं दी। वे केवल इतना ही कहते हैं।

‘एक करुण रस ही निमित्त भेद से भिन्न होकर पृथक् पृथक् परिणामों को ग्रहण करता है, जल के आवर्त्त, बुद्बुद, तरंगादि जितने विकार हैं, वे समस्त सलिल ही होते हैं।’

करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक उसी के विषय में होता है, जिससे रति अर्थात् प्रीति है। प्रीति के अभाव में शोक हृदय में स्थान पा ही नहीं सकता। जब हम किसी प्राणी को कष्ट में देखते हैं, अथवा उसको विपन्न पाते हैं, तो हमारे हृदय में शोक का आविर्भाव इसलिये होता है, कि उसमें हमारी ममता होती है। ममता ही प्रेम, प्रीति अथवा स्नेह की जननी है। यही प्रीति जब द्रवणशीला होती है, तब दया कहलाती है; करुणा अधिकतर दयावर्लंबिनी होती है, इसलिये यह मानना पड़ेगा कि प्रीति के अभाव में करुणा का जन्म ही न होगा, फिर उसका विकार प्रीति कैसे होगी ? यदि कहा जावे कि प्राणी होने के

नाते प्राणियों में स्वाभाविक आत्मीयता हो सकती है, किंतु अनेक अवसरों पर वेलि, लता, पुष्पादि की दशा पर क्यो करुणा होती है ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य ने उन्हीं में से होकर मानव-जीवन लाभ किया है, अतएव उनके साथ भी उसकी स्वाभाविक ममता होती है। प्राणि-शास्त्र-विशारद आज इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि वनस्पतियों से मनुष्य जाति का बड़ा उपकार होता है, वे उसके चिर सहचर हैं, उनका प्रत्येक अंश उसके काम आता है। उनके पत्र पुष्प संसार सौंदर्य के सर्वस्व हैं, उनकी हरियाली लोकलोचन विभूति है, ऐसी दशा में मनुष्य जाति का उनसे स्नेह होना स्वभावसिद्ध है।

फिर उनको म्लान और विपन्न देखकर उसका हृदय सकरुण हो तो क्या आश्चर्य ! रति से करुण रस को उत्पत्ति मैं पहले भी सिद्ध कर चुका हूँ। इसलिये शृंगार रस की उत्पत्ति करुण रस से किसी प्रकार स्वीकृत नहीं हो सकती। अन्य रसों के बारे में भी ऐसी बातें कही जा सकती हैं, परंतु यह प्रस्तुत विषय नहीं है, इसलिये छोड़ता हूँ।

हास्य रस के विषय में मैं पहले लिख आया हूँ कि वह मनुष्य तक परिमित है, इसलिये न तो वह शृंगार रस के इतना व्यापक है और न उसके इतना आस्वादित होता है, उसमें सृजन शक्ति भी नहीं है, अतएव वह अपूर्ण और गौणभूत है। यदि शृंगार रस जीवन है तो वह है आनंद, यदि वह प्रसून है तो यह है विकास, जिससे दोनों में आधार आधेय का संबंध पाया जाता है, आधेय से आधार का प्रधान होना स्पष्ट है। किसी-किसी का यह तर्क है कि शृंगार रस यौवन तक परिमित है, परंतु हास्य रस समान भाव से बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था दोनों में उदित रहता है, इसलिये शृंगार पर उसकी प्रधानता क्यों न मानी जावे। इस विचार में एक देश-दर्शन है, क्योंकि शृंगार का एकदेशी रूप सामने रखा गया है। तर्ककर्ता ने सर्वदेशी शृंगार रस के व्यापक रूप पर दृष्टि डाली ही नहीं। यदि उसके

उद्दीपन विभावो को ही सामने रखा जाता तो ऐसी बात न कही जाती । क्या मलयानिल युवकों को ही मुग्ध बनाता है, बाल-वृद्ध को नहीं ? क्या हँसता हुआ मयंक, रस बरसते हुए घन, पुष्प-सभार-विज्ञसित वसंत, पपोहे की पिहक, कोकिल की काकली और मयूर का नर्तन, बालक और वृद्ध को आनंद निमग्न करने की सामग्री नहीं है ? क्या ललनागण का सौंदर्य वृद्धजनों को विमुग्ध नहीं बनाता, क्या उनका मधुरालाप, उनका मनोहर कंठ और उनका स्वर्गीय गान; उनकी सूखो धमनियों में रक्त का संचार नहीं करता ? क्या वालिकाओं के भोले-भाले रूप का बालकों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या वे उनको ललित लीलाओं पर मोहित नहीं होते ? फिर इस प्रकार को अनर्गल बातों का क्या अर्थ ? किसी-किसी का यह कथन भी है कि जीवन सुख-दुःख पर ही अवलंबित है, दुःख का रोदन और सुख का हास संबल है । इसलिये जीवन का संबंध जितना करुण रस और हास्य से है, अन्य किसी रस से नहीं । किंतु शृंगार के अस्तित्व में आये बिना दुःख-सुख की कल्पना हो ही नहीं सकती; अग्निपुराण के आधार से यह बात प्रतिपादित हो चुकी है और किस प्रकार शृंगार से हास्य रस और करुण रस की उत्पत्ति होती है, यह भी बतलाया जा चुका है । फिर इस प्रकार की आपत्तियाँ कहाँ तक संगत हैं । मेरा विचार है जिस पहलू से विचार किया जावेगा, शृंगार पर हास्य को प्रधानता न मिल सकेगी ।

शांत रस की कल्पना त्याग और विरागमय है । मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों में इस भाव का अभाव है । मनुष्यों में भी इने-गिने लोगों में ही इसका यथार्थ विकास देखा जाता है । अंतर्जगत से इसका जितना संबंध है, उतना बाह्य जगत से नहीं । संसार क्षेत्र में जितना कार्य्य शृंगार का है, शांत का नहीं । इसीलिये महात्मा भरत ने इसकी गणना रसों में नहीं की, उन्होंने आठ रस ही माने हैं । बाद के आचार्यों ने इसकी गणना रसों में की है, किंतु किसी ने उसको सर्व-

प्रधान रस बनाने की चेष्टा अबतक नहीं की, इसलिये मैं भी इस बात को नहीं उठाना चाहता। अब रहे वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स। बीभत्स और भयानक 'यथा नामस्तथा गुणः' हैं, उनकी चर्चा ही क्या। पहले मैं यह लिख भी आया हूँ कि इनसे शृंगार में क्या विशेषता है, इसलिये इनको छोड़ता हूँ। वीर और रौद्र रस प्रधान रसों में हैं। वीर का स्थायी भाव उत्साह और रौद्र का क्रोध है। प्राणी मात्र के जीवन के लिये दोनों की बड़ी आवश्यकता है। क्रोध के अभाव में आत्मसंरक्षण नहीं हो सकता और उत्साह के अभाव में जीवन यात्रा का यथार्थ निर्वाह नहीं हो पाता। वीर भाव जीवन को जाग्रत् और रौद्र भाव उसको सतर्क रखता है। संसार-कार्य-क्षेत्र उत्साह से हरा-भरा है और क्रोध से सुरक्षित। संसार की शांति वीरता का मुख देख जीती है और विश्व के दुर्जन, क्रोध की लाल आँखें देख कंपित होते हैं। वीर के गले के विजय हार से वसुंधरा सुगंधित है और रौद्र के रक्त रजित तलवार से दानवी कदाचार कुंठित। उत्साह हो चाहे क्रोध, वीर रस हो चाहे रौद्र रस, उनके जो संदेश अथवा लोकोपकारक भाव हैं, उनमें जो पवित्रता, उत्तमता, उज्ज्वलता और दर्शनीयता हैं वे सब शृंगार समर्पित विभूतियाँ हैं। शृंगार द्वारा ही वे उन्हें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि 'यत्किञ्चिल्लोके शुचिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्चुंगारेणोपमीयते।' ऐसी अवस्था में शृंगार ही उनका शृंगारक और उस हेतु का मूल है, जिसके लिये मंगलमय विश्व में उनकी सृष्टि हुई। अतएव इन दोनों रसों को भी शृंगार से प्रधानता नहीं मिल सकती।

किसी-किसी ने वात्सल्य रस को दसवाँ रस माना है और कुछ लोगों ने भक्ति को रस में परिगणित करने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, इनको सर्वप्रधान भी कहा गया है। वात्सल्य रस शीर्षक एक बहुत बड़ा लेख आगे आप लोगों को मिलेगा। मैंने उसमें इन दोनों के रसत्व के विषय में बहुत कुछ लिखा है, परंतु इनको रसों में स्थान नहीं दे

सका । कारण इसका यह है कि वत्सलता एवं भक्ति रति का ही एक रूप है । माँ की संतान विषयिणी रति वत्सलता है और भक्तों की ईश्वर विषयिणी रति भक्ति । इसलिये इनमें परस्पर ऐसी भिन्नता नहीं कि इनको अलग एक रस माना जावे । ज्ञात होता है, प्राचीन बड़े-बड़े आचार्यों ने भी यही विचार कर वत्सलता और भक्ति को अलग रस नहीं माना । रति की व्यापकता कितनी है, मैं भलो-भाँति इसका प्रतिपादन कर चुका हूँ, ऐसी अवस्था में भक्ति का अथवा वान्सल्य रस का उसमें अतर्भाव होना असंगत नहीं । जन साधारण अथवा मानव को प्रीति ही यथा काल व्यापक होकर ईश्वरीय प्रेम अथवा भक्ति में परिणत होती है, यह भी एक अनुभूत सिद्धांत है । इससे भी भक्ति और रति की एकता ही निश्चित होती है, मात्रा में भले ही कुछ अंतर हो । इस सिद्धांत पर उपनीत होने पर उस विवाद का निराकरण हो जाता है, जो वात्सल्य और भक्ति को अलग रस मानने से उत्पन्न होता है । क्योंकि जब वे शृंगार के ही अंगभूत हैं तो फिर उनमें परस्पर प्रधान और अप्रधान होने का तर्क कैसा ? एक प्रकार से और इस विषय को देखिये । देव विषयिणी रति को आचार्यों ने भाव माना है, इसलिये ईश्वर विषयक रति भी भाव है, पुत्र-प्रेम को भी भाव ही कहा गया है—
काव्यप्रकाशकार कहते हैं—

“रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । भावः प्रोक्तः
आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया ॥”

काव्यप्रकाश के टीकाकार लिखते हैं—“अनुभावादिभिरपुष्टयाश्च न रसत्व कितु भावत्वमेवेति भावः ।” अनुभावादि से जो अपुष्ट होते हैं उन को रसत्व नहीं प्राप्त होता, वे भाव ही रहते हैं । ऐसी दशा में भाव से रस का स्थान ऊँचा हुआ । यदि देव एवं पुत्र रति की गणना भाव ही में है, जैसा कि ऊपर के वाक्यों से सिद्ध होता है, तो भी शृंगार रस को वात्सल्य भाव और भक्ति (देव रति) पर प्रधानता ही मिलती है ।

अब तक जो कुछ कहा गया उससे शृंगार रस की प्रधानता ही प्रतिपादित हुई, और यही इष्ट था ।

शृंगार रस का साहित्य

‘सहितस्य भावः साहित्यम्’ जिसमें सहित का भाव हो, उसको साहित्य कहते हैं । इस सहित की व्याख्या क्या है ? उसे ‘हिंदी शब्दसागर’ के निम्नलिखित अवतरण में देखिये—

‘साहित्य—संज्ञा पुं० (संस्कृत) (१) एकत्र होना, मिलना, मिलन । (२) वाक्य में पदों का एक प्रकार का संबंध जिसमें वे परस्पर अपेक्षित होते हैं और उनका एक ही क्रिया से अन्वय होता है । (३) किसी एक स्थान पर एकत्र किये हुए मिलित उपदेश, परामर्श या विचार आदि । लिपिवद्ध विचार या ज्ञान । (४) गद्य और पद्य सब प्रकार के उन ग्रंथों का समूह जिनमें सार्वजनीन मानव भाव बुद्धिमत्ता तथा व्यापकता से प्रकट किये गये हों ।—पृ० ३५२६

प्रकृतिवाद में साहित्य शब्द का यह अर्थ लिखा है—

साहित्य—(सहित + य—भावे इत्यादि) सं० क्वी० संसर्ग, मिलन । शब्द शास्त्र, काव्य शास्त्र, संबंध विशेष, एकक्रियान्वयित्व ।

शब्द-विवेककार कहते हैं—

परस्पर सापेक्षाणा तुल्यरूपाणा युगपदेकक्रियान्वयित्व साहित्यम् ।

शब्द-शक्तिप्रकाशिकाकार कहते हैं—

तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वं बुद्धि विशेषविषयित्वं वा साहित्यम् ।

शब्दकल्पद्रुमकार कहते हैं—

मनुष्यकृतः श्लोकमयग्रन्थविशेषः साहित्यम् ।

कवींद्र रवींद्र क्या कहते हैं, उसे भी सुनिये—

‘साहित्य का विषय मानव हृदय एव मानव चरित्र है ।

‘मानवचरित्र ही नहीं । वस्तुतः वहिः प्रकृति और मानवचरित्र

मनुष्य के हृदय में अनुक्षण जो आकार धारण करता है, जो संगीत ध्वनित करता रहता है, भाषा रूप में परिणत वह चरित्र तथा वह गान ही साहित्य कहलाता है।' —साहित्य पृ० ५

संसार सौंदर्यमय है, हमारी दृष्टि जिधर जाती है, उधर ही सौंदर्य का विकास दृष्टिगत होता है। आकाश के उज्ज्वल नक्षत्र यदि अंतस्तल में अद्भुत भाव उत्पन्न करते हैं, हृदय को विमुग्ध रखते हैं, तो धरातल के कुसुम कदंब, हरे-भरे वृक्ष, ललित लतिकाएँ और तरह-तरह के दूसरे दृश्य मानसों को कम विमोहित नहीं बनाते। इतना ही नहीं, ललनाओ का लावण्य, बालकों का लोकमोहन रूप, उनकी कलित ललित क्रीड़ाएँ, पक्षियों का सुंदर आकार प्रकार, उनका लोकोत्तरगान, नाना सुस्वरूप पशु वृंद का केलि-कलाप, अनेकानेक कीट पतंगों का अद्भुत चित्रण, उनके विविध बिहार, किसके मन नयन में धर नहीं करते ? सुंदर समय, ऋतुओं का मनोहर विकास, सुसज्जित उद्यान, बाग-बगीचे और रमने, सैकड़ों हास-विलास के उपस्कर, मन के विकार और नाना मोहक भाव, हृदय का सौंदर्य, मनोमुग्धकर आलाप किसको आनंद में निमग्न नहीं कर देते ? इन सांसारिक सुंदर से सुंदर बाह्य एवं आंतरिक दृश्यों को देखकर लोग मोहित और आनंदित ही नहीं होते, उल्लसित भी होते हैं। उस दशा में जो भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, जो रस सोत की लहरें मानसों में उठती हैं, आनंद उद्गार के स्वरूप में बाहर निकलने का उद्योग करती हैं। यही उनका शाब्दिक रूप है। किसी विशेष सहृदय द्वारा वे जब पद्य रूप में परिणत हो जाती हैं, कविता कहलाती हैं। गद्य में भी वे लिखी जाती हैं, किंतु गद्य से उनका पद्य रूप विशेष मोहक होता है, क्योंकि उसमें संगीत होता है। कवि-कर्म ही काव्य है और काव्य ही साहित्य। बाह्य जगत से अंतर्जगत का कवि कर्म और साहित्य कम विमोहक और विलक्षण नहीं होता। इसीलिये उच्च कोटि का साहित्य वही माना जाता है, जिसमें दोनों ही का सुंदर

वर्णन और विश्लेषण हो। कवींद्र रवींद्र को उक्तिका मर्म, व हिंदी शब्द-सागर के कथन का निचोड़ यही है।

जब मैं संस्कृत भाषा के साहित्य ग्रंथों को उठाकर देखा हूँ, महा-भारत से महान और विशालकाय एवं वाल्मीकि रामायण से मधुर और सरस ग्रंथों को अबलोकन करता हूँ, कविपुंगव कालिदासादि के काव्य-ग्रंथों, महा विद्वान् मम्मट आदि के रस अलंकारादि संबंधी रोति ग्रंथों, पर दृष्टिपात करता हूँ, पुराणों और आख्यान पुस्तकों को पढ़ता हूँ, तो सब में शृंगार रस की धारा प्रखर वेग से बहती मिलती है और सबों में ही वह ओत-प्रोत पाया जाता है। कारण इसका यह है कि सांसारिक जीवन शृंगार सर्वस्व है। सांसारिकता का आधार गार्हस्थ्य जीवन है, गार्हस्थ्य जीवन पुत्र-कलत्रावलंबित है, पुत्र-कलत्र मूर्तिमंत शृंगार हैं, अतएव सांसारिकता का संबल शृंगार है। विश्व के जितने आहार-विहार उपादेय हैं, जितने हास-विलास वाञ्छनीय हैं, जितने केलिकलाप कमनीय हैं, जितनी लीलाएँ लोक-प्रिय एवं ललित हैं, जितने आचार-विचार और व्यवहार प्रशंसनीय हैं, उनमें से अधिकांश शृंगार रस के अंतर्गत हैं, इसीलिये उक्त समस्त ग्रंथों में उसका ही पूर्ण प्रसार देखा जाता है। कवींद्र रवींद्रनाथ एक स्थान पर कवि और महाकवि पर विचार करते हुए अपने प्राचीन साहित्य नामक ग्रंथ (पृ० १-२) में यह लिखते हैं—

“काव्य को दो भागों में बाँटा जा सकता है, किसी काव्य में अकेले कवि की बातें होती हैं और किसी काव्य में बृहत् सम्प्रदाय का इतिवृत्त। अकेले कवि की बातें कइने का यह भाव नहीं कि वह अन्य लोगों के लिये ज्ञेय नहीं। यदि ऐसा होता, तो उसे पागलपन कहा जाता। उसका यह अर्थ है कि कवि में ऐसी क्षमता है कि जिसके भीतर से उसके सुख-दुःख, उसकी कल्पना और उसके जीवन की अभिज्ञता के सहारे,

विश्वमानव का चिरन्तन हृदयावेग और जीवन संबंधी मर्म-कथा अपने आप प्रकट हो उठती है ।

‘जैसे एक प्रकार के कवि हैं, वैसे ही दूसरे प्रकार के वे कवि हैं, जिनकी रचना के भीतर से समग्र देश, समग्र युग, अपने हृदय की अभिज्ञता को प्रकट करके उसको मानव जाति की चिरकालिक सामग्री बना देता है ।

‘इस दूसरे प्रकार के कवि को महाकवि कहा जाता है । समग्र देश और समग्र जातियों की सरस्वती इनका सहारा ग्रहण कर सकती है । ये लोग जो रचना करते हैं उनको किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं कही जा सकती । ज्ञात होता है मानों वह किसी विशाल वृक्ष के समान देश के भूतल जठर से उत्पन्न होकर उसी देश को ही आश्रयच्छाया प्रदान करते हैं । शकुन्तला और कुमार-संभव में विशेष भाव से कालिदास की निपुण लेखनी का परिचय मिलता है । किंतु रामायण और महाभारत के विषय में यह ज्ञात होता है कि पुण्यसलिला भगवती भागीरथी और अचल हिमाचल के समान वे भारत की ही सम्पत्ति हैं—व्यास एवं वाल्मीकि उपलक्षण मात्र हैं ।”

कविवर रवींद्रनाथ ने जो कवि और महाकवि की विशेषता बतलाई है, उससे आपको उन लोगों का महत्त्व भली-भाँति अवगत हो गया होगा, जो संस्कृत-साहित्य के कर्ता हैं । कवि होना ही दुस्तर है, महाकवि होना तो ‘नाख्यतपसः फलम्’ है । ऐसे वन्दनीय कवियों और महाकवियों की रचनाओं में भी जो शृंगार रस का आधिक्य है, उसका क्या कारण ? जो पुण्यश्लोक हैं, आर्य आदर्श के स्तंभ हैं, इस तमसा-च्छन्न काल में भी जो आलोक विकीर्ण कर हमको पथ-भ्रान्त नहीं होने देते, क्या उन्होंने बहककर ऐसा किया है ? ऐसी कल्पना तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती । वास्तविक बात यह है कि शृंगार रस की प्रधानता, व्यापकता, उज्ज्वलता और दर्शनीयता ही उसको इस उच्च पद पर

आरूढ़ करती आई है। संस्कृत साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य को भी हाथ में उठाकर यदि आप देखेंगे तो उसमें भी शृंगार रस इसी पद पर आरूढ़ मिलेगा। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी-साहित्य में शृंगार रस कुछ अधिक मात्रा में है तो आश्चर्य क्या ! जिस स्वाभाविकता सूत्र में संसार की भाषाएँ बँधी हुई हैं, उसे वह छिन्न कैसे करता।

सब काल का आदर्श समान नहीं होता। आदर्श के अनुसार रुचि बदलती है और रुचि के अनुसार साहित्य में भी परिवर्तन होता है। साहित्य अपने समय का दर्पण होता है, जिस काल में उसकी रचना होती है, उस काल का अधिकांश चित्र उसमें यथातथ्य प्रतिबिंबित रहता है। किसी साहित्य की आलोचना करने के पहले, जिस काल का परिणाम वह साहित्य है, उसपर दृष्टि रखना आवश्यक है। एक काल में भी विभिन्न विचार के लोग होते हैं, किंतु जो तत्व समाज द्वारा गृहीत हो जाता है, उस समय का आदर्श वही होता है। काल पाकर वह आदर्श उपयोगी न रहे, परंतु अपने समय में भी वह उपयोगी नहीं था; यह नहीं कहा जा सकता। विधवा-विवाह आर्य जाति में कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, विधवाओं के ब्रह्मचर्य पालन और आत्म-संयम की ही प्रशंसा की गई है, और उनके त्याग का ही गुण-गान किया गया है। आज इस विचार की कुत्सा की जा रही है और विधवा-विवाह को ही उपकारक माना जा रहा है। विधवा-विवाह प्रचलित भी हो रहा है। किंतु जिस समय विधवा-विवाह को अनुचित ठहराया गया, उस समय वैसा करना ही समुचित नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। साहित्य प्रायः सत्पथ पर चलने की ही चेष्टा करता है, यह दूसरी बात है कि काल पाकर वह पथ अच्छा न समझा जावे। यह साधारण सिद्धांत है, अपवाद की बात और है।

संस्कृत-साहित्य का एक काल ऐसा है, जिसमें साहित्य के प्रत्येक अंग का सूक्ष्म विवेचन किया गया है और उसके विशेष अंशों पर गहरी

दृष्टि डाली गई है। यह कार्य बड़े त्याग और परिश्रम से किया गया और उसमें इतनी सफलता प्राप्त की गई कि उसको देखकर आज भी पाश्चात्य विद्वान् चकित होते हैं। इस महान् उद्योग में न तो स्वार्थ की गन्ध है, न वासनाओं की बास। उसमें समाज और देश की वरन् लोक की हितकामना ही निहित है, उसके द्वारा अपनी विद्या एवं कला की भी चरमोन्नति की गई है। रस-संबंधी गहन विचार भी ऐसा ही कार्य है। शृंगार रस सब रसों में प्रधानता रखता है, इसलिये उसके प्रत्येक अंग पर साहित्य ग्रंथों में बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। उसका नायिका विभेद-विभाग कला की दृष्टि से अपूर्व तो है ही, उपयोगिता भी उसमें कम नहीं है। साहित्य के जितने उद्देश्य हैं ऊपर उद्धृत कर आया हूँ वे सब उसमें पाये जाते हैं। उसके कुछ अंश असामयिक समझे जा सकते हैं, परंतु वास्तव में वे असामयिक हैं या नहीं, इसपर विचार करना होगा और विचार करते समय उस काल पर भी दृष्टि रखना होगा, जिस समय उनकी रचना हुई। इतना ही नहीं, उनको सामने रखकर वर्तमान प्रगति पर भी दृष्टि डालनी होगी और मिलान करके देखना होगा, कि वांछनीय कौन है। ऐसा मैं आगे चलकर करूँगा, इस समय मैं यह विचारूँगा कि संस्कृत साहित्य में नायिका विभेद की कल्पना कब हुई, संस्कृत साहित्यकारों ने उसको किस रूप में ग्रहण किया और फिर वह कैसे पल्लवित हुआ ?

संस्कृत साहित्य और नायिका-भेद

समाज-नियमन सुगम नहीं। मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, उनमें अंतर्दृष्टि नहीं होती, अथवा वे आवरित होती हैं। अपना स्वार्थ उनको जितना प्यारा होता है, परमार्थ नहीं। उनकी उच्छृङ्खलता अग्यों की परतंत्रता अथवा स्वतंत्रता पर दृष्टिपात नहीं करती। उनकी कामुकता इतनी अंधी होती है कि दूसरों की मानमर्यादा को देखती ही नहीं। फिर समाज कैसे चले ? यदि सब मनमानी ही करता रहे, तो समाज

में नित्य विस्रव ही होता रहेगा, शांति रहेगी हो नहीं, फिर सुव्यवस्था कैसे होगी ? यदि सुव्यवस्था न होगी तो समस्त कार्यकलाप विशृङ्खल हो जावेगे, जिसका परिणाम समाज और देश का विनाश होगा। इसी लिये देशकालज्ञ विवुधो ने ऐसे नियम बना रखे हैं, या ऐसे नियम यथाकाल बनाते रहने हैं, जिनके पालन से सर्व देश सुरक्षित रहता है और समाज अथवा मानव समूह का उन्नति-स्रोत बंद नहीं होता। नियम बनाना उतना कठिन नहीं, जितना उसका पालन कराना। भिन्न-भिन्न रुचि और नाना प्रकार की प्रकृति होने के कारण, जब तक नियमों में सामञ्जस्य नहीं होता, तब तक उनका यथारीति न तो पालन होता है, न समाज सुव्यवस्था सूत्र में बंध सकता है। सामञ्जस्य स्थापन के लिये रुचि और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। समाज दो भागों में विभक्त है, स्त्री और पुरुष उसके विभाग हैं। स्त्री और पुरुषों के स्वभाव में स्वाभाविक बहुत बड़ी बड़ी भिन्नतायें हैं। इसलिये समाज की सुव्यवस्था के लिये एक को दूसरे की रुचि और प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार पुरुष का पुरुष के और स्त्री का स्त्री के भावों एवं विचारों से अभिन्न होना वांछनीय है। जहाँ प्रकृति नहीं मिलती, स्वभाव का पूरा परिज्ञान नहीं होता, वहाँ पद-पद पर पतन होता है, और सफलता दूर भागती है। किंतु जहाँ मनोविज्ञान पर दृष्टि रखकर कार्य संचालन किया जाता है, वहाँ स्वलन कदाचित् ही होता है, क्योंकि रुचि देखकर और स्वभाव पहचानकर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण होने से असफलता प्रायः सामने आती ही नहीं। इस उद्देश्य को सिद्धि के लिये अनेक साधनों की सृष्टि हुई है। सैकड़ों ग्रंथ लिखे गये हैं, बहुत-सी कवितायें रची गई हैं, और नाना प्रकार की शिक्षाओं का आयोजन नाना सूत्रों से किया गया है। नाट्य शास्त्र की रचना भी इसी उद्देश्य से हुई है, क्योंकि नाटकों के द्वारा मानसिक भावों का प्रत्यक्ष दर्शन कराकर जितना मानवी प्रकृति एवं रुचि का परिज्ञान कराया जा

सकता है, अन्य साधनों द्वारा नहीं। नाटकों से मनोरंजन तो होता ही है, मानवी विचारों का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंश भी सामने आ जाता है। मेरा विचार है सबसे पहले संसार में इस बात को महामुनि भरत ने सोचा, क्योंकि उनका नाट्य-शास्त्र शायद इस विषय का पहला ग्रंथ है। उन्होंने अपने ग्रंथ में नाटक-संबंधी सम्पूर्ण बातों का पूर्ण विवेचन कर दिखाया है, और उससे संबंध रखनेवाले प्रत्येक विषय का विशद वर्णन भी किया है। रस की कल्पना उन्होंने ही की है, और अनेक मानसिक सूक्ष्म भावों का विश्लेषण भी उन्हीं की लेखनी का कौशल है। उन्होंने स्थायी भाव और संचारी भावों का वर्णन तो किया ही है, नायक-नायिका संबंधी अनेक भावों और विचारों की सुंदर व्याख्या भी की है, उद्देश्य केवल मनोभावों का यथार्थ पाठ पढ़ाकर समाज का मंगल साधन ही है। नाट्य-शास्त्र के कुछ अध्यायों में उन्होंने जिस प्रकार नायक-नायिकाओं के भेद बतलाकर उनके सूक्ष्म मानसिक भावों का चित्रण किया है, वह दर्शनीय है। उसमें जो कुछ वर्णन किया गया है, मैं समझता हूँ वह मनोविज्ञान विषयक बहुमूल्य सामग्री है। मेरा विचार है, रस और नायिका विभेद आदि के पहले आचार्य्य वे ही हैं। अग्निपुराण में उनके विषय में यह लिखा है—‘भरतेन प्रणीतं वाद्भारतीरोति-व्यते’ इससे ज्ञात होता है कि वे उसी काल में हुए जिस काल में व्याकरण के आचार्य्य गौतम आदि हुए हैं। उस काल में जिन विषयों का विवेचन हुआ है, वैज्ञानिक रीति से और बड़ी ही गभीरता से हुआ है, इसीलिये नाट्य-शास्त्र का प्रत्येक वर्णन भी इसी रंग में डूबा हुआ है।

नाट्य-शास्त्र के छठवें अध्याय में रस का और सातवें अध्याय में भावों का वर्णन है। इन दोनों में आठ रसों और विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का बड़ा सरस और व्यापक निरूपण है। वे लिखते हैं—

“तत्राष्टौ भाव स्थायिनः। त्रयस्त्रिंशदव्यभिचारिणः। अष्टौ वात्सिकाः। एवमेते-

काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकोनपंचाशद्भावाः प्रत्यवगतव्याः । एभ्यश्च सामान्य-
गुणयोगेन रसा निष्पद्यते ।”

आठ स्थायी भाव, तैंतीस व्यभिचारी भाव और आठ सात्विक भाव मिलकर ४६ भाव होते हैं, काव्य में रस अभिव्यक्ति के हेतु वे हो होते हैं । इन्हीं से सामान्य गुण योग द्वारा रस बनते हैं ।

यह लिखकर उन्होंने सब का पूरे वर्णन किया है और बड़े विस्तार से बतलाया है कि अभिनय के समय उनको कैसे काम में लाना चाहिये । यद्यपि नाट्य-शास्त्र में इनका वर्णन अभिनय के लिये ही हुआ है, किंतु पीछे इनका उपयोग श्रव्य-काव्य में भी आवश्यकता के अनुसार किया गया । नायिका-भेद के ग्रंथों में नायिका तीन प्रकार की मानी गई हैं, यह कल्पना भी नाट्य-शास्त्र से ही ली गई है—उसके २२वें अध्याय में लिखा गया है—

सर्वासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृतिः स्मृता ।

उत्तमा मध्यमा चैव तृतीया चाधमा स्मृता ॥

प्रकृति के विचार से स्त्रियाँ तीन प्रकार की होती हैं—उत्तमा, मध्यमा और अधमा ।

इसी अध्याय में एक दूसरे स्थान पर आठ प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है, वे भी इसी रूप में यथातथ्य नायिका-भेद के ग्रंथों में ले ली गई हैं—वे ये हैं—

तत्र वासकसज्जा वा विरहोत्कंठितापि वा ।

खडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभर्तृका ।

स्वाधीनपतिका वापि कलहांतरितापि वा ॥

तथाभिसारिका चैव इत्यष्टौ नायिकाः स्मृताः ॥

इसी अध्याय में काम की दश दशाओं का उल्लेख यो किया गया है—

प्रथमे त्वभिलाषः स्याद्वितीये चितनं भवेत् ।

अनुस्मृतिस्वृतीये तु चतुर्थे गुणकीर्तनम् ॥

उद्वेगः पचमे प्रोक्तो विलापः षष्ठ उच्यते ।
 उन्मादः सप्तमे जेयो भवेद् व्याधिस्तथाष्टमे ॥
 नवमे जडता चैव मरणं दशमे भवेत् ।

बाइसवें अध्याय में हावो का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

लीलाविलासोविच्छित्तिर्विभ्रमः किलकिचित्तम् ।
 मोहायित कुट्टमित बिम्बोको ललित तथा ॥
 विविद्धतश्चेति सयुक्ता दश स्त्रीणा स्वभावजाः ।

इसी प्रकार से किसी न किसी रूप में नायिका भेद की समस्त सामग्री इस ग्रंथ में मिल जाती है। नायक, नायिका, सखा, सखी और दूतियों के भेद, उपभेद और अवस्थाओं का इतना विशद वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है कि श्रव्य-काव्य ग्रंथों में उनका उल्लेख तक नहीं मिलता। हाँ, छोटकर कुछ नायक, नायिका, सखा, सखी एवं दूतियों के भेद-उपभेद को उनमें स्थान मिला है, यत्र-तत्र कुछ विशेष बातें भी लिखी गई हैं। कहने का प्रयोजन यह कि नायिका भेद का उद्गम स्थान नाट्य शास्त्र ही है। जो नाट्य-शास्त्र लिखता है 'यत्किञ्चित्लोके शुचिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छृणारेणोपमीयते' वह नायिका भेद को कभी ग्रहण न करता, जो उसमें अभव्य भावना होती। वास्तव में उसने लोकहित दृष्टि ही से उसका निरूपण किया है और उसको लिखकर साहित्य के उस अंग की पुष्टि की है, जिसके अभाव में उसका शरीर पूर्ण सशक्त न बन सकता।

। नायिका भेद का कुछ वर्णन अग्निपुराण में भी है, परंतु साहित्य-दर्पण में उसका पूर्ण विकास देखा जाता है। मैं समझता हूँ आजकल जिस प्रणाली से नायिका विभेद लिखा जाता है, उसके आदि प्रवर्तक साहित्यदर्पणकार ही हैं। रसमंजरी में साहित्यदर्पण की ही छाया दृष्टिगत होती है। यह ग्रंथ ईसवी सोलहवीं शताब्दी का है और केवल नायिका भेद पर लिखा गया है। ग्रंथ अच्छा है आधुनिक प्रणाली का आदर्श है। उसमें साहित्यदर्पण से कहीं-कहीं कुछ भिन्नता है, पर नाम

मात्र को। संभव है संस्कृत में नायिका भेद के और ग्रंथ भी हों, किंतु वे मेरे देखने में नहीं आये परंतु अधिकांश काव्य ग्रंथों में ऐसे वाक्य यत्र-तत्र मिल जाते हैं, जिससे पाया जाता है कि उनके रचयिता नायिका भेद से परिचित अवश्य हैं और उसके प्रेमी भी हैं, चाहे उनकी स्वतंत्र रचना नायिका भेद पर भले ही न हो। गीतगोविंद इसका प्रमाण है, जिसके पाँचवें सर्ग में अभिसारिका, छठे में वासकसजा, सातवें में विप्रलब्धा, आठवें में खंडिता, नवें में कलहांतरिता और दसवें में मानिनी का वर्णन है। ऐसे और ग्रंथ भी बतलाये जा सकते हैं। कहने का प्रयोजन यह कि संस्कृत साहित्य के बड़े-बड़े आचार्यों और विद्वानों द्वारा भी नायिका विभेद उपेक्षित नहीं हुआ और न उसकी रचना शंका की दृष्टि से देखी गई। यदि उसमें कुछ तत्व और आकर्षण न होता—उसमें कुछ उपयोगिता न होती तो ऐसा कदापि न होता।

संसार के साहित्य को उठाकर देखिये, उसमें भी यह विषय भरा पड़ा है। संस्कृत के विद्वानों के समान उन्होंने इस विषय का कोई विभाग नहीं बनाया और न उनको नियमबद्ध कर उन पर विवेचन किया, फिर भी उनकी रचनाओं में वे विचार और भाव पाये जाते हैं, जो कि हमारे नायिका विभेद में मिलते हैं। संसार के मनुष्य मात्र के भाव दाम्पत्य धर्म के विषय में अधिकांश एक हैं, क्योंकि प्रकृति प्रायः मिलती है। इसलिये विचारों का एक होना स्वाभाविक है। मनुष्य मात्र का हृदय एक उपादान से बना है, इसलिये उनकी स्वाभाविक चिंताएँ समान होती हैं। सुख-दुःख के अनुभव का भाव संसार भर का एक ढंग में ढला देखा जायगा, यदि उसमें कृत्रिमता आकर शामिल न हो गई हो। मैं अपने कथन का प्रमाण दूँगा।

नायिका किसे कहते हैं, जो लोक-सुंदरी हो, जिसका रूप देखकर आँखें अनुभव करें कि सौंदर्य स्वयं रूप धारण करके सामने आ गया। संस्कृत-हिंदी-साहित्य में नायिकाओं के रूप का वर्णन आप लोगों ने

बार-बार पढ़ा है। एक अंगरेज बिद्वान्-टी० लाज को नायिका को देखिये—

With orient pearl, with ruby red,
 With marble white, with sapphire blue
 Her body every way is fed,
 Yet soft in touch and sweet in view :
 Heigh ho, fair Rosaline !
 Nature herself her shape admires ;
 The Gods are wounded in her sight ;
 And Love forsakes his heavenly fires,
 And at her eyes his brand doth light :
 Heigh ho, would she were mine !

उसकी देह कहीं मोती, कहीं लाल मणि, कहीं श्वेत संगमरमर और कहीं नीलम से पुष्ट हुई है। परंतु स्पर्श में कितनी कोमलता है, दर्शन में कितनी मधुरता है ! स्वयं प्रकृति उसके रूप को प्रशंसा करती है। देवता तक उसे देख कर मुग्ध हो जाते हैं। कामदेव तो स्वर्ग को छोड़ कर उसी के नेत्रों से अपना शर तीक्ष्ण करते हैं। क्या वह मेरी नहीं होगी !

हमारी स्वकीया नायिका का क्या रूप है, उससे महित्य-हेटि परिचित हैं। उसमें पति-दोष देखने की शक्ति नहीं होती, वह मूर्तिमती प्रेम होती है और सच्ची सहधर्मिणी बनकर रहती है—देखिये जी० डार्ली की नायिका वही है कि दूसरी ?

Give me, instead of Beauty's breast,
 A tender heart, a loyal mind,
 Which with temptation I could trust,
 Yet never linked with error find,—
 One in whose gentle bosom I
 Could pour my secret heart of woes,

Like the care—burthen'd honey-fly
 That hides his murmurs in the rose.
 My earthly comforter ! whose love,
 So indefeasible might be
 That, when my spirit won above,
 Hers could not stay for sympathy.

मैं सुंदरता को मूर्ति नहीं चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोमल हृदय हो, ऐसी दृढ़ अविचल बुद्धि हो, जो स्पृहणीय हो । लोभ में भी मैं जिस पर विश्वास कर सकूँ, परंतु दोषनिरूपण से जिसका संबंध न हो । जिससे मैं अपने गुप्त दुःखों को बातें कह सकूँ और जिससे मेरी समस्त चिंता और सारा संताप दूर हो जावे ।

ऐसी ही नायिका यह कह सकती है—

Were I as high as heaven above the plain,
 And you, my Love, as humble and as low.
 As are the deepest bottoms of the main,
 Whereso'er you were, with you my love should go.

यदि मैं मैदान के ऊपर के आकाश की तरह ऊँची होती और तुम, मेरे प्यारे, सब से गम्भीर समुद्र-तल को तरह नीचे पड़े होते, तो जहाँ-जहाँ तुम रहते, तुम्हारे संग वहीं-वही मेरा प्रेम रहता ।

मध्याधीरा वह है जो आगत अपराधी पति का भी सम्मान करे, जिसके रूपेण में भी स्निग्धता हो । क्या कालेरिज की निम्नलिखित नायिका ऐसी ही नहीं है ?

But now her looks are coy and cold,
 To mine they ne'er reply,
 And yet I cease not to behold,
 The love-light in her eye:

वह देखती तो मेरी ओर इस ढंग से है, जिससे यह प्रकट हो कि उसमें प्रेम नहीं है, परंतु उसके नेत्रों में प्रेम की ज्योति है ।

अधमा वह है जो प्रेम करने पर भी प्रियतम से रुष्ट रहती है । एक ऐसे ही व्यथित से उसका मित्र क्या कहता है, उसे मुनिये—उसकी पक्तियों में से अधमा का भाव फूटा पड़ता है—

Why so pale and wan, fond lover ?

Prythee, why so pale ?

Will, when looking well can't move her,

Looking ill prevail ?

If of herself she will not love,

Nothing can make her .

The Devil take her !

तुम इतने पीले क्यों पड़ गये ? जब तुम अच्छे रहे, तब तो उस पर तुम्हारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़—वह रूठी ही रही । अब इतना दुःख करने से लाभ क्या ? अगर वह स्वयं प्रेम नहीं कर सकती तो किसी तरह मनाने से वह राजी न होगी ।

एक व्यथिता परकीया का उदाहरण देखिये—

Wi' lightsome heart I pu'd a rose,

Frae aff its thorny tree;

And my fause luvver staw the rose,

But left the thorn wi' me.

प्रोपितपतिका—जो पति के प्रवास—दुःख से दुःखिता हो उसे प्रोपित-पतिका कहते हैं—

Come ye, yet once again, and set your foot by mine,

Whose woeful plight and sorrows great no tongue

may well define,

My love and lord, alas ! in whom consists my wealth,
Hath fortune sent to pass the seas, in hazard of
his health.

Whom I was wont t' embrace with well contended
mind

Is now amid toe foaming floods at pleasure of the
wind.

तुम फिर एक बार आओ और मेरे साथ रहो तुम्हारी दुःखमयी दशा और बड़े-बड़े कष्टों का वर्णन कोई जिह्वा अच्छी तरह नहीं कर सकती। मेरे प्यारे और मेरे प्रभु, मेरे जीवन-धन तुम्हीं हो, स्वास्थ्य के लिये आपत्तिजनक होते हुए भी भाग्य ने तुमको समुद्र पार भेज दिया है। तुमको स्पर्श करने से मुझे संतोष होता था। हा ! अब तुम समुद्र की भीषण लहरों के बीच पड़े होगे।

वासकसज्जा—जो शृंगार से सजकर अपने स्थान पर बैठी हुई पति की प्रतीक्षा करती है—

O some where, meek unconscious dove,
That sittest ranging golden hair,
And glad to find thyself so fair
Poor child, that waitest for thy love.

× × × × ×

And thinking this will please him best,
She takes a riband or a rose.

अपने बालों को सँवारती हुई वह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठी है। यह सोचकर कि वह इससे अधिक खुश होगा, वह कभी बालों में रिबन लगाती है, कभी गुलाब।

कलहांतरिता—जो प्रिय से कलह करके पश्चाताप करती है उसे कलहांतरिता कहते हैं—

I loved him not, and yet, now he is gone,
I feel I am alone.

I checked him while he spoke; yet could he speak,
Alas ! I would not check.

मैं उसे चाहती नहीं थी, पर अब वह चला गया है, तो मुझे बिलकुल सूना लगता है। जब वह बोलता था तब तो मैंने उसे रोक दिया। परंतु अब यदि वह आ जाय और बोले, तो मैं उसे नहीं मना करूँगी।

फारसी और अरबी में भी ऐसे विचारों की कमी नहीं है, परंतु उनके पद्यों को उठाकर मैं इस लेख को बढ़ाना नहीं चाहता। उर्दू में उन दोनों भाषाओं के ही विचार भरे पड़े हैं, इसलिये कुछ उर्दू के ही इस प्रकार के पद्य आप लोगों के सामने रखूँगा। यह स्पष्ट है कि उक्त भाषाओं में माशूक आम तौर से अमरद होता है, इसलिये उसकी शायरी में स्त्रियों के भावा का प्रदर्शन बहुत कम है। फिर भी इस प्रकार के विचारों का अभाव नहीं है। मसनवियों में और यों भी ऐसे विचार मिल जाते हैं। उन्हीं में से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। संस्कृत में मुझको नखशिख वर्णन कम मिला। मेरा विचार है कि हिंदी में यह प्रणाली फारसी और उर्दू से आई है। हिंदी में पहले-पहल नख-शिख-वर्णन 'पद्मावत' में मिलता है, जो ग्रंथ मलिक मुहम्मद जायसी का लिखा है। यह निश्चित है कि उन्होंने फारसी के 'सरापा' वर्णन का ही अनुकरण अपने ग्रंथ में किया है। इसलिये इस विषय में फारसी उर्दूवाले तो हिंदीवालों से भी आगे हैं। फिर भी उनके इस तरह के कुछ विचारों को देखिये। एक विरहिणी अथवा प्रोषितपतिका का वर्णन गुलज़ार नसीम में यों किया गया है—

रातों को जो गिनती थी सितारे । दिन गिनने लगी खुशी के मारे ॥
 करती थी जो भूख प्यास बस में । आँसू पीती थी खा के कसमें ॥
 मृत में खयाल रह गई वह । हैयत में मिला रह गई वह ॥—नसीम

एक परकीया की बातें सुनिये—

उड़ गई यो, वफा जमाने से । कभी गोया किसी मे थी ही नहीं ॥
 गुल है जखमी बहार के हाथों । दिल है सच्चाक यार के हाथों ॥
 दम बंदम कता होती जाती है । उम्र लैलो निहार के हाथों ॥
 इक शिगूफा उठे है रोज नया । इस दिले दागेदार के हाथों ॥—हसन

एक मुग्धा का चित्र देखिये—

कुछ जवानी है अभी कुछ है लड़कपन उनका ।
 यों दगाबाजो के कबजे में है जोवन उनका ॥ —असीर

× × ×

कमसिनी है तो निराली है ज़िंदे भी उनकी ।
 इस पै मचले हैं कि हम ददें जिगर देखेगे ॥ —फसाहत

एक रूपवती नायिका के सौंदर्य का वर्णन यों किया गया है—

आया जो वह गुल चमन मे । फूले न समाये पैरहन में ॥

दो पद्य विच्छित्तिहाव के देखिये—जहाँ साधारण वेष-रचना से
 शोभा बढ़ती है—वहाँ विच्छित्ति हाव होता है—

है जवानी खुद जवानी का सिंगार । सादगी गहना है इस सिन के लिये ।

शोखी बेबाकी मुकतिजा सिन का । नाक मे फक्त सीक का तिनका ॥—अमीर

एक धृष्ट नायक की बातें सुनिये—देखिये आप कितने बेदहल हैं—

दिल मुक्तसे लिया है तो ज़ारा बोलिये हंसिये ।

चुटकी मे मसलने के लिये दिल नहीं होता ॥

ऐ चश्मेयार देख तगाफ़ुल से बाज़ आ ।

दिल टूट जायगा किसी उम्मेदवार का ॥ —अमीर

नायिका भेद के मूल में जो सत्य है, वास्तविक बात यह है कि वह सार्वभौम एवं सर्वकालिक है। उसके भीतर वे स्वाभाविक मानवी भाव सदा मौजूद रहते हैं, जो व्यापक और सर्वदेशी हैं, इसलिये उसकी अभिव्यक्ति विश्व भर में अज्ञात रूप से अथाकाल और यथावसर होती रहती है। वह मंगलमयी प्रकृति का वह गुप्त विधान है कि जिससे संसार संस्कृति सूत्र स्वतः परिचालित होता रहता है। मेरा विचार है, नाट्य-शास्त्रकार ने उसको वैज्ञानिक रीति से विधिबद्ध करके साहित्य को शोभा ही नहीं बढ़ाई है, लोकहित साधन का भी आयोजन किया है।

साहित्य और कला

कुछ लोग साहित्य को कला नहीं मानते किंतु कुछ लोग उसको भी कला कहते हैं। महाराज भर्तृहरि का यह श्लोक कि “साहित्यसंगीतकला-विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः” यह बतलाता है, कि साहित्य कला नहीं है, क्योंकि ‘कला’ का प्रयोग जिस प्रकार संगीत के साथ है, साहित्य के साथ नहीं, परंतु इसका उत्तर यह कहकर दिया जाता है कि ‘सङ्गीतमपि साहित्यम्’। चतुर्दश विद्या में साहित्य को जिस प्रकार स्थान नहीं मिला है, उसी प्रकार चौंसठ कला में भी नहीं, हाँ, समस्यापूर्ति को कला माना गया है। यदि समस्यापूर्ति कला है तो कविता भी उपलक्षण से कला मानी जा सकती है, क्योंकि उसके विषय में यह स्पष्ट कहीं नहीं लिखा गया है कि वह कला नहीं है। दूसरी बात यह कि आजकल के विद्वानों की यह स्पष्ट सम्मति है कि कविता ललितकला है—बगाल के प्रसिद्ध विद्वान् द्विजेंद्रलाल राय लिखते हैं—

“नियम-बद्ध होने के कारण काव्य और नाटक सुकुमार कला कहलाते हैं।”—कालिदास और भवभूति पृ० ८२।

पाश्चात्य विद्वान् उसको सुल्लभ सुल्ला कला कहते हैं। चेम्बर्स कहता है—

“Poetry is the art of expressing in melodious words

the thoughts which are the creations of feeling and imagination.”

“मधुर शब्दों में कल्पना और भाव-प्रसूत विचारों को प्रकट करने की कला को कविता कहते हैं” ।

मेकाले का यह वाक्य है—

“By poetry, we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on imagination.”

“शब्दों के प्रयोग की ऐसी कला को कविता कहते हैं, जिससे उसकी कल्पना में चमत्कार का आविर्भाव होता है” ।

आक्सफोर्ड कनसाइज़ डिक्शनरी में Poetry का अर्थ यह लिखा है ।

‘Poetry’—“Art, work of the poet.”

‘कला’ कवि का किया हुआ कर्म, (कविता) ।

अतएव काव्य अथवा कविता का कला होना सिद्ध है, इस सूत्र से साहित्य को भी कला कह सकते हैं । किंतु इस विषय में विशेष तर्क की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा विषय काव्य और कविता ही है और उसका ‘कला’ होना सिद्ध है । अतएव अब मैं प्रकृत विषय की ओर प्रवृत्त होता हूँ । नायिका विभेद अधिकांश काव्य अथवा कविता रूप में ही है, अतएव मैं देखना चाहता हूँ कि कला के रूप में वह कहाँ तक संगत है । पहले काव्य और कविता के विषय में आचार्यों की सम्मति देखिये—
अग्निपुराणकार यह कहते हैं—

‘सत्तेपाद् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।

काव्य स्फुटदलंकार गुणवदोषवर्जितम् ॥

जिसके वाक्य संक्षिप्त, जिसकी पदावली इष्टार्थ सम्पन्न हो, जिसमें सुंदर अलंकार हों, जो गुणयुक्त और दोषवर्जित हो वह काव्य कहलाता है—

‘अदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यम्’ ।—वामन

जो दोषदिहीन, गुणयुक्त और अलंकार सहित शब्दार्थ हैं, वे काव्य कहलाते हैं ।

। रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।—पंडितराज

रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा जाता है ।

। रसात्मक वाक्यं काव्यम् ।—साहित्यदर्पणकार

रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं—

अंगरेज कवि ले हंट लिखते हैं—

। Poetry is the best words in their best order.”

‘जिसमें सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम से स्थापित हों, वही कविता है।’

“He is the best whose verse exhibits the greatest amount of strength, sweetness, unsuperfluosness, variety, straightforwardness and oneness.”

‘सर्वोत्तम कवि वही है, जिसके पद्यों में सामर्थ्य, माधुर्य, रोचकता, सहज प्रवाह, और भाव की सामञ्जस्यपूर्ण एकता हो।’

शैली का यह कथन है—

“Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.

‘कविता सर्वश्रेष्ठ और दृढ़तम मस्तिष्कों के श्रेष्ठ और सुखमय अवसरो की रचनाओं का समूह है।’

ड्राइडेन को यह सम्मति है—

“Poetry is articulate music ”

‘कविता अर्थपूर्ण संगीत है।’

इन उद्धरणों का निचोड़ यही है कि जिसका शब्द-विन्यास सर्वोत्तम हो; जिसमें माधुर्य, रोचकता और रस प्रवाह हो, मधुर भावमयी कल्पना हो, अर्थपूर्ण संगीत हो; जिसकी शब्द योजना में चमत्कार हो,

रमणीयता हो, वही कविता अथवा काव्य है। कवि कर्म करनेवाले यह भली-भाँति जानते हैं कि ऐसी रचनाएँ श्रेष्ठ और सुखमय अवसरों पर ही हो सकती हैं और वह भी उन मस्तिष्कों से जो सर्वश्रेष्ठ और दृढ़तम हों। क्या ये सिद्धांत कला की ओर ही अंगुलिनिर्देश नहीं करते? क्या इन वाक्यों के पठन से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि कविता वास्तव में एक कला है? क्या कला की जाँच कला की दृष्टि से ही न होनी चाहिये?

वास्तविक बात यह है कि कला की इयत्ता कला में ही परिमित होती है, कला की सफलता और पूर्णता कला की ही निर्दोषता पर निर्भर है। विकलांग कला, कला हो सकती है, किंतु वह निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसलिये कला की महत्ता कला की सर्वांगीण पूर्ति पर ही अवलंबित है। यदि किसी चित्रकार का बनाया कोई नग्न चित्र हस्तगत हो तो, हमको नग्नता चित्रण-चातुरी पर ही दृष्टि डालनी होगी, उसकी सर्वांगीण पूर्ति देखकर ही यह मीमांसा करनी पड़ेगी कि चित्रकार चित्रण-कला में पारंगत है या नहीं। उसमें अश्लीलता हो, अभव्यता हो, आदर्शनीयता हो, ऐसे स्थान हो जिनको सलज्ज आँखे न देख सकें, किंतु उन्हींसे उनकी शोभा है, वे ही उस चित्र की पूर्णता के साधन हैं। वे जितना ही पूर्ण होंगे, जितनी ही स्पष्टता के साथ दिखलाये गये होंगे, उतने ही चित्रकार के कौशल और उसकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति के प्रदर्शक होंगे। चित्रकार के चित्रण-कला को पराकाष्ठा के लिये इतना ही पर्याप्त है। उपयोगितावाद उसके अंतर्भूत नहीं, अतएव चित्र की परीक्षा के समय उस पर दृष्टि डालने की भी आवश्यकता नहीं। चित्रकार चित्र को ठीक ठीक चित्रण करके ही सिद्धि लाभ करता है और यहीं पर उसके कार्य की समाप्ति हो जाती है। परीक्षक भी उसकी कृति की परीक्षा यहीं तक कर सकता है, और उसीके आधार से उसको योग्यता की सनद दे सकता है, आगे बढ़ने का उसको अधिकार नहीं।

/मैं जब कला की कसौटी पर नायिका भेद की कविता को कसता

हूँ, तो उसको बावन तोले पाव रत्ती ठीक पाता हूँ। ऊपर जितने लक्षण कविता के बतला आया हूँ, वे सब उसमें पाये जाते हैं, इस विषय में उसकी रचनाएँ संसार की किसी समुन्नत भाषा का सामना कर सकती हैं। इस विषय के प्रसिद्ध संस्कृत अथवा हिंदी के कवियों ने जब जिस भाव का चित्रण किया है, उस समय उस भाव का उत्तम-से-उत्तम चित्र खींचकर सामने रख दिया है। आप चाहे जिस चित्र को उठा लीजिये, और कला के विचार से उस पर दृष्टि डालिये तो आपको आश्चर्य-चकित हो जाना पड़ेगा। भावुकता कविता की रीढ़ है। नायिका भेद की कविताओं में वह कूट-कूट कर भरी है। यदि मनोभावों का स्वाभाविक विकाश देखना चाहें, तो उसमें देखें। इस विषय के कवि का रसपूर्ण हृदयांबुधि जब उत्ताल तरंग मालासंकुल होता है, उस समय कैसे-कैसे भाव-मौक्तिक सहृदयों पर उत्सर्ग कर जाता है, इसका अनुभव उसी को होता है, जो कला की दृष्टि से उन मोतियों की परख करता है। जिनकी दृष्टि ऐसी नहीं, वे उन्हें भले ही पोत या और कुछ समझ लेंगे।

आजकल एक विचार-धारा बड़े वेग से बह रही है, पहले वह कितनी ही अंतर्मुखी क्यों न रही हो, परंतु आज वह बहिर्मुखी है। जिनको कवि-कर्म का दावा है, जो अपनी विजयिनी कविता को जन साधारण के श्रद्धा पुष्प माल्य द्वारा अर्चित देखना चाहते हैं, वे प्रायः कहा करते हैं, कविता हृदय की वस्तु है। भावोद्भूत होने पर जो कविता स्रोत हृदय सरोवर से स्वभावतया फूट निकलता है, वास्तविक कविता के गुण उसी में होते हैं। जिस सरस हृदय का उच्छलित प्रवाह नैसर्गिक होता है, उसी में वह कल-कल ध्वनि मिलती है, उसी में वह उन्मादिनी-गति पाई जाती है, जो सहृदय जन के कर्ण कुहर में प्रवेश करके अजस्र आनंद सुधा वर्षण करती रहती है। इस प्रकार की कविता न तो किसी अलंकार की भूखी रहती है, न किसी विलक्षण शब्द-विन्यास की, वह अपने रंग में आप ही मस्त रहती है, और अपनी इसी अलौकिक मस्ती

से मार्मिक हृदय पर अधिकार कर लेती है। इस प्रकार की कविता भावमयी होती है, भाव ही उसका सम्बल होता है, चाहे उसको कोई समझ सके या न समझ सके, चाहे उसका कुछ उपयोग हो या न हो, किंतु उसका भाव ही उसका सर्वस्व होता है। मोर जब नर्तनशील होता है, तो उसके मुग्धकर गुणों का विकाश स्वाभाविक होता है, वह लोगों को मुग्ध भी करता है, किंतु मयूर इस विषय में यत्नशील नहीं होता। यह विचार सर्वांश में मान्य नहीं, किंतु यह कहा जा सकता है कि लगभग ऐसा ही रहस्य स्वाभाविक कविता में है, वह किसी को विमुग्ध करने की इच्छुक नहीं, किंतु उसके नैसर्गिक गुण अपना प्रभाव डालते बिना नहीं रहते। कला के विषय में भी यही कहा जा सकता है। खग कलरव से लेकर सुकविगण की समस्त सूक्तियों तक मे कला का चमत्कार दृष्टिगत होता है। जिस दृष्टि से उसका आविर्भाव है, उसी दृष्टि से उसका अवलोकन यथार्थता है, अन्यथा विडम्बना की विकराल मूर्ति ही सामने आती है।

एक बात मैं और प्रकट कर देना चाहता हूँ। वह यह कि कला में हृदय की भावुकता ही नहीं होती, उसमें मस्तिष्क का कार्य कलाप भी होता है। दोनों के साहचर्य से ही कला पूर्णता को प्राप्त होती है। नायिका विभेद की कविता में यथास्थान दोनों का समुचित विकाश देखा जाता है, इसलिये उसकी कविताएँ कला की दृष्टि से बहुत ही उच्चकोटि की पाई जाती हैं।

शृंगार रस की उपयोगिता

शृंगार रस का मैं जैसा वर्णन कर आया हूँ, उसके उपरांत उसकी उपयोगिता का उल्लेख व्यर्थ जान पड़ता है। परंतु बात यह है कि नायिका विभेद की कुछ असंयत कविताओं के कारण उसका नाम इतना बदनाम हो गया है कि मुझको इस अंश का शोर्षक 'शृंगार रस की उपयोगिता', ही देना पड़ा, जिसमें उसके मिथ्या कलंक का अपनोदन

हो सके। वास्तव में इस शीर्षक में नायिका विभेद की कविताओं और भावों की उपयोगिता का ही वर्णन होगा। कला की दृष्टि से तो इस विषय की रचनाओं पर कोई दोष लगाया नहीं जा सकता, यह बात मैं ऊपर लिख आया हूँ। यदि यह सच है कि कला कला के लिये है, तो उपयोगिता का प्रश्न उपस्थित हो ही नहीं सकता। किंतु इस प्रकार की रचनाओं को उपयोगिता भी अल्प नहीं, इसलिये मैं उसपर भी कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ।

संस्कृति की जड़ साहित्य है, चाहे यह साहित्य कण्ठगत नागरिक अथवा ग्रामीण गीत हो, या पुस्तकगत नाना प्रकार की रचनाओं का समूह। साहित्य का वातावरण जैसा होता है, जाति तदनुकूल ही बनती है। जैसे भावों का पोषण साहित्य करता है, जाति अथवा समाज में वैसे ही भाव स्थान पाते हैं। कहा जाता है, जाति के भावों और विचारों का परिचय साहित्य से मिलता है, कारण इसका यह है, कि जाति के संस्कारों के आधार वे ही होते हैं। मनुष्य के संस्कार धीरे-धीरे बनते हैं उनका प्रारंभ माता की गोद से होता है, परंतु साहित्य और शिक्षा का प्रभाव भी उनपर कम नहीं पड़ता। मानस लोरियो और कथानकों से ही गठित नहीं होता, वह साहित्य के विविध रसों में भी पगता रहता है। पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों ऐसे खिलौने हैं, जो साहित्य-कुंभकार के हाथों के गढ़े हैं। यह निर्माण क्रिया चिरकाल से होती आई है, और प्रलय काल तक होती रहेगी।

लड़कियाँ जब माँ के कंठ का मधुर गाना सुनती हैं, उस समय वे बहलती ही नहीं, कुछ संस्कृति सचय भी करती हैं। लड़के जब पुस्तकों का पाठ पढ़ते हैं, उस काल उनकी शिक्षा ही नहीं होती, उनके हृदय पटल भी खुलते हैं। युवक और युवतियों से जब कविता पाठ कराया जाता है, तब उसका उद्देश्य आनंद लाभ करना ही नहीं होता, उनके चरित्र और भावों का निर्माण भी उस समय सामने रहता है। यदि स्त्री

पतिपरायणा, लज्जावती, सहृदया, सदाचारिणी एवं उदारस्वभावा है, तो समझना चाहिये, परम्परागत सत्साहित्य के अंक में लालित होने का ही यह सुपरिणाम है, और यदि वह कोपनस्वभावा, उच्छृंखलताप्रिया, दुराचारिणी, निर्लज्जा एव कटुवादिनी है, तो जानना चाहिये कि किसो कुत्सित साहित्य के प्रपंच में पड़ने का ही यह फल है। ये ही बातें पुरुष के गुणदोष के विषय में भी कही जा सकती है।

संसार-सुखशांति गाड़ी के दो पहिये हैं, एक पुरुष दूसरी स्त्री। यदि ये दोनों पहिये ठीक-ठीक काम देते हैं, तो यह सुखशांति की गाड़ी यथारूति चलती रहती है, और मनुष्यजीवन आनन्दमय बनता रहता है। अन्यथा जिस परिमाण में पहियाओं में दोष आ जाता है, उसी परिमाण में सुखशांति गाड़ी की गति बिगड़ती और अनेक अवस्थाओं में नष्टभ्रष्ट हो जाती है। जब तक पुरुष को स्त्री के हृदय और उसके मनोभावों का यथातथ्य ज्ञान नहीं होता और जब तक स्त्री पुरुष के स्वभाव से पूर्णतया परिचित नहीं होती, उस समय तक संसार यात्रा का यथोचित निर्वाह नहीं होता। जब तक दोनों दोनों के गुण-दोष नहीं जानते, प्रवृत्ति को नहीं पहचानते, जब तक वे नहीं समझ सकते कि संसार सुमनमय ही नहीं है, उसमें काँटे भी हैं, तब तक न तो वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और न आये दिन की आपदाओं से बच सकते हैं। दुनिया बहुरंगी है, जो उसके सब रंगों को पहचानता है, उसीके मुख की लाली रह सकती है, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जहाँ सती साध्वी कुलललनाएँ हैं, वहीं प्रवंचनामयी वारवधूतियाँ भी हैं। जहाँ कोमलस्वभावा सरल बालिकाएँ हैं, वहीं कटुवादिनी गर्विणी मानवती नायिकाएँ भी हैं। जहाँ पति की परछाँहीं से भीत होनेवाली मुग्धाएँ हैं, वहीं अनेक कलाकुशला प्रौढ़ाएँ भी हैं। कहीं स्वकीया हैं, कहीं परकीया, कहीं सामान्या। जब तक कोई संसारी पुरुष इन सब का यथार्थ ज्ञान न रखेगा, तब तक उसकी संसारयात्रा

का निर्वाह सफलतापूर्वक कैसे होगा। इसी प्रकार जब तक सब प्रकार के पुरुषों से ललनाएँ अभिज्ञ न होंगी तब तक क्या पद-पद पर उनके पतन की संभावना न होगी? संसार विचित्रताओं का आकार है। हमारे सामने बिबा फल है, और रसाल भी; ईश्वर है और नरकट भी, सुधा है और गरल भी, तब तक हम कैसे उन्हें पहचानेंगे जब तक उनकी परीक्षा न करेंगे। परीक्षा तब तक कैसे करेंगे, जब तक हमको अनुभव न प्राप्त होगा। यह अनुभव चाहे पुस्तक द्वारा प्राप्त हो, चाहे अन्य साधनों से। अनेक दृष्टियों से पुस्तक द्वारा प्राप्त अनुभव ही सर्वोत्तम है, क्या नायिका विभेद की पुस्तक, ऐसी ही पुस्तक नहीं हैं? क्या स्त्री-पुरुष के संबंध का ऐसा सूक्ष्म विवेचन किसी अन्य पुस्तक में भी है?

१ रूप का मोह कामनामय होता है, किंतु प्रेम त्यागमय। नायिका भेद की स्वकीया त्यागमयी होती है, क्योंकि आर्य ललनाओं के त्यागमय जीवन की ही प्रशंसा है। उसको वही अदर्शप्रिय है, जो उच्च है, और जिसमें लोक-हित की वासना है। वह अपने सुख से ही सुखी नहीं रहती, वह अपने प्राणधन के सुख पर ही उत्सर्गिकृत जीवन होती है। वह पति के कुटुंब को उसी आँख से देखती है, जिस आँख से उसका पति उसे देखता है। वह पति के कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य समझती है, अतएव स्वार्थमय परिवार में भी शांति की मूर्ति बनी रहती है। वह होती है तो मानवी, किंतु सब की दृष्टि में देवी दीखती है, क्योंकि दिव्य गुण ये ही तो हैं। एक स्वकीया का चित्र देखिये—

सेवा ही मे सास औ ससुर की रहै सदैव मौतिन सो नाहि सपनेहूँ मैं लरति है।
सीलमुधराई त्यो सनेहभरी सोहति है रोस-रिस-रार ओर क्योहूँ ना ढरति है।
'हरिऔध' सकल गुनागरी सती समान सूधे सूधे भायन सयानप तरति है।
परम पुनीत पति-प्रीति में पगी ही रहै प्रानधन प्यारे पै निछावर करति है॥

नैनन को तरसैये कहाँ लौ, कहाँ लौ हियो बिरहागिनि तैये।

एको घरी न कहुँ कल पैये कहाँ लागि प्रानन को कलपैये।

आवै यही अब जी मैं विचार सखी चलि सौतिहुँ के घर जैये ।
 मान घटे ते कहा घटिहै जो पै प्रानपियारे को देखन पैये ॥
 लखि सासुहि हास छिपाये रहै ननदी लखि ना उपजावति भीतहि ।
 सौतिन सो सतराति कबौ न जेठानिन सों नित ठानति प्रीतहि ।
 दासिनहूँ सों उदास न 'देव' बढावति प्यारे सों प्रीति प्रतीतहि ।
 धाय सों पूछति बाते विनै की सखीन सो सीखै सुहाग की रीतहि ॥

पाश्चात्य स्त्रियों के लिये सौत की कल्पना भी प्रकंपितकरो है, किंतु भारतीय ललनाओं में इतनी सहनशीलता होती है, कि 'सौतिन सों नाहि सपनेहूँ मैं लरति है,' वरन् एक कवि के कथनानुसार 'आपने सुहाग भरे भाल पै लगाइ भटू सौतिन की माँगहूँ मैं सेदुर भरति है,' कहा जा सकता है, यह कवि कल्पना है। मैं कहूँगा कवि कल्पना नहीं, हमारे परम्परागत साहित्यजन्य संस्कृति का माहात्म्य है, कुलीन घरों में जाकर देख लीजिये, ऐसी महान् हृदया स्त्रियों का अभाव अब भी नहीं हुआ है। फिर जब तक समाज में किसी भाव का प्रचलन न होगा, तब-तक कवि-लेखनी से उसकी प्रसूति कैसे होगी? साहित्य समाज के आचार व्यवहार का ही प्रतिबिंब होता है, वह आरंभ यों ही होता है, काल पाकर वह स्वयं आदर्श भले ही बन जावे। जिस दशा में पाश्चात्य स्त्रियाँ 'डाइवोर्स' करने को तैयार हो जाती हैं, आवेदन-पत्र लेकर कोर्ट में दौड़ जाती हैं, उस अवस्था में भी हमारी कुल-बालाएँ कितने समय से काम लेती हैं। यह कविता की पक्तियाँ बतला रही हैं। अब रहा यह कि प्रणाली कौन अच्छी है, हमारी कुललनाओं की अथवा योरोपियन स्त्रियों की? मैं कहूँगा, जरा आँख उठाकर योरोप अथवा अमेरिका के वर्तमान सामाजिक हलचल को देखिये, उस समय प्रश्न का उत्तर आप ही मिल जावेगा।

मर्यादा और शिष्टता सभ्यता की सहचरी है, उनकी रक्षा से ही मानवता की शोभा होती है। उनका पालन सम्मानित तो करता ही है,

मनस्तुष्टि का कारण भी होता है। जो संमान चाहता है, उसको, दूसरों का स्वयं संमान करना चाहिये। पतिपरायणा स्त्रियाँ स्वयं पति द्वारा कम आदर नहीं होतीं। स्त्री पुरुष का संबंध इतना घनिष्ठ है कि वे नीरक्षीर समान संमिलित रहते हैं। उनमें भेद-भाव कम होता है। कोई सेवा ऐसी नहीं, जिसे स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की न कर सके। हास विलास, आहार विहार में वे दो शरीर एक प्राण होते हैं। फिर भी आर्य ललनाओं का पति में पूज्य भाव होता है। इस पूज्य भाव के उदाहरण भी नायिका भेद में कम नहीं मिलते। जहाँ कहीं इस भाव का निरूपण पाया जाता है, वहाँ पर आर्य आदर्शों एवं कुल ललनाओं के चरित्र की उज्ज्वलता का बड़ा सुंदर विकास देखा जाता है। निम्न-लिखित पद्यों में ऐसे भावों का बड़ा पवित्र चित्रण है—

फूलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी बाल,

भाल दीन्ही बेदी मृगमद की अशित है।

अंग अंग भूखन बनाइ ब्रजभूखन जू,

बीरी निज करते खवाई अति हित है।

है कै रस बस जब दीबे को महावर के,

‘सेनापति’ स्याम गह्यो चरन ललित है।

चूमि हाथ नाह के लगाइ रही आँखिन सों,

कही ‘प्राण प्यारे यह अति अनुचित है ॥’



अग राग औरै अँगन, करत कछू बरजीन।

पै मेंहदी न दिवाइहौ, तुमसों पगन प्रवीन ॥

खान पान पीछू करति, सोवति पिछले छोर।

प्राणपियारे ते प्रथम, जगति भावती भोर ॥

धरति न चौकी नग जरी, याते उर में लाइ।

छाँह परे परपुरुष की, जनि तियधर्म नसाइ ॥

देखी आपने आर्य-बाला की मर्यादाशीलता और शिष्टता ? सधा-रण हास विलास और क्रीड़ा में भी वह पति को अपना चरण स्पर्श कराना पाप समझती है । पति के खा पी लेने पर खाती पीती है, उसके सो जाने के बाद सोती है, और प्रातःकाल उसके उठने के पहले उठ जाती है । वह नगजड़ी चौकी इसलिये हृदय पर धारण नहीं करती कि कही पर पुरुष की छाया उस पर पड़ने से उसके स्त्री धर्म में छूत न लग जावे । संभव है, आजकल इस प्रकार के विचारों में अत्युक्ति की गंध पाई जावे, और इनमें वास्तविकता न मिले । परंतु ऐसे ही सर्वाभिमुखी, देशव्यापी, एवं पवित्र आदर्शों के द्वारा ही दांपत्य भावों की महत्ता सुरक्षित एवं परिवर्द्धित होती आई है । इन कविताओं की व्यंजना कितनी भावमयी और उदात्त है, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं । पाश्चात्य स्त्रियाँ अपने स-बूट चरणों को पतिदेव के युगल हाथों पर रखकर घोड़े पर से उतरने में ही अपना गौरव समझती हैं ; हास विलास और आहार विहारादि में स्वतंत्रता ग्रहण कर अन्यों के साथ स्वच्छद विचरने में ही स्वाधीनता सुख का अनुभव करती हैं । दुर्भाग्य से हमारे देश में भी उनका अनुकरण होने लगा है । कितु स्मरण रहे, मायिकता से सरलता अहमहमिकता से मानवता, कटुता से मधुरता एवं उच्छृंखलता तथा मदांधता से सदाशयता सदा श्रेष्ठ मानी गई है, वह सदा श्रेष्ठ रहेगी भी, क्योंकि महान गुण से ही महत्ता प्राप्त होती है ।

नायिका भेद की रचनाओं में स्त्री पुरुष के अनेक स्वकीय विचारों एवं भावों का भी बड़ा सुंदर चित्रण है । उनमें ऐसे जीते जागते चित्र हैं कि हृदयों पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं । स्त्री पुरुष की प्रकृतियों एवं व्यवहारों में धीरे-धीरे कैसे परिवर्तन होते हैं, किस अवस्था में उनके कैसे विचार होते हैं, उन विचारों का परस्पर एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है । स्त्री पुरुष के संबंधों में कैसे कटुता कैसे मधुरता आती है, जीवन यात्रा के मार्ग में कैसे कैसे रोड़े हैं, प्रेम-पथ कितना

कंटकाकीर्ण और दुर्गम है, समाज के स्त्री पुरुषों की रहन-सहन प्रणाली साधारणतः क्या है ? वह कैसी विचित्रतामयी है ? उसके चक्र में पड़कर जीवन यात्रा में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं ? हिंदू-समाज की व्यापक रूढ़ियाँ क्या हैं ? स्त्री पुरुषों में क्या क्या चालबाजियाँ होती हैं ? आपस में वे एक दूसरे के साथ कैसी कैसी कुटिलताएँ करते हैं, वियोग-अवस्था में उनकी क्या दशा होती है, और सुख के दिन उनके कैसे सुंदर और आनंदमय होते हैं, इन सब बातों का व्यापक वर्णन आपको नायिका भेद के ग्रंथों में मिलेगा। कार्य क्षेत्र के लिये सम्यक् ज्ञान ही उपकारक है। संसार का सुख दुःख सहयोगियों के मानसिक भावों के ज्ञान अज्ञान पर ही निर्भर करता है, अतएव उनके साधनों की उपेक्षा उचित नहीं। किस युक्ति से उन ग्रंथों में इन बातों की अवतारणा हुई, फिर वे कैसे पल्लवित पुष्पित बनीं, कुछ इसे भी देखिये—

संसार स्वार्थ मय है, दूसरे का कलंक अपने सिर पर कौन लेता है। परंतु सच्चा प्रेम अद्भुत कर्मा है, वह यह कार्य भी करता है। आप आँच सहता है, परंतु अपने प्रेमपात्र को आँच नहीं लगने देता। एक कुल-ललना का आत्मत्याग देखिये—उसका पति नपुंसक है, अतएव वह अपने को बॉम्ब कहा जाना पसंद करती है, किंतु भेद नहीं खोलती।

सुत हित सुनो पुरान यो लोगन कह्यो निहोरि ।
चाहि चाह युत नाह सुख सुखियानीं मुख मोरि ।
गुरु जन दूजे ब्याह को प्रति दिन कहत रिसाइ ।
पति की पति राखति बहू आपुन बॉम्ब कहाइ ।

प्रायः कहा जाता है, भारतीय सभ्यता स्त्री जाति के विषय में उदार नहीं है, यहाँ की पुरुष जाति स्त्री जाति का संमान करना नहीं जानती। यह वृथा लांछन है, जहाँ के महापुरुषों के ये वाक्य हैं,—

प्रत्यक्ष देवता माता जाया ज्ञायास्वरूपिणी ।
स्नुषा मूर्तिमती प्रीतिः दुहिता चित्तपुत्तली ।

वहाँ के लोगों के विषय में ऐसा कहना सत्य नहीं; शृंगार रस में प्रेम-
गर्विता नायिका की सृष्टि इसका प्रबल प्रमाण है। उसकी बातें सुनिये—

सपने हूँ मन भावतो करत नही अपराध ।

मेरे मन ही मैं रही सखी मान की साध ॥

रूपजन्य मोह की आदिम अवस्था कितनी उत्कट और उत्सुकतामयी होती है। किसी बाधा के पहुँचने पर वह कितनी गंभीर और जटिल हो जाती है, कितनी वेगमयी एवं अबाधित अथच उग्र बन जाती है, इन बातों का नायिका भेद के ग्रंथों में बड़ा विलक्षण वर्णन है। इसको पूर्वा-
नुराग कहते हैं। वह चार प्रकार का होता है। कुछ उसके पद्य देखिये—

सोहैं दिवाय दिवाय सखी इक बारक कानन आन बसाये ।

जानै को 'केसव' कानन ते कित है हरि नैनन माँहिँ समाये ॥

लाज के साज धरेई रहे तव नैनन लै मनहीं सों मिलाये ।

कैसी करौ अब क्यों निकसै री हरेई हरे हिय मे हरि आये ॥



जब ते कुँवर कान्ह रावरी कलानिधान,

कान परी वाके कहुँ सुजस कहानी सी ।

तबहीं ते 'देव' देखी देवता सी, हँसति सी,

रीम्नति सी, खीम्नति सी, रूठति, रिसानी सी ।

छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी छिन सी,

जकी सी, टकी सी, लगी थकी, थहरानी सी ।

बीधी सी, बँधी सी, विष बूडति बिमोहति सी,

बैठी बाल बकति, बिलोकति, बिकानी सी ॥

प्रश्न यह है, इन पद्यों में कोई आकर्षण है या नहीं ? कोई विमुग्ध-
करी शक्ति है या नहीं ? कोई हृदय हिला देनेवाली माया है या नहीं ?
अवश्य है, इनमें पत्थर को मोम बना देनेवाली कला है, निर्मोह मन
को मोह लेनेवाला मंत्र है, जी में जगह करनेवाला जादू है, और है

इनमें वह महा प्रयोग, जो अंधों की आँखें खोलना है, और दुराग्रही संसार को सावधान होकर चलने की शिक्षा देता है। फिर कैसे कहें (क इन्में कोई उपयोगिता नहीं)।

स्त्री जाति और तो क्या यह भी नहीं चाहती कि पराई स्त्री का नाम भी पति के मुख पर आ जाये। जब मुख पर नाममात्र आ जाने से रस में विष घुल जाता है, तो पराई स्त्री के संसर्ग से स्त्री जाति को कितना अधिक कष्ट हो सकता है, क्या यह शिक्षा नीचे के पद्य से नही मिलती—

दोऊ अनद सो आँगन मॉक् विराजे असाढ की सॉक् सोहाई ।
 ग्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ॥
 आई उनै मन मे हँसी कोपि तिया सरचाप सी भौहँ चढाई ।
 आँखिन ते गिरे आँसू के बुद सुहास गयो उड़ि हस की नाई ॥

जब हम किसी वियोगिनी अथवा प्रोषितननिका के मुख से यह सुनते हैं—

पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य यथारथ है दरसो ।
 निधिनीर बनावत हौ मधुरो सबही विधि सज्जनता सरसो ॥
 'घनश्रानंद' जीवनदायक हौ कळु मेरिआँ पीर हिये परसो ।
 कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुभान को लै वरसो ॥

तब क्या किसी विरहिणी को व्यथा का चित्र हमारा आँखों के सामने नहीं खिंच जाता? क्या हमारे हृदय में पीड़ा-सी नहीं होने लगती? क्या हमारा जी तड़प नहीं जाता? उस समय क्या हमारी आँखें नहीं खुलती? क्या हमको यह ज्ञान नहीं होता, कि विरह स्त्री जाति के लिये कितना वेदनामय है? यह ज्ञान अपने तथा अन्यो के लिये क्या उपयोगी नहीं?

नीचे की रचनाओं को देखिये। इनमें मानसिक भावों का सूक्ष्म चित्रण है, आर्य ललनाओं के स्नेहमय हृदय का रुचिर निरूपण है, प्रेम पारावार के तरंग भंग का सच्चा प्रदर्शन है, और है मानव मानस

सुमन का सरस विकाश । भाव इनके इतने सुंदर हैं कि उपयोगिता उनमें से फूटी पड़ती है । यह उपयोगिता एकदेशी नहीं व्यापक है, और है पवित्र पाठों से पूर्ण—

गिरि ते ऊँचे रसिक मन, बूडे जहाँ हजार ।
 वहै सदा पसुनरन को प्रेम-पयोधि पगार ॥
 इक भीजे, चहले परे, बूडे, बहे हजार ।
 कितने अलगुन जग करत नय-नय चढती बार ॥
 बिल्लुरे जिये सकोच यह बोलत बनै न-नैन ।
 दोऊ दौर लगे हिये किये निचौहै नैन ॥
 तच्यो आँच अति विरह की रह्यो प्रेमरस भींजि ।
 नैनन के मग जल बहै हियो पसीजि पसीजि ॥
 यद्यपि सुदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह ।
 तज प्रकास करै तितो भरिये जितौ सनेह ॥
 जो चाहै चटकन घटै मैलो होय न मित्त ।
 रजराजस न छुवाइये नेह चीकने चित्त ॥
 तनक ककरी के परे नैन होत बेचैन ।
 वे बपुरे कैसे जिये जिन नैनन में नैन ॥

प्रायः कहा जाता है, गणिकाओं का वर्णन करके नायिका विभेद के ग्रंथों में अनर्थ कर दिया गया है । किंतु गणिका के वर्णन में भी विशेषता है, उसमें भी उत्तम पाठ मौजूद हैं । देखिये—

धीरज मोचन लोचन लोल बिलोकि कै लोक की लीकति छूटी ।
 फूटि गये श्रुति ज्ञान के केसव आँख अनेक बिबेक की फूटी ॥
 छोड़ि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ की गति टूटी ।
 त्यों न करै करतार उवारक जो चितवै वह बार बधूटी ॥

यदि कहा जावे कि इस पद्य में वह नायिका रूप में वर्णित नहीं

है—इसलिये यह पद्य प्रमाण कोटि में नहीं गृहीत हो सकता । तो निम्नलिखित पद्य लिया जावे—

क्यो हूँ न याम जनात है जात रिभावत ऐसी रहै रतिअनान मैं ।
देखत ही मन टूटि परै कछु राखहि ऐसी छटा छतिअनान मैं ।
ए 'हरिऔध' करो कितनो हूँ बिलव पै होत नही पतिअनान मैं ।
वीस गुनी मिसिरी ते मिठास है बार बिलासिनी की वतिअनान मैं ॥

क्या इस पद्य के पढ़ने से यह नहीं ज्ञात होता कि वैमिकों का कितना पतन हो जाता है । उनके पतन का चित्र ही तो इस पद्य के पद-पद में अंकित है, उनकी कामुकता का ही वर्णन तो इस में है । फिर उनको कौन निदनीय न समझेगा, ऐसे ऐसे पुरुषों की ओर दृष्टि फेर कर सर्वसाधारण को सावधान करना ही तो इस पद्य का उद्देश है, फिर वह उपयोगी क्यो नहीं । यदि कहा जावे किसी कुलांगना के हाथ में यह पद्य नहीं दिया जा सकता, तो मैं कहूँगा यदि उनको अपने पति पुत्र को पतन से बचाने का अधिकार प्राप्त है, यदि उनको इस विषय में सावधान रखना है, तो उनके सामने इस पद्य को अवश्य रखना चाहिये । जिससे उनकी आँखें खुली रहें, और वे अपने पति, पुत्र की रक्षा इस कुमार्ग से कर सकें । इस पद्य में जितना प्रलोभन है, उतनी ही उसमें सतर्किकरण की शिक्षा है । बुराई का यथार्थ ज्ञान होने पर ही, उससे पूरी तौर पर कोई बचाया जा सकता है ।

॥ नायिका विभेद के ग्रंथों में उच्च कोटि के पुरुषों के वर्णन के साथ जैसे अधम से अधम पुरुषों का निरूपण भी किया गया है, उसी प्रकार पूज्य पतिव्रता स्त्रियों के साथ गरिमाओं तक का विवरण है । कारण इसका यह है कि तुलना का अवसर हाथ आने पर ही हमें भले बुरे का ज्ञान होता है । राका निशा का यथार्थ ज्ञान तमोमयी अमा कराती है, और अरुण राग रंजित ऊषा की विशेषताओं को कालिमामयी संध्या ही बतलाती है । काक और पिक का क्या अंतर

है, फूल और कोंडों में क्या भेद है, सुधा क्यों वाञ्छनीय है और गरल क्यों निन्दनीय, यह मिलान करने पर ही जाना जा सकता है। जैसे पुरुष जीवन को परकीया कलकित करती है, और गणिका नष्ट; उसी प्रकार स्त्री जीवन को लाञ्छित करता है उपपत्ति, और कष्टमय बनाता है वैशिक। इसलिये एक को दूसरे के यथार्थ परिचय को आवश्यकता है। नायिका भेद के ग्रंथ इन उद्देशों को सामने रखकर लिखे गये हैं। यह देखा जाता है कि अनेक पुरुष स्त्रियों द्वारा इसलिये आदर नहीं पाते, वरन् वंचित और तिरस्कृत होते हैं कि उनमें रसज्ञता नहीं होती, और वे उन कलाओं के ज्ञाता नहीं होते, जिनसे ललनाकुल को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार कितनी स्त्रियों को इसलिये दुःख भोगना और पति के प्यार को गंवाना पड़ता है, कि उनमें न तो भाव होते हैं, जो मनो को मुट्टी में करते हैं, और न वे मनोहर ढंग, और न वे मधुर व्यवहार जो हृदय के सुकुमार भावों पर अधिकार करते और नीरस मानसों में भी रस-धारा बहाते हैं। नायिका भेद के ग्रंथ इन बातों का भी प्रतिकार करते हैं, और बड़ी सरसता से वे मार्ग बतलाते हैं, जिन पर चलकर स्त्री पुरुष दोनों अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जैसे कुछ विद्याएँ और कलाएँ ऐसी हैं, कि जिनका कुछ न कुछ ज्ञान होना जीवन के लिए उपयोगी है, वैसे ही साहित्य के इन अंग पर भी अधिकार होना आवश्यक है। संसार में सर्वज्ञ कौन है, अल्पज्ञ होना अच्छा नहीं, इसलिये जहाँ तक हो सके प्रत्येक पुरुष और स्त्री विशेष आवश्यक विषयों का विज्ञ बनने की चेष्टा अवश्य करे। विज्ञता ग्रंथ पढ़कर ही नहीं लाभ को जा सकती। विषयज्ञों का साथ कर के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नायिका भेद की उपयोगिता के विषय में मैं बहुत कुछ लिख चुका। मेरा विचार है, कि सदुद्देश से ही उसको रचना हुई है। निर्दोष आमोद प्रमोद और सरस हास विलास का उत्तेजन भी उसके सृजन का हेतु हो सकता है। किंतु यह उसके

व्यापक उद्देश का एक देश मात्र है। मैंने उपयोगिता के उदाहरण ब्रज-भाषा के पद्य को उठाकर ही दिये हैं, इसलिये नहीं कि संस्कृत में इस प्रकार के पद्य नहीं हैं, वरन् इसलिये कि जिसमें व्यर्थ ग्रंथ के कलेवर की वृद्धि न हो।

शृंगार रस और ब्रजभाषा

शृंगार रस की रचनाएँ यदि कला की कसौटी पर कसे जाने पर ठोक उतर जातों, तो भी किसी को उनपर उँगली उठाने का अधिकार न होता, क्योंकि कला की सार्थकता कला तक ही परिमित है। यदि कला की दृष्टि से कोई कला पूर्ण पाई गई, तो उसको पूर्णता प्राप्त हो गई, फिर उसमें कोई न्यूनता नहीं मानी जा सकती। नायिका भेद की रचनाएँ ऐसी ही हैं अतएव वे अभिनन्दनीय हैं, उपेक्षणीय नहीं। जब उनमें उपयोगिता भी पाई गई, तो उनके लिये मणिकांचन योग हो गया, वे सब प्रकार आदरणीय हो गईं। इतना ही नहीं उनकी उद्भावना ऐसे महापुरुषों द्वारा हुई है, जो सत्यव्रत ही नहीं अर्चनीय भी हैं। भरत मुनि स्वयं आप्त हैं, किंतु उन्होंने शृंगारादिक अष्ट रसों का आविष्कारक जिनको माना है, उनको महात्मा विशेषण दिया है, वे लिखते हैं 'एते ह्यथै रसाः प्रोक्ता द्रुहिण्येन महात्मना' इसलिये नायिका भेद की कल्पना लोकहित कामना से ही हुई है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी उसके कारण शृंगार रस आजकल अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। नायिका-भेद-संबन्धिनी शृंगार रस की अधिकतर रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं, अतएव इसी सूत्र से आजकल ब्रजभाषा की छीछालेदर भी की जा रही है। विचारणीय यह है कि इस विषय में ब्रजभाषा का उत्तरदायित्व कहाँ तक है—

अग्निपुराण का वचन है—

शृंगारी चेत् कविः काव्ये जात रसमय जगत् ।

स चेत् कविर्बीतरागी नीरस व्यक्तमेव तत् ॥

भाव यह है कि यदि कवि शृंगारी होता है, तो उसके काव्यसे जगत

रसमय हो जाता है, किंतु यदि वह बीतरागी होता है, तो सब ओर नीरसता फैल जाती है। मैं शृंगार रस की प्रधानता का प्रतिपादन कर आया हूँ, यह भी बतला चुका हूँ कि शृंगार रस ही सब रसों का जनक है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में शृंगार रस का स्रोत बहता है। कवि-कुल-गुरु कालिदास के समय से लेकर पंडितराज जगन्नाथ के समय तक जितने बड़े-बड़े काव्यकार हो गये हैं, जितने लोगो ने लक्षण-ग्रंथ, अलंकार-ग्रंथ, अथवा छोटे-बड़े रस-ग्रंथ, नाटक, चंपू, किवा प्रबंध ग्रंथ लिखे हैं, उपन्यास, कथानक या मुक्तकों की रचनाएँ की हैं, उनमें से अधिकांश में शृंगार रस की ही छटा देखने में आती है। अन्य विषयों में भी शृंगार का पुट कुछ-न-कुछ अवश्य रहता है। कारण इसका यही है कि संसार रस का ग्राहक है, और सरसता बिना शृंगार के आती नहीं। पुराण, उपपुराण अथवा संहिताएँ धर्म दृष्टि से लिखी गई हैं, परंतु उनमें भी प्रायः शृंगार रस का मधुर आलाप प्रति गोचर होता है। प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य ग्रंथों की भी यही दशा है। सातवाहन की प्राकृत गाथा सप्तशती को देखकर ही आचार्य गोवर्धन ने 'आर्या सप्तशती' की रचना की। दोनों में ही शृंगार रस छलका पड़ता है। विरोध करनेवालों ने उस समय भी उसका विरोध किया और मूल पर ही कुठाराघात करना चाहा। काव्य की ही निंदा कर डाली, लिख मारा—

“असभ्यार्थाभिधायित्वान्नोपदेष्टव्य काव्यम्”

‘अश्लील भावों का द्योतक होने कारण काव्य की रचना न होनी चाहिये।’

पर इसको किसी ने न सुना—यह बात नक्कारखाने में तूती की आवाज हुई, क्योंकि स्वाभाविक भावों का प्रतिरोध नहीं होता। प्रयोजन यह कि शृंगार रस का स्रोत चिर काल से प्रवाहित है, वह संस्कृत से।

प्राकृत में आया, और प्राकृत से व्रजभाषा में । ऐसा होना स्वाभाविक था, व्रजभाषा ने स्वयं इसकी उद्भावना नहीं की ।

कुछ लोगो का विचार है कि स्त्री जाति के अंगों का वर्णन उचित नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार की अमर्यादा है । हास-विलास और प्रिया-प्रियतम की क्रीड़ाओं एवं उनके रसमय कथनोपकथन का चित्रण भी संगत नहीं, क्योंकि उसमें अश्लीलता आ जाती है । मेरा विचार है, इस कथन में मार्मिकता नहीं । खोपड़ी खरौचकर कुछ बातें कही गई हैं, परंतु उनमें सहृदयता का लेश नहीं । आँखे विश्व-सौंदर्य देखने के लिये बनी हैं, और हृदय भाव ग्रहण करने के लिये । किंतु ये बातें कहती हैं आखो पर पट्टी बाँध लेने और कलेजे पर पत्थर रख लेने के लिये, सौंदर्य देखकर पशु विमुग्ध हो जावे, चिड़ियों चहकने लगे, परंतु मनुष्य को विशेषकर कवि को जीभ हिलाने का अधिकार नहीं ! यदि उसने सुंदर दाँत देखकर उसे मोती जैसा कह दिया, मुख को मयंक-सा, आँखो को कमल-सा बतला दिया, तो मर्यादा पर वज्रपात हुए बिना न रहेगा । यदि मर्द के दाँत मोती जैसे कह दिये जावे, तब तो शायद मर्यादा सुरक्षित भी रह जावे, किंतु स्त्री के दाँत को मोती कहा नहीं कि उसपर बिजली गिरी नहीं । यदि योरप और अमेरिका की श्वेतांग ललनाएँ अपने अंग प्रत्यंगा की वर्णना रसमयी भाषा में कर अपने रूप-यौवन का विज्ञापन देती रहें, समाचारपत्रों के कालम के कालम काले करती रहें, तो वह हमारे पाश्चात्य सभ्यतानुरागियों के लिए संगत होगा, क्योंकि वे वर्तमान युग की अधिष्ठातृ देवियाँ हैं । प्रिया प्रियतम के हास विलास, क्रीड़ा एवं कथनोपकथनो से ससार का साहित्य क्यों न भरा हो, वे क्यों न नीरस जीवन की रसधारा हों, दुःख भरे ससार के सुख-संदोह हों, किंतु उनके अश्लील हो जाने का डर है, इसलिये वे वर्णनीय नहीं । पानी इसलिये नहीं पीना चाहिये कि वह खारा भी होता है, वायु सेवन इसलिये नहीं करना चाहिये कि उसमें

दुर्गंधि भी मिलती है, व्यंजन इसलिये नहीं खाना चाहिये कि वह रोग-प्रवण भी होता है और आग को इसलिये काम में नहीं लाना चाहिये कि उससे उँगलियाँ भी जल सकती हैं। ऐसे लोगों का विचार कहाँ तक मान्य है, इसको आपलोग स्वयं समझ सकते हैं। गुण समूह में जिनकी दृष्टि साधारण से साधारण दोष पर ही रहती है, वे हों कैसे ही, परंतु इस विचारवाले लोग भी है। अपने सिद्धांतानुसार वे ब्रजभाषा के नखशिख वर्णन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। किंतु नखशिख वर्णन भी परंपरा द्वारा ही ब्रजभाषा में गृहीत हुआ है। तर्क करनेवालों का यह कथन है कि उसने फारसी और उर्दू से यह प्रणाली ग्रहण की है, किंतु यह सत्य नहीं है। कवि-कुल-गुरु कालिदास ने कुमारसंभव के सातवें सर्ग में हिमाचल-नंदिनी के अनेक अंगों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। विवाह काल में सखियों ने उनको जैसे सुसज्जित किया, उसका वर्णन बड़ा ही मनोमोहक है। इसके अतिरिक्त अंगों के उपमानों की कल्पना ब्रजभाषा के कवियों को नहीं है, वे वे ही उपमान हैं, जो संस्कृत के आचार्यों द्वारा वर्णित हैं। कवि-प्रिया में कविवर केशवदास ने इस विषय का बड़ा विशद वर्णन किया है। वे यह भी लिखते हैं—

नख ते सिख लौ बरनिये, देवी दीपति देखि ।

सिख ते नख लौ मानुखी, केशवदास बिसेखि ॥

इस नियम का उल्लेख उन्होंने प्राचीन आचार्यों के मन्तव्य अनुसार ही किया है; इससे पाया जाता है कि नखशिख-वर्णन-प्रणाली परंपरागत है। हाँ, यह अवश्य है कि ब्रजभाषा में उसका विस्तृत रूप देखने में आता है। कारण इसका उर्दू एवं फारसी रचनाओं से हिंदी भाषा का उत्कर्ष साधन है, क्योंकि उस काल के अधिकांश कवियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। उस समय अपनी भाषा की रक्षा के लिये ऐसा करना आवश्यक था।

अब रहे स्वकीया, परकीया और गणिका के विषय। स्वकीया की

कल्पना बड़ी सुंदर कल्पना है। उसमें इतनी मोहकता है कि निर्गुण-वादी संतो ने भी उसकी ममता नहीं छोड़ी। जो साकारता की चर्चा होने पर कानो पर हाथ रखते हैं, उनको भी परमात्मा को पति और अपने को पत्नी मानकर मानसिक उद्गारों को प्रकट करते देखा जाता है। वास्तव में स्वकीया का जीवन बड़ा ही उदात्त, त्यागमय एवं प्रेममय है। उसकी कामनाएँ बड़ी ही मधुर और भावमय हैं; अतएव उसके हृदयोद्गार अनेक अवसरो पर बड़े ही आकर्षक होते हैं। कुछ असहृदय उनको सुनकर भले ही नाक-भौंह सिकोड़े, किंतु ससार इस रस में निमग्न है। यहाँ तक कि जो संसार-त्यागी हैं वे भी अपनी मानसिक व्यथाओं और आकुलताओं को पत्नी का भाव ग्रहण कर ही लोक-पति तक पहुँचाते हैं। कबीर कट्टर निराकारवादी हैं। ज़रा उनकी बातें सुनिये—उनकी उक्ति कितनी मर्मस्पर्शनी है; और वे किस प्रकार स्वकीया-हृदय के भावों को व्यंजित करते हैं। यह बात उनके गान का एक-एक पद ध्वनित कर रहा है—

तोको पीव मिलेगे घूँघट को पट खोल रे ।
 घट घट मैं वह साईँ रमता कटुक वचन मत बोल रे ।
 धन जोवन को गरब न कीजै भूठा पचरँग चोल रे ।
 सुन्न महल मे दियना बारि ले आसा सों मत डोल रे ।
 जोग जुगुत सों रगमहल मे पिय पायो अनमोल रे ।
 कहै 'कबीर' अनद भयो है बाजत अनहद डोल रे ॥ १ ॥

* * *

मिलना कठिन है कैसे मिलौगी पिय जाय ।
 समुझि सोचि पग धरौ जतन से बार बार डिग जाय ।
 ऊँची गैल राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय ।
 लोक लाज कुल की मरजादा देखत मन सकुचाय ।

नैहर बास बसा पीहर में लाज तजी नहि जाय ।
 अघर भूमि जहँ महल पिया का हम पै चढो न जाय ।
 धन भई बारी पुरुष भये भोला सुरत भुकोरा खाय ।
 दूती सतगुरु मिले बीच में दीन्हों भेद बताय ।
 साहब 'कविर' पिया सो भेट्यो सीतल कठ लगाय ॥ २ ॥

* * *

बालम आओ हमारे गोह रे ।
 तुम बिन दुखिया देह रे ॥

सब कोइ कहै तुम्हारी नारी मोको यह सदेह रे ।
 एक मेरु ह्वै सेज न सोवे तब लग कैसो नेह रे ।
 अन्न न भावै नींद न आवै गृह बन घरे न धीर रे ।
 ज्यों कामी को कामिनि प्यारी ज्यों प्यासे को नीर रे ।
 है कोउ ऐसा पर उपकारी पिय से कहै सुनाय रे ।
 अब तो बेहाल 'कबीर' भये है बिन देखे जिउ जाय रे ॥३॥

* * *

सपने मे साईं मिला सोवत लिया जगाय ।
 आँख न खोलूँ डरपती मत सपना है जाय ॥ ४ ॥

स्वकीया के विषय में अधिक तर्क-वितर्क भी नहीं किया जाता ।
 अतएव मैं परकीया और गणिका के विषय को लेता हूँ । कहा जाता है,
 इन दोनों नायिकाओं का वर्णन करके ब्रजभाषा ने उच्च आदर्शों का
 तिरस्कार किया है । प्रश्न यह है क्या ब्रजभाषा द्वारा ही इन दोनों
 नायिकाओं की वर्णना हुई है ? यह भी तो संस्कृत-साहित्य से ही ब्रज
 भाषा में आई हैं, इसलिये इन दोनों नायिकाओं का निरूपण भी
 साहित्यशास्त्र के नियमानुसार परंपरागत है, इसमें ब्रजभाषा का क्या
 अनौचित्य ? जब मैं परंपरा की बात कहता हूँ तो इसका यह अर्थ न

समझना चाहिये कि मैं परंपरा के अंशानुकरण का पक्षपाती हूँ। परंपरा वहीं तक ग्राह्य है, जहाँ तक वह आपत्तिजनक न हो। जब उसके द्वारा समाज अथवा जाति का अमंगल होता हो, जब उसके आधार से उनमें बुराइयाँ फैलती हो तो वह इस योग्य है कि उसको उपेक्षा की जावे। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिये जब मैं परंपरा की बात कहता हूँ तो उसका इतना ही प्रयोजन होता है कि प्रस्तुत विषय की उद्भावना ब्रजभाषा द्वारा नहीं हुई। कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा उसे छोड़ सकती थी, यह तर्क ठीक है। अतएव अब मैं यह देखूँगा कि ब्रजभाषा ने उसे क्यों नहीं छोड़ा—साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

‘उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृंगार इष्यते ॥
 परोढा वर्जयित्वा तु वेश्या चाननुरागिणीम् ।
 आलम्बन नायिका स्युर्दक्षिणाद्याश्च नायकाः ॥

“अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त-रस शृंगार कहलाता है। पर स्त्री तथा अनुराग-शून्य वेश्या को छोड़कर अन्य नायिकायें तथा दक्षिण आदि नायक इस रस के आलंबन विभाव माने जाते हैं”।

यह लिखकर भी साहित्यदर्पणकार ने परकीया और गणिका का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। वे लिखते हैं—

परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा ।
 यात्रादिनिरतान्योढा कुलटा गलितत्रपा ॥
 कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना ।
 धीरा कलाप्रगल्भा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥

“परकीया नायिका दो प्रकार की होती है, एक अन्य विवाहिता और दूसरी अविवाहिता कन्या। उनमें से यात्रा आदिक मेले तमाशों को शौकीन निर्लज्जा ‘अन्योढा’ कहलाती है”।

“अविवाहिता सलज्जा नवयौवना कन्या कहलाती है और धीरा नृत्य गीतादि ६४ कलाओं में निपुण सामान्या स्त्री वेश्या”।

इसी अध्याय में १५, १६, १७ श्लोकों में उन्होंने स्त्रियों के सत्तरह भेद बतलाये हैं। वे ये हैं—महादेवी, देवी, स्वामिनी, स्थापिनी, भोगिनी, शिल्पकारी, नाटकीया, नर्त्तकी, अनुचारिका, परिचारिका, संचारिणी, प्रेषणचारिका, महत्तरी, प्रतीहारी, कुमारी, स्थविरा, आयुक्तिका फिर अनुरक्ता, विरक्ता आदि कुछ और नायिकाएँ उन्होंने गिनाई हैं और सबों के लक्षण बतलाये हैं। उनके देखने से लगभग सब नायिकाएँ उनमें आ जाती हैं। जिनका वर्णन उक्त ग्रंथकारों ने किया है। इससे पाया जाता है कि परकीया अथवा गणिका की वर्णना आधुनिक नहीं है, वरंच बहुत प्राचीन है। प्राचीन होने से ही कोई विषय श्लाघनीय अथवा अभिनंदनीय नहीं होता, इसलिये विचारणीय यह है कि साहित्य में परकीया और गणिका का ग्रहण कहाँ तक युक्ति संगत है।

जब मैं किसी विषय के परंपरागत अथवा प्राचीन होने पर जोर देता हूँ तो उसका अर्थ यह होता है कि उनके उद्भावक वे हैं, जो विश्वबंधु और सत्यव्रत कहे जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे तर्क योग्य नहीं। फिर भी मैं प्रस्तुत विषय की ओर प्रवृत्त होता हूँ। कहा जाता है कि परकीया का आदर्श ही बुरा है, यह ऐसा आदर्श है जो कुलांगनाओं को मार्गच्युत कर सकता, उनको भ्रांत बना सकता और निष्कलंक कुल में कलंक लगा सकता है। जो कुछ कहा गया उसमें सत्यता का अंश है, किंतु सांसारिकता बिल्कुल नहीं। प्रेम बड़ा रहस्यमय है, प्रेमपरायण हृदय समाज का बंधन क्या किसी बंधन को नहीं मानता, ऐसे उदाहरण नित्य हमारी आँखों के सामने आते रहते हैं। हम आँखें छिपा सकते हैं, किंतु घटना बिना हुए नहीं रहती। हृदय से हृदय का सम्मिलन स्वाभाविक है, सत्य है, विधि का अनुल्लंघनीय विधान है। लौकिक नियम उसका नियंत्रण कर सकता है, किंतु उसकी सीमा है। जहाँ सीमोल्लंघन होता है वहाँ यह नियम टूट जाता है। इन बातों पर दृष्टि रखकर ही सिद्धांतों अथवा आदर्शों की मीमांसा हो

सकती है। यदि परकीया एक सत्य व्यापार है, और समाज में चिरकाल से गृहीत है, तो उसका उल्लेख गर्हित क्यों ? हिंदू समाज का वरन संसार का सर्वोच्च आदर्श स्वकीया है। परंतु उसके नीचे ही परकीया का स्थान है, उसका प्रेम भी उदात्त है, और एक प्रेमी ही तक परिमित है। उसमें त्याग की मात्रा भी न्यून नहीं, उसके प्रेम-पथ में विघ्न बाधाओं के ऐसे दुरारोह पर्वत खड़े मिलते हैं जिनका सामना स्वकीया को करना ही नहीं पड़ता, तौ भी वह अपने व्रत में उत्तीर्ण होती है, और प्रेम-कसौटी पर कसे जाने पर उसी के समान ही ठोक उतरती है, फिर उसकी अवहेलना क्यों ?

परकीया नायिका में जो प्रेमजन्य व्याकुलता होती है, उसमें जो अधीरता, उत्सुकता, प्रेमोन्माद और तड़प देखी जाती है, वह बड़ी ही अद्भ्य एवं वेदनामयी होती है। पहाड़ी नदियों की गति में बड़ी प्रखरता, बड़ी ही सबलता, बड़ा वेग और बड़ी ही दुर्दमनीयता होती है, क्योंकि उसके पथ में विघ्न बाधा स्वरूप अनेक प्रस्तर खंड, अनेक संकीर्ण मार्ग और बहुत से पहाड़ी दर्रे होते हैं। परकीया नायिकाओं का पथ भी इसी प्रकार विपुल संकटाकीर्ण होता है। उसको लोक-लाज की बेड़ी काटनी पड़ती है, वंशगत बंधन तोड़ना पड़ता है, गुरुजनों की भर्त्सना, गाँववालों का उत्पीड़न और सखियों का तिरस्कार सहना पड़ता है; अतएव उसकी गति भी पहाड़ी नदियों की सी उद्वेलित होती है। उसके हृदय के भावों का चित्रण टेढ़ी खीर है, साथ ही बड़ा ओजमय द्रावक और मर्मस्पर्शी भी है। उसमें सत्यता है, सौंदर्य है, और है प्रेम-पथ का भीषण दृश्य। उसमें वह अटलता है जो हथेली पर सर लिये फिरनेवालों में ही देखी जाती है। प्रत्येक भाषा की लेखनी का चमत्कार इस भाव के प्रदर्शन में देखने योग्य है, वह साहित्य की एक अपूर्व सम्पत्ति है। थोड़े-से पद्य आप लोगों के अवलोकन के लिये यहाँ उपस्थित किये जाते हैं।

सकती है। यदि परकीया एक सत्य व्यापार है, और समाज में चिरकाल से गृहीत है, तो उसका उल्लेख गर्हित क्यों ? हिंदू समाज का वरन संसार का सर्वोच्च आदर्श स्वकीया है। परंतु उसके नीचे ही परकीया का स्थान है, उसका प्रेम भी उदात्त है, और एक प्रेमी ही तक परिमित है। उसमें त्याग की मात्रा भी न्यून नहीं, उसके प्रेम-पथ में विघ्न बाधाओं के ऐसे दुरारोह पर्वत खड़े मिलते हैं जिनका सामना स्वकीया को करना ही नहीं पड़ता, तों भी वह अपने व्रत में उत्तीर्ण होती है, और प्रेम-कसौटी पर कसे जाने पर उसी के समान ही ठोक उतरती है, फिर उसकी अवहेलना क्यों ?

परकीया नायिका में जो प्रेमजन्य व्याकुलता होती है, उसमें जो अधीरता, उत्सुकता, प्रेमोन्माद और तड़प देखी जाती है, वह बड़ी ही अदम्य एवं वेदनामयी होती है। पहाड़ी नदियों की गति में बड़ी प्रखरता, बड़ी ही सबलता, बड़ा वेग और बड़ी ही दुर्दमनीयता होती है, क्योंकि उसके पथ में विघ्न बाधा स्वरूप अनेक प्रस्तर खंड, अनेक संकीर्ण मार्ग और बहुत से पहाड़ी दर्रे होते हैं। परकीया नायिकाओं का पथ भी इसी प्रकार विपुल संकटाकीर्ण होता है। उसको लोक-लाज की बेड़ी काटनी पड़ती है, वंशगत बंधन तोड़ना पड़ता है, गुरुजनों की भर्त्सना, गाँववालों का उत्पीड़न और सखियों का तिरस्कार सहना पड़ता है; अतएव उसकी गति भी पहाड़ी नदियों की सी उद्‌वेलित होती है। उसके हृदय के भावों का चित्रण टेढ़ी खीर है, साथ ही बड़ा ओजमय द्रावक और मर्मस्पर्शी भी है। उसमें सत्यता है, सौंदर्य है, और है प्रेम-पथ का भीषण दृश्य। उसमें वह अटलता है जो हथेली पर सर लिये फिरनेवालों में ही देखी जाती है। प्रत्येक भाषा की लेखनी का चमत्कार इस भाव के प्रदर्शन में देखने योग्य है, वह साहित्य की एक अपूर्व सम्पत्ति है। थोड़े-से पद्य आप लोगों के अवलोकन के लिये यहाँ उपस्थित किये जाते हैं।

अति खीन मृनाल के तारहुँ ते तेहि ऊपर पाँव दै आवनो है ।
 सुई बेह ते द्वार सँकीन तहाँ परतीत को टाडो लदावनो है ।
 कवि बोधा अनी घनी नेजहुँ ते चढ़ि तापै न चित्त डगावनो है ।
 यह प्रेम को पथ कराल सखी तरवार की धार पै धावनो है ॥ १ ॥

* * *

कोऊ कहौ कुलटा, कुलीन, अकुलीन कहौ,
 कोऊ कहौ रकिनि, कलकिनी, कुनारी, हौ ।
 कैसो परलोक, नरलोक, बर लोकन मे,
 लीनी मैं अलीक, लोक लोकन ते न्यारी हौ ।
 तन जाव, मन जाव, देव गुरुजन जाव,
 जीव क्यों न जाव टेक टरति न टारी है ।
 बृंदावन बारे बनवारी के मुकुट पर,
 पीतपट वारी प्यारी सूरति पे वारी है ॥ २ ॥

एक विजातीया परकीया को बातें सुनिये—

सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम
 दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं ।
 देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी तजे
 कलमा कुरान सारे गुनन गहूँगी मैं ।
 साँवरा सलोना सिर ताज दिए कुल्लेदार
 तेरे नेह दाग मैं निदाग हो दहूँगी मैं ।
 नद के कुमार कुरबान ताड़ी सूरत पै
 ताड़ नाल प्यारे हिंदुअनी हो रहूँगी मैं ॥ ३ ॥

* * *

क्यों इन अखिन सों निरसंक है मोहन को तन पानिप पीजै ।
 नेकु निहारे कलंक लगे इहि गाँव बसे कहो कैसे कै जीजै ।
 होत रहै मन यों मतिराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजै ।
 है बनमाल हिए लगिये अरु है मुरली अधरा रस लीजै ॥ ४ ॥

* * *

मेस भये बिख भावते भूखन भूख न भोजन की कछु ईछी ।
 मोच की साध न सोंधे की साध न दूध सुधा दधि माखन छीछी ।
 चंदन तौ चितयो नहीं जात चुभी चित माँहि चितौनि तिरीछी ।
 फूल ज्यों सूल विला सम सेज बिछौनन बीच बिछी जनु बीछी ॥ ५ ॥
 इस भाव के कुछ फ्रेंच भाषा के पद्य भी देखिये—

Oh ! que l'amour est charmante !
 Moi, si ma tante le vent bieu,
 J'y suis bien consentante,
 Mais si ma tante ne vent pas
 Daus un convent J'y entre.
 Ah due l'amour est charmante !
 Mais si ma tante ne vent pas,
 Daus un convent J'y entre,
 J'y prierai Dilu four mes parents,
 Mais non pas four man tante.

“आह ! प्रेम करने में कैसा सुख है ! यदि मेरी चाची सिर्फ इसके लिए आज्ञा दे दे । हाय ! इस बात को मैं कितना चाहती हूँ ! यदि चाची ने आज्ञा न दी तो मैं उपासना मंदिर में जाऊँगी”

“आह प्रेम में कैसा सुख है ! किंतु यदि मेरी चाची मुझे इसकी आज्ञा न देगी, तो मैं किसी उपासना मंदिर में जाऊँगी । वहाँ ईश्वर से सब के (सब संबंधियों के) लिये प्रार्थना करूँगी, पर अपनी चाची के लिये नहीं।”

Mon per' me dit toujours,
 Marie toi, ma fille !
 Non, non, mon, Pere,
 Je ne venx plus aimer,

Car mon amant est l'earmeea
 Elle s'est habilleec
 En brance militaire,
 Ell'fit conper, priser ses blonds chevenx,
 A la facon d'son amourenx.

“पिता नित्य मुझसे कहते हैं कि वेटी ! दूसरे से व्याह कर ले । नहीं नहीं, पिता मैं फिर से दूसरे से प्रेम नहीं कर सकती, क्यों मेरे हृदय का देवता सेना में है ।”

“(प्रेमी के लौटने की संभावना न देखकर) बालिका ने पुरुषोचित वेष बनाया, प्रेमी की ही भाँति अपने सुंदर, मुलायम, घूँघरवाले बाल कटवा दिये । इसके बाद उसने सेना की ओर यात्रा की ।”
 कुछ उर्दू के पद्यों को भी देखिये ।

गुल है जखमी बहार के हाथों । दिल है सदचाक यार के हाथों ।
 दम बदम कता होती जाती है । उम्र लैलो निहार के हाथों ।
 जाँ बलब हो रहा हूँ मिस्ले हुबाब । मैं तेरे इन्तज़ार के हाथों ।
 इक शिगूफ़ा उठे हैं रोज नया । इस दिले दाग़दार के हाथों ।
 यह जो खटके है दिल में काँटा सा । मिजा है नोकेखार हूँ क्या है ?
 चश्मे बददूर तेरी आँखों में । नशा है, या खुमार है क्या है ?

* * *

कैसी वफ़ा ! कहाँ की मुहब्बत ! किधर की मेह !

वाकिफ़ ही तू नहीं है कि होता है यार क्या ?

संसार की जितनी प्रेम कहानियाँ हैं, उनमें से अधिकांश का आधार परकीया है । चाहे वे भगवान् श्रीकृष्ण अथवा श्रीमती राधिका संबंधिनी कथाएँ हों, चाहे लैला मजनूँ, चाहे शीरी फ़रहाद् आदि की दास्तानें । किसी भाषा के साहित्यिक ग्रंथों, काव्यों, उपन्यासों और नाटकों को उठा लीजिये, उनमें से अधिकतर में प्रेमिक एवं प्रेयसी, आशिक-माशूक, और लवर एवं बिलवेड् की कथाएँ बड़ी रसीली और

ओजस्विनी भाषाओं में लिखी मिलेंगी। कारण इसका यह है कि इस प्रकार की रचनाओं में बड़ी हृदयग्राहिता होती है। स्वकीया का मार्ग कंटकाकीर्ण नहीं होता, और न उसके मार्ग में आदिम प्रेम के पचड़े होते, इसलिए उसके मानस में वे भाव नहीं उदित होते जो परकीया के हृदय में नाना प्रकार की विघ्न-बाधाओं का सामना करने के कारण उत्पन्न होते हैं। अनेक संकटों में पड़ने, नाना दुःख भेदने और सैकड़ों भ्रमों से टकर लेने पर जो सफलता मिलती है वह बड़ी मुग्धकरी और आनन्दमयी होती है। उसका वर्णन बहुत ही चमत्कारक और मनोहर होता है, इसलिए हृदयों को मोह लेने की उसमें अपूर्व सामग्री मिलती है। उस वर्णन में आपत्तिपतिता, प्रेमोन्मादिता, विह्वला और नितांत उत्कंठिता का जो द्रावक क्रंदन सुना जाता है, जो मर्म-बेधी पीड़ा देखी जाती है, जो उद्भ्रांत भाव दृग्गोचर होता है, उससे कौन ऐसा सहृदय है जो प्रभावित नहीं होता, और कौन ऐसा हृदय है जो द्रवीभूत नहीं बनता। यही कारण है कि उसकी कथाएँ रोचक होती हैं, चाव से पढ़ी सुनी जाती हैं और सब उन्हें प्यार करते हैं। यदि परकीया में वास्तविकता न होती, उसकी बातें सत्य न होकर कल्पित होतीं, तो उसमें इतनी स्वाभाविकता न मिलती। इसी स्वाभाविकता के कारण संसार के साहित्य में उसका आदर है, और यह व्यापक आदर ही उसके अस्तित्व के महत्त्व का प्रतिपादक है।

साहित्य-दर्पणकार कहते हैं; परकीया दो प्रकार की होती है, एक वह अविवाहिता कन्या जो माता पिता अथवा किसी दूसरे अभिभावक के अधिकार में रहते किसी पुरुष से स्वतंत्र प्रेम करती है, और दूसरी वह जो पति के आधीन होते पर-पुरुषानुरागिणी बनती है। रसमंजरी-कार भी यही लिखते हैं—

अप्रकटपरपुरुषानुरागा परकीया । सा द्विविधा वरोदा कन्यका च । कन्यायः
पित्राद्यधीनतया परकीयता ।

पहली गुरुजन का बंधन तोड़ती है, और दूसरी पतिदेव का । वर्तमान सभ्य जगत की ललनाएँ आज कल यही तो कर रही हैं । यूरोप और अमेरिका की कन्याएँ माता-पिता की परवा न करके आप स्वयं किसी पुरुष को वरण कर लेती हैं । वहाँ की पतिवती ललनाएँ पति का त्याग कर जब जी में आता है किसी अन्य को प्रियतम बना लेती हैं । उन सभ्य देशों में ऐसा करना अनुचित नहीं समझा जाता, वरन् यह स्त्री जाति का स्वत्व समझा जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने ही में स्त्री जाति की मर्यादा और महत्ता सुरक्षित रहती है । क्योंकि इस प्रणाली से उनकी पराधीनता की बेड़ी कटती है, और स्वतंत्रता का सच्चा सुख उन्हें प्राप्त होता है । आज कल भारत की सुशिक्षिता ललनाएँ भी इन प्रथाओं की ओर सतृष्ण नेत्रों से देख रही हैं, और स्वयंवरा होने की ही इच्छा दिन-दिन प्रबल नहीं हो रही है, पतियों के परित्याग का अधिकार प्राप्त करने का उद्योग भी चल रहा है । यदि वांछनीय यही है, तो परकीया को नायिकाओं में स्थान देकर प्राचीन साहित्यकारों ने स्त्री-जाति के स्वत्व की ही रक्षा तो की है, उन्होंने प्रकृति की नाड़ी टटोलकर उस समय उनके इस अधिकार को स्वीकार किया, उनकी वेदनाओं और उत्कंठाओं का सामिक भाषा में उल्लेख किया, जिस समय समाज उनको जैसी चाहिये वैसी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था । इतना निवेदन करने के बाद क्या यह बतलाने की आवश्यकता रही कि परकीया का वर्णन युक्तिसंगत है या नहीं !

। अब रही गणिका । समाज में गणिका का भी उपयोग है । नाट्य-शास्त्रकार महात्मा भरत ने अपने ग्रंथ में बड़े विस्तार से यह लिखा है, कि नाटकों में गणिका की उपयोगिता से कहाँ-कहाँ कौन सा लाभ उठाया जा सकता है । एक नीतिशास्त्रकार गणिका के विषय में यह कहता है—

देशाटनं पण्डितमित्रता च वारंगना राजसभाप्रवेशः ।

अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्यमूलानि भवन्ति पंच ॥

“देशाटन, पंडित की मित्रता, वारांगना का सहवास, राजसभा-प्रवेश, अनेक शास्त्रों का अवलोकन, ये पाँचों चातुर्यकला सीखने के मूल हैं।”

महाराज भर्तृहरि ने नृप-नीति को वारांगना के समान लिखा है, इस पद्य में उन्होंने वारांगनाओं के कुछ गुणों का भी उल्लेख किया है। देखिये—

सत्याऽनृता च परुषा प्रियवादिनी च ।

हिंसा दयालुरपि चार्थपरावदान्या ।

नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च ।

वारांगणोव नृपनीति अनेकरूपा ॥

“सत्या है, अनृता भी; परुषा है, प्रियवादिनी भी, हिंसा है, दयावती भी; अनुदारा है, वदान्या भी; नित्यव्यया है, प्रचुर धनागमा भी; वास्तविक बात यह है कि वारांगना के समान नृप-नीति अनेक रूपा है।”

साहित्यदर्पणकार भी उसको ‘कापि सत्यानु रागिणी’ लिखते हैं, मृच्छकटिक की बसन्तसेना इसका प्रमाण है। वे यह भी लिखते हैं—

तस्कराः पंडका मूर्खाः सुखप्राप्तधनास्तथा ।

लिगिनश्छन्नकामाद्या आसा प्रायेण वल्लभाः ॥

“चोर, नपुंसक, मूर्ख, जिनको अनायास धन मिल गया है वे और छद्म वेषधारी, प्रच्छन्न कामुक पुरुष प्रायः वेश्याओं के बल्लभ होते हैं।” कम से कम इस पद्य से यह तो ज्ञात होता है, कि दुष्टों के एक बहुत बड़े दल से कुलांगनाएँ वेश्याओं के कारण सुरक्षित रहती हैं। कभी-कभी दुष्टजनों और बदमाशों का जो आक्रमण कुल ललनाओं पर होता रहता है, वही इसका प्रमाण है। छावनियों के सैनिकों के लिये जिस प्रकार उनका उपयोग होता है, वह भी अविदित नहीं।

इन बातों पर विचार करने से यह नहीं कहा जा सकता कि समाज में गणिकाओं का कुछ उपयोग नहीं। वास्तविक बात यह है कि इन्हीं दृष्टियों से नायिकाओं में उनको गणना है। शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं,

जिनका नाम लेना भी अश्लीलता है, फिर भी वे शरीर में हैं और उपयोगी हैं। इसी प्रकार वेश्याएँ कितनी ही कुत्सित क्यों न हों, पर वे समाज का एक अंग हैं और उनका भी उपयोग है। इसी लिये साहित्य में उनकी चर्चा है। किंतु यह स्मरण रहे कि जहाँ उनका वर्णन है, वहाँ उनकी कुरसा ही की गई है। नायिका विभेद के ग्रंथों में उनको स्वार्थ-परायणा ही अंकित किया गया है। उनके कपटमय मानसिक भावों के चित्रण में जैसी उच्च कोटि की कविताएँ की गई हैं, कला की दृष्टि से उनकी जितनी प्रशंसा की जावे, थोड़ी है। कामुकों के आँख खोलने, और लम्पटो को सावधान करने की भी पर्याप्त सामग्री उन में पाई जाती है। जब एक वेश्या के मुख से कोई कवि कहलाता है—‘नाथ हमें तुमैं अंतर पारत हार उतारि इतै धरि राखो’—उस समय जहाँ वह कवि कला का कमाल दिखलाता है, एक स्वार्थमय मानस का विचित्र चित्र खींचता है, वहीं यह भी बतलाता है कि किस प्रकार गणिकाओं की मधुरतम बातों में प्रतारणा छिपी रहती है, और कैसे वह प्रेम का कपट जाल फैलाकर कामुकों को फँस लेती हैं। इस पद्य में विवेकियों के लिये यह सुंदर शिक्षा है, और असावधानों के लिये सावधानता का मंत्र। इसलिये जिस दृष्टि से देखा जावे साहित्य में गणिकाओं का नायिका रूप में ग्रहण असंगत नहीं ज्ञात होता।

एक बात और सुनिये। हाल में अमेरिका को किसी कौंसिल में यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि वहाँ की गणिकायें नगर के बाहर बसाई जावे, और नगर में रहने का उनका अधिकार हरण कर लिया जावे। प्रस्ताव उपस्थित होने पर यह तय पाया कि पहले यह निश्चित कर लिया जावे कि किन आधारों से कोई खो गणिका मानी जा सकती है। यह बात स्वीकृत हुई और आधार निश्चित किये जाने लगे। किंतु कौन गणिका है और कौन अगणिका यह निश्चित करने में इतना विवाद बढ़ा कि कोई बहुसंमत आधार ही निश्चित न हो सका। परिणाम यह

हुआ कि प्रस्तावक को प्रस्ताव उठा लेना पड़ा। यह वर्तमान सभ्य जगत के सर्वप्रधान देश का हाल है, तर्क करने वाले महाशय इस रहस्य का उद्घाटन करके स्वयं सोचें कि गणिका का नायिकाओं में स्थान पाना संगत है या असंगत।

साहित्यकारों ने स्वयं यह बतलाया है कि कौन-कौन विषय अश्लील और जुगुप्सा-जनक हैं। यदि उन की दृष्टि में नायिका-भेद अमर्यादित और जुगुप्सा-मय होता तो कभी वे अपने प्रथों में उसे स्थान न देते और न उसे शृंगार रस मानते। प्रायः ब्रजभाषा की नायिका-भेद की रचनाओं पर कटाक्ष करते हुए यह कहा जाता है, कि जिस समय भारत का पतन हो रहा था, और वह दुर्व्यसनों और भोग लिप्साओं में फँस गया था, उन्ही दुर्दिनों में नायिका भेद की कल्पना की गई, और विषय-प्रिय लोगों के उत्साह दान से वह लालित, पालित और परिवर्द्धित हुई। किंतु इतिहास से ऐसा पाया नहीं जाता। नायिका भेद का इतिहास आप लोग सुन चुके। जिस काल में उसको उद्भावना हुई, उस समय ब्रजभाषा का कंठ भी नहीं फूटा था, फिर उस पर इस प्रकार का कटाक्ष कहाँ तक संगत है।

शृंगार रस का दुरुपयोग

संसार में उत्तम से उत्तम और पवित्र से पवित्र कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसका दुरुपयोग न हो सके। सुधा स्वर्गीय पदार्थ है, और उसमें जीवनप्रदान क्षमता है। किंतु यदि किसी संसार-वत्पीड़क को जीवन दान करने के लिये उसका उपयोग होगा, तो यह उपयोग सदुपयोग न होगा, दुरुपयोग कहलावेगा। जल का नाम जीवन है, यदि उसका उपयोग उचित मात्रा में होगा, तो वह स्वास्थ्य रक्षा का प्रधान साधन बनेगा, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक पी लिया जावे, तो व्याधि का कारण और कष्टदायक होगा। इसलिये सब वस्तुओं का सदुपयोग ही वांछनीय है। शृंगार रस क्या है, यह मैं बतला चुका हूँ, उसकी उप-

संस्कृत-साहित्य अश्लीलता तो मानता है, किंतु जहाँ कोई विषय किसी भाव के न वर्णन करने से अपूर्ण रह जाता है, अथवा जहाँ कोई आशय प्रसंग प्राप्त सत्य है, वहाँ वह उसकी पूर्ति को ही प्रधानता देता है। उस समय वह अश्लीलता के फेर में नहीं पड़ता। क्योंकि अश्लीलता की भी सीमा है। वैद्यक ग्रंथों में जहाँ नाना रोगों की व्याख्या है, क्या वहाँ गुप्तांगों के रोगों का वर्णन न होगा, अवश्य होगा और यदि अवश्य होगा, तो उन अंगों के एक-एक अंश का क्या खुला निरूपण उसमें न मिलेगा? यदि मिलेगा, तो क्या इससे ग्रंथ में अश्लीलता आ जावेगी? कोषों में वे शब्द मिलते हैं, मुख से जिनका उच्चारण करते संकोच होता है। उनमें ऐसे शब्द मिलते ही नहीं, उनका पूरा विवरण भी होता है, तो क्या इससे कोष निन्दनीय बन जाता है? स्त्री के वे अंग जो सदा गुप्त रखे जाते हैं, जिनकी ओर दृष्टि उठाकर देखना भी अभद्रता समझी जाती है, जिनकी चर्चा भी कलंकित करती है। डाक्टर उन्हें अंगों की जाँच पड़ताल करता है, उनका स्पर्श करता है, आवश्यकता होने पर उनको टटोलता है, उनको चीरता-फाड़ता है, तरह-तरह से उन्हें देखता-भालता है, परंतु यह कार्य गहिँत नहीं माना जाता और न डाक्टर ही को कोई बुरा कहता है; क्योंकि उसका उद्देश्य सत् है। ऐसा करने के समय वह मनोविकार-ग्रस्त नहीं होता, और न उसकी निर्दोष मनोवृत्ति पापवासना-मूलक होती। विशेषज्ञ लोग कला की सर्वांग पूर्णता के जिन्ये साहित्यकारों के अश्लीलता उपेक्षा-संबंधी कार्य को इसी प्रकार का मानते हैं। मत-भिन्नता को कहाँ स्थान नहीं, परंतु एक हद तक वह सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है। मैं समझता हूँ, संस्कृत-साहित्य की इस प्रकार की बहुत सी रचनाएँ इस हद के अंदर आ जा सकती हैं। परंतु उसमें भी ऐसे कवि पाये जाते हैं, जिनकी काम-वासनामय प्रवृत्ति उनसे ऐसी अश्लील रचना कराने में समर्थ हुई है, जो किसी भाँति

संस्कृत-साहित्य अश्लीलता तो मानता है, किंतु जहाँ कोई विषय किसी भाव के न वर्णन करने से अपूर्ण रह जाता है, अथवा जहाँ कोई आशय प्रसंग प्राप्त सत्य है, वहाँ वह उसकी पूर्ति को ही प्रवानता देता है। उस समय वह अश्लीलता के फेर में नहीं पड़ता। क्योंकि अश्लीलता की भी सीमा है। वैद्यक ग्रंथों में जहाँ नाना रोगों की व्याख्या है, क्या वहाँ गुप्तांगों के रोगों का वर्णन न होगा, अवश्य होगा और यदि अवश्य होगा, तो उन अंगों के एक-एक अंश का क्या खुला निरूपण उसमें न मिलेगा ? यदि मिलेगा, तो क्या इससे ग्रंथ में अश्लीलता आ जावेगी ? कोषों में वे शब्द मिलते हैं, मुख से जिनका उच्चारण करते संकोच होता है। उनमें ऐसे शब्द मिलते ही नहीं, उनका पूरा विवरण भी होता है, तो क्या इससे कोष निदनीय बन जाता है ? स्त्री के वे अंग जो सदा गुप्त रखे जाते हैं, जिनकी ओर दृष्टि उठाकर देखना भी अभद्रता समझी जाती है, जिनकी चर्चा भी कलंकित करती है। डाक्टर उन्हीं अंगों की जाँच पड़ताल करता है, उनका स्पर्श करता है, आवश्यकता होने पर उनको टटोलता है, उनको चीरता-फाड़ता है, तरह-तरह से उन्हें देखता-भालता है, परंतु यह कार्य गर्हित नहीं माना जाता और न डाक्टर ही को कोई बुरा कहता है; क्योंकि उसका उद्देश्य सत् है। ऐसा करने के समय वह मनोविकार-ग्रस्त नहीं होता, और न उसकी निर्दोष मनोवृत्ति पापवासना-मूलक होती। विशेषज्ञ लोग कला की सर्वांग पूर्णता के जिनके साहित्य-कारों के अश्लीलता उपेक्षा-संबंधी कार्य को इसी प्रकार का मानते हैं। मत-भिन्नता को कहाँ स्थान नहीं, परंतु एक हृद तक वह सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता है। मैं समझता हूँ, संस्कृत-साहित्य की इस प्रकार की बहुत सी रचनाएँ इस हृद के अंदर आ जा सकती हैं। परंतु उसमें भी ऐसे कवि पाये जाते हैं, जिनकी काम-वासनामय प्रवृत्ति उनसे ऐसी अश्लील रचना कराने में समर्थ हुई है, जो किसी भाँति

अनुमोदनीय नहीं। कुछ ऐसी ही रचनाएँ ब्रजभाषा में भी हैं।

श्रीमती राधिका का पद बहुत ऊँचा है, उनको वही गौरव प्राप्त है, जो किसी लोकाराधनीया ललना को दिया जा सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण यदि लोक-पूज्य महापुरुष हैं, तो श्रीमती राधिका सर्वजन आहता रमणी। वे यदि मूर्तिमान् प्रेम हैं, तो ये मूर्तिमती प्रेमिका। वे यदि विष्णु के अवतार हैं, तो ये हैं लक्ष्मी स्वरूपिणी। वे यदि हैं देवादिदेव, तो ये हैं साक्षात् स्वर्ग की देवी। अपने सच्चे प्रणय और निःस्वार्थ प्रेम के कारण ही उनके नाम को भगवान् श्रीकृष्ण के पवित्र नाम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कहा जाता है, श्रीमद्भागवत में उनका नाम नहीं, रामानुजाचार्य्य ने भी ईश्वरीय युगल मूर्ति की कल्पना के समय उनका स्थान रुक्मिणी देवी को दिया, इसलिये उनको अथवा उनके नाम को वह महत्ता नहीं प्राप्त होती, जो अन्य देव-विभूतियों को मिलती है। भागवत में भले ही उनका नाम न हो, किंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण-खंड और खिल हरिवंश पर्व में उनका नाम मिलता है। महात्मा विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य्य ने राधा नाम की प्रतिष्ठा की है, महाप्रभु वल्लभाचार्य्य ने भगवान् श्रीकृष्ण की उपासना के साथ श्रीमती राधिका के स्वर्गीय प्रेम का प्रचार भी किया है। स्वामी हित हरिवंश ने तो राधा-वल्लभी एक संप्रदाय ही बना डाला, जिसमें उन्होंने उन्हीं को सर्वाराध्या बतलाया। चैतन्यदेव स्वयं मूर्तिमान् राधा थे, उन्होंने श्रीमती राधिका के उदात्त प्रेम का जो आदर्श उपस्थित किया वह अभूतपूर्व है। वंग कवि चंडीदास, मैथिल-कोकिल विद्यापति, पीयूषवर्षी महापुरुष जयदेव और प्रज्ञाचञ्चु महाकवि सूरदास ने जिस विश्वव्यापी स्वर में श्रीमती राधिका का गुणगान किया, वह लोक विश्रुत है। उत्तरीय भारत और गुजरात के लक्षाधिक मंदिरों में भगवान् श्रीकृष्ण के साथ श्रीमती राधिका की मूर्ति आज भी प्रतिष्ठित है। लगभग सहस्र वर्ष से वे करोड़ों हिंदुओं के भक्ति-मंडित हृदय

सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके विषय में उनके संप्रदाय वालों और संस्कृत के कुछ प्रधान ग्रंथों ने जो लिखा है, वह तो उनको सर्व लोकों से उच्च गोलोक की अधिष्ठातृ देवी और जगदंबिका बतलाता ही है, किंतु नव शिवा-दीक्षा दीक्षित लोगों ने वर्तमान काल में उनके विषय में जो लिखा है, वह भी उनकी महत्ता का पूर्ण द्योतक है—बंगभाषा ओ साहित्य कार बाबू दीनेशचंद्र सेन बी० ए० अपने ग्रंथ के पृष्ठ २४४ में यह लिखते हैं—

“अपूर्व प्रेम और भक्ति के उपकरण से श्रीमती राधिका सुदरी निर्मित हैं, वे आयशा अथवा कुदंदिनी नहीं हैं—जो उनके विरहजन्य कष्ट की एक कणिका वहन कर सके, अथवा उनके सुख-समुद्र की एक लहरी धारण करने में समर्थ हो, इस प्रकार का नारी चरित्र पृथ्वी के काव्योद्यान में कहाँ है।”

बंग प्रांत के प्रसिद्ध विद्वान् और लेखक श्रीयुत पूर्णचंद्र वसु अपने ‘साहित्य चिंता’ नामक ग्रंथ में श्रीमती राधिका के विषय में यह लिखते हैं—

“आर्यों के भक्ति शास्त्र में एक और भी आदर्श प्रेम है, राधा उस प्रेम की प्रतिमा हैं, गोपियाँ उस प्रेम की सहचरी हैं। राधिका मधुर गोपिका-प्रेम का प्रकृष्ट निदर्शन हैं। पति-पत्नी का प्रेम जहाँ तक उन्नत हो सकता है, उस उन्नतावस्था को राधिका का प्रेम पहुँचकर कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हो गया था। इसीसे इस भक्ति का नाम प्रेमा-भक्ति है। दाम्पत्य प्रेम की परिपूर्णता को भगवदर्पण करना ही इसका उद्देश्य है; क्योंकि भगवान् ही प्राणवल्लभ हैं। राधिका और गोपियों के अतिरिक्त और कोई नहीं कह सकता कि भगवान् हमारे प्राणवल्लभ हैं। सत्यभामा ने ऐसा कहा था, पर राधिका-प्रेमी कृष्ण ने उनका यह दर्प चूर्ण कर दिया था। सत्यभामा का प्रेम दर्पित भक्ति का रूप था, वह राधिका की आत्मसमर्पण-कारिणी प्रेमाभक्ति की तुलना नहीं कर सकता। रुक्मिणी की भक्ति में प्रेम की मधुरता दाम्पत्य प्रेम की मधुरता में मिल

गई थी, जिससे उनका प्रेम पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। राधिका उसी प्रेम भक्ति में उल्लासिनी और कृष्ण-लीलामयी हो गई थीं। उनके लिये कृष्ण का प्रेम ही संसार था, वही उनका सर्वस्व था। कृष्ण ही राधा के धन, सुख और चिंता थे, वे श्याम के प्रेम में ही मत्त थीं।”

श्रीमती राधिका की इस महिम्नामयी मूर्ति को ब्रजभाषा के थोड़े से ही कवियों अथवा महाकवियों ने पहचाना, अधिकांश ने उनकी एवं भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं को साधारण दृष्टि से ही देखा और साधारण दृष्टि से ही उनको अंकित किया। इस प्रकार के कविगण भी अधिक उपालंभ योग्य नहीं, क्योंकि फिर भी उनकी रचनाएँ अमर्यादित नहीं। दुःख उन कवियों के कृत्य पर है, जिन्होंने साधारण विषयी पुरुष स्त्री के समान उनके चरित्रों को अंकित किया और इस प्रकार पवित्र शृंगार रस का दुरुपयोग करके ब्रजभाषा को भी कलंकित बनाया। माता पिता की बिहार-संबंधी अनेक बातें ऐसी हैं, जिनको पुत्र अपने मुख पर भी नहीं ला सकता, उनके विषय में अपनी जीभ भी नहीं हिला सकता, क्योंकि यह अमर्यादा है। देखा जाता है, आज भी कोई पुत्र ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करता। फिर भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीमती राधिका के हास-विलास का नग्न चित्र क्यों अंकित किया गया? क्या वे जगत् के पिता माता नहीं और हम लोग उनके पुत्र नहीं? क्या ऐसा करके बड़ा ही अनुचित कार्य नहीं किया गया?

खेद है कि ऐसी धृष्टता उन्हीं कवियों के हाथ से अधिकतर हुई जिन्होंने नायिका भेद के ग्रंथ लिखे। उन्हीं लोगों के कारण ही आज-कल नायिका भेद की रचनाओं की इतनी कुत्सा हो रही है। नायक के रूप में मुरली-मनोहर और नायिका के रूप में श्रीमती राधिका का ग्रहण किया जाना, उनके लिये अनर्थों का मूल हुआ। इस अविवेक का कहीं ठिकाना है कि करते हैं छोछालेदर जगत् के माता-पिता की और समझते हैं, उसको पवित्र भगवत् सुयश-गान ! उत्तर काल में यह

भाव इतना प्रबल हुआ कि सत्-असत् का ज्ञान ही जाता रहा। मंदिरों में भजन करने के लिये बैठे हैं, श्रोतृमंडली भगवत् गुणानुवाद सुनकर पुण्य-संचय करने के लिये एकत्र है। किंतु हम प्रारंभ करते हैं, ऐसे गान और पढ़ने लगते हैं ऐसी कविताएँ, जिनको सुनकर निर्लज्जता के वान भी खड़े हों। परंतु सोचते हैं यही कि स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त हो रहा है और हम पर पुष्प वृष्टि करने के लिये गगन-पथ में देवताओं के विमान चले आ रहे हैं। इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या होगा ? कहते मर्मपीड़ा होती है कि यह अज्ञान हम लोगों में इतना घुसा कि उससे समाज का बहुत बड़ा अपकार हुआ, आज भी हो रहा है, किंतु हमारी आँखें ठीक-ठीक कहाँ खुलीं !

यह मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रेम-देव भगवान् श्रीकृष्ण और प्रेम प्रतिमा श्रीमती राधिका को लाभ कर ब्रजभाषा-साहित्य में वह जीवन आया और उसका ऐसा शृंगार हुआ कि न भूतो न भविष्यति। ब्रजभूमि ने यदि उसे भव्य बनाया, तो कल्लिदतनया ने उसमें वह रस-धारा बहाई, उसको उन ललित लहरियों से लसाया, उन कल-कल रवो से और मनोहर दृश्यों से सुशोभित किया कि जिसकी प्रशंसा शत मुख से भी नहीं हो सकती। कहाँ है वृन्दावन-सा वन और कहाँ हैं ब्रज की कलित कुंजों-सी कुंजें। किस भाषा की कविता में वह अलौकिक मुरलिका बजी, वह विश्व विमुग्धकर गान हुआ, जिसको सुन पशु पक्षी तक विमुग्ध हो गये, वृक्ष का पत्ता-पत्ता पुलकित हो गया। किस काव्य-संसार को मनमोहन-सा रसिक शिरोमणि, माधव-सा मधुर हृदय, कोटि काम कमनीय कृष्ण-सा लोकमोहन और अखिल-कलाकुशल केशव सा कामद कल्पतरु प्राप्त हुआ। किस साहित्य ने श्रीमती राधिका-सी लोकललाम रमणी, वृषभानु-नंदिनी-सी प्रेमपरायणा, सरल-हृदया, त्यागमयी, आनंद की मूर्ति युवती पाई। किंतु दुःख है कि कुछ अविवेकी कवियो ने इस महत्त्व को नहीं समझा और उलटी ही गंगा बहाई।

मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरो न कोई ।
 दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई ।
 भाई तजा बंधु तजा तजा संग सोई ।
 साधुन संग बैठि-बैठि लोकलाज खोई ।
 भगत देख राजी भई जगत देख रोई ।
 अँसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम-बेलि बोई ।
 अब तो बात फैल गई जानै सब कोई ।
 मीरा को लगन लगी होनि हो सो होई ॥ २ ॥

कृष्णागढ़ के महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास ने राधाकृष्ण-प्रेम-पथ के पांथ बनकर ही राज्य को तृण समान त्यागा और प्रेम-रस निचुड़ती हुई ऐसी सरल कविताएँ कों, जिनको पढ़ कर आज भी सुधारस का आस्वादन होता है। रसखान जाति के मुसलमान थे, उन पर युगल-स्वरूप की माधुरी ने ऐसा जादू डाला कि वे अपना धर्म त्याग कर वैष्णव बन गये और ऐसी सच्ची वैष्णवता दिखलाई कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने अपनी २५२ वैष्णवों की वार्ता में उनको भी सादर स्थान दिया। देखिये, निम्नलिखित पद्यों में उनके हृदय का सच्चा प्रेम कैसा छलका पड़ता है—

मानुस हों तो वही रसखान बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरौं नित नंद की धेनु मम्हारन ।
 पाहन हों तो वही गिरि को जो धन्यौ कर छत्र पुरंदर धारन ।
 जो खग हों तो बसेरो करौं मिलि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन ॥१॥

* * * *

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारौं ।
 आठहुँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारौं ।
 आँखिन सों रसखान कबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौं ।
 कोटिन हूँ कलधौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वारौं ॥२॥

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई ।
 दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई ।
 भाई तजा बधु तजा तजा सग सोई ।
 साधुन सँग बैठि-बैठि लोकलाज खोई ।
 भगत देख राजी भई जगत देख रोई ।
 अंसुवन जल सीचि-सीचि प्रेम-वेलि बोई ।
 अब तो बात फैल गई जानै सब कोई ।
 मीरा को लगन लगी होनि हो सो होई ॥ २ ॥

कृष्णागढ़ के महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास ने राधाकृष्ण-प्रेम-पथ के पांथ बनकर ही राज्य को तृण समान त्यागा और प्रेम-रस निचुड़ती हुई ऐसी सरल कविताएँ कों, जिनको पढ़ कर आज भी सुधार-रस का आस्वादन होता है। रसखान जाति के मुसलमान थे, उन पर युगल-स्वरूप की माधुरी ने ऐसा जादू डाला कि वे अपना धर्म त्याग कर वैष्णव बन गये और ऐसी सच्ची वैष्णवता दिखलाई कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपनी २५२ वैष्णवों की वार्ता में उनको भी सादर स्थान दिया। देखिये, निम्नलिखित पद्यों में उनके हृदय का सच्चा प्रेम कैसा छलका पड़ता है—

मानुस हों तो वही रसखान बसैं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरौ नित नद की धेनु मफारन ।
 पाहन हों तो वही गिरि को जो धन्यौ कर छत्र पुरंदर धारन ।
 जो खग हों तो बसेरो करौ मिलि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन ॥१॥

* * * *

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारौ ।
 आठहुँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारौ ।
 आँखिन सौँ रसखान कबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ ।
 कोटिन हूँ कलधौत के धाम करीर के कुजन ऊपर वारौ ॥२॥

इतना ही नहीं, इस युगल मूर्ति के प्रेम और मधुर लीलाओं के रस का प्रवाह मर्यादित एवं संयत रामावत संप्रदाय में भी बहा । पहले पहल 'हरि' नामक संस्कृत के एक सुकवि और सहृदय विद्वान् ने 'जानकीगीतम्' नामक एक गीति काव्य लिख कर 'गीतगोविंद' का सफल अनुकरण किया । अभी इनका काल निश्चित नहीं हुआ, किंतु इन्हें विलास वर्णन और सरस पद विन्यास में गीतगोविंदकार का समकक्ष कहा जा सकता है । उनका एक पद्य देखिये—यह पद्य गीतगोविंद के 'ललित लवंगलता परिशीलन क्रोमल मलय समीरे' गीत के आधार पर लिखा गया है—

मृदुल रसाल मुकुल रसतुंदिल पिकनिकरस्वन भासे ।
माधविका सुमना नव सौरभ निर्भर संकलिताशे ॥

* * * *

बिलसति रघुपति रति सुख पुंजे ।
निर्मल मलयज कुंकुम पंकिल तनुरिह वरतनु पुंजे ।
विषम विशिख कर नखर निचय सम किंशुक कुसुम कराले ।
मानवतीगणमानविदारिणि चञ्चलमधुकरजाले ॥
धृत मकरन्द सुगंध गंधवह भाजि विराजित शोभे ।
विविध वितान कान्ति परिशीलन जनित युवति जन लोभे ।
हरि परिरचितमिदं मधुवर्णन मनु रघुनाथमुदारम् ।
पिवत बुधा मधु मधुर पदावलि निरुपम भजनसुधारम् ॥

ऐसा करना उचित हुआ अथवा अनुचित, यह अन्य विषय है । किंतु इसका अनुकरण बहुत हुआ । साकेतपुरी—लक्ष्मण टीला के प्रसिद्ध महंत युगलानन्यशरण इसके प्रभाव से विशेष प्रभावित हुए । उन्होंने श्रीमती जानकी देवी और उनकी सखियों को लेकर भगवान् रामचंद्र का रास-मंडल तक लिख डाला । उनकी-एवं उन्हीं की मंडली के कतिपय सहृदय कवियों की रचनाएँ अष्टछाप के वैष्णवों की रचनाओं-सी ही सरस हैं । किंतु उनमें वास्तविकता कहाँ, काया काया है और छाया

छाया। हाँ, राधा कृष्ण की माधुर्य उपासना का रंग उनमें लबालब भरा है।

यह सब जानते और मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि ब्रज-भाषा में कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनमें बीभत्स कांड की पराकाष्ठा हो गई है। मैं उदाहरण के लिये कुछ ऐसी कविताएँ उद्धृत कर सकता हूँ, किंतु ऐसा करना युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होता। जिस अश्लीलता की निंदा की जा रही है, उसी से इस ग्रंथ के कलेवर को कलंकित करना क्या उचित होगा? ऐसी रचनायें प्रायः नायिका भेद के रीति ग्रंथों में पाई जाती हैं। प्रेम के रंग में रँगकर केवल प्रेम के निरूपण अथवा वर्णन में जो कविताएँ की गई अथवा ग्रंथ रचे गये उनमें इस प्रकार का दोष बहुत कम मिलता है।

हृदय के उद्गार मानसिक भावों के चित्र होते हैं। मनुष्य जैसा सोचता विचारता है, वैसे ही भाव अवसर आने पर प्रकट करता है। जो व्यसन-प्रिय है, जिसको नग्न चित्र अंकित करना ही प्यारा है, उससे यह आशा नहीं हो सकती, कि वह परमार्जित रुचि की बातें लिखेगा, अथवा कहेगा। संसार विचित्रतामय है, उसमें सभी प्रकार के लोग हैं। इसलिये यह नहीं सोचा जा सकता कि कभी इस प्रकार के लोग पृथ्वी में न रहेंगे। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है, कि अश्लीलता का किसी काल में लोप न होगा, वह सदा रहेगी, समयानुकूल उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भले ही होता रहे। कोई देश ऐसा नहीं जिसमें इस प्रकार के मनुष्य न हों, कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें यह रोग न लगा हो, और कोई साहित्य-सुमन ऐसा नहीं, जिसमें यह कंटक न हो। विश्व में सुरुचि के लिये ही जगह है, कुरुचि के लिये नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। 'त्यागभूमि' के तीसरे वर्ष के छठे अंक पृष्ठ ६८३ में महात्मा गांधी का एक लेख 'नव-जीवन' से उद्धृत हुआ है, उसमें वे लिखते हैं—

'कोई देश और कोई भाषा गंदे साहित्य से मुक्त नहीं है। जब तक

छाया। हाँ, राधा कृष्ण की माधुर्य उपासना का रंग उनमें लबालब भरा है।

यह सब जानते और मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि ब्रज-भाषा में कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनमें बीभत्स कांड की पराकाष्ठा हो गई है। मैं उदाहरण के लिये कुछ ऐसी कविताएँ उद्धृत कर सकता हूँ, किंतु ऐसा करना युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होता। जिस अश्लीलता की निंदा की जा रही है, उसी से इस ग्रंथ के कलेवर को कलंकित करना क्या उचित होगा? ऐसी रचनाएँ प्रायः नायिका भेद के रीति ग्रंथों में पाई जाती हैं। प्रेम के रंग में रंगकर केवल प्रेम के निरूपण अथवा वर्णन में जो कविताएँ की गई अथवा ग्रंथ रचे गये उनमें इस प्रकार का दोष बहुत कम मिलता है।

हृदय के उद्गार मानसिक भावों के चित्र होते हैं। मनुष्य जैसा सोचता विचारता है, वैसे ही भाव अवसर आने पर प्रकट करता है। जो व्यसन-प्रिय है, जिसको नग्न चित्र अंकित करना ही प्यारा है, उससे यह आशा नहीं हो सकती, कि वह परमार्जित रुचि की बातें लिखेगा, अथवा कहेगा। संसार विचित्रतामय है, उसमें सभी प्रकार के लोग हैं। इसलिये यह नहीं सोचा जा सकता कि कभी इस प्रकार के लोग पृथ्वी में न रहेंगे। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है, कि अश्लीलता का किसी काल में लोप न होगा, वह सदा रहेगी, समयानुकूल उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भले ही होता रहे। कोई देश ऐसा नहीं जिसमें इस प्रकार के मनुष्य न हो, कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें यह रोग न लगा हो, और कोई साहित्य-सुमन ऐसा नहीं, जिसमें यह कंटक न हो। विश्व में सुरुचि के लिये ही जगह है, कुरुचि के लिये नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। 'त्यागभूमि' के तीसरे वर्ष के छठे अंक पृष्ठ ६८३ में महात्मा गांधी का एक लेख 'नव-जीवन' से उद्धृत हुआ है, उसमें वे लिखते हैं—

'कोई देश और कोई भाषा गंदे साहित्य से मुक्त नहीं है। जब तक

विक्रि बात यह है कि साहित्यदर्पण के सूत्र का यह भाव कदापि नहीं है । वह तो यह कहता है कि यदि सुरत वर्णन के समय गुप्त स्थानों का खुला नाम अश्लीलता बचाने के लिये न लिखकर उसका पर्यायवाची ऐसा कोई शब्द उसके स्थानपर लिख दिया जावे, जिसका दूसरा अर्थ भी हो तो वह शब्द अश्लील न समझा जावेगा, क्योंकि उसका प्रयोग दोष दूरीकरण के लिये ही हुआ । ऐसी अवस्था में साहित्यदर्पण का उक्त सूत्र सुरत वर्णन में अश्लीलता का प्रतिपादक नहीं, वरन् विरोधी है । दूसरी बात यह कि जब स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि—

‘अश्लीलत्वं त्रीड़ाजुगुप्साऽमंगलव्यञ्जकत्वात् त्रिविधम्’

“लज्जा, घृणा और अमंगल व्यञ्जक होने से अश्लील तीन प्रकार का होता है ।”
—साहित्यदर्पण ।

तो फिर बात गढ़ कर उस पर पर्दा डालने से हास्यास्पद ही बनना होगा, इष्ट सिद्धि न होगी । अश्लीलता का रूप इतना व्यापक है कि जो वर्णन लज्जाजनक, घृणाव्यञ्जक, और अमंगलमूलक होगा, वह सब अश्लीलता दोष से दूषित हो जावेगा । सुरत का वर्णन ही लज्जाजनक और घृणाव्यञ्जक है, यदि साहित्य का अंग समझ कर उसका वर्णन किया जावे ही तो उसको संयत से संयत होना चाहिये, न यह कि खुल खेला जावे, और कोढ़ में खाज पैदा की जावे । यह तो साधारण सुरत वर्णन की बात है । माता-पिता का सुरत वर्णन तो हो ही नहीं सकता । नायिका के अंग प्रत्यंग और उनके हास-विलास और क्रीड़ादि का वर्णन भी किसी किसी कवि ने असंयत भाव से कर अपनी रचना को कामुकता का अखाड़ा बना दिया है । ये ऐसे दोष हैं कि इन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता । फिर क्यों न कहा जावे कि इस प्रकार की रचनाओं में शृंगार रस का दुरुपयोग हुआ ।

शृंगार रस और वर्तमानकाल

एक दिन था, जब भारतवर्ष मुसलमान सम्राटों के प्रबल प्रभाव से

प्रभावित था, और उनकी सभ्यता धीरे-धीरे उसके अंतःतल में वैसे ही प्रवेश कर रही थी, जैसे आजकल पाश्चात्य रहन-सहन की प्रणाली उसके हृदय में स्थान ग्रहण कर रही है। मुसलमानों के साम्राज्य का सबसे अधिक प्रभाव भारतवर्ष पर अकबर के समय में पड़ा; जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में वह अक्षुण्ण रहा, औरंगजेब के समय में उसका हास प्रारंभ हो गया। ब्रजभाषा के प्रसार, विस्तार और समुन्नति का प्रधान काल यही है। इन डेढ़ सौ बरसों में जैसा उसका शृंगार हुआ, जैसा वह फूली फली, जैसे सहृदय कवि उसमें उत्पन्न हुए, फिर वैसा नहीं हुआ। जैसा आजकल के शासकों का प्रभाव उनकी सभ्यता रंग-ढंग एवं उनकी रीति नीति का असर भारत की भाषाओं और भावों पर पड़ रहा है उस समय वैसा ही प्रभाव मुसलमान शासकों की प्रत्येक बात का ब्रजभाषा के साहित्य पर पड़ा था। कारण यह कि—यथा राजा तथा प्रजा। मुसलमान जाति विलास-प्रिय है। उसका साहित्य विलासिता के भावों से मालामाल है। प्रेम की कहानियों और प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के रंग रहस्यों, और चोचलों की उसमें भरमार है। फ़ारसी को कविताओं में क्या है, इस बात को आप मुसलमानों को उर्दू कविताओं को पढ़कर जान सकते हैं, क्योंकि वही इसको उद्गम भूमि है। उर्दू में जो हास, विलास, जो प्रेम के ढकोसले, पचड़े, बखेड़े मिलते हैं, उसमें जो लंपटता कामुकता, लिप्सा और वासनाओं के बीभत्स कांड दृष्टिगत होते हैं, वे सब फ़ारसी ही से उसे मिले हैं, फ़ारसी के ग्रंथ ही मुसलमान साहित्य के सर्वस्व हैं। उसपर अरबों की संस्कृति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, परंतु पारस की संस्कृति का रंग ही उसका निजस्व है। इन दोनों संस्कृतियों से जैसा खिचड़ी पकी, उसका आस्वाद फ़ारसी के साहित्य ग्रंथों में खूब मिलता है। वास्तविक बात यह है कि मुसलमान उनसे प्रभावित हैं, और वे उनकी चिर संस्कृतियों के दर्पण हैं। जो अकबर बड़ा सभ्य और शिष्ट समझा जाता है, उसके मोनाबाजार की बातों को सुनकर

प्रभावित था, और उनकी सभ्यता धीरे-धीरे उसके अंतराल में वैसे ही प्रवेश कर रही थी, जैसे आजकल पाश्चात्य रहन-सहन की प्रणाली उसके हृदय में स्थान ग्रहण कर रही है। मुसलमानों के साम्राज्य का सबसे अधिक प्रभाव भारतवर्ष पर अकबर के समय में पड़ा; जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में वह अक्षुण्ण रहा, औरंगजेब के समय में उसका हास प्रारंभ हो गया। ब्रजभाषा के प्रसार, विस्तार और समुन्नति का प्रधान काल यही है। इन डेढ़ सौ बरसों में जैसा उसका शृंगार हुआ, जैसा वह फूली फली, जैसे सहृदय कवि उसमें उत्पन्न हुए, फिर वैसे नहीं हुआ। जैसा आजकल के शासकों का प्रभाव उनकी सभ्यता रंग-ढंग एवं उनकी रीति नीति का असर भारत की भाषाओं और भावों पर पड़ रहा है उस समय वैसे ही प्रभाव मुसलमान शासकों की प्रत्येक बात का ब्रजभाषा के साहित्य पर पड़ा था। कारण यह कि—यथा राजा तथा प्रजा। मुसलमान जाति विलास-प्रिय है। उसका साहित्य विलासिता के भावों से मालामाल है। प्रेम की कहानियों और प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के रंग रहस्यों, और चोचलों की उसमें भरमार है। फारसी की कविताओं में क्या है, इस बात को आप मुसलमानों की उर्दू कविताओं को पढ़कर जान सकते हैं, क्योंकि वही इसको उद्गम भूमि है। उर्दू में जो हास, विलास, जो प्रेम के ढकोसले, पचड़े, बखेड़े मिलते हैं, उसमें जो लंपटता कामुकता, लिप्सा और वासनाओं के बीभत्स कांड दृष्टिगत होते हैं, वे सब फारसी ही से उसे मिले हैं, फारसी के ग्रंथ ही मुसलमान साहित्य के सर्वस्व हैं। उसपर अरबों की संस्कृति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, परंतु पारस की संस्कृति का रंग ही उसका निजस्व है। इन दोनों संस्कृतियों से जैसा खिचड़ी पकी, उसका आस्वाद फारसी के साहित्य ग्रंथों में खूब मिलता है। वास्तविक बात यह है कि मुसलमान उनसे प्रभावित हैं, और वे उनकी चिर संस्कृतियों के दर्पण हैं। जो अकबर बड़ा सभ्य और शिष्ट समझा जाता है, उसके मोनावाजार को बातों को सुनकर

विलासिता भी कंपित होती है। जहाँगीर और शाहजहाँ की बातें किससे छिपी हैं। औरंगजेब जो बड़ा मजहबी आदमी समझा जाता है, उसकी सेना के वर्णन में एक अंगरेज ने लिखा है कि वह रंडी, भड़वों से भरी रहती थी। सिपहसालारों और सिपाहियों की यह अवस्था थी कि हथियार पीछे रह जावे तो मुजायका नहीं, पर क्या मजाल कि 'साजेतरब' हाथ से छूटे। प्रायः लोग नशे में चूर और मखमूर मिलते। सुबह को दवा खाते, और रात में नौद न आने की शिकायत करते पाये जाते। परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब की आँख बंद होते ही राजकुल की विलासिता इतनी बढ़ी कि उसने बादशाही को ही निगल लिया। मुसलमानों की विलासिता की पराकाष्ठा वाजिदअलीशाह में दृष्टिगत होती है, जिसने उसपर अपने 'तखतोताज' तक को निछावर कर दिया।

यह विलासिता ब्रजभाषा में भी घुसी, और उसने उसके साहित्य ग्रंथों के कुछ अंगों को उपहास योग्य बना दिया। कारण सामयिक प्रभाव और उस काल के लोगों का मनोभाव है। जैसा समाज होता है, अधिकांश साहित्य का रूप वैसा ही होता है। शासक जब विलासिता-प्रिय है, और उसके साधनों को प्रश्रय देता है, तो अनेक कारणों से शासित में उसका प्रसार हुए बिना नहीं रहता। शासित को कुछ तो उसकी मन-स्तुष्टि के लिये उसके जैसा बनना पड़ता है, कुछ अपने स्वार्थ-साधन के लिये और कुछ उसके संसर्ग प्रभाव से प्रभावित होकर। औरंगजेब के बाद का सौ वर्ष का काल ले ले, तो ज्ञात हो जावेगा कि इन सौ वर्षों में भी ब्रजभाषा को लांछित करनेवाली कम कविताएँ नहीं हुईं। मैं यह स्वीकार करूँगा कि इस प्रकार की कुछ कविताएँ अपनी भाषा की मान रक्षा के लिये भी हुई हैं, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता का अक्सर आने पर कोई कितना ही दबा क्यों न हो पर अपने धन-मान की रक्षा का उद्योग करता ही है। कहा जाता है कि कविवर बिहारीलाल के अधिकांश दोहे उर्दू अथवा फारसी शेरों की बलंदपरवाजियों को नीचा दिखाने के लिये ही

लिखे गये हैं। यह सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उनकी नाजूकखयाली बदिश, मुहावरों की चुस्ती, और कलाम की सफ़ाई बड़े-बड़े उर्दू शोअरा के कान खड़े कर देती है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रज-भाषा की अधिकांश अमर्यादित रचनाएँ सामयिक प्रवृत्तियों और प्रवाहों का फल हैं।

एक वह समय था, जिसने ब्रजभाषा की इस प्रकार की कविताओं को जन्म दिया, आज वह समय उपस्थित है, जब ऐसी कविताओं की कुत्सा की जा रही है, साथ ही ब्रजभाषा को भी भला बुरा कहा जा रहा है और शृंगार रस का नाम सुनते ही नाक-भौँ सिकोड़ी जा रही है। किंतु यह भ्रांति है। ब्रजभाषा साहित्य बहुत विस्तृत है, कबीर साहब के समय से लेकर आज तक जितने संत हो गये हैं, उन सब संतों की वाणी लगभग ब्रजभाषा में है। जिस मुसलमान शासन काल में ब्रजभाषा में अवांछित कविताएँ हुईं, उसी काल में देश में महाराणा प्रताप, गुरु-गोविंदसिंह, और बीर छत्रसाल आदि ऐसे-ऐसे नरकेशरी उत्पन्न हुए, जिन्होंने निगले हुए कौर को शत्रु के गले में उँगली डालकर निकाल लिया। इतना ही नहीं, उनके उत्तेजन से ब्रजभाषा साहित्य में वीर रस तथा अन्य रसों के ऐसे उत्तमोत्तम ग्रंथ बने, जिनका जितना गौरव किया जावे थोड़ा है। शृंगार रस की ही पवित्र प्रेम-संबंधिनी इतनी अधिक और अपूर्व कविताएँ उस समय हुईं हैं, जिनके सामने थोड़ी-सी अमर्यादित कविताएँ नगण्य और तुच्छ हैं, फिर क्या ब्रजभाषा की कुत्सा करना उचित है? रहा शृंगार रस—उसका नाम सुनकर जो कान पर हाथ रखता है, वह आत्म-प्रतारणा करता है, वह जानता ही नहीं कि शृंगार रस किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ कि समय क्या है? और इस समय समाज और देश को किन बातों की आवश्यकता है, परंतु भ्रांत बनने से काम नहीं चलेगा, उचित पथ ग्रहण करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। देशानुराग के गीत गाये जावे, सोये देश को जगाया जावे, सूखी

धमनियों में उष्ण रक्त का प्रवेश कराया जावे, बंद आँखें खोली जावें, भूलों को रास्ता बतलाया जावे, देशद्रोहियों को दबाया जावे, और एकता मंत्र का अपूर्व घोष किया जावे। ऐसी ओजमयी रचनाएँ की जावें, ऐसे मार्मिक पद्य लिखे जावें, ऐसे उन्नेजित करने वाले कवित्त बनाये जावे, ऐसे भावमय ग्रंथ रचे जावें और ऐसी ज्वलंत उत्साहमयी ग्रंथ-मालायें निकाली जावे जिनसे इष्ट-सिद्धि हो, उद्देश की प्राप्ति हो और भारतीय भी संसार में अपना मुख उज्ज्वल कर सकें, इसमें किसको आपत्ति है? वरन् आजकल का यह प्रधान कर्त्तव्य है। किंतु बातुल बनकर न तो सुधा को गरल कहा जावे। न चितामणि को काँच। शृंगार रस जीवन है, जिस दिन आप उसका त्याग करेगे, उसी दिन आप का स्वर्ण-मंदिर ध्वंस हो जावेगा, और आप रसातल चले जावेगे। आवश्यकता है कि आप शृंगार रस के मर्म को समझें और दूसरे को समझावे। शृंगार रस ही वह रस है, जो निर्जीव को सजीव, नपुंसक को वीर, क्रियाहीन को सक्रिय और अशक्त को सशक्त बनाता है। शृंगार रस ही वह मंच है, जिसपर चढ़कर आप उन मर्मस्थलों को देख सकेंगे, जिनकी रक्षा से आप समुन्नति सोपान पर चढ़ उस श्रेय को प्राप्त कर सकेंगे, जा मानव जीवन का प्रधान उद्देश है। मैं यह स्वीकार करूँगा कि शृंगार रस के नाम पर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, जो हमको अविहित मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। परंतु परमात्मा ने बुद्धि-विवेक किसलिये दिये हैं? वे किस दिन काम आवेंगे? जो देश का अथवा लोक का उद्धार करना चाहता है, और बुद्धि विवेक को ताक पर रख देता है, वह चाहता तो है स्वर्ग सोपान पर चढ़ना, किंतु उसके पास वे दोनों आँखे कहाँ हैं, जिनके बिना संसार की यात्रा भी नहीं हो सकती।

आजकल हिंदी काव्य-क्षेत्र में तीन प्रकार के कवि देखे जाते हैं। एक वे हैं, जो बिलकुल प्राचीनता के प्रेमी हैं। आज भी वे उसी रंग में रंगे हुए हैं, जिसमें कविचर देव, सहृदयचर बिहारीलाल एवं रसिक-

प्रवर पद्माकर आदि रंगे हुए थे। ब्रजभाषा ही उनकी आराध्या देवी है, और वे उसको अर्चना में ही निरत हैं। उनकी अधिकांश रचनाएँ नायक नायिकाओं पर हो होती हैं, या वे अपने ढंग पर भगवान् कृष्ण-चंद्र अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का गुण गा-गाकर अपनी संसार-यात्रा समाप्त कर रहे हैं। आजकल देश की क्या दशा है, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों पर क्या बीत रही है, और किस प्रकार दिन-दिन हिंदू जाति का पतन हो रहा है, उनको इन बातों से प्रयोजन नहीं। देख कर भी इन बातों को वे नहीं देखते, और सुनाने पर भी उनको सुनना नहीं चाहते। वे अपने रंग में मस्त हैं, अपने धुन के पक्के हैं, उनको दुनिया के झगड़ों से प्रयोजन नहीं। खड़ी बोली की कविता कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु उनकी दृष्टि में उसका कोई आदर नहीं, वे उसे रूखी-सूखी भाषा समझते हैं, फिर अपनी रसमयी ब्रजभाषा को छोड़ कर उसकी ओर क्यों दृष्टिपात करें। वे अपनी शांति को भंग करना नहीं चाहते। परंतु जब कोई प्राचीन कवियों पर आक्रमण करता है, ब्रजभाषा को खरो-खोटी सुनाता है, तब उनके धैर्य का बाँध टूट जाता है, और उस समय जो कुछ मुँह में आता है कह डालते हैं। वे छायावाद की कविताओं को फूटी आँखों से भी देखना नहीं चाहते, चाहे उनमें स्वर्ग-सौंदर्य ही क्यों न भरा हो। वे छायावादियों को कवि भी नहीं मानते, क्योंकि वे समझते हैं कि ऊटपटांग बकने के सिवा उनको आता ही क्या है। उनमें अजब बेपरवाई है, और कुछ ऐसी अकड़ भरी हुई है, कि वे अपनी रूई सूत में ही उलझे रहते हैं, दूसरी बातों की ओर आँख उठाकर भी देखना नहीं चाहते। इस समय देश के प्रति समाज के प्रति, जाति के प्रति और मानव समुदाय के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इन बातों को वे विचारना भी नहीं चाहते, या विचार ही नहीं सकते। वे किसी राह के रोड़े भी नहीं, यदि कोई दूसरा उनको अपनी राह का रोड़ा न बना ले। इस दल में अधिकतर वयोवृद्ध हैं जो निश्चित

भाव से रहकर अपने स्वच्छंद जीवन को व्यतीत कर देना चाहते हैं ।

दूसरे दल में अधिकतर वे अल्पवयस्क अल्हड़ कविजन हैं, जो इस समय हिंदी-साहित्य क्षेत्र में नवीनता का आह्वान कर रहे हैं । उनके हृदय में उमंगें लहर मार रही हैं, उत्साह उनमें कूट-कूट कर भरा है, 'नूतनम् नूतनम् पदे पदे' उनका महामंत्र है। वे प्राचीन लकीरों को पीटना नहीं चाहते, वे अपना एक प्रशस्त मार्ग अलग निर्माण करने की ही धुन में हैं । उनको प्राचीनता से घृणा है, चाहे वह भारतीय आदर्श रत्न का भंडार ही क्यों न हो । ये प्राचीन प्रतिष्ठित कवियों की पगड़ी उछालते रहते हैं, और प्राचीन ब्रजभाषा को रसातल पहुँचाकर ही दम लेना चाहते हैं । उनकी भाषा नई, उनका भाव नया, उनकी सूझ नई, उनका विचार नया, रंग नया, ढंग नया, छंद नया, प्रबंध नया, रीति नई, नीति नई, कोष नया, व्याकरण नया, उनका जो-कुछ है सब नया-ही नया है—चाहे यह सच न हो । वे हिंदी-भाषा के प्रेमी हैं, कितु वह भी प्राचीना है, शायद इसी लिये उसको वे-तरह नोच खसोट रहे हैं । पुराने मुहावरे लिखना पसंद नहीं, या लिख ही नहीं सकते, कितु नये मुहावरों का ढेर लगा रहे हैं । वाक्यों का कुछ अर्थ हो या न हो, परंतु वे गढ़े जायँगे अवश्य । यदि ब्रह्मा भी आकर कहें यह क्या, तो उनका कान भी मल दिया जावेगा ; यदि किसी संकोच से ऐसा न किया जा सकेगा तो कान मलने को हाथ तो अवश्य उठ जावेगा । बात करते समय उससे भले ही काम लिया जावे, पर कविता लिखने के समय क्या मजाल कि बोलचाल की कोई कल ठीक रहने पावे । वे बातें करेंगे बड़ी लम्बी लम्बी, तोड़ेंगे आसमान के तारे ही, चाहे वे किसी की समझ में भले ही न आवे, और उनका हाथ भले ही यहाँ तक न पहुँच सके । वे प्राचीनो की रचनाएँ सुनकर कान पर हाथ रखेंगे, होठ काटेंगे, चाहे उनकी कविताएँ इस योग्य भी न हों कि किसी के कानों में पड़े । देश-प्रेम से उनका भी कोई संबंध नहीं; ऐसा करना वे

विश्वबंधुत्व के विरुद्ध समझते हैं। वे कौड़ी बड़ी दूर की लाना चाहेंगे, पर घर की लुटती मुहरों के बचाने से बचेंगे। आँसू की लड़ियों को लेकर मोती पिरोवेंगे, पर भारतमाता के आँसुओं की उन्हें परवा नहीं। वे राग गावेंगे संसार भर के भ्रातृभाव का, कितु अपने भाई का गला कटता देखकर आँखें बंद कर लेंगे। वे शिचा देंगे अहिंसा वृत्ति की परंतु उनके हृदय में प्रतिहिंसा-वृत्ति ही चक्कर लगाती रहती है। जाति का स्वर बिगड़ जावे, देश का गला न चले, समाज की घिघी बंध जावे, तो वे क्या करेंगे, वे तो अपनी टूटी वीणा उठावेंगे, और मस्त होकर उसे बजाते रहेंगे, चाहे उसको कोई सुने या न सुने। यदि कहीं से वाह-वाह की आवाज आ गई तो फिर क्या माँगी मुराद मिल जावेगी।

तीसरे दल में कुछ प्राचीन और कुछ युवक कवि हैं। उनकी संख्या थोड़ी है, परंतु मातृ-भाषा के सच्चे सपूत वे ही हैं। वे ब्रजभाषा को सर आँखों पर रखते हैं, और खड़ी बोली को गले लगाते हैं, उनको दोनों से प्यार है। वे हिंदी-भाषा की दोनों मूर्तियों को सर नवाते हैं, और दोनों को ही अर्चनीय समझते हैं। उनका विचार है, प्रतिभा किसी एक की नहीं, ब्रजभाषा में भी उसका विकास देखा जाता है, और खड़ी बोली में भी। उन्हें भाव चाहिये, चाहे वह ब्रजभाषा में मिले, चाहे खड़ी बोली में। वे ब्रजभाषा के प्राचीन कवियों को गुरु मानते हैं, और कहते हैं कि ये ही वे महापुरुष हैं, जिन्होंने हिंदी-भाषा को अलंकृत किया, उसे रत्नों से सजाया, उसमें जीवन डाला, उसको सुधामयी बनाया, और उसकी वह सेवा की जो अलौकिक कही जा सकती है। ये उन नवयुवक सुकवियों का भी आदर करते हैं जो खड़ी बोली को सुरभित सुमन प्रदान कर रहे हैं; उसे सरस, मधुर और भावमयी बना रहे हैं, उसमें वह शक्ति ला रहे हैं, जिससे वह ज्योतिर्मयी, नव-नव उक्तिमयी, अनुपमयुक्तिमयी, रागमयी और देशानुरागमयी, बन सके। वे सोचते हैं, मातृ-भाषा के सेवकों में परस्पर कलह-विवाद

अच्छा नहीं, ये तो भाई-भाई हैं। उनके चीर-नीर समान मिले रहने में ही भलाई है। प्राचीनों के लिये यदि स्थान है, तो आधुनिक लोगों के लिये भी। यदि गुरु का स्थान है, तो शिष्य का भी। किसी काल में गुरु भी शिष्य था, काल पाकर शिष्य भी गुरु हो सकता है। योग्य शिष्य ससार में कभी कभी गुरु से भी अधिक चमके, पर वे गुरु की गुरुता को कभी नहीं भूले। परमात्मा ने जिनको प्रतिभा दी है, वे प्रकाशमान होकर ही रहे। उनको यह इच्छा कभी नहीं हुई कि गुरु की कीर्ति को लोप कर हम अपना मुख उज्ज्वल करें। जो प्राचीनों की कुत्सा इसलिये करते हैं कि उनकी कीर्ति को मलिन कर अपनी कीर्ति का विकास करे, वे भूलते हैं। मयंक यदि सूर्य के प्रकाश की महत्ता स्वीकार न करेगा तो उसकी सत्ता ही न रह जावेगी, उनका विचार है कि जो सहृदय है, उसकी असहृदयता अच्छी नहीं, जो रस-धारा बहा सकता है, वह नीरस क्यों बने ?

इन तीनों दलों में कैसा रुचि वैचित्र्य है, और कैसी विचार भिन्नता। परंतु शृंगार रस के प्रभाव से तीनों ही प्रभावित हैं। पहले दलवाले आज भी उसी नशा की झोंक में हैं, जिस नशा ने उनकी परंपरा वालों को आज से तीन चार सौ बरस पहले बदमस्त बनाया था। न आज वह महफिल है, न वह साक्की, न वह पैमाना है, न वे दूसरे सामान। फिर भी उनको नशा आता है, और वे ऐसी बातें बक जाते हैं, जिनको अब ज़बान पर न आनी चाहिये। भगवद्गुणानुवाद गाये जायें, नीति की बातें कही जावें, शृंगार रस का सयत भाव से बर्णन किया जावे, इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है; परंतु अब ऐसी रचनाएँ न की जावे, जो शृंगार रस के साथ ब्रजभाषा को भी कलंकित करती हैं। मातृ-भूमि की सेवा करना सब का धर्म है, उसके गाढ़े दिनों में काम आना प्रधान कर्त्तव्य है। यदि यह न हो सके और लेखनी इस प्रकार का विचार लिखने में कुंठित हो, तो समाज में गंदगी फैलाने से

बचा जावे। जो बात किसी विशेष काल में विशेष कारणों से हो गई, जो चूक विषयासक्त राजा-महाराजाओं के संसर्ग से, थोड़े या बहुत धन के लालच से की गई, उसकी पुनरावृत्ति व्यर्थ न होनी चाहिये। परंतु वे आज भी सावधान नहीं हैं, वही अपना पुराना राग गाये जा रहे हैं।

दूसरे दलवाले शृंगार रस के नाम से ही चिढ़ते हैं, ब्रजभाषा से उनको विशेष घृणा इस लिये है कि वे उसको उसकी जननी समझते हैं। उनकी इस चिढ़ की उत्पत्ति विशेषकर शृंगार रस की उन असंयत रचनाओं के कारण हुई, जो सर्वसाधारण में प्रायः उन्होंने सुनी या शृंगार रस की प्रायः प्रचलित पुस्तकों में देखी। जिस शृंगाररस पर वे खड्गहस्त हैं, वह शृंगाररस का बीभत्स रूप है। शृंगार रस का वास्तविक रूप वह है, जो स्वयं उनकी सब से अच्छी रचनाओं में पाया जाता है, परंतु इस बात की वे समझ नहीं पाते। वे न समझें, परंतु शृंगार रस से उनकी रचनाएँ श्रोतप्रोत हैं। उसको मैं ही नहीं कहता, आजकल के अधिकांश हिंदी के साहित्य सेवियों की यही सम्मति है। इन लोगों के जो दस-बीस ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें से किसी को उठा लीजिये, उस समय यह ज्ञात हो जावेगा कि मेरा कथन कहाँ तक सत्य है। उसके अधिकांश भाग में अवलोकन करने पर शृंगार रस की धारा ही बहती मिलेगी।

अब रहा तीसरा दल, इस दल में ही, सामयिकता अधिक है। युवकजन ही देश के प्राण हैं, उन्हींका मुख अवलोकन कर मातृभूमि की सूखी नसों में गर्म लोहू प्रवाहित होता है। फिर यदि वे ही इस महामंत्र का मर्म न समझें, तो इससे बढ़कर दुःख की बात दूसरी कौन होगी ? यह दल ही इस बात को भलीभाँति समझता है, और इसीलिये उसकी सेवा में तनमन धन से रत रहता है। उसकी अधिकांश कविताएँ भी देशानुरागमयी होती हैं, फिर भी वह शृंगाररस की कविताओं का अनादर नहीं करता। वह यथावसर उसकी सेवा भी करता रहता है, और ऐसी रचनाएँ उपस्थित करता है, जिनसे हृदय की

कलिकाएँ खिल जाती हैं, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य-जीवन से उसका कितना सरस संबंध है।

आजकल हिंदी-साहित्य के सामने एक और विषम समस्या उपस्थित है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उसमें इन दिनों एक विचित्र ऊधम मचा हुआ है। कुछ स्वतंत्र विचार के जीव इस उच्छ्वंखलता के विधाता हैं। उनका संबंध इन तीनों दलों में से किसी से नहीं है, वे निरंकुश हैं, और हैं अपने मन के, परंतु देश प्रेम के पर्दे में अपने को छिपाये हुए हैं। किसी के पास जाति-सुधार का बल है, और किसी को समाज-सेवा की लगन। कोई प्रचलित रूढ़ियों के मिटाने का दीवाना है, और कोई हिंदुओं की वंशगत बुराइयों के दूर करने का कामुक। एक स्कूल-कॉलेजो के अध्यापकों और छात्रों के दुश्चरित्रों की आलोचना करता है, तो दूसरा स्त्री-जाति की दुर्दशाओं का हृदय-विदारक चित्र अंकित करने में लगन है। कोई जाति-बंधन तोड़ना चाहता है, कोई अछूतों के उठाने का प्रयत्न करता है; परंतु इनमें कितने प्रति-हिंसापरायण हैं, और कितने अर्थलोलुप। कितने वृत्ति के दास हैं, कितने कुचरित्र। कितने दुर्जन और दुष्ट-प्रकृति हैं, कितने अपवित्र हृदय और लंपट। कितने नाम चाहते हैं, कितने दाम। कितने अपने पत्र का प्रचार चाहते हैं, कितने अपनी पुस्तको का प्रसार। वेष उनका मराल का है, परंतु चाल बगलों की। वे मुख से और लेखनी से सदुद्देश का प्रचार करते हैं, परंतु हृदय से हैं वायसवृत्ति, मलिन पदार्थ को ही प्यार करते हैं। उनके हाथ में भंडा है उपकार का, किंतु उनका व्रत है अपकार। ऐसे लोगो के हाथों में पड़ कुछ पत्रों और पत्रिकाओं में आजकल ऐसे लेख निकल रहे हैं, जिससे स्त्री पुरुष के द्वंद्व की मात्रा प्रति दिन वर्द्धनोन्मुख है, किंतु इन दिनों ऐसे लेख लिखना समाज-सेवा समझा जाता है। यदि कुछ स्त्रियाँ पुरुषों के अत्याचार के लेख लिख-लिखकर कालम के कालम काले करती हैं, तो स्त्री पुरुष उनका कान भी

काटते हैं—वे पुरुष जाति को भरपेट गालियाँ दे डालते हैं । इस तरह के लेख आद्योपांत अश्लीलतामय होते हैं, परंतु यह है इस काल का प्रधान कर्तव्य, और पुरुष जाति को निष्पक्षपातिता का प्रमाण पत्र लाभ करने का प्रधान अवसर । चाहे समाज ध्वंस क्यों न हो जावे, और पाश्चात्य देश के समस्त दुर्गुण पवित्र भारतवर्ष में क्यों न फैल जावें । इतना ही नहीं, आजकल कुछ ऐसे गंदे उपन्यास निकल रहे हैं, और उनमें ऐसे कुत्सित और घृणित चरित्र अंकित होते हैं कि अश्लीलता उनको स्पर्श नहीं कर सकती, और बेहयाई उनको ओर आँख उठाकर देख नहीं पाती । परंतु उनमें है हिंदू जाति की बुराइयों का कच्चा चिट्ठा, जिनके प्रदर्शन बिना सुधार हो ही नहीं सकता, फिर उनको क्यों न फड़कते शब्दों में लिखा जावे; कोई पागल 'घासलेटी' 'घासलेटी' भले ही चिल्लाये, उसकी सुनता कौन है । ऐसी और बातें बतलाई जा सकती हैं, जिनसे दिन दिन हिंदी-साहित्य की समस्या जटिल हो रही है, किंतु क्या उसका उचित प्रतीकार हो रहा है । ब्रजभाषा में शृंगार रस का दुरुपयोग हुआ, और यह निस्संदेह सामयिक दुर्गुण था, जो विलास-प्रिय बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं के कारण उसमें आया । इस एक दुर्गुण के कारण, अनेक गुण गौरवशालिनी ब्रजभाषा को निदा हो रही है, और वर्तमान काल का पठित समाज यह कार्य कर रहा है । परंतु आज यह क्या हो रहा है ? उस समय में जिस समय विश्वमोहिनी पाश्चात्य सभ्यता की विमुग्धकर ज्योति से भारत वसुंधरा प्रकाशित है, यह महा अश्लील साहित्य का घना अंधकार उसमें क्यों फैल रहा है ?

मैं समझता हूँ सामयिक दुर्गुणों का ज्ञान प्रायः समय पर नहीं होता । काल पाकर जब दुर्गुणों के दोष प्रकट होने लगते हैं, उस समय उसका यथार्थ ज्ञान होता है । मुसलमान राज्य के कारण जो दुर्गुण ब्रजभाषा में आये, उस समय कई कारणों से वे ही उपयोगी जान पड़े, इसी लिये वे अधिकांश लोगों में गृहीत हुए । क्या उस समय दुर्गुणों के विरोधी यहाँ

थे? अवश्य थे, परंतु स्वार्थ मनुष्य को अंधा बहरा बना देता है। स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ के सामने रहने पर न तो दुर्गुणों को देखता है, और न किसी हित की बातें सुनता है। यह स्वार्थ कई प्रकार का होता है, यह धन सम्पत्ति की प्राप्ति तक ही परिमित नहीं होता, इसमें यश, मान की कामना, मर्यादा की रक्षा, कार्योद्धार, गौरव-लाभ, एवं विपत्ति निवारण आदि सभी बातें, सम्मिलित रहती हैं। दूसरे बात यह कि जब समाज के अग्रणी अथवा प्रधान किन्हीं कारणों से उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्य उनका निराकरण समष्टि रूप में नहीं कर सकते, व्यक्ति रूप में भले ही कर ले। आजकल की भी यही अवस्था है। अंग्रेज जाति हमारी शासक है, पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा से ही इन दिनों अधिक लोग शिक्षित दीक्षित हैं, नाना रूप और नाना मार्गों से पाश्चात्य भाव यहाँ के लोगों के हृदय में स्थान पा रहे हैं, इस लिए वहाँ की सभ्यता ही लोगों को पसंद आ रही है, और वहाँ की रहनसहन प्रणाली ही प्यारी लग रही है। आज का नव शिक्षित समाज, स्त्री स्वतंत्रता, युवती-विवाह, सहभोज, विधवा-विवाह आदि का पक्ष-पाती, और बाल-विवाह, जाति-पति, एवं धर्म-बंधन आदि का विरोधी है, यह यथातथ्य शासक जाति और पाश्चात्य भावों का अनुकरण है। ये बातें जिस रूप में गृहीत हो रही हैं भारत की हितकारिणी है, या नहीं, इनका क्या परिणाम होगा, इसको बतलाने पर भी आज कोई नहीं सुनता। समय का प्रवाह आज इन बातों के अनुकूल है, अतएव इन्हीं विचारों में उन्नति-शील या सुधारकजन बह रहे हैं और दूसरों को भी अपना साथी बना रहे हैं। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, उनकी गत बनाई जा रही है, और उनके प्रतिकूल घृणित से घृणित बातें कही जा रही हैं। समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध जो कार्टून निकाले जा रहे हैं, होली इत्यादि के अवसरों पर जैसी गालियाँ उनको पत्रों में दी जाती हैं, जैसा उनको कोसा जाता है, जैसी बेहूदा बातें उन्हें कही जा रही हैं, उनमें अश्ली-

लता की भरमार होती है, और निर्लज्जता की ही पराकाष्ठा । इसी प्रकार शिक्षा दोष अथवा नवीन सभ्यता के संसर्ग से जो दुर्व्यसन और चरित्र गत कुसंस्कार छात्रों, मास्टर्स, एवं नव शिक्षितों में प्रतिदिन वर्द्धनोन्मुख हैं, समाज के प्रबंधकों के आचार-व्यवहार से जो निदनीय बातें देश में फैल रही हैं, असंयत, उच्छृंखल, और ढोंगियों के प्रपंचों से जो बुराइयाँ जाति में स्थान पारही हैं, रंगे सियारों और नाम के नेताओं के कारण जो अपकार हिंदुओं का हो रहा है, उनका वर्णन आजकल जिन शब्दों में होता है, जिस प्रकार उनका खुला चिट्ठा जनता के सामने रखा जाता है, जैसे उनके कुत्सित कार्यों का पर्दाफाश किया जाता है, उसकी अधिकांश प्रणाली भी बड़ी ही घृणित और हेय है। परंतु सुधार का उन्माद और जातिगत एवं व्यक्तिगत द्वेष इन बातों के विचारने का अवसर ही नहीं देते। लेखनी हाथ में आने पर पेट का कुल मल बाहर निकाल देने में ही चैन आता है, चाहे पत्र के कालम कितने ही कलंकित क्यों न हो जावें। जी की कुढ़न अश्लील से अश्लील वाक्यों में ही निदनीयों को स्मरण करती है, चाहे वे नरक-कुंड भले ही बन जावें।

जो सच्चे और ईमानदार होते हैं, उनका भाषण परिमित होता है, और उनकी लेखमाला मर्यादित। पर ऐसे लोग कितने हैं? अधिकतर ऐसे ही लोग दुनियाँ में देखे जाते हैं, वे हवा का रुख देखकर चलते हैं, और पेट पालने के लिये, चार पैसा कमाने के लिये, अपना मतलब गाँठने के लिये, दिल की कसर निकालने के लिए, या मूठमूठ की वाहवाही लूटने के लिये, कुछ से कुछ बन जाते हैं। वे लोग अपना कच्चापन अथवा नकली भाव छिपाने के लिये अपनी बातों को इतना रंजित करते हैं, उनमें इतना नमक मिर्च लगाते हैं, कि असलीयत गधे के सींग की तरह गायब हो जाती है। ये बातें यदि हजो की, निदा की अथवा भड़पपन की होती हैं, तो वे उनकी इन काररवाइयों से इतनी निदनीय बन जाती हैं, कि मूर्तिमान् बीभत्स का अकांड तांडव उनमें दृष्टिगत होने

लगता है। परंतु किसमें शक्ति है कि आज की इस अनावश्यक बहक को थता बता सके। आज जो इसके सामने पड़ेगा, उसीका कचूमर निकल जावेगा। जो इससे टकरायेगा वही चूर-चूर हो जायेगा। स्त्री-स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष में इन दिनों कुछ पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे गंदे लेख निकल रहे हैं, कि अगला समय होता, तो कोई उनको अपनी बहू-बेटियों को छूने भी न देता। परंतु आजकल वे पत्र-पत्रिकाएँ मूल्य देकर मँगाई जा रही हैं और आदर के साथ कुलांगनाओं को अर्पण की जा रही हैं। कारण इसका सामयिक प्रवाह और वर्तमान काल का उत्तेजित मनो-भाव है। इस समय उनका विरोध करना, असफलता को निमंत्रण देना है। यह समय न रहने पर और प्रचलित आंदोलनों का दोष प्रकट होने पर ही उनके दुर्गुणों का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। चाहे जो हो, इस समय इन बातों के कारण हिंदी-साहित्य कितना कलुषित हो रहा है, यही प्रकट करना, इन विषयों की चर्चा का उद्देश है।

आशा है, मेरे भावों के समझने में भूल न की जावेगी। मैंने जो कुछ लिखा है, उसका मतलब उचित आंदोलन की निंदा नहीं है। सुधार-संबंधी अथवा देशोद्धार मूलक जितने आंदोलन ईमानदारी से सच्चे लोगों के द्वारा हो रहे हैं, न तो वे निंदनीय हैं, न आक्षेप योग्य। बाल-विवाह का विरोध अथवा विधवा-विवाहादि का जो प्रचार मर्यादित रीति से किया जा रहा है, वह सर्वथा अनुमोदनीय है। मैं स्वयं उनसे सहानु-भूति रखता हूँ। मैंने निंदा की है भंडाचार की, और उस प्रणाली की जो घृणित भावों से भरी है। मैंने बुरा कहा है, उन लोगों को जो बनते हैं सुधाकर परंतु है राहु, जो वेष रखते हैं साधु का, परंतु हैं कालनेमि। जो आर्य-संस्कृति के शत्रु हैं, किंतु सुधार के बहाने उसके मित्र बनते हैं। मेरा लक्ष्य उस नीति को कदर्थना है, जिसके आधार से पाश्चात्य दुर्गुण, सद्गुण के रूप में गृहीत हो रहे हैं, और विजातीय भाव समाहृत होकर जातीयता को ठोकरें जमा रहे हैं। जो मेरे भाव को न समझकर व्यर्थ

आस्फाल न करेंगे, अथवा टट्टी की ओट में शिकार खेलना चाहेंगे, वे अपने चित्त के कल्मष को प्रकट करेंगे, मेरे मानस के उद्गारों को नहीं।

क्या लिखते क्या लिख गया, विषयान्तर हो गया। परंतु अपने वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिये ही मुझको इस पथ का पथिक होना पड़ा। कहना यह है कि प्रायः सामयिकता के नाम पर बहुत सी बुराइयाँ, भलाइयाँ बनकर समाज में गृहीत हो जाती हैं। वर्तमान काल का हिंदू समाज और उसका आधुनिक कुत्सित साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वास्तविक बात यह है कि जितना कलुषित आजकल हिंदी-साहित्य का कुछ अंश हुआ अथवा हो रहा है, ब्रजभाषा उतनी कलुषित कभी नहीं हुई। घृणित बाल-प्रेम के आधार से शृंगार रस की इन दिनों जैसी मिट्टी पलीद हो रही है, उसके जैसे नारकीय चित्र उपन्यासों में अंकित किये जा रहे हैं, मासिक पत्रों और पुस्तकों में हिंदू जाति के घर की भीतरी बातों का जैसा कच्चा चिट्ठा लिखा जा रहा है, वे रोमांचकर हैं, उनको इस रूप में देश और समाज के सामने लाना अनुचित है। बिना दोष प्रदर्शन किये दोष का ज्ञान नहीं हो सकता, यह सत्य है, परंतु जुगुप्सा का नश्र नृत्य कदापि बांछनीय नहीं। उसके द्वारा वर्तमान हिंदी-साहित्य जितना लांछित हुआ, ब्रजभाषा वैसी कलंकित कभी नहीं हुई। ब्रजभाषा में जो शृंगार रस का दुरुपयोग हुआ, और उसमें अश्लील रचनाएँ हुईं, इसका कारण समय है। उस समय उसको अपनी इस प्रकार की रचनाओं से सुरक्षित रखना असंभव था, उसी प्रकार जैसे कि आजकल खड़ी बोली के गद्य पद्य अपने को उन सामयिक दोषों से नहीं बचा रहे हैं, जो उसमें सुधार के बहाने प्रवेश कर रहे हैं। ब्रजभाषा में जो दोष हैं—हैं, उनपर उँगली उठाना व्यर्थ है, उनसे यह शिक्षा क्यों नहीं ली जाती, कि खड़ीबोली भी चहले में न फँसे। ब्रजभाषा पर कीचड़ किस मुख से उछाला जा रहा है, जब खड़ीबोली उससे भी गई बीती बन रही है। दोनों अपनी ही सम्पत्ति हैं, उनकी उज्ज्वलता हमारा मुख उज्ज्वल करेगी, उनकी कालिमा

इमें कलंकित बनावेगी। आपस का वितंडावाद अच्छा नहीं, पारस्परिक कलह बुरा है। ब्रजभाषा के सेवकों की संख्या आज भी कम नहीं है, उनका धर्म है कि वे प्राचीन बुरी प्रणाली को त्यागकर उसको उत्तमोत्तम नवीन आभरणों से सजावें। हिंदी-साहित्य-क्षेत्र आजकल खड़ीबोली के उच्चायकों के हाथ में है, उन्हें चाहिये कि वे जिस प्रकार उसको सुसज्जित कर रहे हैं, उसी प्रकार उसको कूड़े-करकट से भी बचावें। उचित दृष्टि होने पर एक दूसरे के मार्ग का कंटक न बनेगी, और अपना उचित स्थान लाभकर समुचित कीर्ति प्राप्त करने में समर्थ होगी। वर्तमान समय शृंगार रस के अपने वास्तविक रूपमें विकसित होने का है, इस तत्व को हिंदी संसार जितना समझेगा, उतना ही शृंगारित और सुसज्जित होगा और वह स्थान लाभ कर सकेगा, जिसको संसार की समुन्नत भाषाएँ प्राप्त कर सकी हैं। कला के साथ उपयोगिता सम्मिलित होकर कितना उपकारक बन जाती है, मैं समझता हूँ इस विषय में विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं।

वात्सल्य रस

बालक परमात्मा का अधिक समीपी कहा जाता है, उसमें सांसारिक प्रपंच नहीं पाया जाता। जितना वह सरल होता है, उतनाही कोमल। छल उसे छूता नहीं, कपट का उसमें लेश नहीं। उसके मुखड़े पर हँसी खेलती रहती है, और उसकी चमकीली आँखों से आनंद की धारा बहती जान पड़ती है। उसके मुसकुराने में जो माधुर्य है, वह अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता। वह जितना ही भोला-भाला होता है, उतना ही प्यारा। उसकी तुतली बातें हृत्तंत्री में संगीत उत्पन्न करती हैं, और उसके कलित कंठ का कलनाद कानों में सुधा बरसाता है। वह दांपत्य सुख का सर्वस्व है, भाग्यवान् गृहस्थ-गृह का उज्ज्वल प्रदीप है, और है स्वर्गीय लीलाओं का ललित निकेतन। परमात्मा का नाम आनंदस्वरूप है, बालक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक उत्कृष्ट बालक को देखिये, इस

मधुर नाम की सार्थकता उसके प्रत्येक उल्लास से हो जावेगी। बालकों की इस आनंदमयी मूर्ति का चित्रण अनेक भावुक कवियों ने बड़ी ही मार्मिकता से किया है। इस रससमुद्र में जो जितना ही डूबा, वह उतना ही भाव-रत्न संचय करने में समर्थ हुआ। एक अंग्रेज सुकवि की लेखनी का लालित्य देखिये। वह लिखता है—

‘I have no name :
I am but two days old’ ;
What shall ‘I call thee ?’
‘I happy am,
Joy is my name.’
‘Sweet joy befall thee !
Pretty Joy !
Sweet Joy, but two days old.
Sweet Joy I call thee :
Thou dost smile
I sing the while,
Sweet joy befall thee !! —W. Blake.

मेरा नामकरण अभी नहीं हुआ है, मैं दो दिन का बच्चा हूँ। तो हम तुमको क्या कहकर पुकारें ? मैं मूर्तिमान् उल्लास हूँ, मेरा नाम आनंद है। तो तुमको मधुरतर आनंद प्राप्त हो !

मेरे प्रियतर आनंद ! मेरे मधुरतर आनंद ! मेरे दो दिन के प्यारे बच्चे ! तुमको मधुर से मधुर आनंद प्राप्त हो !

तुम मधुर हँसी हँसो, मुसकुराओ, मैं भी स्वर्गीय गान आरंभ करता हूँ—भोले-भाले बच्चे, तुमको अधिकाधिक आनंद प्राप्त हो !

बालभावों का चित्रण करने में, उनके आनंद और उल्लासों के

वर्णन में कविकुलशिरोमणि सूरदासजी की सुधावर्णिनी लेखनी ने बड़ी मार्मिकता दिखलाई है—आहा ! देखिये—

सोभित कर नवनीत लिए ।

घुट्ठरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि-लेप किए ।
 चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए ।
 लट लटकनि, मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि पिए ।
 कटुला कठ, बज्र, केहरि नख, राजत रुचिर हिए ।
 धन्य 'सूर' एको पल या सुख का सत कल्प जिए ॥ १ ॥

* * *

हौ बलि जाऊँ छबीले लाल की ।

धूसर धूरि घुट्ठरुवनि रेगनि, बोलन बचन रसाल की ।
 छिटिक रही चहुँ दिशि जु लट्ठरियाँ लटकन लटकति भाल की ।
 मोतिन सहित नायिका नथुनी कठ कमल-दल-माल की ।
 कछुकै हाथ कछू मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की ।
 'सूर' सु प्रभु के प्रेम मगन भई दिग न तजनि ब्रज बाल की ॥ २ ॥

* * *

हरिजू की बाल छवि कहौ बरनि ।

सकल सुख की सीव कोटि मनोज-सोभा-हरनि ।
 मजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूखन भरनि ।
 मनहुँ सुभग सिंगार सुरतरु फन्धो अदभुत फरनि ।
 लसत कर प्रतिबिब मनि आँगन घुट्ठरुवनि चरनि ।
 जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जुनु धरनि ।
 पुन्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकिकै नंदघरनि ।
 'सूर' प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरखरनि ॥ ३ ॥

हिंदी साहित्य-गगन-मयंक गोस्वामी तुलसीदासजी का कवित्व-संबंधी सर्वोच्च सिंहासन बाललीला-वर्णन में भी सर्वोच्च ही रहा है । क्या भाव-

सौंदर्य, क्या शब्दविन्यास, सभी बातों में उनकी कीर्तिपताका भगवती वीणापाणि के उच्चतर करकमलों में ही विद्यमान है। देखिये, रससमुद्र किस सरसता से तरगायित है—

नेक बिलोकि धौ रघुवरनि ।

चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर नृपधरनि ।
बाल भूखन बसन तन सुदर रुचिर रज भरनि ।
परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि, गिरि गिरि परनि ।
भुकनि भौकनि छाँह सौं किलकनि, नटनि, हठि लरनि ।
तोतरी बोलनि, बिलोकनि, मोहनी मनहरनि ।
चरित निरखत विबुध 'तुलसी' ओट दै जलधरनि ।
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भए चहँ तरनि ॥ १ ॥

*

*

*

छँगन भँगन अँगना खेलत चारु चान्यो भाई ।
सानुज भरत लाल लखन राम लोने लरिका लखि मुदित मातु समुदाई ।
बाल बसन भूखन धरे नखसिख छवि छाई ।
नील पीत मनसिज सरसिज मजुल मालनि मानो है देहनि ते दुति पाई ।
डुमुक डुमुक पग धरनि नटनि लरखरनि सुहाई ।
अजनि मिलनि रूठनि तूठनि किलकनि अवलोकनि बोलनि बरनि न जाई ।
सुमिरत श्रीरघुवरन की लीला लरिकाई ।
'तुलसिदास' अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब को सो अजहुँ अघाई ॥२॥

*

*

*

छोटी छोटी गोड़ियाँ अँगुरियाँ छबीली छोटी
नखजोति मोती मानो कमल-दलनि पर ।
ललित आँगन खेलै, डुमुक डुमुक चलै,
भुँभनु, भुँभनु पाय पैजनी मृदु मुखर ॥

किकिनी कलित कटि हाटकजटित मनि,
 मञ्जु कर कजन पहुँचियाँ रुचिरतर ।
 पियरी म्नीनी भङ्गुली साँवरे सरीर खुली,
 बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारै बारिधर ॥
 उर वधनहा, कठ कटुला, भूँडूले केस,
 मेढ़ी लटकन मसि विदु मुनि मनहर ।
 अजन रजित नैन, चित चोरै, चितवनि मुख-
 सोभा पर वारौ अमित कुसुमसर ॥
 चुटकी बजावति नचावति कौसल्या माता
 बालकेलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर ।
 किलकि किलकि हँसै, द्वै द्वै दतुरियाँ लसै
 'तुलसी' के मन बसै तोतरे बचन बर ॥ ६ ॥

कैसा सरस और अद्भुत बाल-केलि-वर्णन है । ऐसे और क
 एक पद गीतावली में हैं, किंतु सबके उद्धृत करने का स्थान कहाँ ।
 इच्छा होने पर भी उनको छोड़ता हूँ । कुछ रचनाएँ खड़ीबोलो की भी
 देखिये । सामयिक रुचि की रक्षा के लिये ही ऐसा किया जाता है, नहीं
 तो अमृत-रस-पान कराकर इक्षुरस पिलाने का उद्योग कौन करेगा ?

लड़कपन

भोला-भाला बहुत निराला लाखों आँखों का उँजियाला ।
 खिले फूल सा खिला फबीला बडे छबीले मुखडेवाला ॥ १ ॥
 हँसी खेल का पुतला प्यारा बडा रँगीला नोखा न्यारा ।
 जगमग जगमग करनेवाला उगा हुआ चमकीला तारा ॥ २ ॥
 स्वर्ग लोक मे रहनेवाला रस सोतों मे बहनेवाला ।
 जी को बहुत लुभानेवाला बात अनूठी कहनेवाला ॥ ३ ॥
 रस के किसी पेड़ से टूटा फल उमग हाथो का लूटा ।
 समय बडी सुथरी चादर पर कढ़ा सुनहला सुदर बूटा ॥ ४ ॥

महँक भरे फूलों का दोना हँसती हुई आँख का टोना ।
 लेनेवाला मोल मनों का खरा चमकनेवाला सोना ॥ ५ ॥
 साथ रंग-रलियों के खेला मीठा बजनेवाला बेला ।
 मनमानापन का मतवाला बड़ा लड़कपन है अलबेला ॥ ६ ॥

चंद-खिलौना

चंदा मामा दौड़े आओ दूध कटोरा भरकर लाओ ।
 उसे प्यार से हमें पिलाओ मुझपर छिड़क चाँदनी जाओ ॥१॥
 मैं तेरा मृगछाँना लूँगा उसके साथ हँसूँ खेलूँगा ।
 उसकी उछल कूद देखूँगा उसको चाँदूँगा चूमूँगा ॥२॥
 तू है अगर चाँदनीवाला तो मैं भी हूँ लाल निराला ।
 जो तू अमृत है बरसाता तो मैं भी हूँ रस सोत बहाता ॥३॥
 जो तेरी किरणें हैं न्यारी तो मेरी बातें हैं प्यारी ।
 तू है मेरा चंद खिलौना मैं हूँ तेरा छुन्ना मुन्ना ॥४॥

बाल-विभव

बालकों में कैसी आकर्षणी शक्ति होती है, उनके भाव कितने भोले होते हैं, उनमें कितनी विनोदप्रियता, रंजनकारिता और सरसता होती है, ऊपर की रचनाओं को पढ़कर यह बात भली-भाँति हृदयंगम हो गई होगी। ऐसे बालक किसके वल्लभ न होंगे, कौन उन्हें देखकर उत्फुल्ल न होगा, कौन उन्हें प्यार न करेगा, और वे किसके उल्लास-सरोवर के सरसीरुह न बनेंगे? माँ-बाप के तो बालक सर्वस्व होते हैं, ऐसी अवस्था में उनको देखकर उनके हृदय में अनुराग संबंधी अनेक सुंदर भावों का उदय होना स्वाभाविक है। माँ-बाप अथवा गुरुजनो का यह भाव परिपुष्ट होकर विशेष आस्वाद्य हो जाता है, वही, कुछ सहृदय जनों की सम्मति है कि वात्सल्य रस कहलाता है। अधिकतर आचार्यों ने नौ रस ही माने हैं, वे वात्सल्य भाव को अलग रस

नहीं मानते । इस भाव ही को नहीं, बड़ों का छोड़ों के प्रति जो अनुराग होता है, उन सबको वे वात्सल्य कहते हैं और 'रति' स्थायी भाव में उनका अंतर्भाव करते हैं । उन लोगों का विचार है कि रस का जितना परिपाक शृंगार से होता है, वात्सल्य में नहीं, अतएव इसको वे 'भाव' ही मानते हैं, रस नहीं । कुछ सम्मतियाँ देखिये—

काव्यप्रकाशकार ने रसो का नाम उल्लेख करने के पहले लिखा है—
“तद्विशेषानाह” । इसकी व्याख्या करते हुए, 'बालबोधिनी' टीकाकार लिखते हैं—

“केचिदाहुरेक एव शृंगारो रस इति । केचिच्च प्रेयासदातोद्धतैः सह वक्ष्यमाणा नवेति द्वादशरसाः । तत्र स्नेहप्रकृतिकः प्रेयासः । श्रयमेव वात्सल्य इति बोध्यम् । धैर्य्यं स्थायीभावको दातः, गर्वस्थायीभावक उद्धतः । तन्मतनिरासाय सामान्य-ज्ञानोत्तरं विशेषजिज्ञासोदयाच्च वृत्तिकृदाह—तद्विशेषानाहेति—तद्विशेषान् तस्य रसस्य विशेषान् भेदान् । रससामान्यलक्षणं तु रसत्वमेव, न च तत्र मानाभावः, रसपदशक्यतावच्छेदकतया तत्सिद्धेः” ।


किसी की सम्मति है कि एक शृंगार रस ही रस है । किसी ने प्रेयांस दांत, उद्धत के साथ वर्णित नवरस को द्वादश रस माना है । जिस रस का स्थायी स्नेह हो उसको प्रेयांस कहते हैं, इसीका नाम वात्सल्य है । जिसका स्थायी धैर्य्य है, उसको दांत, जिसका स्थायी गर्व है उसको उद्धत कहा गया है । इन मतों के निरसन के लिये और सामान्य ज्ञान के उपरांत विशेष जिज्ञासा उदय होने पर वृत्तिकार कहते हैं “तद्विशेषानाह”— उस रस के विशेष भेदों को बतलाता हूँ । रस का सामान्य लक्षण रसत्व है, इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, रस पद की शक्यता से ही वह सिद्ध है ।

एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं—

“प्रेयांसादित्रयस्तु भावांतर्गता इति भावः । एतेनाभिलाषस्थायिको लौल्यरसः,

श्रद्धास्थायिको भक्तिरसः स्पृहास्थायिकः कार्पण्याख्यो रसोऽतिरिक्त इत्यपास्तम् ।
त्रयाणामपि भावांतर्गतत्वात् ।

“प्रेयांसादि तीनों को ‘भाव’ के अंतर्गत माना है । जिसका स्थायी अभिलाष है उसको लाल्य रस, जिसका स्थायी श्रद्धा है उसको भक्ति रस, जिसका स्थायी स्पृहा है उसको कार्पण्य रस कहा है, किंतु ये तीनों भी भाव ही के अंतर्गत हैं” ।

 सोमेश्वर की सम्मति निम्नलिखित बतलाई गई है—

“स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति रतेरेव विशेषाः । तेन तुल्ययोरन्योन्य रतिः स्नेहः, अनुत्तमस्योत्तमे रतिर्भक्तिः, उत्तमस्थानुत्तमे रतिर्वात्सल्यम् इत्येवमादौ भावस्यैवास्वाद्यत्वमिति” ।

स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही विशेष रूप हैं । तुल्यों की अन्योन्य रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम भक्ति और अनुत्तम में उत्तम की रति का नाम वात्सल्य है । आस्वाद्य की दृष्टि से ये सब ‘भाव’ ही कहे जाते हैं ।

एक अन्य विद्वान् की अनुमति यह है—

“स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यं मैत्री आबंध इति रतेरेव विशेषाः । तुल्ययोर्मिथोरतिः स्नेहः प्रेमेति यावत् । तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो रतिर्भक्तिः, अवरस्य वरे रतिर्भक्तिः सैव विपरीता वात्सल्यम् । सचेतनानामचेतने रतिरावध इति ।”

स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, मैत्री, आबंध, रति के ही विशेष रूप हैं । तुल्य लोगों की परस्पर रति, स्नेह अथवा प्रेम, उनकी परस्पर निष्काम रति ‘मैत्री’, श्रेष्ठ में साधारण की रति ‘भक्ति’, छोटों में बड़ों की रति ‘वात्सल्य’ और अचेतन में सचेतन की रति ‘आबंध’ कहलाती है ।

ऊपर के अवतरणों के देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि वात्सल्य को रति का ही रूप माना गया है, और यह बतलाया गया है कि वह ‘रस’ नहीं ‘भाव’ है । साहित्यदर्पणकार ‘भाव’ का लक्षण यह बतलाते हैं—

“संचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ।

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥”

‘प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी तथा देवता, गुरु आदि के विषय में अनुराग एवं सामग्री के अभाव से रस रूप को अप्राप्त उद्बुद्धमात्र रति, हास, आदिक स्थायी, ये सब ‘भाव’ कहाते हैं” ।

दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं—

“देव-मुनि-गुरु-नृपादिविषया च रतिरुद्बुद्धमात्रा विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमानाश्च स्थायिनो भावा भावशब्दान्याः ।”

“देवता, मुनि, गुरु और नृपादि-विषयक रति (अनुराग) भी प्रधान-तया प्रतीत होने पर ‘भाव’ कहलाती है, और उद्बुद्धमात्र अर्थात् विभावादि सामग्री के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रस रूप को अप्राप्त हास, क्रोधादि भी ‘भाव’ ही कहलाते हैं” ।

काव्यप्रकाशकार की भी यही सम्मति है । वे लिखते हैं—

“रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाजितः—भावः प्रोक्तः ।”

इत्येधेहि टीकाकार की व्याख्या यह है—

“रतिरिति सकलस्थायिभावोपलक्षणम् । देवादिविषयेत्यपि अप्राप्तरसावस्थोपलक्षणम् । तथा शब्दश्चायं । तेन देवादिविषया सर्वप्रकारा, कांतादिविषयापि अपुष्टरतिः, हासादयश्च अप्राप्तरसावस्थाः, विभावादिभिः प्राधान्येनाजितो व्यजितो व्यभिचारी च भावः प्रोक्तः भावपदाभिधेयः ।”

भावार्थ इसका यह है कि देवता, मुनि, गुरु, नृप अथच पुत्रादि-विषयक अनुराग (रति) कांतादि विषयिणी अपुष्ट रति, विभावादि के प्राधान्य से व्यंजित व्यभिचारी, और रस अवस्था को अप्राप्त हासादिक स्थायी की ‘भाव’ संज्ञा होती है ।

‘भाव’ का लक्षण आप लोगो ने देखा, अब ‘रस’ का लक्षण देखिये । नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि लिखते हैं—

‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ ।

विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निवृत्ति होती है ।

काव्यप्रकाशकार की यह सम्मति है—

“कारणान्यथ कार्याणि सहकाराणि यानि च ।
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाद्यकाव्ययोः ॥
विभावा अनुभावास्तत् कथ्यते व्यभिचारिणः ।
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः ॥”

नाट्य और काव्य में रति आदिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, उनको विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी क्रम से कहते हैं । इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायी, भाव की रस संज्ञा होती है ।

विभावादिकों की व्याख्या ‘बालबोधिनी’ टीकाकार ने यह की है—
‘वासनारूपतयातिसूक्ष्मरूपेणावस्थितान् रत्यादीन् स्थायिनः विभावयति आस्वादयोग्यतां नयतीति विभावाः ।’

वासना रूप से अति सूक्ष्म आकार में स्थित रति आदिक स्थायी भावों को जो आस्वादन योग्य बनाते हैं, उनको विभाव कहते हैं—यथा नायक नायिका, पुष्पवाटिकादि ।

‘रत्यादीन् स्थायिनः अनुभावयन्ति अनुभवविषयीकुर्वन्तीति अनुभावाः ।’

रति आदिक स्थायी भावों को जो अनुभव का विषय बनाते हैं, उनको अनुभाव कहते हैं—यथा कटाक्षादि ।

“विशेषेणाभितः (सर्वांगव्यापितया) रत्यादीन् स्थायिनः काये चारयति संचारयति मुहुर्मुहुर्भिव्यजयतीति वा व्यभिचारिणः ।” “स्थायिन्युन्मग्ननिमग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।”

सर्वांग में व्यापित होकर जो रति आदिक स्थायी भावों के शरीर में संचरण करते हैं, संसुद्र में कल्लोल-समान उठते और बिलीन होते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं—हर्ष, उद्वेग, चंचलता आदि इसके उदाहरण हैं ।

रस की यह परिभाषा अथवा लक्षण साहित्यिक है, इससे जैसा चाहिये वैसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता। काव्यप्रकाशकार ने रस की जो निम्नलिखित व्याख्या की है, वह सर्वबोधगम्य एवं मानव अवस्था की सूचक है।

“पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणाः पुर इव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वांगीण-मिवालिगन् अन्यत् सर्वमिव तिरोदधत् ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन् अलौकिक-चमत्कारकारी शृंगारादिको रसः।”

“पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट भलक जाते हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सर्वांग को सुधारससिंचित बनाते, अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते, और ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होते हैं, वे ही अलौकिक चमत्कारसंपन्न शृंगारादि रस कहलाते हैं।”

भाव किसे कहते हैं ? रस में क्या विशेषता है ? ऊपर के अवतरणों को पढ़कर यह बात आप लोगों ने समझ ली होगी। वास्तविक बात यह है कि विशेष उत्कर्षप्राप्त, हृदयग्राही, व्यापक, अनिर्वचनीय आनंदप्रद अधिकतर मनोमुग्धकर भाव ही रस कहलाता है। दुग्ध की स्वादिक सरसता और मधुरता कम नहीं, किंतु अवट जाने पर जब वह अधिक गाढ़ा हो जाता है, सुखादुमेवो के साथ जब उसमें सिता भी सम्मिलित हो जाती है, तो उसका आस्वाद कुछ और ही हो जाता है, रसों की भी कुछ ऐसी ही अवस्था है। नाट्यशास्त्र-प्रणेता कहते हैं—

— “न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः।
परस्परकृता विद्विस्तयोरभिनये भवेत्।”

“रस के बिना भाव नहीं और भाव के बिना रस नहीं होते। इन रस और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है।”

रस और भावों में इतनी स्पष्टता होने पर भी रस और भाव के निरूपण में एकवाक्यता नहीं है। विभिन्न मत इस विषय में भी हैं, और अब तक कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित नहीं हुआ, जो सर्वमान्य हो। ऊपर आप

यह वाक्य देख चुके हैं, 'केचिदाहुरेक एव शृंगारो रस इति" जिससे पाया जाता है कि कोई-कोई आचार्य शृंगार रस को ही रस मानते हैं, और किसी रस को रस मानना हो नहीं चाहते। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं कि उनके पितामह पंडितप्रवर नारायण अद्भुत रस को ही रस मानते हैं अन्य रसों को वे स्वीकार ही नहीं करते। यथा—

“रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥
तस्माद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥”

“सब रसों में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है। और चमत्कार (विस्मय) के साररूप (स्थायी) होने से सब जगह अद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अतः पंडित नारायण केवल एक अद्भुत रस ही मानते हैं।”

उत्तररामचरितकार करुण रस को ही प्रधान मानते हैं, वे लिखते हैं—

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान् ।
आवर्त्तबुद्बुदतरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

“एक करुण रस ही निमित्तभेद से भिन्न होकर पृथक्-पृथक् परिणामों को ग्रहण करता है। जल के आवर्त्त, बुद्बुद, तरगादि जितने विकार हैं, वे समस्त सलिल ही होते हैं।”

नाट्यशास्त्रकार ने आठ ही रस माने हैं। यथा—

“शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।
बीभत्सान्द्रुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥”

“नाट्य में शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत आठ रस माने गये हैं।”

काव्यप्रकाशकार ने नवाँ शांत रस भी माना है। यथा—

“निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शांतोऽपि नवमो रसः ।”

“नवम रस शांत है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है।”

रसगंगाधरकार कहते हैं—

“अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालंबनस्य रोमांचश्रुतादिभिरनुभावितस्य हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्भक्तैरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरूपहृदयत्वात् । भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः । न चासौ शातरसेऽन्तर्भावमर्हति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात् । उच्यते—
विषयरतित्वेन भावातर्गततया, रसत्वानुपपत्तेरिति ।”

“क्या रस इतने ही हैं ? भगवान् जिसके आलंबन हैं, रोमांच अश्रु-पातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराणश्रवण के समय भगवद्भक्त भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वही भगवदनुरागरूपा भक्ति यहाँ स्थायी भाव है। शांत रस में इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुराग और वैराग्य परस्पर विरोधी हैं। किंतु भक्ति देवादि रति विषय से संबंध रखती है, अतएव वह भाव के अंतर्गत है, उसमें रसत्व नहीं माना जा सकता।”

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ असाधारण विद्वान् थे। वे स्वयं प्रश्न उपस्थित करते हैं कि क्या रस इतने ही हैं ? प्रश्न उपस्थित करने के उपरांत पूर्व पक्ष का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से करते हैं। जिन विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के आधार से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है, उसका निरूपण भी यथेष्ट करते हैं, उनकी पंक्तियों को पढ़ते समय ज्ञात होने लगता है कि आप भक्ति को रस स्वीकार करेंगे, किंतु उन्होंने उसको देवादि-विषयिनी रति कहकर ‘भाव’ ही माना और यह भी नहीं बतलाया कि देव-विषयक रति को रसत्व क्यों नहीं प्राप्त होता। परमात्मा का नाम रस है, श्रुति कहती है, ‘रसो वै सः’। रस शब्द का अर्थ है, ‘यः रस्यति आनन्दयति स रसः’। वैष्णवों की माधुर्य उपासना परम प्रिय है, अतएव भगवदनुरागरूपा भक्ति को वे रस मानते हैं। यह विषय पंडितराजजी के लक्ष्य में था, इसलिये उन्होंने पूर्व-पक्ष में उसको ग्रहण किया, किंतु प्राचीन आचार्यों की सम्मति को प्रधान मानकर उसको भाव ही बतलाया।

आगे के पृष्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ रसनिर्णायकों ने प्रेयांस, दांत, उद्धत, लौल्य, भक्ति और कार्पण्य को भी रस माना है। ज्ञात होता है कि इन लोगों का विचार भी पंडितराजजी के ध्यान में था, और इस-लिये भी सबमें भक्ति को प्रधान समझकर उन्होंने उसके रस होने के विरुद्ध अपनी लेखनी चलाई। जो हो, मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि रस-निरूपण का विषय निर्विवाद नहीं है। जैसा आप लोग देख चुके, इस विषय में भी भिन्न-भिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं। हाँ, यह अवश्य है कि अधिक सम्मति नवरस संबंधिनी है। जिस प्रकार यह सत्य है, उही प्रकार यह भी सत्य है कि कुछ मान्य विद्वानों ने वात्सल्य रस को भी दसवाँ रस माना है। उनमें मुनींद्र और साहित्यदर्पणकार का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

“स्पष्ट चमत्कारक होने के कारण वत्सल को भी रस कहा गया है।”

“स्फुटं चमत्कारितया वत्सल च रसं विदुः *।”

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी अपने नाटक नामक ग्रंथ में ‘वत्सल’ को रस माना है। उन्होंने रसों के नामों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

“शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, बीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुर्य्य, सख्य, वात्सल्य, प्रमोद वा आनंद।”

‘प्रकृतिवाद’ बँगला का एक प्रसिद्ध कोष है। उसके रचयिता बग भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान् हैं। वे रस शब्द का अर्थ बतलाते हुए लिखते हैं—

/* भोजदेव ने भी अपने ‘शृंगारप्रकाश’ नामक ग्रंथ में ‘वत्सल’ को रस माना है, और रसों की सख्या दस बतलाई है। वे लिखते हैं—

शृंगारवीरकरुणादद्भुतहास्यरौद्रबीभत्सवत्सलभयानकशांतनामनः ।

आश्नासियुर्दशरसान् सुधियो वदति शृंगारमेव रसनाद्रस मामनामः ॥

शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, बीभत्स, वत्सल, भयानक, और शांत नामक दश रस बुद्धिमानों ने बतलाये हैं, किन्तु आस्थादन पर दृष्टि रखकर शृंगार ही रस माना जा सकता है।

“केहो केहो वात्सल्यकेओ रस बलियाथाकेन, तन्मते रस दश प्रकार।”—“कोई-कोई वात्सल्य को भी रस कहते हैं, उनके मत से रस दश प्रकार का होता है।”

साहित्यदर्पणकार ने वत्सल को रस मानने का कारण उसका स्पष्ट चमत्कारक होना बतलाया है, साथ ही उसको मुनीन्द्रसन्मत भी लिखा है। मेरा विचार है कि वत्सल में उतना स्पष्ट चमत्कार नहीं है, जितना भक्ति में, किंतु उसको उन्होंने भी रस नहीं माना। बाबू हरिश्चंद्र ने भक्ति वा दास्य लिखकर उसको दास्य तक परिमित कर दिया है, किंतु भक्ति बहुत व्यापक और उदात्त है, साथ ही उसमें इतना चमत्कार है, कि शृंगार रस भी उसकी समता नहीं कर सकता। वैष्णव विद्वानो ने भक्ति को रस माना है, और अन्य सब रसों से उसको प्रधानता दी है। आचार्यवर मधुसूदन सरस्वती अपने ‘भक्तिरसायन’ नामक ग्रंथ में लिखते हैं—

“रसांतरविभावादिसकीर्णा भगवद्रतिः ।
 चित्ररूपवदन्यादृग्रसता प्रतिपद्यते ॥
 रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाजितः ।
 भावः प्रोक्तो रसो नेति यदुक्त रसकोविदैः ॥
 देवातरेषु जीवत्वात् परानदाप्रकाशनात् ।
 तद्योज्यं—परमानदरूपेण परमात्मनि ॥
 कातादिविषया वा ये रसाद्यास्तत्र नेदृशम् ।
 रसत्वं पुष्यते पूर्णसुखास्पर्शित्वकारणात् ॥
 परिपूर्णरसा क्षुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः ।
 खद्योतेभ्य इवादित्यग्रमेव बलवत्तरा ॥”

“अन्य रसों के समान विभावादि से युक्त होकर भक्ति चित्र-फलक के सदृश मनोरंजन बनकर रसत्व को प्राप्त होती है। रसकोविदों ने देवादिविषयक रति और अजित व्यभिचारी को भाव बतलाया है—रस नहीं, किंतु इस विचार को अन्य देवताओं तक ही परिमित समझना

चाहिये, क्योंकि उन लोगों की रति अलौकिक आनन्ददायिनी नहीं होती, परमानन्दस्वरूप परमात्मा की भक्ति के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कांतादिविषयक रसों में रसत्व का पोषण यथेष्ट नहीं होता, क्योंकि उनको पूर्ण-सुख स्पर्श नहीं करते। प्राकृत क्षुद्र रसों से परिपूर्णरसा भगवद्भक्ति वैसी ही बलवती है, जैसी खद्योतों में आदित्य की प्रभा।

संभव है, इस उक्ति को रंजित माना जावे, किंतु अभिनिविष्ट चित्त से विचार करने पर वह सत्य समझी जावेगी। भक्ति नव प्रकार की होती है।

“श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वदन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम् ॥”

भारतेंदुजी ने जिन नवीन रसों की चर्चा अपने लेख में की है, लगभग उन सब का अंतर्भाव भक्ति से हो जाता है। भक्ति दास्य ही नहीं है, यह बात इस श्लोक में स्पष्ट हो गई। आचार्यप्रवर मधुसूदन ‘सरस्वती’ की उक्ति का समर्थन भी अधिकांश में नवधा भक्ति करती है। पादसेवनं से लेकर दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनं तक भक्ति का चमत्कार है। दाम्पत्य धर्म का सर्वस्व भी दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन है। यों तो भगवदाज्ञा है, कि ‘ये यथा मा प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम्’, किंतु व्यापक भगवदुपासना तीन ही रूप में होती है। १—पिता-पुत्र भाव, २—स्वामी-सेवक भाव और ३—पति-पत्नी भाव में। शृंगार रस में प्रधान नायक पति और नायिका स्वकीया होती है। ऐसी अवस्था में शृंगार रस का भी अधिकांश भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। कबीर साहब निर्गुण उपासक माने जाते हैं। कुछ लोग उनको आधुनिक संत मत के निर्गुण उपासकों का आचार्य भी समझते हैं। निर्गुण उपासना का अधिकांश संबंध ज्ञानमार्ग से है, उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष बहुत कुछ बतलाया जाता है। किंतु जब भक्ति अथवा प्रेम का उद्रेक हृदय में होता है, तब सगुण उपासना ही सामने आती है, और उपासना के उक्त तीनों रूपों में से किसी एक का अथवा तीनों का आश्रय चित्त की वृत्ति के अनुसार

अंतर पट दे खोल सब्द उर लावरी ।
दिल बिच दास कबीर मिलैं तोहिं बावरी ॥

इन पंक्तियों में कैसा आत्मनिवेदन है, उसे बतलाना न होगा । प्रत्येक शब्द में वह व्यंजित है । आत्मनिवेदन का अर्थ आत्मोत्सर्ग लीजिये, चाहे आत्मदशानिवेदन, दोनों ही भाव उनमें मौजूद हैं । अतएव उनमें भक्ति रस का प्राचुर्य स्पष्ट है । काव्य-प्रकाशकार ने रस का जो व्यापक और मानसिक अवस्था-प्रदर्शन संबंधी लक्षण लिखा है, भक्ति में वह जितना सुविकसित पाया जाता है, अन्य रस में उसका उतना विकाश नहीं देखा जाता । वे लिखते हैं—[‘पानक रस के समान रस को आश्वाद्य होना चाहिये’ उनके कहने का भाव यह है कि जैसे पीने का रस चीनी, दूध, केवड़ा, इलायची आदि भिन्न-भिन्न पदार्थों से बनकर उन सबसे पृथक् एक विचित्र स्वाद रखता है, और अधिक स्वादिष्ट भी होता है, उसी प्रकार, विभावादि के मिश्रण से जो रस बनता है, उसका आश्वादन भी अपूर्व और विलक्षण होना चाहिये । भक्ति में यह गुण और रसों से अधिक पाया जाता है] जब भदवद्-प्रेम विषयक स्थायी भाव, परमानन्द-स्वरूप परमात्मा आलंबन विभाव को पाकर पुलक, अश्रुपात आदि अनुभावों एवं हर्ष, आवेग, विबोध, औत्सुक्य आदि संचारी भावों के सहारे भक्ति में परिणत होता है, उस समय भक्त जनों के हृदय में जिस अलौकिक रस का आविर्भाव होता है, वह कितना लोकोत्तर तथा दैवी विभूति-सम्पन्न देखा जाता है, क्या यह अविदित है । क्या उसीके आश्वादन-जनित आमोद का वर्णन इन शब्दों में नहीं है ?—

“त्वत्सान्नात्करणह्लादविशुद्धाब्धिस्थितस्य मे ।

सुखानि गोष्पदायन्ते..... ॥”—भागवत

“तुम्हारे सान्नात्करण आह्लाद के विशुद्ध समुद्र में स्थित होने के कारण मुझको समस्त सुख गोष्पद समान ज्ञात होते हैं ।”

क्या उसी रसाश्वादनकारी की अद्भुत दशा का उल्लेख यह नहीं है ?—

अंतर पट दे खोल सब्द उर लावरी ।
दिल बिच दास कबीर मिलैं तोहि बावरी ॥

इन पंक्तियों में कैसा आत्मनिवेदन है, उसे बतलाना न होगा । प्रत्येक शब्द में वह व्यंजित है । आत्मनिवेदन का अर्थ आत्मोत्सर्ग लीजिये, चाहे आत्मदशानिवेदन, दोनों ही भाव उनमें मौजूद हैं । अतएव उनमें भक्ति रस का प्राचुर्य स्पष्ट है । काव्य-प्रकाशकार ने रस का जो व्यापक और मानसिक अवस्था-प्रदर्शन संबंधी लक्षण लिखा है, भक्ति में वह जितना सुविकसित पाया जाता है, अन्य रस में उसका उतना विकास नहीं देखा जाता । वे लिखते हैं—‘पानकरस के समान रस को आस्वाद्य होना चाहिये’ उनके कहने का भाव यह है कि जैसे पीने का रस चीनी, दूध, केवड़ा, इलायची आदि भिन्न-भिन्न पदार्थों से बनकर उन सबसे पृथक् एक विचित्र स्वाद रखता है, और अधिक स्वादिष्ट भी होता है, उसी प्रकार, विभावादि के मिश्रण से जो रस बनता है, उसका आस्वादन भी अपूर्व और विलक्षण होना चाहिये । भक्ति में यह गुण और रसों से अधिक पाया जाता है] जब भदवद्-प्रेम विषयक स्थायी भाव, परमानन्द-स्वरूप परमात्मा आलंबन विभाव को पाकर पुलक, अश्रुपात आदि अनुभावों एवं हर्ष, आवेग, विबोध, औत्सुक्य आदि संचारी भावों के सहारे भक्ति में परिणत होता है, उस समय भक्त जनों के हृदय में जिस अलौकिक रस का आविर्भाव होता है, वह कितना लोकोत्तर तथा दैवी विभूति-सम्पन्न देखा जाता है, क्या यह अविदित है । क्या उसीके आस्वादन-जनित आमोद का वर्णन इन शब्दों में नहीं है ?—

“त्वत्साक्षात्करणआह्लादविशुद्धाब्धिस्थितस्य मे ।

सुखानि गोष्पदायन्ते..... ॥”—भागवत

“तुम्हारे साक्षात्करण आह्लाद के विशुद्ध समुद्र में स्थित होने के कारण मुझको समस्त सुख गोष्पद समान ज्ञात होते हैं ।”

क्या उसी रसास्वादनकारी की अद्भुत दशा का उल्लेख यह नहीं है ?—

क्वचिद्ब्रुदन्त्यन्युतचितया क्वचिद्धसंति नंदति वदंत्यलौकिकाः ।
 नृत्यति गायत्यनुशीलयत्यज भवति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥

“अच्युत का चितन करके कभी रोते हैं, कभी हँसते, आनंदित होते और अलौकिक बातें कहते हैं। कभी नाचते, गाते, भगवान् का अनुशीलन करते और परमात्मा को प्राप्त कर संतोष लाभ करने के उपरांत मौन हो जाते हैं।”

क्या उसी रस का प्याला पीकर भक्तिमयी मीरा ने यह नहीं गाया?—

मेरे तो गिरिधर गोगाल दूखरो न कोई ।
 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ।
 साधुन सँग बैठि बैठि लोकलाज खोई ।
 अब तो बात फैल गई जानै सब कोई ।
 अँसुवन जल सीचि सीचि प्रेम बेलि बोई ।
 मीरा को लगन लगी होनि हो सो होई ॥

क्या उसी रस की सरसता के स्वाद ने उनके समस्त राजभोगों को भी नीरस नहीं बनाया था ?

क्या उसी रस का भांड लेकर भक्ति-अवतार गौरांग ने बंगाल प्रांत को प्रेमोन्मत्त नहीं बनाया ? स्वयं उस रस से सिक्त होकर क्या उन्होंने वह रस-स्नान नहीं किया, जिसमें भारत का एक विशाल प्रांत आज भी निमग्न है ? आज से चार सौ वर्ष पहले इस पुण्यभूमि ने जो स्वर्गीय गान सुना, जो त्रिलोकमोहन नर्तन देखा, जो अभूतपूर्व भक्तिउद्रेक अवलोकन किया, क्या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ?

क्या उसी रस से सराबोर मंसूर ने सूली पर चढ़कर यह नहीं पुकारा—

‘यह उसके वाम का जीना है आए जिसका जी चाहे ।’

क्या उस रस के रोम-रोम में, रग रग में भीनने का ही यह निरूपण नहीं है—

‘बाद मरने के हुआ मनसूर को भी जोशे इश्क ।
खून कहता था अनल हक दार के साया तले ॥’

कोई सामने आये और बताये कि दूसरे किस रस का आस्वाद
ऐसा है !

रस की और विशेषता क्या है ? यह कि वह स्पष्ट झलक जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है, सर्वांग को सुधारस-सिंचित बनाता है और अन्य वेद्य विषयो को तिरोहित कर देता है । अन्य रसों पर भी यह लक्षण घटित हो सकता है, दूसरे रसों में भी यह विशेषता पाई जा सकती है, किंतु भक्ति रस में तो इस लक्षण और विशेषता की पराकाष्ठा हो जाती है, वरन् कहना तो यह चाहिये कि भक्ति रस में ही इन विशेषताओं की वास्तविक सार्थकता होती है । जब भक्ति अन्य वेद्य विषयों को तिरोहित कर देती है, तभी तो वह स्पष्ट झलक जाती है, तभी तो हृदय में प्रवेश करती है और तभी तो सर्वांग सुधारस-सिंचित होता है । यदि ऐसा न होता तो यह क्यों कहा जाता—“प्रेम एव परो धर्मः” “God is love, love is God” ? क्यों गोस्वामीजी महाराज कहते ‘जेहि जाने जग जाय हेराई’ और वेद्य विषयों की बात ही क्या, जब भक्ति रस के प्रभाव से ‘रसो वै सः’ का ज्ञान हो जाता है, तो ससार स्वयं तिरोहित हो जाता है, स्वयं खो जाता है, क्योंकि जिसको उसकी खबर हो जाती है, उसको स्वयं अपनी खबर नहीं रहती । “अर्रा कि खबर शुद खबरशबाज् नयामद” । और तो और, बेचारी मुक्ति को भी कोई नहीं पूछता । जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई तो मुक्ति को उसमें स्थान कहाँ । उसका तिरोधान तो हो ही जावेगा—

“राम-उपासक मुक्ति न लेहीं । तिन कहँ राम भक्ति निज देहीं ।”

श्रीमद्भागवत का भी यही वचन है । सुनिये—

“न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता ह्येकातिनो मम ।
वाञ्छन्त्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम् ॥”

‘मेरे एकांत भक्त धीर साधुजन कुछ नहीं चाहते, मम प्रदत्त कैवल्य और अपुनर्भव की भी कामना नहीं रखते।’ रहा सर्वांग का सुधारस-सिंचित होना, इसका अनुभव किस भावुक पुरुष को नहीं है ? जिस समय किसी देवालय तथा किसी सात्विक स्थान-विशेष में भक्तिमय भगवद्-सुयश का गान प्रारंभ होता है, अथवा जब किसी भक्तिरस-पूर्ण हृदय के मुख से उनकी कथामृत की वर्षा होने लगती है, उस समय कौन है जो सुधास्रोत में निमग्न नहीं हो जाता ? परम भागवत राजा परीक्षित भक्ति-अवतार श्रीशुकदेवजी से क्या कहते हैं; सुनिये—

“नैषातिदुःसहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते ।

पिबत त्वन्मुखाम्भोजच्युत हरिकथामृतम् ॥”

‘परम दुःसह क्षुधा और पिपासा भी मुझको बाधा नहीं पहुँचा रही है, क्योंकि आपके कमल-मुख से निःसृत सुधा में पान कर रहा हूँ।’ जो क्षुधा अंग-अंग को शिथिल कर देती है, शरीर को निर्जीव बना देती है, जो पिपासा यह बतला देती है, कि जीवन का आधार जीवन ही है, राजा परीक्षित कहते हैं, कि वही क्षुधा और वही पिपासा, सो भी साधारण नहीं, परम दुःसह, उनको बाधा नहीं पहुँचाती है, उनकी आकुलता अथवा निरानंद का कारण नहीं होती है, इस कारण कि वह एक भक्ति-भाजन महात्मा के मुख से निकले हरिकथामृत का पान कर रहे हैं। आपने देखा, भक्ति-रस का सर्वांग में सुधा-सिंचन। यदि भक्ति में यह शक्ति न होती तो क्या राजा परीक्षित के मुख से ऐसी अपूर्व बात कभी निकल सकती ? आपसे यदि कभी भक्ति का उद्रेक होता है, या यदि कभी आपने किसी भक्ति-उद्भक्त प्राणी को अभिनिविष्ट चित्त से देखा है, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जिस समय हृदय में भक्ति-स्रोत प्रवाहित होता है, उस समय उसकी क्या दशा होती है। क्या उस समय समस्त अंगों में अलौकिक रस-सिंचन नहीं होने लगता, क्या यह नहीं ज्ञात होता कि शरीर पर कोई अमृत-कलस ढाल रहा है;

कोई रग-रग में किसी ऐसे आनंद की धारा प्रवाहित कर रहा है जिसका आस्वादन सर्वथा लोकोत्तर है ? यही तो सर्वांग में सुधारस सिचन है। ब्रह्मानंद का अनुभव ऐसे ही अवसरों पर तो होता है। भक्ति रस के अतिरिक्त दूसरा कौन रस है, जिसके द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति यथा-तथ्य हो सके ? रस को ब्रह्मानंद-सहोदर कहा है, किंतु भक्ति रस में ही इस लक्षण की व्याप्ति है। सांख्यकार ने त्रिविध दुःख की अत्यंत निवृत्ति को परम पुरुषार्थ कहा है। किंतु भक्तिरस-सिक्त मनुष्यों को दुःख का अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति’। वह जानता है, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’। वह समझता है ‘आनंदाद्ये न खल्विमानि भूतानि जायंते आनंदेन जातानि जीवति ‘आनंद प्रयान्त्यभिसविशति’। आनंद ब्रह्मणो विद्वान्’ ‘तस्यैवानंदस्यान्ये मात्रामुपजीवति’ और किस रस में इस सिद्धांत के अनुभव की शक्ति है ? भक्ति ही वह आधार है जिसके आश्रय से इस भाव का विकास होता है। भक्तिमान को छोड़कर कौन कह सकता है, ‘राम वियामेयं सब जग जानी। करहुँ प्रणाम जोरि युग पानी ॥’ कौन कह सकता है— बगैँ दरखतान सबज दरनजरे होशियार। हरवरक्रे दफतरेस्त मारफते किर्दंगार ॥’ ‘द्रष्टा की दृष्टि में हरे वृत्तों का एक-एक पत्ता परमात्मा के रहस्य-ग्रंथ का एक-एक पन्ना है’। कितनी गहरी भक्तिमत्ता है। गुरु नानक देव कहते हैं—

गगन तल थाल रवि चंद्र दीपक बने तारकामंडला जनुक मोती ।

धूप मलयानिलो पवन चंचरो करै सकल बनराय फूलंत जोती ॥

कैसी आरती होय भव खंडना ।

‘गगनतल के थाल में तारकमंडल मोती के समान जगमगा रहे हैं, सूर्य चंद्र उसमें दीपक सदृश शोभायमान हैं। मलयानिल धूप का काम देता है, समीर चमर झलता है; समस्त तरु पुष्प लेकर खड़े हैं, इस प्रकार भवभयनिवारण करनेवाली परमात्मा की अखंड आरती होती रहती है’।

कैसी उदात्त और आनंदमयी कल्पना है। जिसकी भक्ति के उच्छ्वास ने संसार को परमानंदमय बना दिया है, उसी के प्रफुल्ल हृदय का

यह उद्गार है। ब्रह्मानन्द का अनुभव यही तो है। यही है वह भक्तिभाव जिसे पाकर कुर्वति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं तृणोपमम् ।

अब रही चमत्कार की बात। भक्ति का चमत्कार और विलक्षण है। भक्तिरस के रसिक ही के विषय में यह कहा गया है—

“न पारमेष्ठ्यं न महेद्रधिष्य न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भव वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥” —भागवत

‘परमात्मा के चरणरज के प्रेमिक न तो कैलाश की कामना करते हैं, न स्वर्ग की, न सार्वभौम की, न राज्य की, न योगसिद्धि की, न अपुनर्भव की।’ कैसा अलौकिक चमत्कार है ! और सुनिये भगवान् उद्धव से क्या कहते हैं—

“न साधयति मा योगो न साख्य धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मर्जिता ॥” —भागवत

‘न तो मैं योग से मिलता हूँ न सांख्य धर्म से, न स्वाध्याय से, न तप से; लोग मुझे ऊर्जित भक्ति से ही पा सकते हैं।’ ऐसा चमत्कार किस रस का है ? और भो सुनिये। भगवद्वाक्य है—

“यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ।

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽज्ञसा ।” —भागवत ।

‘जो कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान से, धर्म से एवं दूसरे श्रेयों से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भक्त एक भक्ति-योग द्वारा ही पा जाता है।’ भक्ति की कैसी अपूर्व चमत्कृति है।

वैदिक काल से प्रारंभ करके पौराणिक काल तक का जितना साहित्य है, उसके बाद के जितने काव्य अथवा अन्य धार्मिक किंवा ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पड़े हैं। वैदिक साहित्य के प्राकृतिक देवतों और ईश्वर की भक्ति का चमत्कार ही संसार के ज्ञान-

भांडार का विकास है। महाभारत, रामायण और पुराणों के महामहिम पुरुषों की उदात्त देवभक्ति, गुरुभक्ति, पितृभक्ति आदि का चमत्कार क्या भारतवर्ष का पवित्र और जगदादर्शभूत महान् आत्मत्याग और अलौकिक सदाचार नहीं है। बुद्धदेव और बौद्धधर्म में अशोक की अनन्य भक्ति का चमत्कार उसका वह बौद्धधर्म-प्रचार है, जिसके आलोक से लगभग समस्त एशिया महादेश अलोकित है, और जिसकी छाया आज-कल दूरवर्ती यूरोप और अमेरिका आदि अन्य महादेशों पर भी पड़ रही है। महात्मा ईसा की, जगत्पिता की, उदात्त भक्ति का चमत्कार वह ईसवी धर्म है, जिसके माननेवालों की संख्या आज संसार में सबसे अधिक है।

संसार के अनंत धर्ममंदिर अपने गगनस्पर्शी गुंबदों और मीनारों द्वारा क्या ईश्वरभक्ति के चमत्कारों का ही उद्घोष नहीं कर रहे हैं ? क्या उसी के गुणगान में धर्म-संबंधी विविध बाजे और गगनभेदी गंभीर निनाद नहीं संलग्न है ? संसार के तीर्थों को अपार जनता का समारोह, धार्मिक असंख्य कार्य-कलाप, धर्मयाजकों अथच उपदेशकों का विश्व-व्यापी धर्मप्रचार क्या किसी अचिंत्य शक्ति की भक्ति के चमत्कार का ही परिणाम नहीं है ? संसार में आजकल जो नाना परिवर्तन हो रहे हैं, विविध आविष्कार और उद्योग किये जा रहे हैं, क्या वे विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाजभक्ति जाति-भक्ति और आत्मभक्ति के ही चमत्कार नहीं हैं ? यदि इन बातों का उत्तर स्वीकृति है, तो यह स्पष्ट है कि भक्ति जैसा चमत्कार किसी रस में नहीं है, इस दृष्टि से भी उसकी सब रसों पर प्रधानता है।

काव्यप्रकाशकार ने जो व्यापक लक्षण रसों के बतलाये थे, उसके आधार से विचार करने पर भी भक्तिरस का स्थान उच्च ही नहीं उच्चतर सिद्ध हुआ। भक्ति-साहित्य भी किसी अन्य रस के साहित्य से अल्प नहीं, हिंदी-संसार में तो संतों की वाणियों ने उसका भांडार भली-भाँति भर दिया है। फिर भी भक्ति को भाव ही माना जाता है, उसे रस नहीं

स्थायी भाव तब तक रस नहीं माना जा सकता जब तक उसमें स्थायिता और विशेष परिपुष्टि न हो, किंतु जो रस माने जाते हैं, उनसे वात्सल्यरस किसी बात में न्यून नहीं है, उसमें भी विशेष स्थायिता और रस-परिपुष्टि है। काव्यप्रकाशकार ने रस के जो व्यापक और मनोभावद्योतक लक्षण बतलाये हैं, उनपर मैं वात्सल्य रस को कसता हूँ। आशा है उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा। वे लक्षण ये हैं—

(१) रसों का आस्वाद पानक रस समान होता है, (२) वे स्पष्ट भक्तक जाते हैं, (३) हृदय में प्रवेश करते हैं, (४) सर्वांग को सुधारस-सिंचित बनाते हैं, (५) अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते हैं, (६) ब्रह्मानन्द के समान अनुभूत होते हैं और (७) अलौकिक चमत्कृति रखते हैं।

पानक रस किसे कहते हैं, पहले मैं यह बतला चुका हूँ। अनेक वस्तुओं के सम्मिलन से जो रस बनता है, उसका स्वाद जैसे उन भिन्न-भिन्न वस्तुओं से भिन्न और विलक्षण होता है उसी प्रकार विभाव, अनु-भावादि के आधार से बने हुए रस का आस्वाद भी उन सबों से अलग और विलक्षण होना चाहिये। वात्सल्य रस में यह बात पाई जाती है। बालकों की बालक्रीड़ा देखकर माता पिता में जो तन्मयता होती है, वह अविदित नहीं। उनकी तोतली बातों को सुनकर उनके हृदय में जो रस-प्रवाह होता है, क्या वह अपूर्व और विलक्षण आस्वादमय नहीं होता? माता पिता को छोड़ दीजिये, कौन मनुष्य है जिसे बाललीला विमोहित नहीं करती? देखिये, निम्नलिखित पद्य में इस भाव का विकास किस सुंदरता से हुआ है—

‘बर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की।

चपला चमकै धन बीच जगै छवि मोतिन माल अमोलन की।

घुघुरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की।

निवछावर प्राण करै तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलन की ॥

वात्सल्य स्नेह विभाव, घुघुरारी लटै, बोलन आदि उद्दीपन, मधुर

स्थायी भाव तब तक रस नहीं माना जा सकता जब तक उसमें स्थायिता और विशेष परिपुष्टि न हो, किंतु जो रस माने जाते हैं, उनसे वात्सल्यरस किसी बात में न्यून नहीं है, उसमें भी विशेष स्थायिता और रस-परिपुष्टि है। काव्यप्रकाशकार ने रस के जो व्यापक और मनोभावद्योतक लक्षण बतलाये हैं, उनपर मैं वात्सल्य रस को कसता हूँ। आशा है उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा। वे लक्षण ये हैं—

(१) रसों का आस्वाद पानक रस समान होता है, (२) वे स्पष्ट भलक जाते हैं, (३) हृदय में प्रवेश करते हैं, (४) सर्वांग को सुधारस-सिंचित बनाते हैं, (५) अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते हैं, (६) ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होते हैं और (७) अलौकिक चमत्कृति रखते हैं।

पानक रस किसे कहते हैं, पहले मैं यह बतला चुका हूँ। अनेक वस्तुओं के सम्मिलन से जो रस बनता है, उसका स्वाद जैसे उन भिन्न-भिन्न वस्तुओं से भिन्न और विलक्षण होता है उसी प्रकार विभाव, अनु-भावादि के आधार से बने हुए रस का आस्वाद भी उन सबों से अलग और विलक्षण होना चाहिये। वात्सल्य रस में यह बात पाई जाती है। बालकों की बालक्रीड़ा देखकर माता पिता में जो तन्मयता होती है, वह अविदित नहीं। उनकी तोतली बातों को सुनकर उनके हृदय में जो रस-प्रवाह होता है, क्या वह अपूर्व और विलक्षण आस्वादमय नहीं होता? माता पिता को छोड़ दीजिये, कौन मनुष्य है जिसे बाललीला विमोहित नहीं करती? देखिये, निम्नलिखित पद्य में इस भाव का विकास किस सुंदरता से हुआ है—

‘बर दत्त की पगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की।
चपला चमकै घन बीच जगै छवि मोतिन माल अमोलन की।
धुधुरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुडल लोल कपोलन की।
निवछावर प्राण करै तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलन की ॥

वात्सल्य स्नेह विभाव, धुधुरारी लटै, बोलन आदि उद्दीपन, मधुर

छवि-अवलोकन आदि अनुभाव, और हर्ष संचारी भाव के मिलन से जिस रस का आस्वाद आस्वादनकारिणी को हुआ है, जो पद्य के प्रति पदों में छलक रहा है, क्या पानक रस के आस्वाद से कहीं विलक्षण नहीं है ? क्या विमुग्धता का स्रोत उसमें, नहीं बह रहा है ?

सरित्, सरोवर आदि में लहरें उठती ही रहती हैं किंतु सब लहरें न तो स्पष्ट होती हैं, न यथातथ्य दृष्टिगोचर होती हैं। यही बात मानस-तरंगों अथवा हृदय के भावों के विषय में भी कही जा सकती है। अनेक लहरें हृदय में उठती हैं, और तत्काल विलीन हो जाती हैं। किंतु कुछ भावों की लहरें ऐसी होती हैं, जो स्पष्ट झलक जाती हैं, और उनमें स्थायिता भी होती है। रस प्राप्त भाव ऐसे ही होते हैं। वात्सल्य-रस भी ऐसा ही है। सहृदय शिरोमणि सूरदासजी के निम्नलिखित पद्य में उसका बड़ा सुंदर विकास है। अंतिम वाक्य 'कोन्हें सात निहोरे' ने तो इस पद्य में जान डाल दी है—

जैवत नंद कान्ह इक ठौरै ।

कछुक खात लपटात दुहूँ कर बालक हैं अति भोरे ।
बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टुक तोरे ।
तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दौरै ।
फूँकति बदन रोहिनी माता लिये लगाइ अँकोरे ।
सूर स्याम को मधुर कौर दे कीन्हे सात निहोरे ॥

बालक समान हृदयवल्लभ कौन है ? वही तो कलेजे की कोर है, वही तो कलेजे का टुकड़ा (लख्त-जिगर) है, फिर उसके भोले भाले भाव हृदय में प्रवेश क्यों न करेंगे। बालकों के समान हृदयविमोहन, संसार में कौन है ? कुसुमचय भी बड़े मनोहर होते हैं, किंतु बालकों जैसी सजीवता उनमें कहां। देखिये हृदय-प्रविष्ट भाव की सरसता ! गोस्वामी जी निम्नलिखित पद्य लिखकर, मैं तो कहूँगा कि, रस को रसता भी छीने लेते हैं—

पौढ़िए लालन पालने हौं भुलावौं ।

कर पद मुख चख कमल लसत लखि लोचन भँवर भुलावौं ।
बाल बिनोद मोद मंजुल मनि किलकनि खानि खुलावौं ।
तेइ अनुराग ताग गुहिबे कहँ मति मृगनयनि बुलावौ ।
तुलसी भनित भली मामिनि उर सो पहिराय फुलावौ ।
चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावौ ॥

बालक का मयंक सा मुखड़ा आँखों में सुधा बरसाता है, उसकी तुतली बातें कानों में अमृत की बूँद टपकाती हैं, उसके चुम्बन के आस्वाद के संमुख पीयूष ऊख बन जाता है, और उसका आलिगन अंग अंग पर चाँदनी छिड़क देता है। जब वह हँसता-खेलता आकर शरीर से लपट जाता है, या किलकारियों भरता हुआ गोद में आ बैठता है, तब क्या उस समय 'सर्वांगीणमिवालिगन्' का दृश्य उपस्थित नहीं हो जाता ? यह वात्सल्यभाव की रस में परिणति ही तो है, और क्या है। देखिये सुधा निचोड़ती हुई एक माता क्या कहती है—

मेरे प्यारे बेटे आओ ।

मीठी मीठी बातें कहके मेरे जी की कली खिलाओ ।

उमग उमग कर खेलो कूदो लिपट गले से मेरे जाओ ।

इन मेरी दोनों आँखों में हँसकर सुधा बूँद टपकाओ ॥

जिसने कभी बालकों के साथ खेला है, वह जानता है कि उस समय कितनी तन्मयता हो जाती है। बालक उस समय जो कहता है, वही करना पड़ता है। उस समय वास्तव में अन्य वेद्य विषय तिरोहित होते हैं, यदि न हों तो खेल का रंग ही न जमेगा। यदि खेल का रंग न जमा तो बाल-विलास का आनंद ही जाता रहेगा। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ग्लाडस्टोन एक दिन अपने पौत्र के साथ खेल रहे थे। आप घोड़ा बने हुए थे, और पौत्र उनको पीठ पर सवार होकर उनसे घोड़े का काम ले रहा था। उसी समय उनसे मिलने के लिये एक सज्जन आये, और

उनका यह चरित्र देखकर उनके पास ही कुछ दूर पर खड़े हो गये । किंतु वे अपनी केलि-क्रीड़ा में इतने तन्मय थे, कि बहुत देर तक उनका ध्यान ही उधर नहीं गया । खेल समाप्त होने पर जब यह बात उनको ज्ञात हुई, तो वे हँस पड़े । बोले, आशा है आपके यहाँ भी लड़के होंगे । इसीको कहते हैं वेद्य विषय का तिरोभाव । इसी तन्मयता का चित्र महात्मा सूरदासजी किस सहृदयता से खींचते हैं, देखिये । अंतिम पद्य में 'स्याम को मुख टरत न हिय ते' बड़ा मार्मिक है—

आँगन स्याम नचावहीं जसुमति नँदरानी ।
 तारी दै दै गावहीं मधुरी मृदु बानी ।
 पायन नूपुर बाजई कटि किकिनि कूजै ।
 नन्हीं एड़िअन अरनता फलबिब न पूजै ।
 जसुमति गान सुनै खवन तब आपुन गावै ।
 तारि बजावत देखिकै पुनि तारि बजावै ।
 नचि नचि सुतहिं नचावई छवि देखत जिय ते ।
 सूरदास प्रभु स्याम को मुख टरत न हिय ते ॥

रस का परिपाक ब्रह्मानंद समान अनुभूत होता है, इसकी वास्तवता चित्तनीय है । बीभत्स रस एवं भयानक और रौद्र रस में इसको चरितार्थता तादृश नहीं होती । हाँ ! शांत, शृंगार, करुण, अद्भुत और विशेष दशाओं में हास्य और वीर में भी इस लक्षण की सार्थकता हो सकती है । भक्तिरस में तो यह लक्षण पूर्णता को पहुँच जाता है; वत्सलरस में भी उसका पर्याप्त विकाश दृष्टिगत होता है । संसार में जो आनंद-स्वरूप परमात्मा का कोई मूर्तिमान् आकार है, तो वह बालक है । ब्रह्म के संसार से निर्लिप्त होने का भाव जो कहीं मिलता है, तो बालक में मिलता है । दुःख सुख में सम बालक ही देखा जाता है, निरीहता उसीमें मिलती है । फिर वात्सल्य रस ब्रह्मानंद-सहोदर क्यों

न होगा। गोस्वामी तुलसीदासजी का इसी भाव का एक बड़ा सुंदर पद है, जो अपने रंग में अद्वितीय है—

माता लै उछग गोविंद मुख बार बार निरखै ।
 पुलकित तनु आनद धन छन छन मन हरखै ।
 पूछत तोतरात बात मातहिँ जदुराई ।
 अतिसय मुख जाते तोहि मोहि कहु समुझाई ।
 देखत तव बदन कमल मन अनंद होई ।
 कहै कौन ? रसन मौन जाने कोई कोई ।
 सुदर मुख मोहि देखाउ, इच्छा अति मोरे ।
 मम समान पुन्यपुज बालक नहि तोरे ।
 तुलसी प्रभु प्रेमबस्य मनुज रूपधारी ।
 बाल-केलि-लीला-रस ब्रज जन हितकारी ॥

तुतलाकर लीलामय ने माता से पूछा, तुमको अपार सुख किसमें है ? माता ने कहा—तेरा कमलवदन देखकर मन आनंदित होता है। कैसा आनंद होता है, इसको कौन कहे, रसना तो चुप है, इसको कोई-कोई जानता है। लीलामय ने कहा—वह सुंदर मुखड़ा मुझे दिखला। माता ने कहा—मेरे समान तेरा पुण्यपुंज कहाँ ! यहाँ पर ब्रह्मानंद को भी निझावर कर देने को जी चाहता है। संसार में बालक के मुख अवलोकन के आनंद का अनुभव माता ही को हो सकता है। और कोई संसार में इस अनुभव का पात्र नहीं, पिता भी नहीं। बालक-कृष्ण भी पिता ही के वर्ग का है, इसीलिये माता ने कहा तेरा पुण्यपुंज ऐसा कहाँ ! फिर जो आनंद ऐसा अलौकिक और अनिर्वचनीय है, कि जिसको रसना भो नहीं कह सकती, जिसको कोई-कोई जानता ही भर है, किंतु कह वह भी नहीं सकता, उसे वे कैसे कहें। यही तो ब्रह्मानंद है ! जिसकी अधिकारिणी कोई कोई यशोदा जैसी भाग्यशालिनी माता ही हैं,

स्वयं अवतारी बालक कृष्ण भी नहीं। अपने मुख को आप कोई कैसे देख सकता है, जब तक विमल बोध का दर्पण सामने न होवे।

चमत्कार के विषय में तो वात्सल्य रस वैसा ही चकितकर है, जैसा कि स्वयं बालक। जब बालक-मूर्ति ही चमत्कारमयी है तब उससे संबंध रखनेवाले भाव चमत्कृतकर क्यों न होंगे ! बालक का जन्मकाल कितना चमत्कारमय है और उस समय चारो ओर कैसा रस का स्रोत उमड़ पड़ता है, इसका अनुभव प्रत्येक हृदयवान् पुरुष को प्राप्त है। उस समय के गीतों के गान में जो झंकार मिलती है, सोहरो में जो विमुग्धकरी ध्वनि पाई जाती है, वह किसी दूसरे अवसर पर श्रुतिगोचर नहीं होती। संतान ही वंश-वृद्धि का आधार, पिता का आशास्थल, माता का जीवन-सर्वस्व और संसार-बीज का संरक्षक है। उसीमें यह चमत्कार है कि जैसी ममता उसकी पशु पक्षी कीट पतंग को होती है वैसी ही देवता मनुष्य और दानवों को भी। उसकी लीलाएँ जितनी मनोरंजनी हैं, जितनी उसमें स्वाभाविकता और सरलता मिलती है, मानव जीवन की किसी अवस्था में उतनी मनोरंजन आदि की सामग्री नहीं पाई जाती। ये बातें भी चमत्कारशून्य नहीं, तो भी नीचे मैं वात्सल्य रस के कुछ पद्य देता हूँ। आप देखें, इनमें कैसा स्वभाव-चित्रण और कविता-गत-चमत्कार है। बालक जैसे सरल और कोमल होते हैं, वैसे ही उनके भाव और विचार भी सरल और कोमल होते हैं, उद्धृत कविताओं में आपको उनका बड़ा ही मनोहर स्वरूप दिखलाई पड़ेगा।

मैया ! मैं नाही दधि खायो ।

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ।
देख तुही छीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।
तुही निरखि नान्हे कर अपने मैं कैसे करि पायो ।
मुख दधि पौछि कहत नदनदन दोना पीठ दुरायो ।
डारि साँट मुसुकाइ तबहि गहि सुत को कठ लगायो ।

बाल विनोद मोद मन मोह्यो भगति प्रताप दिखायो ।

सूरदास प्रभु जसुमति के सुख सिव विरचि बौरायो ॥

शिव विरंचि बावले बने हों या न बने हों, किंतु महात्मा सूर-दासजी का बड़ी ही सजीव भाषा में सहज बाल-स्वभाव का चित्रण अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही है। एक-एक चरण में विमुग्धकारी भाव हैं और उनको पढ़कर रसोन्माद-सा होने लगता है। चमत्कार के लिए इतना ही बहुत है। शिव विरंचि का उन्माद तो बड़ा ही चमत्कारक है, संभव है हमारे दिव्यचक्षु महाकवि ने इसको अवलोकन किया हो। बालक कृष्ण की विचित्र लीला कंया नहीं कर सकती !

अवहि उरहनो दै गई बहुरो फिरि आई ।

सुनु मैया ! तेरी सौ करौ याकी टेव लरन की सकुच बेचि सी खाई ॥

या ब्रज मैं लरिका घने हों ही अन्याई ।

मुँहलाए मुँड़हि चढ़ी अतहु अहिरिन तोहि सूधी कर पाई ॥

सुनि सुत की अति चातुरी जसुमति मुसुकाई ।

तुलसीदास ग्वालिनि ठगी, आयो न उंतर कञ्जु कान्ह ठगौरी लाई ॥

अहीरिन ने भी अच्छे घर बैना दिया था, बेचारी दो दो बार उलाहना देने आई, पर फिर भी उसीको मुँह की खानी पड़ी। उसने मुँह की ही नहीं खाई, भोले-भाले बालक द्वारा ठगी भी गई। दूध दही तो गया ही था, उल्लू भी बनी, जवाब तक न सूझा। बालक कृष्ण ने ऐसी बातें गद्दीं कि यशोदादेवी को मुसकाना ही पड़ा। इन गद्दीं बातों को सुनकर किसके दाँत नहीं निकल आयेंगे ! हमारे कृष्ण भगवान् ने चाहे जो किया हो, किंतु गोस्वामो तुलसीदासजी की लेखनी का चमत्कार इस पद्य में चमत्कृतकर है।

जो कसौटी मैंने वात्सल्य रस के कसने की ग्रहण की थी, मेरे विचार से उसपर कस जाने पर वात्सल्य रस पूरा उतरा। इसके अतिरिक्त जब मैं विचार करता हूँ तो वात्सल्य रस उन कई रसों से अधिक व्यापक

और स्पष्ट है, जिनकी गणना नवरस में होती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है; हास्य मनुष्य-समाज तक परिमित है; ~~नहीं~~ नहीं हँसते, किंतु वात्सल्य रस से ये जोवजंतु भी रहित नहीं, चींटी तक अपने अंडे-बच्चों के पालन में लगी रहती है, मधुमक्खियाँ तक इस विषय में प्रधान उद्योग करती दृष्टिगत होती हैं। यदि वनरूपति-संज्ञी आधुनिक आविष्कार सत्य हैं, और उनमें भी स्त्री पुरुष मौजूद हैं, तो वत्स और वात्सल्य भाव से वंचित वे भी नहीं हैं; फिर भी 'हास्य' को रस माना गया, और 'वात्सल्य' इस कृपा से वंचित रहा। बीभत्स में भी न तो वत्सल इतनी रसता है, न व्यापकता, न संचरणाशीलता; फिर भी वह नव रस में परिगणित है और 'वत्सल' को वह सम्मान नहीं प्राप्त है। बीभत्स रस भी मानव-समाज तक ही परिमित है। इतर प्राणियों में उसके ज्ञान का अभाव देखा जाता है, इस दृष्टि से भी वत्सल की समानता वह नहीं कर सकता, तथापि वह उच्च आसन पर आसीन है। वत्सलरस का साहित्य निस्संदेह थोड़ा है, इस विषय में वह रस-संज्ञक स्थायीभावो का सामना नहीं कर सकता! हिंदी-भाषा के किसी आचार्य अथवा प्रतिष्ठित विद्वान् ने 'वत्सल' को रस नहीं माना, इसलिये उसकी कविता साहित्य-ग्रंथों में प्रायः दुष्प्राप्य है। केवल बाबू हरिश्चंद्र ने उसको रस माना है, किंतु उनकी भी इस रस की कोई कविता मुझे देखने में नहीं आई। जितने हिंदी भाषा में रस-संबंधी ग्रंथ हैं, उन सबमें आवश्यकतावश नव रस की कविता मिलती है, किंतु यह गौरव वत्सल को नहीं मिला। साहित्य से किसी भाव की व्यापकता का पता चलता है, क्योंकि इससे जनसमुदाय की मानसिक स्थिति का भेद मिलता है। अतएव यह स्वीकार करना पड़ता है, कि इस विषय में वत्सल रस उतना सौभाग्यशाली नहीं है। फिर भी मैं यह कहूँगा कि हिंदी संसार में जितना साहित्य वात्सल्य रस का पाया जाता है, वह अद्भुत, अपूर्व और बहुमूल्य है। कविशिरोमणि सूरदास और कविचूडामणि गोस्वामी

तुलसीदासजी की वत्सलरस-संबंधी रचनाएँ अल्प नहीं हैं, और इतनी उच्च कोटि की हैं, कि उनकी समानता करनेवाली कविता अन्यत्र दुर्लभ है। वत्सलरस के साहित्य के गौरव और महत्त्व के लिये मैं उनको यथेष्ट समझता हूँ, क्योंकि वे जितनी हैं उतनी ही अलौकिक गणित समान हिंदी संसार-क्षेत्र को उद्भासित करनेवाली हैं। आजकल बाल-साहित्य के प्रचार के साथ वत्सलरस की विभिन्न प्रकार की सरस रचनाओं का भी प्राचुर्य है। ज्ञात होता है, कुछ दिनों में शृंगार, हास्य, वीर आदि कतिपय बड़े-बड़े रसों को छोड़कर इस विषय में भी वात्सल्य रस अन्य साधारण रसों से आगे बढ़ जावेगा। यदि इस एक अंग की न्यूनता स्वीकार कर लें तो भी अन्य व्यापक लक्षणों पर दृष्टि रखकर मेरा विचार है कि वत्सल की रसता सिद्ध है, और उसको रस मानना चाहिये। मतभिन्नता के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं, वह स्वाभाविक है।

‘हरिऔध’

गणनांक	पुस्तक का नाम	पुस्तक प्रणेता का नाम	भाषा
२०	कविप्रिया	आचार्य केशवदास	हिंदी
२१	रसिकप्रिया	”	”
२२	देवग्रंथमाला	कविपुंगव देवदत्त	”
२३	रहिमनशतक	रहीम खाँ खानखाना	”
२४	मतिराम-ग्रंथावली	मतिराम	”
२५	बिहारी सतसई	कविवर बिहारीलाल	”
२६	जगद्विनोद	पद्माकर भट्ट	”
२७	कबीर-ग्रंथावली	कबीर साहब	”
२८	हरिश्चंद्र-ग्रंथावली	भारतेंदु हरिश्चंद्र	”
२९	हिंदी-शब्दसागर	कतिपय प्रसिद्ध विवुध	”
३०	काव्यप्रभाकर	बाबू जगन्नाथप्रसाद भानु	”
३१	काव्यकल्पद्रुम	बाबू कन्हैयालाल पोद्दार	”
३२	नवरस	पं० बाबूराम बित्थरिया	”
३३	हिंदी-रसगंगाधर	पं० पुरुषोत्तम शर्मा	”
३४	रसकुसुमाकर	महाराज अयोध्या	”
३५	मीरा-भजनावली	मीराबाई	”

इन ग्रंथों के अतिरिक्त सामयिक पत्र-पत्रिकाओं और अनेक अँगरेजी, फारसी, उर्दू और बँगला ग्रंथों से भी इस ग्रंथ की रचना में सहायता ली गई है।

गणनांक	पुस्तक का नाम	पुस्तक प्रणेता का नाम	भाषा
२०	कविप्रिया	आचार्य केशवदास	हिंदी
२१	रसिकप्रिया	"	"
२२	देवग्रंथमाला	कविपुगव देवदत्त	"
२३	रहिमनशतक	रहीम खॉ खानखाना	"
२४	मतिराम-ग्रथावली	मतिराम	"
२५	बिहारी सतसई	कविवर बिहारीलाल	"
२६	जगद्विनोद	पद्माकर भट्ट	"
२७	कबीर-ग्रथावली	कबीर साहब	"
२८	हरिश्चंद्र-ग्रथावली	भारतेंदु हरिश्चंद्र	"
२९	हिंदी-शब्दसागर	कतिपय प्रसिद्ध विवुध	"
३०	काव्यप्रभाकर	बाबू जगन्नाथप्रसाद भानु	"
३१	काव्यकल्पद्रुम	बाबू कन्हैयालाल पोद्दार	"
३२	नवरस	पं० बाबूराम बित्थरिया	"
३३	हिंदी-रसगगाधर	पं० पुरुषोत्तम शर्मा	"
३४	रसकुसुमाकर	महाराज अयोधवा	"
३५	मीरा-भजनावली	मीराबाई	"

इन ग्रंथों के अतिरिक्त सामयिक पत्र-पत्रिकाओं और अनेक अंगरेजी, फारसी, उर्दू और बंगला ग्रंथों से भी इस ग्रंथ की रचना में सहायता ली गई है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
मंगलाचरण	१-२
स्थायीभाव	३-२६
१—रति	५-७
उत्तम रति	७
मध्यम रति	७
अधम रति	७-८
२—हास	८-१०
स्मित	११
हसित	११
विहसित	११-१२
उपहसित	१२
अपहसित	१२
अतिहसित	१२
३—शोक	१२-१५
मर्मवेध	१४
४—क्रोध	१५-१७
५—उत्साह	१७-१८
६—भय	१८-१९
७—जुगुप्सा	२०-२१
८—आश्चर्य	२१-२३
९—निर्वेद (शम)	२३-२६
संचारी भाव	२७-६६
१ निर्वेद	२९-३०
२ ग्लानि	३०-३१

विषय	पृष्ठ
३—शंका	३१-३२
४—असूया	३२-३३
५—भ्रम	३३-३४
६—मद	३४-३६
७—धृति	३६-३७
८—आलस्य	३७-३८
९—विषाद	३८-४०
१०—मति	४०-४१
११—चिन्ता	४१-४२
१२—मोह	४२-४३
१३—स्वप्न	४३-४४
१४—विबोध	४४-४५
१५—स्मृति	४५-४६
१६—अमर्ष	४६-४७
१७—गर्व	४८-४९
१८—उत्सुकता	४९
१९—अवहित्य	५०
२०—दीनता	५०-५१
२१—हर्ष	५१-५२
२२—व्रीडा	५३-५४
२३—उग्रता	५४-५५
२४—निद्रा	५५-५६
२५—व्याधि	५६-५७
२६—मरण	५७-५८
२७—अपस्मार	५८-५९

विषय	पृष्ठ
२८—आवेग	५६-६१
२९—त्रास	६१
३०—उन्माद	६१-६२
३१—जड़ता	६२-६३
३२—चपलता	६३-६५
३३—वितर्क	६५-६६
आलंबन विभाव	६७-९२
नायिका	६६-७०
शिख-नख वर्णन	७०-६२
नायिका के भेद	६३-१५४
१—पद्मिनी	६५
२—चित्रिणी	६५-६६
३—शंखिनी	६६
४—हस्तिनी	६६
१—प्रकृति संबंधी भेद	६६-१११
१—उत्तमा—पति-प्रेमिका	६६-६७
परिवार-प्रेमिका	६७-६८
जाति-प्रेमिका	६८-६९
देश-प्रेमिका	६९-१०२
जन्म-भूमि-प्रेमिका	१०२-१०३
निजतानुरागिनी	१०३-१०४
लोक-सेविका	१०४-१०६
धर्म-प्रेमिका	१०६-१०७
२—मध्यमा—व्यग-विदग्धा	१०७-१०८
मर्म-पीडिता	१०८-११०

विषय	पृष्ठ
३—अधमा	११०-१११
२—धर्म संबंधी भेद	१११
स्वकीया	१११
स्वकीया के भेद—१—मुग्धा	११२
अज्ञातयौवना	११३
ज्ञातयौवना	११३-११४
नवोढा	११४
विश्रब्धनवोढा	११४
२—मध्या	११५
३—प्रौढा	११५
प्रौढा के भेद—रतिप्रीता	११६
आनंदसंमोहिता	११६
मध्या और प्रौढा के भेद—धीरा	११७
धीराधीरा	११८
अधीरा	११६
३—स्वभाव संबंधी भेद—अन्यसुरतिदुःखिता	१२०-१२१
वक्रोक्तिगर्विता	१२१
रूपगर्विता	१२१
प्रेमगर्विता	१२२
मानवती	१२२-१२३
ज्येष्ठा कनिष्ठा	१२३-१२४
परकीया	१२४
परकीया के भेद—ऊढा	१२६-१२७
अनूढा	१२७-१२८
उद्बुद्धा	१२८-१२९

विषय	पृष्ठ
उद्बोधिता	१२६-१३०
परकीया के छः भेद—१—गुप्ता	१३०
२—विदग्धा	१३१-१३२
३—लक्षिता	१३२-१३३
४—कुलटा	१३३-१३४
५—अनुशयाना	१३४-१३५
६—मुदिता	१३५-१३६
सामान्या अथवा गणिका	१३६
दश विध नायिका—१—प्रोषितपतिका	१३७-१४०
२—खंडिता	१४०-१४२
३—कलहान्तरिता	१४२-१४४
४—विप्रलब्धा	१४४-१४५
५—उत्कठिता	१४५-१४६
६—वासकसज्जा	१४६-१४८
७—अभिसारिका	१४८-१५०
८—प्रवत्स्यत्वतिका	१५०-१५२
९—आगतपतिका	१५२-१५३
१०—स्वाधीनपतिका	१५३-१५४
नायक	१५५-१७८
नायक के भेद—१—धीरोदात्त	१५७-१५८
२—धीरोद्धत	१५८-१५९
३—धीरललित	१५९-१६०
४—धीरप्रशात	१६०-१६१
नायको के सात्विक गुण—शोभा	१६१-१६२
विलास	१६३
माधुर्य	१६३-१६४

विषय	पृष्ठ
गांभीर्य	१६५
धैर्य	१६६-१६७
तेज	१६७-१६८
ललित	१६८-१६९
औदार्य	१७०-१७२
नायक के और भेद—१—पति	१७२-१७८
पति के भेद—अनुकूल	१७४
दक्षिण	१७४
धृष्ट	१७४
शठ	१७५
अनभिज्ञ	१७५-१७६
२—उपपति	१७६-१७७
३—वैसिक	१७७-१७८
मानी	१७८
प्रोषितपति	१७८
सहीपन-विभाव	१७९-२२२
सखा	१८३
सखा के भेद—पीठमर्द	१८४
विट	१८४
चेट	१८४-१८५
विदूषक	१८५
सखी	१८५
सखी के भेद—हितकारिणी	१८६
व्यंग्यविदग्धा	१८६
अतरगिणी	१८६-१८७

विषय		पृष्ठ
सखी के कर्म—	बहिरंगिणी	१८७
	मडन	१८७
	शिक्षा	१८७-१८८
	उपालंभ	१८८
	परिहास	१८८
दूती		१८९
दूती के प्रकार—		१८९
(उत्तमा, मध्यमा, अधमा)		
दूती के छः कर्म—	विनय	} १९० से १९६
	स्तुति	
	निदा	
	प्रबोध	
	सघटन	
	विरहनिवेदन	
स्वयंदूती		१९६-१९७
अन्य उद्दीपन विभाव—	पवन	१९७
	वन	१९७
	उपवन	१९७
	पुष्प	१९८
	पराग	१९८
	चद्र	१९८
	चौदनी	१९८-१९९
षट् क्रतु—	वसंत	१९९-२०२
	ग्रीष्म	२०२-२०६
	पावस	२०६-२०९


विषय	पृष्ठ
शरद्	२०६-२१२
हेमत	२१२-२१६
शिशिर	२१६-२१८
शिशिर-अतर्गत होरी	२१६-२२२
अनुभाव	२२३-२४२
अनुभाव—१—सात्विक—स्तंभ	२२५
स्वेद	२२५-२२६
रोमांच	२२६
कप	२२६-२२७
स्वर भंग	२२७
वैवर्य	२२७
अश्रु	२२७-२२८
प्रलय	२२८
जृंभा	२२८-२२९
२—कायिक	२२९
३—मानसिक	२२९-२३०
४—आहार्य	२३०
सात्विक अलंकार—अंगज—भाव	२३१-२३२
हाव	२३२
हेला	२३२
अयत्नज—शोभा	२३३
कांति	२३३
दीप्ति	२३३-२३४
माधुर्य	२३४
प्रगल्भता	२३४


विषय	पृष्ठ
अौदार्य	२३४-२३५
धैर्य	२३५
स्वभावसिद्ध—लीला ✓	२३५-२३६
विच्छिन्ति	२३६
विलास	२३६
विभ्रम	२३६-२३७
किलकिचित्	२३७
मोहयित	२३७
बिम्बोक	२३८
कुट्टमित	२३८
विह्वत	२३८-२३९
ललित	२३९
मद	२३९
केलि	२३९-२४०
तपन	२४०
मुग्धता	२४०
कुतूहल	२४०-२४१
विक्षेप	२४१
हसित	२४१-२४२
चकित	२४३
बोध कहाव	२४२
इसुनिखरुल—	२४३-३६३
शृंगार—सयोग शृंगार	२४९-२५०
विप्रलभ शृंगार	२५०-२५१
विप्रलंभ शृंगार के भेद-१—पूर्वाञ्जुराग—प्रत्यक्ष दर्शन	२५१-२५२

विषय	पृष्ठ
	चित्र दर्शन २५२-२५३
	श्रवण दर्शन २५३
	स्वप्न दर्शन २५३-२५४
२-मान-	लघु २५४
	मध्यम २५४
	गुरु २५५
३-प्रवास-	भूत प्रवास २५५-२५६
	भविष्य प्रवास २५६
दश-दशा-१-अभिलाषा	२५७-२५८
२-चिता	२५८-२५९
३-स्मरण	२५९-२६०
४-गुणकथन	२६०-२६२
५-उद्बेग	२६२
६-प्रेलाप	२६३-२६४
७-उन्माद	२६४-२६५
८-व्याधि	२६५-२६७
९-जड़ता	२६७-२६८
१०-मूर्छा	२६८
११-(मरण)	२६९-२७०
करुण रस-दिनों का फेर	२७२-२७३
करुण कथा	२७३-२७५
कारणिकता	२७५-२७६
मर्म-व्यथा	२७६
लोचन-विहीनता	२७७-२७८
विनय	२७८

विषय	पृष्ठ
विपत्ति-वासर	२७८-२७९
मनोव्यथा	२७९
अकरण चित्त	२७९-२८०
बेचारे बिहंग	२८०
अतर्वेदना	२८०
अद्भुत रस-रहस्यवाद	२८२-२८४
. नैश गगन	२८४-२८७
विचित्र चित्र	२८७-२९१
हास्य रस-कांत कल्पना	२९२-२९३
परिहास-परायणा	२९३-२९४
घुड़की धमकी	२९४-२९५
सबल अबला	२९६-२९७
पुष्प-वर्षा	२९७-२९८
अधजल गगरी	२९९
सच्चे जाति-हितैषी	२९९
नेता	२९९-३००
सच्चे वीर	३००
सच्चे सपूत	३०१
साहब बहादुर	३०१-३०२
कच्चा चिट्ठा	३०२
वज्र-प्रहार	३०३-३०४
वचन वाण	३०४-३०५
निराले लाल	३०५
नामी नेता	३०५-३०६
दिल के फफोले	३०६

विषय	पृष्ठ
माननीय महत्	३०६
सच्चे साधु	३०७
भग तरंग	३०७-३०८
व्यग-वाण	३०८
वीर रस —वर्म वीर	३०९-३१६
कर्म वीर	३१६-३२०
युद्ध वीर	३२१-३२७
दया वीर	३२७-३३०
दान वीर	३३१-३३५
रौद्र रस —अहभाव	३३६-३३७
उत्तेजिता वाला	३३७-३३८
पवि-प्रहार	३३८-३४२
भयानक रस —भय की विभूति	३४३-३४४
विभीषिका	३४४-३४५
प्रलय काल	३४५-३४९
प्रलय प्रकोप	३५२
नरक वर्णन	३५२
वीभत्स रस —युद्ध-भूमि	३५३-३५५
मानव-तन	३५५
स्मशान-भूमि	३५५-३५६
कूकर शूकर	३५६
नरपिशाच	३५६-३५७
नराधम	३५७
कलक कथा	३५७-३५८
शांत-रस —असार ससार	३५९-३६१
आत्मग्लानि	३६१
निर्वेद	३६२-३६३
विराग	३६३





रस - कलस

मंगलाचरण

मनहरण

कुंठितकपालन की कालिमा कलित होति
अवलोके सुललित लालिमा पदन की ।
सुंदर - सिदूर - मंजु गात सुख बितरत
दरत दुरित-पुज दिव्यता रदन की ॥
'हरिऔध' सकल अमंगल विदलि देति
मंगल कलित कांति मंगल-सदन की ।
संकट-सन्ह-सिधु-सिधुता बिलोपिनी है
बंदनीय सिधुरता सिधुरवदन की ॥ १ ॥

तुरत तिरोहित अपार उर-तम होत
पग-नख-तारक-प्रसूत जोति परसे ।
रुचिर विचार मंजु सालि बहु बिलसत
जन-अनुकूलना विपुल वारि वरसे ॥
'हरिऔध' सब-रस-बलित बनत चित
दयावान मन के सनेह-साथ सरसे ।
सकल अभाव, भाव भूति भव-भूति होति
भारती-बिभूति भूतिमान मुख दरसे ॥ २ ॥

मुकवि-समूह-मंजु-साधना-बिहीन जन
 लोक-समाराधना को साज कैसे सजिहै ।
 विभु की विभूति ते विभूतिमान बनि बनि
 भाव-साथ कूर क्यों सुभावना को भजिहै ॥
 'हरिऔध' असरस उर क्यों सरस ह्वैहै
 कैसे अरुचिरता अचारु-रुचि तजिहै ।
 मेरी मति-वीन तो मधुर ध्वनि पैहै कहाँ
 एरी वीनवारी जो न तेरी वीन बजिहै ॥ ३ ॥

बचन-विलास ते न जाको मन बिलसत
 छहरत छवि ते न जाकी मति छरी है ।
 विविध रसन ते न जाको चित सरसत
 रुचि की रुचिरता न जाहि रुचिकरी है ॥
 'हरिऔध'-भारती न भूलिहूँ लुभैहै ताहि
 जाके उर माहिँ भारतीयता न अरी है ।
 वैभव मैं जाके है अभाव मजु भावन को
 भावुकता नाहिँ जाकी भावना मैं भरी है ॥ ४ ॥

कोकिल की काकली को मान कैसे कँहै काक
 भील कैसे मंजु मुकृतावलि को पोहैगो ।
 कैसे बर वारिज विलोकि मोद पैहै भेक
 बादुर विभाकर-विभव कैसे जोहैगो ॥
 'हरिऔध' कैसे 'रस-कलस' रुचैगो ताहि
 जाको उर रुचिर रसन ते न सोहैगो ।
 आँखिन मैं बसत कलंक-अंक ही जो अहै
 कोऊ तो मयंक अवलोकि कैसे मोहैगो ॥ ५ ॥

स्थायी भाव

स्थायी भाव

जिसकी रस में सदा स्थिति होती है अथवा रसानुकूल हृदय में जो विकार (भाव) उत्पन्न होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं । उसके निम्नलिखित नव भेद हैं —

१-रति, २-हास, ३-शोक, ४-क्रोध, ५-उत्साह, ६-भय, ७-स्लानि,
८-आश्चर्य और ९-निर्वेद ।

१—रति

प्रिय वस्तु में मन की प्रेमपूर्ण परायणता का नाम 'रति' है । इसके तीन भेद हैं — उत्तम, मध्यम और अधम ।

(क) उत्तम रति

सदा एकरस रहनेवाली अनन्य प्रीति को 'उत्तम रति' कहते हैं । यह अधिकांश स्वार्थशून्य होती है । इसमें सेव्य-सेवक भाव की प्रधानता रहती है ।

कवित्त —

नैन मैं मधुरता मनोहरता भावन मैं
चावन मैं चारुता-विकास दरसत है ।
जानति न रीति अनरीति औ अनीति की है
पूत परतीति रोम-रोम परसत है ॥
'हरिऔध' रति-रति-रति-रति अंगना के
भाग-भरे भाल पै सुहाग बरसत है ।
देह मैं सदेह विलसति सुकुमारता है
नेह-भरे डर मैं सनेह सरसत है ॥ १ ॥

चंद-मुख की ही बनी रहति चकोरिका है
 सरस-सनेह-स्वाति-बूँद को है चातकी ।
 ग्यारो तन कारो करि राखति नयन-तारो
 वारति गोराई वा पै गोरे-गोरे गात की ॥
 'हरिऔध' औगुनी को औगुनहूँ गुन होत
 देति है कुवातहूँ को उपमा नवात की ।
 पात लौँ हिलति पवि-पात सिर पै है होत
 पातक-निरत पतिहूँ को कहे पातकी ॥ २ ॥

बंदनीय-विरद बिलोकि पुलकति बाल
 पावन बिचार की प्ररोचना मैं बोरी है ।
 विमल विवेक की विमलता बखानति है
 कीरति - कलित - रस-कनक - कमोरो है
 'हरिऔध' गौरव निहारि गौरवित होति
 गुन-गन-गान ते गरीयसी न थोरी है ।
 चावमयी पिय-चाव-स्वाति-जल-चातकी है
 रुचिर-चरित-चारु-चंद की चकोरी है ॥ ३ ॥

भाग भोग-राग ते सोहाग को सराहति है
 सजिके सहज साज बनति सजीली है ।
 फूल ते फवति न फवति कनफूल ते है
 मन की फवन ही ते फवति फवीली है ॥
 'हरिऔध' भावमयी भाव-सिधु-इदिरा है
 माधव-मधुर-छवि-छकित छबीली है ।
 रौरव गनति है अगौरव-दरब काँहि
 पति-प्रेम-गौरव-गरब-गरबीली है ॥ ४ ॥

सवैया—

पौर-परोसिनी पै पति को सुनि प्यार-पगी कबौं टोकत नाहीं ।
भीतर-भौन अलीनहूँ मैं परे कामहूँ के कछु टोकत नाहीं ॥
रोस किये 'हरिऔध' के बाल वे वैन सुधा-सने रोकत नाहीं ।
लाज-भरी अखियान उठाइ मयंकहूँ को अवलोकत नाहीं ॥ ५ ॥

(ख) मध्यम रति

अकारण परस्पर प्रीति को 'मध्यम रति' कहते हैं । इसमें मैत्री-भाव-क प्रधानता होती है । इसका स्वार्थ तरल और एकदेशीय होता है ।

कवित्त—

दोऊ दुहूँ चाहैं दोऊ दुहुँन सराहैं सदा
दोऊ रहैं लोलुप दुहुँन छवि न्यारी के ।
एकै भये रहैं नैन-मन-प्राण दोहुँन के
रसिक बनेई रहैं दोऊ रस-क्यारी के ॥
'हरिऔध' केवल दिखात द्वै सरीर ही हे
नातो भाव दीखै हैं महेस-गिरिवारी के ।
प्राणप्यारे चित मैं निवास प्राणप्यारी रगै
प्राणप्यारो बसत हिये मैं प्राणप्यारी के ॥ ६ ॥

सवैया—

चूमत पी को कपोल निया तिय को पियहूँ अधरा-रस चाखै ।
अंक गहै 'हरिऔध' को कामिनि पी नवला को भुजा भरि भाखै ॥
आपने जीवन-प्राण-समान लला को लली करिबो अभिलाखै ।
लालहूँ नेहमयी नव बाल को अखिन की पुतरी करि राखै ॥ ७ ॥

(ग) अधम रति

जिस प्रीति में स्वार्थ की प्रधानता होती है उसे 'अधम रति' कहने हैं । सासारिक व्यवहार में यही प्रीति अधिकतर सर्वत्र दृष्टिगत होती है ।

कवित्त—

काके बाल बाल लोक-कालिमा-निकेतन हूँ
 काके मंद-भाल पै कलंक अंक अँके हूँ ।
 काकी केलि मकल प्रवंचना-सहेलिका है
 काके हाव-भाव पाप-पंथ के पताके हूँ ॥
 'हरिऔध' वार-वनिता-सी को विलासिनी है
 छल-छंद-छुरे काके अंग छवि-छाके हूँ ।
 गरल-भरित काके वयन सलोने अहूँ
 लोने-लोने नयन लहूँ मैं सने काके हूँ ॥ ८ ॥
 उवरि उवरिहूँ न उवरि सकत कोऊ
 वार-वार वारिधि-विपत्ति माहिँ बोरै है ।
 सुधा-सने वैन कहि कवहूँ निहोरति है
 तेह करि नेह के तगा को कबौँ तोरै है ।
 कबहूँ चुरैल की चची वनि चिचोरति है
 कबौँ चाव चौगुनो दिखाइ चित चोरै है ।
 रंच न सकाति कै अकिचन कुबेरहूँ को
 कंचन-से तन काँहिँ कंचनी निचोरै है ॥ ९ ॥

सवैया—

वैन बिचारि विनै सों कहै तबहूँ पत वापुरे की न बची रहै ।
 ताकि सकै नहिँ सौँ हूँ पिया तऊ त्योर चढ़े रहैँ तेह-तची रहैँ ।
 जी उचटावन मैं 'हरिऔध' चुरैलहूँ की बनी खासी चची रहैँ ।
 रोस रहै रस को वतियाहुँ मैं प्यारहूँ मैं महा रार मची रहैँ ॥१०॥

२—हास

विचित्र वचन-चातुरी अथवा विनोदपूर्ण रूप-रचना के प्रभाव से आनन्द-युक्त मनोविकार को 'हास' कहते हैं ।

कवित्त—

बिना पूँछ बानर बनाइ मत पीछूँ परै
 पूँछत न बात तो पकरि न पछारि दै ।
 कारो हौँ कुरूप हौँ मैँ तू तो रूपवारी अहै
 चूमन न देत तो कवौँ तो चुमकारि दै ॥
 'हरिऔध' सूधो कहा साधहूँ रखत नाहिँ
 तू तो सुधरी है मेरी बिगरी सुधारि दै ।
 घरी-घरी घूरन चहत घरवारो तोहि
 एरी घरवारी नेक घूँघट उधारि दै ॥ १ ॥

नेक ही नजर बदले पै ना परत कल
 कौन कहै ताको होत हाल भिरके पै जौन ।
 हुकुम के मारे सदा नाक मैँ रहत दम
 आनन तिलोकत ही होत दिन-रैन गौन ॥
 'हरिऔध' एतेहूँ पै बचत न ब्योँहूँ प्रान
 मुरत ते कढ़न याते नाहिँ रहि जात मौन ।
 मरद बिचारो जाते हारो सो रहत होस
 ऐसी सबला को काहें अबला कहत कौन ॥ २ ॥

कैसे तो न तुपक निहारि अँखि तोपि लेहिँ
 बार-बार छाती जो छरी के छुए धरके ।
 कैसे उतपान नाम ही ते ना मकात रहैँ
 थर-थर गात काँपि जात पात खरके ॥
 'हरिऔध' कहै कैसे कवौँ अरि सौँ हँ होहिँ
 जात हँ रसातल जो पाँव ही के सरके ।
 कैसे डरे दौरि कै न द्वार के किवारे देहिँ
 का करैँ बिचारे हँ दुलारे बीरबर के ॥ ३ ॥

सरिता-सलिल है बहत कल-कल नाहिं
 खिलखिल हँसि है हुलास-पगो हुलसत ।
 दारिम-फलन दंत-राजि है निकसि लसी
 खोलि मुँह विकच-सुमन-चंद्र सरसत ॥
 'हरिऔध' हेरि-हेरि राका रजनी को हास
 मुदित दिगंत है बिकास-भरो बिलसत ।
 हँसि-हँसि लोटि-लोटि जात चारु चाँदनी है
 मजुल मयक अहै मंद-मद बिहँसत ॥ ४ ॥

सवैया—

हैं मन को, मन ही को मनाइहौं मानिहौं बात नहीं बहसी की ।
 ना रहिहौं कस मैं कबौं काहु के कान न कैहौं कही अकसी की ॥
 लोक की लाज ते काज कहा जब लाज रही 'हरिऔध' न सी की ।
 है हँसी होति तो होति हँसी रहै है न हमै परवाह हँसी की ॥ ५ ॥

दोहा—

सुखवि छई छिति-तल-जयी विजयी छितिप समान ।
 है बसुधा को मोहती सुधामयी मुसुकान ॥ ६ ॥
 बिसराए बिसरति नहीं मोहति तन - मन - प्रान ।
 जन - मन - नयनन मैं बसो मनमोहन मुसुकान ॥ ७ ॥

[हसन-क्रिया के छः भेद]

उत्तम—स्मित और हसित

मध्यम—विहसित और उपहसित

अधम—अपहसित और अतिहसित

दोहा—

हँसी मंजु मुख मोरि कै किलकी बनी ललाम ।
वदन - राग - रंजित भई रागमयो वर वाम ॥११॥

(घ) उपहसित

विहसित के लक्षणों के साथ जब सिर और कंधे कँपने लगते हैं, नाक फूल जाती है, तिरछे ताका जाता है, तब 'उपहसित' होता है ।

दोहा—

तिरछी अँखियन ते चितै चित चोरति चलि चाल ।
खिलि-खिलि आनन खोलिकै खिलखिलाति है बाल ॥१२॥

(ङ) अपहसित

आँसू टपकाते हुए उद्धत हास को 'अपहसित' कहते हैं ।

दोहा—

बहु हँसि-हँसि हाँसी करति कहति रसीले बैन ।
सिर हिलि-हिलि सरसत रहत मोती वरसंत नैन ॥१३॥

(च) अतिहसित

आँसू बहाते हुए ताली देकर ऊँचे स्वर से ठठाकर हँसने को 'अतिहसित' कहते हैं ।

दोहा—

तिय तारी दै-दै हँसति हिलति लता लौँ जाति ।
पुलक-आरि लोयन भरे पुलकित बिपुल लखाति ॥१४॥

३—शोक

हित की हानि अथवा इष्ट-नाश किंवा प्रिय पदार्थ की अप्राप्ति से ; दय में जो दुःख होता है उसका नाम 'शोक' है ।

दोहा—

हँसी मंजु मुख मोरि कै किलकी बनी ललाम ।
वदन - राग - रजित भई रागमयो वर वाम ॥११॥

(घ) उपहसित

विहमित के लक्ष्मणों के साथ जब भिर और कवे कॅपने लगते हैं, नाक फूल जाती है, तिरछे ताका जाता है, तब 'उपहसित' होता है ।

दोहा—

तिरछो अँखियन ते चितै चित चोरति चलि चाल ।
खिलि-खिलि आनन खोलिकै खिलखिलाति है बाल ॥१२॥

(ङ) अपहसित

आँसू टपकाने हुए उद्धत हाम को 'अपहसित' कहते हैं ।

दोहा—

बहु हँसि-हँसि हॉसी करति कहति रसीले बैन ।
सिर हिलि-हिलि सरसत रहत मोती वरसत नैन ॥१३॥

(च) अतिहसित

आँसू बहाते हुए ताली देकर ऊँचे स्वर में टटाकर हँसने को 'अतिहसित' कहते हैं ।

दोहा—

विय तारी दै-दै हँसति हिलति लता लौ जाति ।
पुलक-वारि लोयन भरे पुलकित बिपुल लखाति ॥१४॥

३—शोक

हित की हानि अथवा इष्ट-नाश किंवा प्रिय पदार्थ की अप्राप्ति से ; दय में जो दुःख होता है उसका नाम 'शोक' है ।

कवित्त —

छन-छन छीजत न देखहिं समाज-तन
 हेरहिं न विधवा छ दूक होत छतियान ।
 जाति को पतन अवलोकहिं न आकुल है
 भूलि ना बिलोकहिं कलंकी होत कुल-मान ॥
 'हरिऔध' छिनत लखहिं ना सलोने लाल
 लुटत निहारहिं न लोनी-लोनी ललनान ।
 खोले कछु खुलीं पै कहाँ हैं ठीक-ठीक खुलीं
 अधखुली अजौं हैं हमारी खुली अखियान ॥ १ ॥

✓ काहू की ठगौरी परे ठग है गये हैं सग
 वन गये परम विमुख मुख कौर कौर ।
 जाति को है ठोकर पै ठोकर लगति जाति
 काठ सी कठोरता पुकारति है और-और ॥
 'हरिऔध' करन कठिन ठकठेनो काल
 ठुकराई ठकुराइन हैं ठाढ़ी पौर-पौर ।
 है न वह ठाट वह ठसक न वह टेक
 ठिटके दिखात ठूठे ठाकुर हैं ठौर-ठौर ॥ २ ॥

तावा के समान है तपत उर तापचारो
 गरम हमारो लोहू सियरो भयो नहीं ।
 पीर लहि मुख पियरानो पीर वारन को
 वदन दिखात तबौं पियरो भयो नहीं ॥
 'हरिऔध' जोहि-जोहि निरजीव जीवन कौ
 जीवन-बिहीन मीन जियरो भयो नहीं ।
 जाति दूक-दूक भई दूकौ ना मिलत साँगे
 दूक-दूक तऊ हाय हियरो भयो नहीं ॥ ३ ॥

नाविक जो नाविकता-नियम विसारि वैहै
 वनि वीर वीरता-विरद जो न बरिहै ।
 नाव को सवार ही जो कहै छेद नाव माहिं
 सकल बचाव के उपाव ते जो अरिहै ।
 'हरिऔध' वहि-वहि प्रबल विरोध-वायु
 वार-वार पथ जो उबार को बिगरिहै ।
 कैसे जाति-उपकार-पोत मँझधार परो
 आपदा-अपार-पारावार पार करिहै ॥ ४ ॥

मर्मवेध

मुनिन-सरोज को दिनेस अथयो अकाल
 गुनिन-कुमुद-चंद राहु-मुख परि गो ।
 'हरिऔध' ज्ञानिन को चितामनि चूर भयो
 मानिन-प्रदीपहूँ को तेज सब हरि गो ॥
 पारस हेराइ गयो हीन-जन-हाथन को
 भारती को प्यारो एकलौतो तात मरि गो ।
 सागर सुखानो आज संतजन-मीनन को
 दीनन को हाय देव-पादप उखरि गो ॥ ५ ॥

सवैया—

वाँ सरोस कवाँ कहिकै हित सौँ कबहूँ समझाइबो तेरो ।
 मेरे घने अपराधन को बहु ब्योत बनाइ दुराइबो तेरो ॥
 कोह किये कपटी 'हरिऔध' के रंचकहूँ न रिसाइबो तेरो ।
 मारिबो पी कौ न सालत है पर सालत सौत बचाइबो तेरो ॥ ६ ॥

दोहा—

खोले ना अँखिया खुलति बनि दुखिया है मूक ।
 होति बिपत्ति बतिया सुने छतिया नाहिं छ दूक ॥ ७ ॥

मनमानी किये कबौँ मानिहौँ मनाये नाहिँ
 बड़े-बड़े मानिन को मान मोरि दैहौँ मैं ।
 प्रतिकूल परम-प्रबल-दल-पोत काँहिँ
 निज बल-वारिधि मैं बोरि-बोरि दैहौँ मैं ॥
 'हरिऔध' गारिहौँ गरब मगरुरिन को
 बड़े दगादार को तगा लौँ तोरि दैहौँ मैं ।
 गाल मारिहै तो अरि-गाल फारि मोद पैहौँ
 आँख दिखराइहै तो आँख फोरि दैहौँ मैं ॥ ३ ॥

आग वरसाइहौँ अरिन के अगारन मैं
 गरल सुधारस-सरोवर मैं घोरिहौँ ।
 बाँके-बाँके बीरन को बीरता बिगारि दैहौँ
 छिति के छितिप की छितिपता को छोरिहौँ ॥
 'हरिऔध' तेह भये पूरिहौँ पयोनिधि को
 बड़े-बड़े तरु को तिनूका सम तोरिहौँ ।
 फोरिहौँ गिरिन को उतारि लैहौँ तारन को
 रवि को बिथोरि दैहौँ ससि को निचोरिहौँ ॥ ४ ॥

सवैया—

सूधियै नोकी लगै सबको भला बंकरा भौँहन को कत दीजत ।
 नूतन लालिमा लाभ किये कत गोल कपोल की है छबि छीजत ॥
 चूक परी न चलै 'हरिऔध' पै नाहक ही इतनो कत खीजत ।
 बाल हौँ योँहीं निहाल भई अब लाल कहा अँखियान को कीजत ॥ ५ ॥

दोहा—

चिनगी लाइ चितै-चितै हरहिँ चारु चित-चैन ।
 दहत नेह की देह हैं तेह-तये तिय - नैन ॥ ६ ॥

मनमानी किये कबौँ मानिहौँ मनाये नाहि
 बड़े-बड़े मानिन को मान मोरि दैहौँ मैं ।
 प्रतिकूल परम-प्रबल-दल-पोत काँहि
 निज बल-वारिधि मैं बोरि-बोरि दैहौँ मैं ॥
 'हरिऔध' गारिहौँ गरब मगरूरिन कौ
 बड़े दगादार कौ तगा लौँ तोरि दैहौँ मैं ।
 गाल मारिहै तो अरि-गाल फारि मोद पैहौँ
 आँख दिखराइहै तो आँख फोरि दैहौँ मैं ॥ ३ ॥

आग वरसाइहौँ अरिन के अगारन मैं
 गरल सुधारस-सरोवर मैं घोरिहौँ ।
 बाँके-बाँके बीरन को बीरता बिगारि दैहौँ
 छिति के छितिप की छितिपता को छोरिहौँ ॥
 'हरिऔध' तेह भये पूरिहौँ पयोनिधि कौ
 बड़े-बड़े तरु को तिनूका सम तोरिहौँ ।
 फोरिहौँ गिरिन को उतारि लैहौँ तारन को
 रवि को विथोरि दैहौँ ससि को निचोरिहौँ ॥ ४ ॥

सवैया—

मूधियै नोकी लगै सबको भला वंक्रता भौँहन को कत दीजत ।
 नूतन लालिमा लाभ किये कत गोल कपोल की है छबि छीजत ॥
 चूक परी न चलै 'हरिऔध' पै नाहक ही इतनो कत खीजत ।
 बाल हौँ योँहीं निहाल भई अब लाल कहा अखियान को कीजत ॥ ५ ॥

दोहा—

चिनगी लाइ चितै-चितै हरहिं चारु चित-चैन ।
 दहत नेह की देह हैं तेह-तये तिय - नैन ॥ ६ ॥

रिसहूँ मैं सरसत रहत बरवस वनत रसाल ।
ललना-लोचन लाल है लालहिं करत निहाल ॥ ७ ॥

५—उत्साह

✓ शूरा, दान और दया से उत्पन्न हुई प्रबल इच्छा के आविर्भाव को 'उत्साह' कहते हैं। बल, विद्या, प्रताप, दयालुता, दान-सामर्थ्य, कार्यकारिणी शक्ति और धर्म-उद्रेक इसके आधार हैं।

कवित्त—

✓ जागि-जागि केहूँ जे न जागहिं जगाइ तिनै
सूखी धमनीन मैं रुधिर-धार भरिहौं ।
सुधरि सुधारि कै समाजहिं उधारि लैहौं
परम-अधीरता निवारि धीर धरिहौं ॥
'हरिऔध' उवरि उवारि वरिहौं विभूति
वीरता अवीरता अवनि मैं वितरिहौं ।
घोड़ दैहौं कुजन-सयंक को कुञ्जक-पंक ✓
जानि-भाल-अंक को कलंक सब हरिहौं ॥ १ ॥

वास-हीन विरस असंयत सनेह कौहिं
वासवारे-सुमन-सुवास सो बसैहौं मैं ।
✓ सकल सुपास सुख-संचन कसौटिन पै
रंच न सकैहौं चाव-कंचन कसैहौं मैं ॥
'हरिऔध' जाति-हित करि हारिहौं ना कवौं
बैर-धूरि कौहिं वारि-पात है नसैहौं मैं ।
विबिध विरोध-वारिनिधि वारि को सुधारि
वारिधर की-सी वारिधारा बरसैहौं मैं ॥ २ ॥

पीछे जो हटेंगे तो पगन काँहिं पंगु कैहौं
 कर जो कपेंगे तो करन को कटैहौं मैं ।
 छिल्लि जैहै जो न जाति-उर के छनन ते तो
 छल-धाम छाती काँहिं छलनी बनैहौं मैं ॥
 'हरिऔध' जो न कढ़ि पैहैं चिनगारियाँ तो
 लोचनता लोचनन केरि छीनि लैहौं मैं ।
 भीति ते भरैगो तो रहैगो भेजो भेजो नाहिं
 काँपिहै करेजो तो करेजो काढ़ि दैहौं मैं ॥ ३ ॥

सवैया—

पारि सकौं अपने परपच की बेरी परीनहूँ के बर पायन ।
 आनि सकौं ससिहूँ को कला अपने कल कौसल और उपायन ॥
 कामिनि कौन तिहूँ पुर मैं 'हरिऔध' हौं जाकौ सकौं अपनायन ।
 आन तियान की बात कइ ठगि लाऊँ कहो दिवि की ठकुरायन ॥४॥

दोहा—

छै उछाह-कर वनत है मरु-छिति छविमय कुंज ।
 कनक कनकता लहत है रजत होत रज पुंज ॥ ५ ॥
 उर उमगे उधरति धरा नभ विचरत नभ-यान ।
 नख पै ते गिरि नहिं गिरत जल पै तिरत पखान ॥ ६ ॥

६—भय

अपराध, भयकर शब्द, विकृत-चेष्टा और रौद्रमूर्ति जीवादि द्वारा जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसका नाम 'भय' है ।

कवित्त—

संका की चुरैल है बनावति दुचित्त-चित्त
 भूत-अभिभूत भाव उर को गयो नहीं ।
 भूरि भीरुता है होति भीति-अनुभूति ही ते
 भरि जात जी मैं कब भभर नयो नहीं ॥

‘हरिऔध’ पात खरकत है कँपन गात
 कव छिति माहिं छोभ रहत छयो नहीं ।
 उभय नयन माँहिं भय अजहूँ है भरो
 सभय हमारो मन, अभय भयो नहीं ॥ १ ॥

काको चार बाँह है बड़ो है बलवान कौन
 का न हमें बीरता-विभूति को सहारो है ।
 काहें फिर अरि अवलोकत वजत दाँत
 काहें भून-अभिभूत होत भाव सारो है ॥
 ‘हरिऔध’ काहें रोम-रोम है भभर-भरो
 काहें भीति-पूरित विलोचन को तारो है ।
 धरकत उर काहें खरकत पात ही के
 थर-थर काहें गात काँपत हमारो है ॥ २ ॥

सवैया—

हाँस-भरी गगरीन भरे हौं चली हरुये ‘हरिऔध’ हेरी ।
 बावरो वानर औचक आइ गह्यो अँचरा मग मैं अरि एरी ॥
 काँपि उठी भभरी चली भाजि हौं टूटी गिरे गगरी सिर केरी ।
 बीर अजौ वतिया न कढ़ै धरकी छतिया रतिया भर मेरी ॥ ३ ॥

दोहा—

है न देस हित भय भरो है न भयावह बात ।
 उभरि-उभरि कत चित्त तू भभरि-भभरि भजि जात ॥ ४ ॥
 भव-जन-मानस भय-भरे क्यों न भभरि भहराहिं ।
 है न भूत-भावन-भजन भूत-भावन माँहिं ॥ ५ ॥

७—जुगुप्सा

किमी अपराध के हृदय में उदय होने, किसी दोष के स्मरण करने, घृणित वस्तु के देखने, छूने और किमी नारकीय जन की बातों के सुनने से जो मनो-विकार उत्पन्न होता है उसे 'ग्लानि' अथवा 'जुगुप्सा' कहते हैं ।

कवित्त—

चेरो हों न तेरो, तेरो मोलहूँ लियो हों नाहिं
 तानिहै हमें तो हों तिगूनो तोहि तानिहों ।
 नीचपन कैहै तो नचैहों तो कौ नाना नाच
 साँच तजे काँच इतनौ ना सनमानिहों ॥
 'हरिऔध' वदि-वदि वाद जो बढ़ैहै मोसों
 वादी के समान तोको बढ़ तो बखानिहों ।
 मान करिहों ना, मान कीनेहूँ मनैहों नाहिं
 एरे मन तेरी मनमानी मैं न मानिहों ॥ १ ॥

चित्त की अबलता अबलता रही तो कबों
 कैसे जर सबल सबलता की खनि है ।
 ताब-हीन तन जो बनैगो ताबवारो नाहिं
 कैसे तो न तमकि तमकवारो तनिहै ॥
 'हरिऔध' कैसे जाति धँसिहै धरा मैं नाहिं
 मानस-अधीर जो न धीरता मैं सनिहै ।
 कैसे दूरि ह्वैहै बैरि-बिबिध-विरोध-धूरि
 आँसुन की धारा बारि-धारा जो न बनिहै ॥ २ ॥

पंच बनि वधिक-विपंची के करत काम
 कव परपंची ह्वै प्रपंच मैं फँसे नहीं ।
 बोरि-बोरि बारि मैं तगा के सम तोरि-तोरि
 छोरि-छोरि बंधन गये कव कसे नहीं ॥

‘हरिऔध’ मुख-लाली रगत न लाली रवि
 कव भाल-अंक के कलंक सो लसे नहीं ।
 धीरता रही न डूवी धरम-धुरीनता है
 उधरी धरा न पै धरा में तो धसे नहीं ॥ ३ ॥

कहा दुख पावै पछतावै अकुलावै महा
 नैनन ते नीर कौन काज ढारियत है ।
 स्रौन-से सपूत के नसे ते कौन प्रान राखै
 याते ऐसी इनकी दसा निहारियत है ॥
 ✓ ‘हरिऔध’ भली भई जो पै अंध दियो साप
 पापिन के ऐसे ही प्रमाद टारियत है ।
 तू तो इतनाहूँ ना विचाखो मन परे मूढ
 तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है ॥ ४ ॥

दोहा—

✓ कैसे करुनाकर कहाँहैं करहु कृपा की कोर ।
 चित आकुल है जान है चितवत अपनी ओर ॥ ५ ॥
 पावन चित में बहत है परम अपावन सोत ।
 कैसे मुख साँहैं करहिँ मुख साँहैं नहिँ होत ॥ ६ ॥

८—आश्चर्य

विस्मयजनक पदार्थों के देखने, अलौकिक सामर्थ्य-संपन्न विभूतियों के अवलोकन करने अथवा उनका वर्णन सुनने वा उन्हें स्मरण करने से जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसका नाम ‘आश्चर्य’ है ।

कविच—

गगन के न्यारे-न्यारे तारन-कतार देखे
 करत कलोल देखे मीनन कौ जल मैं ।
 रतन-अमोल अवलोके रतनाकर मैं
 जगमग जोति देखे जगत अनल मैं ॥
 'हरिऔध' काको चित चकित वनत नाहिं
 लाल-लाल फूल देखे हरे-हरे दल मैं ।
 घहरत कारे-कारे घन की घटा निहारि
 छहरत छाई छटा देखे छिति-तल मैं ॥ १ ॥

विपुल-विनोद सो कढ़े हैं दत दारिम के
 बिहँसि रही है चाँदनीहूँ निसिकंत की ।
 कल-कंठ कौसल सों करत मधुर-गान
 थिरक रही है कला मदन-महंत की ॥
 तेरी ही अनूठी छटा हेरि 'हरिऔध' प्यारे
 कलित कलीन को ठनी है विकसंत की ।
 भौर-भीर भौरै भरत उनमत्त हूँ कै
 फूली आज मंजु फुलवारी है बसंत की ॥ २ ॥

तेरी ही कला ते कलानिधि है कला-निधान
 है सकलि तेरी केलि कलित पतंग मैं ।
 गुरु-गिरि-गन हैं तिहारी गुरुता के लहे
 पावन-प्रसंग है तिहारो पूत 'संग मैं ॥
 'हरिऔध' तेरी हरियाली ते हरे हैं तरु
 तू ही हरि विहर रह्यो है हर अंग मैं ।
 तेरो रंग ही है रंग-रंग के प्रसूनन मैं
 तू ही है तरंगित तरंगिनी-तरंग मैं ॥ ३ ॥

भव-बारि-बाह-व्यूह-बूँद-सी वसुंधरा है
 नाना-वायु नाना-वायु-मंडल सहारे हैं ।
 आकर अनंत है अनंत हैं निसाकरहूँ
 रस-रासि-रस ते सरस रस-सारे हैं ॥
 'हरिऔध' मिल्यो ना अपार-पारावार-पार
 सीमित असीम की असीमता ते हारे हैं ।
 प्रभु मंजु-तेज को विकास है पतंग-पुंज
 विभु-तनु-तोयधि-तरंग नभ-तारे हैं ॥ ४ ॥

सवैया—

मंद ही मद सुगौन के सूरज चंद्र हैं मौन तुमैं निरधारै ।
 कानन को तनहूँ सदा सौँवरे तोको अनंत अंचित उचारै ॥
 धीर-पयोधिहूँ 'औध-हरी' मरजाद सो तोको गभीर पुकारै ।
 सीतल या मलयानिलहूँ श्रवनी-तल तेरो प्रताप पसारै ॥ ५ ॥

दोहा—

देखत ही कितनो गुनो लोचन तिल ह्वै जात ।
 कैसे नभ तारन-सहित तारन मॉहैं समात ॥ ६ ॥
 सरसित मानस मैं बहे सरस प्रेम-रस सोत ।
 गागर मैं सागर भरत गागर सागर होत ॥ ७ ॥

६—निर्वेद (शम)

विशेष ज्ञान द्वारा सांसारिक विषयों में विराग—क्षर-भंगुर पदार्थों को देख-कर हृदय में त्याग का विकास—होने से जो एक प्रकार का मनोविकास उत्पन्न होता है उसका नाम 'निर्वेद' है ।

कविच—

कुसुमाकर सदा ना वनत कुसुमाकर है
 बारिद सदैव बारिधारा ना बहत हैं ।
 सब दिन ललित दिखात नाहिं लोनी लता
 लहलहे तरु ना सदैव उलहत हैं ॥
 'हरिऔध' कौन काल-कवलित होत नाहिं
 मदा कल-नाद कल-नादी ना लहत हैं ।
 फली-फूली बेली फूली-फूली ही लखात नाहिं
 फूल-फूले फूलहूँ न फूले ही रहत हैं ॥ १ ॥

गारी दै दै गजव गुजारत गरीबन पै
 ऐसो मन गौरव गुमान गरस्यो परै ।
 लोभ बढ़े पूजित पिता औ प्यारे तात हूँ को
 प्रान लेत तनकौ न प्रीति परस्यो परै ॥
 मरबस और को हरत 'हरिऔध' भाखै
 सदा उर सौगुनो सनेह सरस्यो परै ।
 जीवन अदीरघ भयेहूँ देखो देहिन मैं
 कैसो दीह-दुसह-दिमाग दरस्यो परै ॥ २ ॥

दौरि-दौरि दीनता दिखावत दिमागिन को
 दीह-दुख होत है दया-निधि के टेरे मैं ।
 आपनी भलाई को भरोसो भूतभैरव सों
 तेरो भाव होत भूत-भावन न मेरे मैं ॥
 'हरिऔध' तीनों लोक प्रकट-प्रताप तऊ
 कैसहूँ न पूरन-प्रतीति होति तेरे मैं ।
 मूरज उगेहूँ तम ब्रूमत चहूँघा नाथ
 मूरुत नमोकौ आँखि आछत उँजेरे मैं ॥ ३ ॥

माधुरी परी है मंद कमनीय कंदहूँ को
 मिमिरीहूँ विमरि गई ना रही काम की ।
 मूखी ऊख निपट निकाम हूँ गयो मयूख
 गरिमा नसी है आमहूँ-से रम-धाम की ॥
 'हरिऔध' दाख फूटी आँख सों न देखी जाति
 गोरसहूँ गुरुता गँवाई गुन-ग्राम की ।
 चीनी बसुधा मैं हूँ गई है औगुनी तो कहा
 सौगुनी सुधा सो है मिठाई हरि-नाम की ॥ ४ ॥

पाहन भये पै चाहे पद-रज प्रेमिन को
 विहग भये पै वमें वदनीय वन में ।
 फल-फूल परमै पगन पादपादि भये
 पसु भये पावै थान संतन-सदन में ॥
 'हरिऔध' कीट भये काहूँ भानि भावै तोहि
 नर भये तेरो पूत-ग्रम रमै मन में ।
 जाने कहा योग औ जुगुत एक जानै तोहि
 जीवितेस जाइ जौन योनि माँहि जनमें ॥ ५ ॥

सवैया—

मूलि कै औरन की सुधि अंध हूँ जाकी मुगध पै भौर लुभानो ।
 मंसु के सीस पै जो विलस्यो 'हरिऔध' जू जाते सरो सरसानो ॥
 त्यो सुखमा कहि जाकी अजौँ मनहूँ ना कवीनहूँ को अकुलानो ।
 सोई सरोरुह धूर भरो परो भू पै गरो वगरो कुम्हिलानो ॥ ६ ॥

दोहा—

धोखो है, काको विभव, है काको यह भौन ।
 है काको यह धन, धरा, अहै धराधिप कौन ॥ ७ ॥

अरत रहत विगरत बनत लरत-भिरत करि रार ।
 कत सोचत नहिँ वावरे है जीबो दिन चार ॥ ८ ॥
 है घन-छाया ओस-कन है तरु पीरो पात ।
 तू का है कितनो अहै कत इतनो इतरात ॥ ९ ॥
 धूलि माँहिँ रावन मिल्यो गई रसातल लंक ।
 कहा कलंकित होत कोउ सिर पर लेइ कलंक ॥ १० ॥
 का धन, का जन, का विभव, का महि, का परिवार ।
 मपने की संपति अहै सब आहार बिहार ॥ ११ ॥

संचारी भाव

जो भाव रस के उपयोगी होकर जल के तरंग की भाँति उममें सचरण करते हैं उनको 'संचारी भाव' कहते हैं। ऐसे भावों की संख्या तैत्तिरीय क्रमशः उनका उल्लेख किया जाता है—

१—निर्वेद

विपत्ति, ईर्ष्या और ज्ञानादि के कारण अपने शरीर अथवा सासारिक विषयों में जो विराग भाव उत्पन्न होता है उसे 'निर्वेद संचारी' कहते हैं। दीनता, चिंता शून्यता, विवर्णता, उच्छ्ववास, आकुलता आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

भूलि ना निहारें पर-नारि ए हमारे नैन
 रूखे वैन भाग्यन ते रसना भगी रहै ।
 पर-अपवाद सो न कान हित राखैं कवौं
 मान-ममता में मेरी मति ना पगी रहै ॥
 'हरिऔध' चित ना प्रपंचन सो प्यार राखैं
 सदाचार-संचन में मुरुचि जगी रहै ।
 मगन सदा ही रहै मनुआँ हमारो राम
 पगन निहारे मेरी लगन लगी रहै ॥ १ ।

सवैया—

कारज सीस को होत सबै पद-पंकज की रज को अपनाये ।
 स्वारथ होत हैं नैन दोऊ छवि साँवरी सूरत की दिखराये ॥
 पातकी कान पुनीत बनैं 'हरिऔध' की प्यारी कथान सुनाये ।
 पावन होति है जीह अपावन भावन सों हरि के गुन गाये ॥२॥
 पाप ही में सब जन्म गयो हित सों न कवौं हरि के गुन गाये ।
 नेह कियो पर-नारिन सों जग-वंचन को बहु बेस बनाये ॥

मूठ कझो 'हरिऔध' सदा सव काज किये अपने मन भाये ।
 क्यों अजहूँ नहिँ चेतत मूढ़ चिता पर पौढ़न के दिन आये ॥३॥
 खोट कियो कितनो हित पेट के कूर कमीनन को सँग दीनो ।
 पीर-सी होन लगी उर जो 'हरिऔध' कहूँ नवला लखि लीनो ॥
 ताप भयो पर को हित देखत पाप में वीति गयो पन तीनो ।
 ना करनी करनीन कियो कवहूँ करुनाकर याद न कीनो ॥४॥

दोहा—

मन नू कन भटकत फिरत विपिन बबूरन माँह ।
 तजि बहु-फलद मुकुंद-पद कलित-कलपतरु-झाँह ॥ ५ ॥
 कामिनि सुत हित नात सो कहा जुरन जिय जात ।
 भजन देहिँ बल-तात के ए न चरन-जलजात ॥ ६ ॥

२—ग्लानि

मनस्ताप, श्रम, दुःख, लोभ आदि से उत्पन्न हृदयजनित विकलता, शिथिलता
 अथवा असहनशीलता को 'ग्लानि' कहते हैं । इसके लक्षण कार्य करने में अनु-
 त्साह, घृणा, उपेक्षा आदि हैं ।

कवित्त—

हहरत हियरो अधिक अधमाई हेरि
 हहरन वाको कै जुगुत कौन हरिये ।
 मेरो वार-वार अहै विविध-विकार-भरो
 होवै क्यों उवार बार-बार क्यों उवरिये ॥
 'हरिऔध' पातकी है पातक-पयोधि परो
 कैसे पाप-पीनता ग्लानि ते न गरिये ।
 सौहैं करि कहत रिसौहीं अखियान देखि
 सौहैं होत नाहिँ कैसे सौहैं मुँह करिये ॥ १ ॥

पामर है पामरता-पुंज के पयोनिधि है
 प्रकटत रहत प्रभाव पुरहूती के ।
 परम अबुध है विबुधता दिखावत है
 कायर है बरत विरद रजपूती के ॥
 'हरिऔध' जाति-भाल-अंक है कलंक-भरो
 धूत है कै बसन रखत अबधूती के ।
 पूत को है पूत पै अपूत-पाग मै है पगो
 बनत सपूत काम करत कपूती के ॥ २ ॥

सवैया—

मोल हे जैसे जवाहिर को यह जानत जौहरी ना बनजारो ।
 रीति कुलीन की जानै कुलीन ही ना 'हरिऔध' कबौं चरवारो ॥
 क्यों इतनो विलपै-कलपै जो कियो पहिले अरि कै पतियारो ।
 रे मन कूर न तोसों कही कब नंद-कुमार है कामरीवारो ॥ ३ ॥

३—शंका

बहुत बडे अनिष्ट अथवा इष्ट-हानि के विचार को 'शंका संचारी' कहते हैं । इसके लक्षण विवर्णता, कंप, स्वरभंग, इधर-उधर दृष्टिपात करना, मुँह सूखना आदि हैं ।

कवित्त—

आँखि जो न खुली तो बिगरि जैहै सारो खेल
 खलता सफलता की खाल खिंचवाइहै ।
 काल हैहै कलह विवाद विकराल हैहै
 बिन जैहै बाल-बाल बैर अधिकाइहै ॥
 'हरिऔध' जान जो न ऐहै तो अजान जन
 जीवन-विहीन जाति-जीवन बनाइहै ।
 भरत कुमार भेट हैहै महा-भारत की
 भारत की भूमि भारतीयता गँवाइहै ॥ ४ ॥

सूखतो न बदन विकंपित न गात होतो
 हाथ-पाँव चलतो प्रगति अनुसरती ।
 जाति-हित-रत हँ बिहित-रुचि-पत्त होते
 वनति बनाये वात कीरति पसरती ॥
 'हरिऔध' चित की न चेतनता दूर होति
 परम अधीर मति धीर क्यों न धरती ।
 भय भूत करतो प्रभूत अभिभूत नाहिँ
 शंका की चुरैल जो चुरैलता न करती ॥ ५ ॥

सवैया—

मुख कैसे दिखैहौं सहेलिन को उनकी दिसि कैसे कहो चहिहौं ।
 यह सील की वानि हमारी जरौ अब गारी हजारनहूँ सहिहौं ॥
 मोहि बेर बड़ी 'हरिऔध' भई कव लौं या निकुंजन में रहिहौं ।
 कढ़िहौं किमि गैल मैं गोकुल की कोऊ पूछिहै तो हौं कहा कढ़िहौं ॥१॥

४—असूया

दूसरे के उत्कर्ष का असहन और उसके हानि पहुँचाने की इच्छा को 'असूया' कहते हैं । दोषकथन, भृकुटिभग, तिरस्कार और क्रोध आदि इसके साधन हैं ।

कवित्त—

कहा भयो जो है मधु-माधव-सनेही महा
 का भयो जो सौरभ-समूह-सहचर है ।
 का भयो जो परम-रसिक है रसालता को
 का भयो जो कामुक सु-कुसुम-निकर है ।
 'हरिऔध' कहा भयो जो है कल-गान-कारी
 का भयो जो पद्मिनी को प्रेमिक प्रवर है ।
 तन कारो मन कारो रंग कारो रूप कारो
 परम नकारो यह कारो मधुकर है ॥ १ ॥

होवै काम-कमनीय मोहक मयंक सम
 होवै मधु-सरिस मधुरता वितरतो ।
 साहवी सुरेस-सी धनिकता धनेस की-सो
 धर्मराज जैसो धर्म-भाव होवै घरतो ।
 'हरिऔध' होय सुरगुरु-सम गौरवित
 महिमा त्रिदेव-सी मही मैं होवै भरतो ।
 माननीय होवै पै अमाननीयता है इती
 मानव है मानवी को मान है न करतो ॥ २ ॥

सवैया—

मंजु मनोहरता कल-कीरति-बेलि सदा अरवनी महेँ बोतो ।
 रूप-अनूपमता 'हरिऔध' निहारि कोऊ सुख-नींद न सोतो ।
 साँची कहाँ मधुराई लखे मम आननहँ अपनी पत खोतो ।
 मानती हौँ हूँ तिहारी कही जो मयंक मैं बीर कलंक न होतो ॥ ३ ॥

दोहा—

होवै दल कोमल कलित सब फल भरे पियूख ।
 हौंय फवीले फूलहूँ तऊ रुख है रुख ॥ ४ ॥

• ५—श्रम

अधिक कार्य करने अथवा मार्ग चलने आदि से उत्पन्न शैथिल्य (थकान)
 का नाम 'श्रम' है । इसके लक्षण साँस फूलना, नींद आना, पसीना निकलना
 और आलस्य आदि हैं ।

कवित्त—

आँखि मूँदि परे हूँ उठायेहूँ उटहिं नाहिं
 छाले भरे पग छाँह छोरि-छोरि छके हैं ।
 दूर है अवास, बास-थल है न बास जोग,
 थोरो रहथो दिन पास रहे नाहिँ टके हैं ॥

हरिऔध' होति है सरीर माँहिँ पीर घनी
 पीरे परे ऐसे मानों पान-दल पके हैं ।
 कुपथ विपथ की कथानहूँ कहहिँ नाँहिँ
 चले कौन पथ क्यो पथिक ऐसे थके हैं ॥ १ ॥

सवैया—

मुख पै श्रम के कन छाये अहँ खुलि गालन पै अलकैँ हैं परी ।
 सिथिलाई भई सब-अंगन मैं कुम्हिलाई लसै मनोँ फूल-छरी ॥
 निरखो 'हरिऔध' चहूँघा लखै अलबेली अजौँ अलसान-भरी ।
 मन-मारे सहारे तमालन के बन-बीथिन मैं थकी प्यारे खरो ॥२॥

दोहा—

ओस-भरित-तरु-पात लौ सेद-सलिल-मय-गात ।
 बतरावत है विपथ-गत थकित-पथिक की बात ॥ ३ ॥
 विधु-बदनी के बदन पै है बिळसत श्रम-बिदु ।
 कियोँ सुधा-सीकरन-मय है राका-निसि-इंदु ॥ ४ ॥
 सेद सवै कर पग कँपै बनै सिथिल-तन छाम ।
 तजत काम वारो नही तऊ आपनो काम ॥ ५ ॥
 मलिन बनै छिदि भिदि नुचै श्रम-कर ते तन-ग्रंथ ।
 छोरत नहिँ पूरो पथिक पंथ रुकेहूँ पंथ ॥ ६ ॥

✓ ६-मद

जिसमे मोह के साथ आनद का मिश्रण हो, उस दशा को 'मद' कहते है, मद-पान इसका साधन है। इसके लक्षण अनर्गल प्रलाप, अनुचित बर्ताव, आरक्त नयन, मुस्कान मे विशेष मधुरता, वक्रोक्ति मे रमणीयता आदि हैं। किसी-किसी ने मद पचारी मे धन, यौवन, रूपादि के अभिमान (मद) को भी माना है।

लसित नवल - लतिकान सी बहु - लालसा उमंग ।
 दलित होति किमि, नहीं दलत जो मद-समद-मतंग ॥ ५ ॥
 अनुचित उचित विचार करि चित न कौन अकुलात ।
 गौरव गिरि पै होत लखि पल-पल मद-पवि-पात ॥ ६ ॥
 जा मैं लसत कुलालसा कला - कलित - सुख - सोम ।
 तामस - मानस - गगन - गत - मद है वह तम तोम ॥ ७ ॥
 वर - रस - कामुक कहि सके जाहि न कवौ रसाल ।
 अकमनीय - मन - विपिन को है मद वह तरु-ताल ॥ ८ ॥

७-धृति

तत्त्वज्ञान, साहस, सत्संग आदि के प्रभाव से विपत्ति-काल में अविचलित-चित्त होना 'धृति' कहलाता है। तृप्ति, चित्त की स्थिरता, धीरता, बुद्धि की गहनता इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

तमके गगन-तल के तारन को तोरि लैहै
 उमगे तरंगमान-तोयधि को तरिहै ।
 उचके चकित कैहै चंद्र को खेलौना करि
 सपरे स-कौतुक तरनि-तेज हरिहै ॥
 'हरिऔध' कहा धाक बाँधि कर पैहै नाहिँ
 धीर जो अधीरता बिहाइ धीर धरिहै ।
 लपके कचरि चूर करिहै हिमाचल को
 पके पाकसासन को पकरि पछरिहै ॥
 तोर-सम-सिसिर-समीर बेधि दैहै नाहिँ
 मंद-मंद-मलय-पवन पुनि बहिहै ।
 कारे-कारे-तोयद-कतार दिखरैहै नाहिँ
 भाग-नभ हँसत-बिमल-बिधु लहिहै ।

लमित नवल - लतिकान सी बहु - लालसा उमंग ।
 दलित होति किमि, नहिँ दलन जो मद-समद-मतंग ॥ ५ ॥
 अनुचित उचित विचार करि चित न कौन अकुलात ।
 गौरव गिरि पै होत लखि पल-पल मद-पवि-पात ॥ ६ ॥
 जा मैं लसत कुलालसा कला - कलित - सुख - सोम ।
 तामस - मानस - गगन - गत - मद है वह तम तोम ॥ ७ ॥
 बर - रस - कामुक कहि सके जाहि न कवौँ रसाल ।
 अकमनीय - मन - विपिन को है मद वह तरु-ताल ॥ ८ ॥

७-धृति

तत्त्वज्ञान, साहस, उत्सव आदि के प्रभाव से विपत्ति-काल में अविचलित-चित्त होना 'धृति' कहलाता है। तृप्ति, चित्त की स्थिरता, धीरता, बुद्धि की गहनता इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

तमके गगन-तल के तारन को तोरि लैहै
 उमगे तरंगमान-तोयधि को तरिहै ।
 उचके चकित कैहै चंद्र को खेलौना करि
 सपरे स-कौतुक तरनि-तेज हरिहै ॥
 'हरिऔध' कहा धाक बाँधि कर पैहै नाहिँ
 धीर जो अधीरता बिहाइ धीर धरिहै ।
 लपके कचरि चूर करिहै हिमाचल को
 पके पाकसासन को पकरि पछरिहै ॥ १ ॥
 तोर-सम-सिसिर-समीर बेधि दैहै नाहिँ
 मंद-मंद-मलय-पवन पुनि बहिहै ।
 कारे-कारे-तोयद-कतार दिखरैहैं नाहिँ
 भाग-नभ हँसत-बिमल-बिधु लहिहै ।

‘हरिऔध’ आकुल अनाकुल विपुल हैंहे
 दुख-नूल-पुंज को अदुख-दावा वहिहै ।
 प्रतिवृलता में अनुकूलता निवास कैहै
 काल पाके काल की करालता न रहिहै ॥ २ ॥

म्वैया—

पास परोसिन आइ नितै परतीन को नाना-कथान को जोरै ।
 बात चले सखियाँ मिगरी परदेस गये की दिखावत खोरै ॥
 नेह रगवै ‘हरिऔध’ नहीं अपनायतहूँ ते सदा मुख मोरै ।
 लाला रहै पतिऔ की तबों पति को पनिनी परतीत न छोरै ॥३॥
 हे दुख औ सुख दोऊ जहान में कोऊ नहीं दुख-ही-दुख पैहै ।
 वीति गये अधियारो निसा ‘हरिऔध’ दिवाकर होत उदै है ।
 क्यो इतनो मन आतुर होत है औसर पै सब ही बनि जैहै ।
 पीतम को मुखचद लखे फिर या दुखिया अखिया सुख पैहै ॥४॥

दोहा—

भये तिरोहित रजनि - तम रजित गगन दिखात ।
 पल-पल आकुल ह्वै विपुल तू अलि कत अकुलात ॥ ५ ॥
 रहिहै चोरत कव तलक घन तेरो चित - चोर ।
 चौंकि चौंकि चितवत कहा चारो ओर चकोर ॥ ६ ॥

द—आलस्य

श्रुति और जागरणादि-जनिन निश्चेष्टता तथा सामर्थ्य होने पर भी उत्साह-
 हीनता को ‘आलस्य’ कहने है । पंड रहना, जंभाई लेना, एक जगह बैठे रहना
 आदि इसके लक्षण हैं ।

कवित्त—

आँखि अवलोकिहूँ सकत अवलोकि नाहीं
 कान चाव साथ बात कान है न करतो ।

बचन उचारत बिरस रसना है होति
 मन है न बहुत उभारेहूँ उभरतो ॥
 'हरिऔध' आलस रमित रोम-रोम मैं है
 उर मैं उमंग है न मंजु भाव भरतो ।
 हाथ पर हाथ धरे वासर वितीत होत
 परि-परि भूतल पै पाँव है न परतो ॥ १ ॥

पलक उठति तो न पल मैं पतन होतो
 तिल जो तुलत हानि होतो क्यो अतुलतो ।
 चलति चलाये जो न तन-कल काहिली के
 कैसे बन जात कांति-हीन कांत-कुल तो
 'हरिऔध' होतो जो न आलस लिलार-लिपि
 कैसे तो हमारो ना कलंक-अंक धुलतो
 मुँह जो खुलत तो अभाग खुल खेलतो क्यो
 आँख जो खुलति भाग कैसे तो न खुलतो ॥ २ ॥

सवैया—

अरुनाई अकास मैं छाई लखाति दिवाकर हूँ निकरोई चहै ।
 'हरिऔध' गुलाब-कलीहूँ खिली सुखदाइनि-सोरो-त्रयार बहै ।
 परी सेज कहा अंगिरात जम्हात तू लोयन को उठि लाह लहै ।
 पलकैं न खुलैं अलकैं बिथुरी इतनी क्योँ अली अलसानी अहै ॥ ३ ॥

दोहा—

तव कैसे उठि कछु करहिँ चलहिँ फिरहिँ कहुँ जाहिँ ।
 जब पग - पग पै पग अरत परत परगहूँ नाहिँ ॥ ४ ॥

८-विषाद

इष्ट न प्राप्त होकर अनिष्ट होने से जो दुःख अथवा उमायाभाव के कारण पुरुषार्थ-हीनता जन्य जो मानसिक कष्ट होता है, उसको 'विषाद' कहते हैं । इसके लक्षण निश्वास, उच्छ्वास, मनोवेदना आदि हैं ।

कवित्त—

पकि पकि रहिहैं पकरि कै करेजो कौ लौं
 कलपि-कलपि कौ लौं वासर बिनाइहैं ।
 को लौं विधवा-पन-वधिक वेधि-वेधि वैहै
 कौ लौं वेभो वनि-वनि विपुल विलखाइहैं ।
 'हरिऔध' कौ लौं अनुकूल-काल पैहैं नाहिं
 कौ लौं कालिमा के लगे पलक न लाइहैं ।
 कौ लौं हैहैं बलि बलवान-रुचि-वेदिका पै
 भारत की बाला कौ लौं अबला कहाइहैं ॥ १ ॥

करि-करि कलह कलंकित करत कुल
 सबल-करन लाभ कर बने लूले हैं ।
 फल की है चाह पै सफलता मिलति नाहिं
 फूले-फूले फिरत अजों न फले-फूले हैं ।
 'हरिऔध' मोचि-सोचि व्यथित वनत चित
 बिललात रहत विलात ज्यो बलूले है ।
 लाले परे सुख के, कसाले सहे, भाले, सहे
 भोलेपन माहिं भोले-भाले हिदू भूले हैं ॥ २ ॥

सवैया—

अनजानता जोहि कै या जग की नित जीवन के दिन जोरै लगी ।
 अपमान औ मान की बात कहा है अपानहूँ ते मन मौरै लगी ॥
 'हरिऔध' अमोही भये अखियान के आँसुन हूँ को निहौरै लगी ।
 तन की सुधि होति नहीं तन कौ अब तो बन के तृन तोरै लगी ॥३॥

दोहा—

है वाके हित तिमिरमय आज अवनि सब ओक ।
 लोक समालोकित हुतो लहि जाको आलोक ॥ ४ ॥

बहु ललकित लोचन हुतो हेरि जेहि कलित-केलि ।
है विदलित भूतल परी वह अलबेली बेलि ॥ ५ ॥

१०-मति

भ्रान्ति का कारण रहते भी यथार्थ जान बना रहना 'मति' है । इसके लक्षण मुस्कुराहट, धैर्य, सतोष और आत्मावलवन है ।

कवित्त —

लाल हैं कै काहू के बिलोचन न काल होते
छिने मुँह-कौर ना करेजो कोऊ छिलतो ।
कुचित, कुतेवर, बनावतो दुचित नाहिँ
कहत उचित बातहूँ ना मुँह सिलतो ।
'हरिऔध' सदन सदन सुखसाज होतो
बदन सरोज मंद-मंद हँसि खिलतो ।
प्रेम होतो कैसे तो न मिलते मिलाये मन
मेल होतो कैसे तो न मेल-फल मिलतो ॥ १ ॥

पावन परम कैसे बनतो अपावन तो
भेद जो पतित-जन-पावन को जानतो ।
रहतो अकाम तो सकामता सतावति क्यो
कैसे कुसुमायुध कुसुम-सर तानतो ।
'हरिऔध' कुमति बनति कमनीय कैसे
मतिमानता को जो सदैव सनमानतो ।
ममता मनन की जो होति मनमानी छोरि
मानव को मन तो मनाये क्यों न मानतो ॥ २ ॥

सवैया—

लोग भले ही सिकोरिकै आपनी भौंहन काहिँ लखावैं कलंकहिँ ।
कामी कुसंगी निसाचर हूँ अनुमानि सदा कितनो किन संकहिँ ।

याही भाँति अन्न भाव रहै जो अभाव भरो
कैसे पेट भूरि-भूखे भारत को भरिहै ॥ २ ॥

दोहा—

लोल लोचनन को किये ललना परम अलोल ।
कहा करति है कल्पना कर पर रखे कपोल ॥ ३ ॥

१२—मोह

भय, दुख, श्वराहट और भ्रमजनित चित्त की साधारण अचेतनता और भ्रांति को 'मोह' कहते हैं । इसके लक्षण मूर्छा, अज्ञान, पतन, सिर घूम जाना आदि हैं ।

कवित्त—

छिति-छवि-पुंजता अमोल-मुकुतावलि को
मंजु-दृग-तारन मैं पोहत रहत है ।
मलय-अनिल नभ-तल-नीलिमा मैं लसि
चित्त चोरिवे को पंथ जोहत रहत है ।
'हरिऔध' चारुता-निकेतन-मयंक माहिँ
तारन-कतारन मैं सोहत रहत है ।
होवै महा-महिम महान मतिमान होवै
काको मन मोह नाहिँ मोहत रहत है ॥ १ ॥

प्रेमी-जन कैसे प्रेम-पथ को पथिक होतो
प्रेम के हिंडोरे माहिँ प्रेमिका क्यों भूलती ।
दीपक पै गिरिकै पतंग क्यों दहत गात
मृगी क्यों बधिक की बधिकता कबूलती ॥
'हरिऔध' मोहकता होति जो न मोह माहिँ
मोहित करति क्यों लवंग-लता फूलती ।
बँधि-बँधि कोमल कमल के उदर माहिँ
मधुप-अवलि क्यों मधुपता को भूलती ॥ २ ॥

याही भाँति अन्न भाव रहै जो अभाव भरो
कैसे पेट भूरि-भूखे भारत को भरिहै ॥ २ ॥

दोहा—

लोल लोचनन को किये ललना परम अलोल ।
कहा करति है कल्पना कर पर रखे कपोल ॥ ३ ॥

✓ १२—मोह

भय दुख, धवराहट और भ्रमजनित चित्त की साधारण अचेतनता और भ्रांति को 'मोह' कहते हैं । इसके लक्षण मूर्छा, अज्ञान, पतन, सिर घूम जाना आदि है ।

कवित्त—

✓ छिति-छवि-पुंजता अमोल-मुकुतावलि को
मंजु-दृग-तारन मैं पोहत रहत है ।
मलय-अनिल नभ-तल-नीलिमा मैं लसि
चित्त चोरिवे को पंथ जोहत रहत है ।
'हरिऔध' चारुता-निकेतन-मयंक माहिं
तारन-कतारन मैं सोहत रहत है ।
होवै महा-महिम महान मतिमान होवै
काको मन मोह नाहिं मोहत रहत है ॥ १ ॥

प्रेमी-जन कैसे प्रेम-पथ को पथिक होतो
प्रेम के हिडोरे माहिं प्रेमिका क्यो भूलती ।
दीपक पै गिरिकै पतंग क्यो दहत गात
मृगी क्यो बधिक की बधिकता कबूलती ॥
'हरिऔध' मोहकता होति जो न मोह माहिं
मोहित करति क्यो लवंग-लता फूलती ।
बँधि-बँधि कोमल कमल के उदर माहिं
मधुप-अवलि क्यो मधुपता को भूलती ॥ २ ॥

दोहा—

देह गेह को नेह तजि चित-आकुलता रोकि ।
 ललना है ललकति रहति लाल-बदन अबलोकि ॥ ३ ॥
 नयनन ते सूभत नही मुँह में रहे न दाँत ।
 अपनो तन अपनो नहीं मनको मोह न जान ॥ ४ ॥

११—स्वप्न

निद्रा में निमग्न पुरुष के विषयानुभव करने का नाम 'स्वप्न' है । इसका व्यापार कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख से पूर्ण होता है ।

कवित्त—

धोखे को महल कैसे मिल जातो धूर माहिं
 मति की तुला पै कोरी वंचना क्यों तुलती ।
 खोलते तो कैसे समाधान-नख-कमनीय
 पल-पल बहु कलकानि गाँठ धुलती ।
 'हरिऔध' कैसे चित्रकारी सपने को सब
 लहिकै विबोध-वारि-धर-धारा धुलती ।
 भेद खुल गये सारो खेल कैसे खेल होतो
 जो न खुल जाति आँखि आँखि कैसे खुलती ॥१॥

आये कंत गात कछु अंक अबलोकन कै
 मान मन ठानि उठि कंठ सो लगायो ना ।
 सहमि सकानो खरो हेरत पिया को हेरि
 जिय कै कठोर दया हिय मैं बसायो ना ।
 प्रानाग्यारो परस्यो पगन 'हरिऔध' पै
 तऊ न पतियाई औ सुबोलहूँ सुनायो ना ।
 सपनो समझि सब अपनो नसायो चैन
 नैन के खुले पै आली बैन कहि आयो ना ॥ २ ॥

सवैया—

रोगन मोगन भोगन में परि, तापन ते तिगुनो तपनो है ।
हैं अपने अपने हित के हित कौन हितू जग में अपनो है ।
औधि को भूलत क्यों 'हरिऔध' तू साँस के नापन को नपनो है ।
कोऊ सजीवन को लौं जिआइ है जीवन जीवन को सपनो है ॥३॥

दोहा—

सुख-मय दुख-मय भूति-मय सरस विरस बहुरूप ।
सपने की संपति सरिस है संसार सरूप ॥ ४ ॥
सब कछु है कछु है नही अवलोकन भर सार ।
अपनो है अपनो नही है सपनो संसार ॥ ५ ॥

✓ १४-विबोध

निद्रा दूर करनेवाले कारणों से उत्पन्न चैतन्य-लाभ को 'विबोध' कहते हैं। इसके लक्षण जर्भाई, अंगड़ाई, आँख खोलना, अगों का अवलोकन करना आदि होते हैं।

कवित्त—

भाग-भाग कहि सो बनैगो कैसे भागवारो
भभरि-भभरि जो अभाग ते है भागतो ।
जो है लोक-सेवा की लगन नाहिँ साँची लगी
कैसे लाभवारो ह्वै है लोगन की लागतो ।
'हरिऔध' नाना-अनुराग को कहा है फल
देस-राग में है जो न मन अनुरागतो ।
कहा जागि कियो कहा लाभ है जगाये भयो
जागे हूँ जो जी मैं जाति-हित है न जागतो ॥ १ ॥

वीर जन-बीरता बसुंधरा-विबोधिनी है
साहसी ही साहस दिखाइ होत आगे हैं ॥

सबल के सामने सरोवर पयोनिधि है
 सावधान सामने धरनि-धुरे धागे हैं ।
 'हरिऔध' सारी सिद्धि तिनकी सहोदरा है
 सिद्ध-पाग में जो सच्ची साधना के पागे हैं ।
 भाग जागे भू मैं कौन भोग भोग पाये नहीं
 जाग गये जग में न काके भाग जागे हैं ॥ २ ॥

दोहा—

खुलत न आँखे अधखुलो वार-वार अंगिरात ।
 जगत जगाये क्यों नहीं रही नहीं अब रात ॥ ३ ॥
 फिरत तमीचर देखियत है तम चारो ओर ।
 जागहु-जागहु जगत-जन मूस रहे हैं चोर ॥ ४ ॥

१५—स्मृति

सदृश वस्तु के अवलोकन तथा चिंतन, विहार-स्थल के परिदर्शन आदि से जो पूर्वानुभूत बात याद हो जाती है, उसे स्मृति' कहते हैं । इसके लक्षण चाचल्य और भौह चढ़ाना आदि होते हैं ।

कवित्त—

वीरता रही न वंदनीयता बिलोप भई
 सदा के सपूत हैं कपूत निवहत हैं ।
 देवराज देखि सुख जिनको सिहात हुतो
 वेई आज सारी दैव साँसत सहत हैं ।
 'हरिऔध' विधि-अविधान को कहाँ लौं कहै
 अविधि-प्रवाह माँहि विबुध बहत हैं ।
 चारो फल लहि जे सफल लोक-पाल हुते
 तिनके सल्लोने लाल लोन ना लहत हैं ॥ १ ॥

जहाँ हुती एकता, विबुधता विराजमान
 तहाँ वैर, कलह, विवाद को बसेरो है ।
 जहाँ हुतो विमल-विचार-विधु को विकास
 तहाँ छल-कपट-सघन घन घेरो है ।
 'हरिऔध' विगरे अतीत वैभवन हेरि
 वार-वार उर होत व्यथित-घनेरो है ।
 वंस-अचेतनता विलोकि चारु-चेतन को
 चेत करि वनत अचेत चित मेरो है ॥ २ ॥

सवैया—

थे हमहूँ कबौँ लोक-ललाम लौँ लोक-ललामता के रखवारे ।
 कोमलता-कमनीयता-लालित गात-मनोहरता मतवारे ॥
 भाल के अंक रहे भव के 'हरिऔध' रहे दिवि-देव-दुलारे ।
 लाल रहे कमला-कल-अंक के भूतल-भारती लोयन-तारे ॥३॥

दोहा—

सुख लालित कलरुचि कलित कुलकलंक के काल ।
 कबहूँ हमहूँ लोक के रहे अलौकिक लाल ॥ ४ ॥
 कबौँ न हम ऐसे हुते बोध-विहीन बराक ।
 बँधी धरा-तल धाक ते बँची नाक-पति नाक ॥ ५ ॥

✓ १६—अमर्ष

दूसरे के अहकार को न सहकर उसके नष्ट करने की कामना, अथवा आक्षेप और अपमानजन्य चित्तविक्षेप का नाम 'अमर्ष' है। आँखों में लाली, शिरकंप, भ्रूभंग और तर्जन आदि इसके लक्षण हैं ।

कवित्त—

भूतल जो भव की बिभूति को दुराइहै तो
 बिगरि बिगरि ताको बारिधि में बोरिहौँ ।

१७-गर्व

अपने प्रभाव, ऐश्वर्य विद्या तथा कुलीनता आदि का अहंकार करना, अन्य से अपने को अधिक मानना 'गर्व' कहलाता है। अन्य में तुच्छ दृष्टि, अविनय, ओष्ठ का कंपन, अंगुष्ठ का अनुचित रीति से दिखलाना आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

लोक-हित-सुरसरि-सलिल सनेही महा
जाति-हित-पूत वेदिका को वर-बलि है।
देस-सेवा-नव-मेघ-माला को मुदित-मोर
कुमति - मलिन - महि - पादप अवलि है।
'हरिऔध' रस-मान-सर को मराल-मंजु
भाव-सर-बारिजात कल्पना को कलि है।
ललना ललित-चरितावलि को लोलुप है
कविता-कलित-कुसुमावलि को अलि है ॥ १ ॥

सवैया—

है धन गो-धन मंजुल-मंदिर है सजो सेज औ साज-सँवारे।
चाव है चारु, बिचार हैं सुंदर भावुकता भरे भाव हैं सारे।
मो सम कौन सुखी 'हरिऔध' है हैं ललना दृग-लोल हमारे।
है लली लोयन की पुतरी बनी लाल बने अहैं लोयन-तारे ॥२॥
पंखी बताइ हँसी करै हंस की केहरि को है पसून मैं लेखो।
मंजुल मानै न मीनन को 'हरिऔध' बखानै न बारिज बेखो।
आपने रूप ही को उपमा करै और की चाहै न राखन रेखो।
दाग को दोख दिखावत चंद मैं या तरुनी को दिमाग तो देखो ॥३॥

दोहा—

है ऐसी कमनीयता नहीं कनकाचल माँहिं।
भारत - भूतल - रज - सरिस है रजताचल नाहिं ॥ ४ ॥

१७-गर्व

अपने प्रभाव, ऐश्वर्य विद्या तथा कुलीनता आदि का अहकार करना, अन्य से अपने को अधिक मानना 'गर्व' कहलाता है। अन्य में तुच्छ दृष्टि, अविनय, ओष्ठ का कपन, अगुष्ट का अनुचित रीति में दिखलाना आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

लोक-हित-सुरसरि-सलिल सनेही महा
जाति-हित-पूत वेदिका को वर बलि है।
देस-सेवा-नव-मेघ-माला को मुदित-मोर
कुमति - मलिन - महि - पादप अवलि है।
'हरिऔध' रस-मान-सर को मराल-मंजु
भाव-सर-वारिजात कल्पना को कलि है।
ललना ललित-चरितावलि को लोलुप है
कविता कलित-कुसुमावलि को अलि है ॥ १ ॥

सवैया—

है धन गो-धन मंजुल-मंदिर है सजो सेज औ साज सँवारे।
चाव है चारु, बिचार हैं सुंदर भावुकता भरे भाव हैं सारे।
मो सम कौन सुखी 'हरिऔध' है हैं ललना दृग लोल हमारे।
है लली लोयन की पुतरी बनी लाल बने अहैं लोयन-तारे ॥२॥
पंखी बताइ हँसी करै हंस की केहरि को है पसून मैं लेखो।
मंजुल मानै न मीनन कौ 'हरिऔध' बखानै न बारिज बेखो।
आपने रूप ही को उपमा करै और की चाहै न राखन रेखो।
दाग को दोख दिखावत चंद्र मैं या तरुनी को दिमाग तो देखो ॥३॥

दोहा—

है ऐसी कमनीयता नहिं कनकाचल माँहिं।
भारत - भूतल - रज - सरिस है रजताचल नाहिं ॥ ४ ॥

१६—अवहित्य

भय, लज्जा और गौरवादि के कारण अपनी अवस्था अथवा किसी बात को छिपाना 'अवहित्य' कहलाता है। इसके लक्षण बात बराना, दूसरी ओर देखना, अनभीष्ट कार्य में प्रवृत्त दिखाना आदि हैं।

सवैया—

मानत हार हैं हार भये पर पै मन मैं अनुमानत जीतै ।
हैं हरुओ पर चाहत हैं सुनो औरन ते गरुओपन गीतै ।
प्रीति को वानो रखै 'हरिऔध' पै पावत मोद किये अनरीतै ।
आँख चुरावत राति सिराति है बात बरावत बासर बीतै ॥१॥

दोहा—

कुल-ललना सकुची सहमि मिले नैन ते नैन ।
मुँह के मुँह में ही रहे कहे अधकहे बैन ॥ २ ॥
चित-चंचलता देखि कै पिय - चंचल - दृग माँहिँ ।
लागी गिनन कमल-मुखी केलि - कमल-दल काँहिँ ॥ ३ ॥

२०—दीनता

विविध दुःख तथा विरह आदि के कारण चित्त के ओज-रहित होने का नाम 'दीनता' है। खिन्नता, मलिनता, साहस-हीनता आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

मानत न मन मनमानी ही करत नित
तनहूँ हमारो नाहिँ बस मैं हमारो है ।
बहु दुख बार-बार दुखित बनावत है
दारिद्र-दमामो-दीह बाजत दुआरे है ।

१६—अवहित्य

भय, लज्जा और गौरवादि के कारण अपनी अवस्था अथवा किसी बात को छिपाना 'अवहित्य' कहलाता है। इसके लक्षण बात बराना, दूसरी ओर देखना, अनभीष्ट कार्य में प्रवृत्त दिखाना आदि हैं।

सवैया—

मानत हार हैं हार भये पर पै मन मैं अनुमानत जीतै ।
हैं हरुओ पर चाहत हैं सुनो औरन ते गरुओपन गीतै ।
प्रीति को वानो रखै 'हरिओध' पै पावत मोद किये अनरीतै ।
ओखि चुरावत राति सिराति है बात बरावत बासर बीतै ॥१॥

दोहा—

कुल-ललना सकुची सहमि मिले नैन ते नैन ।
मुँह के मुँह में ही रहे कहे अधकहे बैन ॥ २ ॥
चित-चंचलता देखि कै पिय - चंचल - दृग माँहिं ।
लागी गिनन कमल-मुखी केलि - कमल-दल काँहिं ॥ ३ ॥

२०—दीनता

विविध दुःख तथा विरह आदि के कारण चित्त के ओज-रहित होने का नाम 'दीनता' है। खिन्नता, मलिनता, साहस-हीनता आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

मानत न मन मनमानी ही करत नित
तनहूँ हमारो नाहिं बस मैं हमारै है ।
बहु दुख बार-बार दुखित बनावत है
दारिद्र-दमामो-दीह बाजत दुआरे है ।

‘हरिऔध’ मान महनीयता को देत नाहिं
 मति कमनीयता ने रहति किनारे है ।
 दीनबंधु तो सों दीनबंधु कौन दूसरो है
 दीनता हमारी दीनबंधुता महारे हे ॥ १ ॥

कैसे मुख जोहतो सुजनता-विमुख-जन को
 नष्टन दुमह कैसे वार-वार सहतो ।
 कर जोरि-जोरि क्यों निहोरतो अनेहिन को
 तेहिन के तेह की तरंग मैं क्यों बहतो ।
 ‘हरिऔध’ कैसे बलवानन की बलि होतो
 कैसे खल - गौरव के रौरव मैं रहतो ।
 दयानिधि तू जो दयानिधिता दिखावतो तो
 कैसे दीन दीनता - द्वागिनि मैं दहतो ॥ २ ॥

दोहा—

निरखि निरखि निज दीनता क्यों न दीन विलगवाहिं ।
 दीनबंधु मैं देखियत दीनबंधुता नाहिं ॥ ३ ॥
 दीनबंधु कौ दीन को बंधु जानि मन माहिं ।
 नित फूले-फूले फिरत पै फल पावत नाहिं ॥ ४ ॥

२१—वृष

इष्ट की प्राप्ति ने चित्त को जो आनंद होता है उसे ‘वृष’ कहते हैं । इसके
 नक्षत्र गद्गद स्वर, पुलकावलि, उत्फुल्लता आदि हैं ।

कवित्त—

मन के विलास ही ते ललित विलासिता है ।
 मन सुधा-धार ही सुधानिधि मैं वही है ।
 मन-रस ही ते है रसिकता सरस होति
 मन-माधुरी ते रुचि माधुरी की रही है ।

‘हरिऔध’ मंजु मन ही है मंजुता को मूल
 लोने-मन ही ते लता लोनी लहलहो है ।
 मन के प्रमोद ही ते दिसा है प्रमोदमयी
 मनोमोद ही ते मोदमयी सारी मही है ॥ १ ॥

सवैया—

मोहन मोहमयी मुरली सुनि मोहित ह्वै तिय है सुधि खोती ।
 मोदमयी व्रतिया उर-भूमि मैं है वर बीज विनोद के बोती ।
 हेरि मनोहरता ‘हरिऔध’ की नैनन ते वरसावति मोती ।
 लालन को अलकावलि को लखि है तन मैं पुलकावलि होती ॥ २ ॥

दोहा—

ललकित-पुलकित-नयन ते करि रस-पान अथोर ।
 हँसत निरखि नभ-चंद्र को है बिहँसत मन-मोर ॥ ३ ॥
 किलकत हँसत ललकि - ललकि जात जननि की गोद ।
 मोद होत काको नही निरखत बाल-विनोद ॥ ४ ॥

कवित्त—

✓ कोमल-कलित-कंठ-गान ते निहाल होत
 सुनि वर वादन विनोदित रहत है ।
 अबलौकि लोने लाल ललना-ललाम-मुख
 प्रति-पल पुलक-प्रवाह मैं बहत है ।
 ‘हरिऔध’ भागवान चौगुनो-उमाह-भरो
 चंद्र चोदनी को चाहि-चाहि उमहत है ।
 पुलकित वनत बिलौकि विटपावलि को
 मोद कुसुमावलि ते बिपुल लहत है ॥ ५ ॥

काहे घूँघट खोलि कै नहिँ करि लेति निहाल ।
लालन - लोयन - ललक को कत ललकावति बाल ॥ ५ ॥

२३—उग्रता

स्वार्थ, रोष तथा अपराधादि के कारण उत्पन्न हुई निर्दयता और चंडता का नाम 'उग्रता' है। इसके लक्षण शिरकंपन, तर्जन-गर्जन और ताड़नादि हैं।

कविच-

भारत को जन भरि-भरि भारतीयता में
जा दिन उभरि जाति-भीरुता भगाइहै ।
भूरि-भाग बनि भूति मान ह्वैहै भूतल में
सकल-भुवन काँहिँ भवन बनाइहै ।
'हरिऔध' साहस दिखाइहै तो सारो लोक
सहमि-सहमि सारी सूरता गँवाइहै ।
डोलि जैहै आसन महेस कमलासन को
सासन बिलोकि पाकसासन सकाइहै ॥ १ ॥

दीन-दुख देखि-देखि दुखत करेजो नाहिँ
दूनो दाम माँगहिँ दुखन की दवाई के ।
औरन को गरु दाबि-दाबि गरुआई गहैं
पोर-पोर मैं हूँ भरे भाव करुआई के ।
'हरिऔध' कूरन की कूरता कहा लौँ कहै
चित्त ना कसहिँ काम करहिँ कसाई के ।
पेरि-पेरि औरो पीर देहिँ पीरवारन को
पिसे काँहिँ पीसि पैसे माँगहिँ पिसाई के ॥ २ ॥

दोहा—

कोऊ चित मम चैन को पीसि-पीसि है जात ।
जो पाहन होतो न तो पाहनपन न लखात ॥ ३ ॥

काहें घूँघट खोलि कै नहिँ करि लेति निहाल ।
लालन - लोयन - ललक को कत ललकावति बाल ॥ ५ ॥

२३—उग्रता

स्वार्थ, रोष तथा अपराधादि के कारण उत्पन्न हुई निर्दयता और चडता का नाम 'उग्रता' है। इसके लक्षण शिरकपन, तर्जन-गर्जन और ताडनादि हैं।

कवित्त—

भारत को जन भरि-भरि भारतीयता मैं
जा दिन उभरि जाति-भीरुता भगाइहै ।
भूरि-भाग वनि भूति मान ह्वैहै भूतल मैं
सकल-भुवन काँहिँ भवन बनाइहै ।
'हरिऔध' साहस दिखाइहै तो सारो लोक
सहमि-सहमि सारी सूरता गँवाइहै ।
डोलि जैहै आसन महेस कमलासन को
सासन बिलोकि पाकसासन सकाइहै ॥ १ ॥

दीन-दुख देखि-देखि दुखत करेजो नाहिँ
दूनो दाम माँगहिँ दुखन की दवाई के ।
औरन को गरौ दाबि-दाबि गरुआई गहँ
पोर-पोर मैं हँ भरे भाव करुआई के ।
'हरिऔध' कूरन की कूरता कहा लौँ कहै
चित्त ना कसहिँ काम करहिँ कसाई के ।
पेरि-पेरि औरो पीर देहिँ पीरवारन को
पिसे काँहिँ पीसि पैसे माँगहिँ पिसाई के ॥ २ ॥

दोहा—

कोऊ चित मम चैन को पीसि-पीसि है जात ।
जो पाहन होतो न तो पाहनपन न लखात ॥ ३ ॥

तिनके मानस देखियत कालहुँ चाहि कराल ।
निज लालन के हित हनहिं जे औरन के लाल ॥ ४ ॥

२४—निद्रा

परिश्रम, क्लान्ति, ग्लानि और मादक-द्रव्य-सेवन आदि मे उत्पन्न चित्त के बाह्य विषयो से निवृत्ति का नाम 'निद्रा' है । इसके लक्षण जँभाई, अँख मँचना, उच्छ्वास और अँगड़ाई लेना आदि हैं ।

कवित्त—

✓ अलसात, जात, अंग तोरि-तोरि अँगिरात
बहुत जम्हात रात बीति गई सारी है ।
बुरे-बुरे सपन बिलोकि कै बिकल होत
सुरति भये हूँ नाहिं सुरनि मँभारी है ।
'हरिऔध' काहू के जगाये हूँ जगत नाहिं
बिपुल पुकारे हूँ न पलक उधारी है ।
अधखुली अँखिन को खोलि-खोलि मूँद लेत
खुलि-खुलि अँखि नाहिं खुलति हमारी है ॥ १ ॥

✓ खोलत न मुख देह गेह की नही है सुधि
सूरज उगे हूँ सारी सुरति बिगोये हैं ।
हिलत न डोलत न बोलत बुलाये नेक
होत न सचेत अचेतनता समोये हैं ।
'हरिऔध' हारि गयो उठत उठाये नाहिं
कहा काहू वेदना ते राति भर रोये हैं ।
खुलि-खुलि केहूँ नींद खुलि है सकति नाहिं
कव के उनीदे हैं कि ऐसी नींद सोये हैं ॥ २ ॥

सवैया—

मोपै न मंत्र प्रयोग भयो कोऊ मोहि डस्यो न भुअंगम कारो ।
भूत की बाधा न मोपै भई नाहीं वावरो-सो भयो चित्त हमारो ।
तू उपचार के व्योत करै कहा जानै कहा 'हरिऔध' बेचारो ।
बान-सी मारि गयो उर मैं अरो बीर बड़ी-बड़ी आँखिनवारो ॥३॥

दोहा—

सारे सुख मैं बहत हैं विविध दुखन के सोत ।
है सब योग-वियोग-मय भोग-रोग-मय होत ॥ ४ ॥
सुख चाहे नाहीं सुख मिलत सहे बनत दुख-भोग ।
मेरो रोगी तन भयो कबहूँ नाहीं निरोग ॥ ५ ॥

२६—मरण

कारणविशेष से शरीर से प्राण-वायु निकल जाने का नाम 'मरण' है ।
इसके लक्षण श्वास-हीनता, निष्प्राणता आदि हैं ।

कवित्त—

काल-गति अवलोकि धरिबो धरा पै पग
कोरति कमाइबो है काल-बल हरिबो ।
लोक-पति-लाह अहै लहिबो अमर पद
लोमसता अहै लालसान ते उवरिबो ।
'हरिऔध' ह्वैबो बलि लोक-हित-वेदिका पै
मान के सहित जाति-मान रखि मरिबो ।
जीवन गँवाइ जीबो अहै जगती-तल मैं
अहै बसुधा-तल मैं सुधा-पान करिबो ॥ १ ॥
सकल मही-तल मैं महिमा-निकेतन की
महनीय-महिमा निहारि उमहत है ।

सवैया—

मोपै न मंत्र प्रयोग भयो कोऊ मोहि डस्यो न भुञ्जंगम कारो ।
भूत की वाधा न मोपै भई नहिं वावरो-सो भयो चित्त हमारो ।
तू उपचार के व्योत करै कहा जानै कहा 'हरिऔध' वेचारो ।
वान-सी मारि गयो उर मैं अरो वीर वड़ी-वड़ी अखिनवारो ॥३॥

दोहा—

मारे सुख मैं बहत हैं विविध दुखन के सोत ।
हैं सब योग-वियोग मय भोग-रोग-मय होत ॥ ४ ॥
सुख चाहे नहिं सुख मिलत सहे वनत दुख-भोग ।
मेरो रोगी तन भयो कबहूँ नाहिं निरोग ॥ ५ ॥

२६—मरण

कारणविशेष से शरीर से प्राण-वायु निकल जाने का नाम 'मरण' है ।
इसके लक्षण श्वाम-हीनता, निःप्राणता आदि हैं ।

कवित्त—

काल-गति अत्रलोकि धरिबो धरा पै पग
कोरति कमाइबो है काल-बल हरिबो ।
लोक-पति-लाह अहे लहिबो अमर पद
लोमसता अहे लालमान ते उवरिबो ।
'हरिऔध' हैबो बलि लोक-हित-वेदिका पै
मान के सहित जाति-मान रखि मरिबो ।
जीवन गँवाइ जीबो अहे जगती-तल में
अहे वसुधा-तल मैं सुधा-पान करिबो ॥ १ ॥
सकल मही-तल मैं महिमा-निकेतन की
महनीय-महिमा निहारि उमहत है ।

जल थल अनल अनिल को विकास बनि
 विकसित अबनि अकास मैं रहत है ।
 'हरिऔध' कर के निकर की बिभाकरता
 बारिधिता बूद की निवाहि उमहत है ।
 एकता बिचारि जग-जीव जग-जीवन की
 जीवन गँवाइ जन-जीवन लहत है ॥ २ ॥

दोहा—

वह न अमर है तो अहै अमर अमर-सम कौन ।
 जिअत मरत मरि-मरि जिअत जगती-तल मैं जौन ॥ ३ ॥
 परो काठ-सम तन रहत सुत तिय हा हा खात ।
 तजि धन जन प्यारो सदन प्रान कहुँ चलि जात ॥ ४ ॥

२७—अपस्मार

अवस्थाविशेष के कारण मिरगी-रोग के समान चित्त का विक्षेप होना 'अपस्मार' कहलाता है। भूमि पतन, कपन, प्रस्वेद, मुख से भाग और लार का निकलना इसके लक्षण हैं। भूतबाधा अथवा प्रयोग आदि के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है।

कवित्त—

बिधि-बामता है कै करालता कपाल की है
 किधौँ पाप-दव है प्रपंच-पूरि दहतो ।
 किधौँ फल अहै रुज विविध असंयम को
 कै है या मैं नियति-रहस्य कोऊ रहतो ।
 'हरिऔध' कछु भेद होत ना तो कैसे जीव
 कर पग पटकि दुसह-दुख सहतो ।
 धूल मैं लुठत कैसे कमल-मृदुल-तन
 फूल-जैसे आनन ते फेन कैसे बहतो ॥ १ ॥

सवैया—

कै अहिफेन भख्यो कै डँस्यो अहि भूत भिखो कै कहुँ भभरी है ।
 आनन ते बहु फेन बहावति कौपत गात बेहाल खरी है ।
 ए 'हरिऔध' जनात न का भयो सूखति जाति क्यो बेलि हरी है ।
 फूल-झरी-सम धूरि-भरी यह भूतल पै परी कौन परी है ॥२॥

दोहा—

खोये रतनन सुरति करि हहरत हा हा खात ।
 अवनि-लुठत कौपत. हिलत, फेनिल जलधि लखात ॥ ३॥
 कै दुख-बस महि परि कॅपति फेन तजनि अकुलाति ।
 कै मिरगी मुँह मैं परी है मृगदृगी दिखाति ॥ ४ ॥

२८—आवेग

अचानक इष्ट वा अनिष्ट की प्राप्ति में चिन्त की आतुरी को 'आवेग' कहते हैं। इसके आकुलता, स्तम्भ, कप, हर्ष और शोक आदि लक्षण हैं। इष्ट-जन्य आवेग में हर्ष और अनिष्ट-जन्य में शोक होता है।

कवित्त—

निज बेस बसन विसारिहूँ विराने बने
 बस होते बेबसी बितान क्यो तनत हूँ ।
 जानि जानि सकल-मजीवन जरी को गुन
 जीवन गँवाइ जाति-जर क्यो खनत हूँ ।
 'हरिऔध' सदा के चतुर चातुरी बिहाइ
 आतुर कहाइ आतुरी मैं क्यो सनत हूँ ।
 बावले कहावत क्यो बात बावलो-सी कहि
 क्यो करि उतावली उतावले बनत हूँ ॥ १ ॥

परग परग चले पारग पथो के होत
 थोरो-थोरो किये काम होत बहुतेरो है ।
 खिन-खिन मूखे मूखि जात है सरित-सर
 छिन-छिन छीजे छूटि जान घन-घेरो है ।
 'हरिऔध' पल-पल वीते राति वीति जात
 धीरे-धीरे दूर होत अवनि-अँघेरो है ।
 होत ना उवार तो उवार कहा है नार्हि
 कत अकुलात बार-बार मन मेरो है ॥ २ ॥

अकुलानि भरो माप-फन सहकारी भाव
 उर मैं उफान-जैसो कत उफनत है ।
 सारी साहसिकता क्यो सिकता-समान भई
 सूरता-बिहीनता मैं सूर क्यो सनत है ।
 'हरिऔध' धीर को तजति कत धीरता है
 बार-बार सुधि क्यो सिधारत अनत है ।
 पुरु के सरिस तरु कैसे सरु होत जात
 गिरि-ऐसो गरुओ क्यो हरुओ वनत है ॥ ३ ॥

सवैया—

छवि रावरी हेरि छबीली छकी सिगरे छल-छंदन छोरै लगी ।
 अलकावली लाल तिहारी लखे कुल-कानि हूँ ते मुख मोरै लगी ।
 'हरिऔध' निहारि कै नैन सुहावने देवन हूँ को निहोरै लगी ।
 तरुनाई तिहारी निहारि तिया उकतान-भरी तृन तोरै लगी ॥४॥

दोहा—

लखरात पग कर कँपत थरथरात है गात ।
 तितनी आकुलता बढ़ति जितनो जिय अकुलात ॥ ५ ॥

कत कछु को कछु है कहति कत अँगिराति जम्हानि ।
काहे चंचलता मयी चंचल-नयनि लखाति ॥ ६ ॥

२६—त्रास

किसी अहित भावना से हृदय में जो भय उत्पन्न होता है उसे 'त्रास' कहते हैं। कप, आकुलता, आशका आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

बनिकै अमर करि ममर बचैहौं मान
कसिकै कमर काम करिहौं अंगेजो मैं ।
यमदंड केरी दंडनीयता निवारि देहौं
करि देहौं खंड-खंड काल हूँ को नेजो मैं ।
'हरिऔध' कैसो त्रास त्राम मानिहौं ना कवौं
रहन न देहौं पाम भीति-भरो भेजो मैं ।
खरे ह्वैहैं रोम रोम-रोम तो उखारि देहौं
कॉपिहै तो रेजो रेजो करिहौं करेजो मैं ॥ १ ॥

दोहा—

है न देस - हित भय - भरो है न भयावह वात ।
उभरि-उभरि कत चित्त तू भभरि-भभरि भजि जात ॥ २ ॥
गिरनि उठति उठि-उठि गिरनि सिहरति भजति जम्हाति ।
कत भामिनि भय ते भरी भभरी भूरि दिखाति ॥ ३ ॥

३०—उन्माद

काम, शोक, भय आदिक के प्राबल्य से चित्त में जो एक प्रकार का विज्ञेय और व्यामोह होता है उसे 'उन्माद' कहते हैं। हँसना, रोना, गाना, व्यर्थ बकना आदि इसके लक्षण हैं।

कवित्त—

दुख के समूह ते करत हित-कामना है
 मोहित है मोह ते बजावत बधावरो ।
 वोभो राखि सीस पै विविध महवासिन को
 ढोअत है कंधन पै अंधन को काँवरो ।
 'हरिऔध' बनो घर वारन को घोरो रहै
 वनै कबौं भोरो कबौं गोरो कबौं साँवरो ।
 हारो हारो रहत सहारो है लहत नाहिँ
 रावरो बनत ना हमारो मन बावरो ॥ १ ॥

तूटे रहे मूठे मूठे भावन ते भोरे वनि
 तिनके अँगूठे देखे जो नित तने रहे ।
 जग को प्रपंच मानि छूटे ना प्रपंचन ते
 जाल तोरि-तोरि जाल जकरे घने रहे ।
 'हरिऔध' साँसन की आस को न आस मानि
 साँसत-समूह माँहिँ संतत सने रहे ।
 साँवरे बजत रहे वहँक बधावरे ही
 रावरे कहाये तऊ बावरे बने रहे ॥ २ ॥

दोहा—

बहु विरुभक्त वहँकत बकत बिगरत बनत विमोहि ।
 वार-वार मन बावरो करत बावरो मोहि ॥ ३ ॥
 रोवत गावत बहु हँमत रोभक्त खीभक्त जात ।
 वहँकत बिगरत बावरो बहरावत बतरात ॥ ४ ॥

३१—जड़ता

विवेकशून्य और किकर्तव्य-विमूढ चित्तवृत्ति को 'जड़ता' कहते हैं। इसके लक्षण टकटकी लगा के देखना, चुप होना, चलने फिरने में असमर्थ होना आदि हैं।

कवित्त—

जहाँ के तहाँ हैं परे कर पग अंगना के
 तन भयो काठ ना उधारति पलक है ।
 विपुल घुलति जाति हिलत-डुलत नाहिँ
 कलित कपोल पै न लुरति अलक है ।
 'हरिऔध' कहा भयो कहत वनत नाहिँ
 कामिनी को भई आज कौन-सी कलक है ।
 लोयन-ललक है कै भलक लगन की है
 छल है छलावा है कि छोह की छलक है ॥ १ ॥
 चलत न हाथ पाँव सुनन न कोऊ वात
 गुनति न आँखि गात-मुरति बिसारी है ।
 कहा होत अहै कहा हूँहै कहा कीबो अहै
 याहू को न ज्ञान मारी सुधि हूँ सिधारी है ।
 'हरिऔध' मूकता है मन मूक हूँ ते घनी
 मानो महामोह भये गई मति मारी है ।
 पाइकै सजीवता सजीव है वनति नाहिँ
 जीवन-दिहीन कैमी जड़ता हमारी है ॥ २ ॥

दोहा—

देह गेह के नेह ते साँसत सहत अतीव ।
 तऊ तजत जड़ता नहीं यह मेरो जड़ जीव ॥ ३ ॥
 चकित भई अचपल भये लोचन चपल रसाल ।
 चितै चितेरे को बनी चित्र-पूतरी वाल ॥ ४ ॥

~ ३२—चपलता

मत्सर, द्वेष, रागादि के कारण अनवस्था तथा अस्थिरता सहित कार्य करने को चपलता कहते हैं। इसके साधन धमकाना, कठोर शब्द कहना और उच्छृंखल आचरण करना आदि हैं।

कवित्त—

पल-पल दौरत करत मनमानो रहै
 जतन किये हूँ मोह मन को गयो नहो ।
 परि-परि बस माँहिँ ब्रासना विसासिनी के
 कव तन पापी नानाताप ते तयो नहीं ।
 'हरिऔध' हारि परे नेको हित होत नाहिँ
 कव मुख-चाह सुख चाहत नयो नहो ।
 बाल-मति आकुलता-अंचल तजत नाहिँ
 मेरो चित चंचल अचंचल भयो नहो ॥ १ ॥

बैरि-दल जाते वार-वार बलवारो बनै
 लोप होवै ऐसी लोक-लोपिनी अबलता ।
 दिन-दिन दूनो जाते दानवी-दमन होवै
 धूरि माँहिँ मिलै ऐसी मानवी सरलता ।
 'हरिऔध' जाते नर-विपुल विफल होवै
 धरा माँहिँ धँसै ऐसी सकल-विफलता ।
 जाते लहै चौगुनी विकलता विकल जन
 चूर-चूर होवै ऐसी चित्त की चपलता ॥ २ ॥

सवैया—

कुंज मैं राजति हो मुख-मंजु ते कै कल-कंजन को छवि औगुनी ।
 बात बहै तहाँ तौ लौं भई नहिँ जाहि रही मन माहिँ कबौं गुनी ।
 चौंकि परी 'हरिऔध' को चाहि उमाहि चली बनि आकुल-चौगुनी ।
 नौगुनी चावमयी-चपला भई लोचन-चंचलता भई सौगुनी ॥ ३ ॥

दोहा—

चाव भरे चित-चोर को लखि चितवत ललचात ।
 चंचल-नयनी को भयो चित चलदल को पात ॥ ४ ॥

चली जाति कल-कुंज में चौंकति खरके पात ।
चपला निज-गति-चपलने करि चपला को मात ॥ ५ ॥

३३—वितर्क

किसी प्रकार का विचार उठते ही चित्त में संदिग्ध भावों का उदय होना और इद कुतः में लग जाना तर्क कहलाता है। इसके लक्षण श्रुतिकुटि-भग, सिर हिलाना और उंगली उठाना आदि हैं।

कवित्त—

सुनि सुनि केहूँ हैं सुनत हित-बात नाँहि
जानि गुन-औगुन गुनन में न सने हैं ।
जिनही ते जान है परति जान-हीनन में
तिनकि तिनकि तनि तिनही ते तने हैं ।
'हरिऔध' का है ए हमारे आन-बानवारे
जड़ हैं कि जीवन-विहीनन के जने हैं ।
भोरे हैं कि चाहन उमाहन ते कोरे अहैं
कै हैं हर-बाहन कि पाहन के बने हैं ॥ १ ॥

जो मन हमारो सदा मानतो हमारी कही
परमत्रिमुख को तो मुख कैसे जोहते ।
जो न मति होति लुंज कैसे तो मनुज है कै
गुंजा-पुंज कोहिं मंजु मोतिन में पोहते ।
'हरिऔध' कामना रखति कमनीयता तो
कमनीय भाव कैसे उर में न सोहते ।
तेरी दया होति तो न दयनीय होते राम
तेरी मया होति तो न माया-मोह मोहते ॥ २ ॥

छिन छिन छीजत है जाति को छत्रीलो तन
 छूत-छात मैं परि अछूतो बल खवै गयो ।
 लाल ललना के छिने छतिया छिलति नाहिं
 पातक छछूंदर उछाहन को छै गयो ।
 'हरिऔध' काहें आँखि खोलेहूँ खुलत नाहिं
 गिरि-सम गौरव अगौरव मैं गवै गयो ।
 मति छरि गई कै उछरि कै चुरैल लागी
 सरि गयो भेजो कै करेजो रेजो है गयो ॥ ३ ॥

दोहा—

- ✓ पामर जन को है कहा पामरता पहचान ।
 पद पद पर हूँ पतित क्यों पैहै पद निर्वान ॥ ४ ॥
 नाहिं बोलत खोलत पलक तिय - तन डोलत है न ।
 लागी अहै चुरैल कै लगे नैन ते नैन ॥ ५ ॥

संस्कृत

विभाव

आलंबन विभाव

नायिका

जिस सुदरी स्त्री को अवलोकन कर हृदय मे शृंगार रस का संचार होता है उस रूपलावण्यवती युवती को नायिका कहते हैं। यथा—

कवित्त—

दीठ के परे ते गात-मंजुता मलिन होति
देखे अंग दलकहिँ दल सतदल के ।
कोमल कमल सेजहूँ पै ना लहति कल
भारी लगै बसन अमोल मलमल के ।
'हरिऔध' हरा पहिराये वपु-कंप होत
पायन में गड़हिँ बिछौने मखमल के ।
कुसुम छुये ते रंग हाथन को मैलो होत
छिपत छपाकर छवीली-छवि छलके ॥ १ ॥

अमल धवल चारु चाँदनी सरदवारी
आनन-उजास आगे लागति कपट सी ।
आतप की धापहूँ ते तन कुँभिलान लागै
देखि छवि नीकी जाति रतिहूँ रपट सी ।
'हरिऔध' कोमलता ऐसी कामिनी की अहै
पखुरी-गुलाव गात आवति उपट सी ।
नूतन प्रसून लौँ सुरंग अंग-अंग दीखै
कढ़त सरीर सो सुगंध की लपट सी ॥ २ ॥

चकित चितै कै चाव चौगुनो बड़ाइ चौकि
चित अनुमानि लाल भूल्यो चैन सुख है ।

फूलि उठे टग सखिन के छवि लखि देत असीस ।
 ह्वै सफूल दूनो फवत सीस-फूल तिय-सीस ॥ २ ॥
 फूल कहूँ फल कहूँ लगत यह बिपरीत महान ।
 सीस-फूल सों देखियत स-फल होहिँ अखियान ॥ ३ ॥
 सुर-पुर बसतहुँ लेत यह सुनासीर - मन खेंच ।
 परत सरासर पेच मैं लखि तेरो सरपेंच ॥ ४ ॥

माँग ✓

टग दुहूँन की देखियत बढ़त जाति नित माँग ।
 कहा माँगि नहिँ सकति मन-माँगनवारी माँग ॥ १ ॥
 रूप धरे अपनो दिपत अति-अनूप अनुराग ।
 सरस-सिँदूरवती नहीं यह युवती की माँग ॥ २ ॥
 पारि देत मन पेच मैं रच पेचीले स्वाँग ।
 नीकी-मुक्तावलि-वलि गज-गमनी की माँग ॥ ३ ॥

पाटी ✓

कब्रौं पटी नहिँ काहु की तिय-पाटी के साथ ।
 याहि अटपटी मैं किते पटकत पाटी माथ ॥ १ ॥
 पढ़ि बिधि की पाटी कहत जग-परिपाटी काँहिँ ।
 जो सुख पाटी सों पटे पाट ठटेहूँ नाँहिँ ॥ २ ॥

चोटी ✓

बिख सों कहु चढि जात सुनि या बेनी की बात ।
 लहर न आवत काहि लखि नागिनि सी लहरात ॥ १ ॥
 बिख वाके काटे चढ़त याके नेकु लखात ।
 क्यों बेनी सी औगुनी गिनी नागिनी जात ॥ २ ॥
 का अजगुत की बात जो मानव - हिय हरखात ।
 सुमन-सजी बेनी लखे सुमनस-जी न अघात ॥ ३ ॥

चित को बिचलावत चलत कुटिल चाल न लखात ।
 लखि बेनी व्याकुल बनो फिरत ब्याल बल खात ॥ ४ ॥
 कैसे कोऊ सहि सकै बेनी-बिख की ज्वाल ।
 विवर बसेहूँ नाहँ भयो गरल-विवरजित ब्याल ॥ ५ ॥

जूरा

पूरा बिखधर-फन दियो बिख-कूरा बतराय ।
 मन-अज्ञान तबहूँ जुरा वा जूरा सों जाय ॥ १ ॥
 तब जूरा को भेद तिय समुझि परत कछु नाहँ ।
 है छटाक - भरहूँ न पै मन बाँधत छन माहँ ॥ २ ॥
 जूरा बाँधन मैं कछु साधन और लखात ।
 कहूँ बँधनवारो न मन जहँ बरबस बँधि जात ॥ ३ ॥

अलक

भ्रमत इनै न बिलोकियत बन - बागन गुंजारि ।
 अलि-कुल अकुलाने फिरत अलकावली निहारि ॥ १ ॥
 पल - पल ललकत ही रहै लालन - लोयन दोय ।
 लखे आलुलायित अलक लालायित चित होय ॥ २ ॥
 कैसे कोउ मानव सकै निज मन-नैनन रोकि ।
 अलकावारेहूँ फँसहँ अलकावलि अवलोकि ॥ ३ ॥
 बँधत अरुभत ही रहत मिटत न मन को दंद ।
 जो छोखो जूरा पखो अलकावलि को फंद ॥ ४ ॥
 पान-काल जब चूकि कै लट-ब्यालिनि बल खाति ।
 जल-कन मिस मुख-ससि-सुधा बूँद-बूँद गिरि जाति ॥ ५ ॥
 लार बहावत नागिनी मुख-मयक - मधु - हेत ।
 टपकत अलकन ते न अलि यह जल-कन छवि देत ॥ ६ ॥

नेक नहीं मेरी सुनत हारि परे हम टेरि ।
 एरी क्यों लटि जात मन यह तेरी लट हेरि ॥ ७ ॥
 गति मन - नैनन की निरखि मति बतरावति मोहि ।
 ए जुलमैं परिजात हैं जुलमी जुलफन जोहि ॥ ८ ॥

केश

कवित्त—

मंजुल सिवार सुकुमार - पन्नगी - कुमार
 मेरे जान मखतूल-तारहूँ ते नीके हैं ।
 रस-धाम करै ए अकाम-मनहूँ को छाम
 तम ते बनाये बीछि काम-रमनी के हैं ।
 'हरिऔध' सरस-सिंगार-रस के हैं सार
 कारक - अपार-मोद सारी अरुनी के हैं ।
 घुघुरारे आनन-बगारे छविचारे प्यारे
 सटकारे कारे कारे-केस कामिनी के हैं ॥ ९ ॥

दोहा—

छहरत छाये छवा लौं छंद छगूने धार ।
 प्यारे - प्यारे छरहरे छविचारे ए बार ॥ १० ॥
 कारे - कारे चीकने सने - सनेह सु - देस ।
 मन अटकाये लेत हैं ए लटकाए केस ॥ ११ ॥
 बिन बूके सरवर करत तू बावरी बयार ।
 बिगरेहूँ बनतहिँ रहहिँ ए बगरे वर - बार ॥ १२ ॥
 मेरो मन सोचत निरखि कामिनि तेरे बार ।
 दीप-सिखा-मुख ते कढ़त काजर की यह धार ॥ १३ ॥
 कै साँपिनि के सिसुन को गहि अन्यो मुरवान ।
 किधौं छरहरे केस ए छहरत छये छवान ॥ १४ ॥

बगरे ए न विलोकियत मेचक चिकुर अथोर ।
कदि कलंक एकत भयो मुखमयंक दुहुँ ओर ॥ १५ ॥

भाल

बिरचन में जाके चले विधिहुँ निराली चाल ।
निरखि भाल भूले मनहिँ कैसे सकहिँ सँभाल ॥ १ ॥
जके थके निरखत रहे सके न बूझि बिचार ।
पारत रसिकन पेच में परि कै सिकन लिलार ॥ २ ॥
नवल बाल के भाल पै कै बल परो लखाय ।
कै दरपन - तल पै परी लहर - लरी दरसाय ॥ ३ ॥
बाल - भाल ऊँचो लसै किधौँ समूचो चैन ।
छटा - अटा कै यह पटा मंजु चौहटा - मैन ॥ ४ ॥

भौँह

कहा करै अनुमान किमि कही न मानत मोर ।
मुरत न मोरे मन पखो भामिनि - भौँह - मरोर ॥ १ ॥
भामिनि - भौँह बिलोकियत बिगरत बनत सबेग ।
गजब गुजारात कौन पै यह गुजराती तेग ॥ २ ॥
बिन गुन विसिख बिलोकियत बीरन करत अमान ।
कहै क्योँ न हम कामिनी - भौँहन काम - कमान ॥ ३ ॥
बीर बूझियत भौँह को बंकिम भुकी बिलोकि ।
चली जात अलि की अवलि नैन-कमल अवलोकि ॥ ४ ॥
बंक पाँति विधि कर - लिखी बिबिध - भाव - आधार ।
को विचार भौँहन करै बिना भये मुख चार ॥ ५ ॥
जन - मन - नैनन को हरति गति-मति करति अपंग ।
बंक भौँह की बंकता मिली कुटिलता - संग ॥ ६ ॥

बगरे ए न विलोकियत मेचक चिकुर अथोर ।
कढ़ि कलंक एकत भयो मुखमयंक दुहुँ ओर ॥ १५ ॥

भाल

विरचन मैं जाके चले विधिहुँ निराली चाल ।
निरखि भाल भूले मनहिँ कैसे सकहिँ संभाल ॥ १ ॥
जके थके निरखत रहे सके न बूझि विचार ।
पारत रसिकन पेच मैं परि कै सिकन लिलार ॥ २ ॥
नवल वाल के भाल कै दल परो लखाय ।
कै दरपन - तल पै परी लहर - लरी दरसाय ॥ ३ ॥
बाल - भाल ऊँचो लसै किधौ समूचो चैन ।
छटा - अटा कै यह पटा मंजु चौहटा - मैन ॥ ४ ॥

भौंह

कहा करै अनुमान किमि कही न मानत मोर ।
मुरत न मोरे मन पखो भामिनि - भौंह - मरोर ॥ १ ॥
भामिनि - भौंह विलोकियत विगरत बनत सबेग ।
गजब गुजारत कौन पै यह गुजराती तेग ॥ २ ॥
बिन गुन विसिख विलोकियत वीरन करत अमान ।
कहै कथो न हम कामिनी - भौंहन काम - कमान ॥ ३ ॥
वीर वृष्णियत भौंह को बंकिम झुकी विलोकि ।
चली जात अलि की अवलि नैन-कमल अवलोकि ॥ ४ ॥
बंक पाँति विधि कर - लिखी विविध - भाव - आधार ।
को विचार भौंहन करै बिना भये मुख चार ॥ ५ ॥
जन - मन - नैनन को हरति गति-भति करति अपंग ।
बंक भौंह की बंकता मिली कुटिलता - संग ॥ ६ ॥

होत वहाँ हूँ थिर नहीं जहाँ पानी की खान ।
 इतनो बेपानिप कियो मछरिन को अँखियान ॥६॥
 दृगन लजे मीनन लखत इत उत दौरत नाँहि ।
 दूबन को दूँदत फिरहिँ ए अगाध जल काँहि ॥७॥
 नेक न थिरता गहन की है खंजन की बान ।
 काको नहिँ चंचल करहिँ ए चंचल अँखियान ॥८॥
 कदत न काढ़े कैसहूँ किये जतन दिन - रैन ।
 कछु चित मैं ऐसे गड़े बड़े - बड़े ए नैन ॥९॥
 चखन हाथ पानी गये भई भखन अस दाह ।
 कटे मर मिटे हूँ रही पानी ही की चाह ॥१०॥
 काको रँग बिगरत नहीं बदलो लखि दृग - रंग ।
 भये सुरंगहुँ मृगन को कबि - गन कहत कुरंग ॥११॥
 जितनो तिरछे हूँ चलै तितनो करै निहाल ।
 इतनो लोच न क्यों रखै ए तव लोचन बाल ॥१२॥
 काहि न ए अपनावहीं इनको कौन अहै न ।
 कहा करि सकत हूँ नहीं बाल तिहारे नैन ॥१३॥
 कौन मसाले से बने देखे-भाले हूँ न ।
 रस के प्याले से लसैँ निपट निराले नैन ॥१४॥
 नीति - निपुन नागर परम रस-गागर मुद - ऐन ।
 सागर - सील - सनेह के सब - गुन - आगर नैन ॥१५॥

नेत्र-लाली

दोहा—

लाल - लाल डोरे परे कै अँखियान - मँभार ।
 सुधा - सरोवर मैं लसैँ कै अनुराग - सेवार ॥१॥

होत वहाँ हूँ थिर नहीं जहँ पानी की खान ।
 इतनो वेपानिप कियो मछरिन को अँखियान ॥६॥
 दृगन लजे मीनन लखत इत उत दौरत नाँहिँ ।
 डूबन को डूँढ़त फिरहिँ ए अगाध जल काँहिँ ॥७॥
 नेक न थिरता गहन की है खंजन की बान ।
 काको नहिँ चंचल करहिँ ए चंचल अँखियान ॥८॥
 कढ़त न काढ़े कैमहूँ किये जतन दिन-रैन ।
 कछु चित मैं ऐसे गड़े बड़े-बड़े ए नैन ॥९॥
 चखन हाथ पानी गये भई भखन अस दाह ।
 कटे मर मिटे हूँ रही पानी ही की चाह ॥१०॥
 काको रँग बिगरत नहीं बदलो लखि दृग-रंग ।
 भये सुरगहुँ मृगन को कबि-गन कहत कुरंग ॥११॥
 जितनो तिरछे हूँ चलै तितनो करै निहाल ।
 इतनो लोच न क्यो रखै ए तव लोचन बाल ॥१२॥
 काहि न ए अपनावहीं इनको कौन अहै न ।
 कहा करि सकत हूँ नहीं बाल तिहारे नैन ॥१३॥
 कौन मसाले से बने देखे-भाले हूँ न ।
 रस के प्याले से लसै निपट निराले नैन ॥१४॥
 नीति-निपुन नागर परम रस-गागर मुद-ऐन ।
 सागर-सील-सनेह के सब-गुन-आगर नैन ॥१५॥

✓ नेत्र-लाली

दाहा—

लाल लाल डोरे परे कै अँखियान-भँफार ।
 सुधा-सरोवर मैं लसै कै अनुराग-सेवार ॥१॥

किधौं कलित - कोयन रही लोयन - लाली राजि ।
 अरुन - राग-रंजित किधौं ऊखा रही विराजि ॥२॥
 लहू बहावत देखियत अब लौं अँखियन काँहिं ।
 अरुनी यह लाली नहीं लहू लग्यो तन माँहिं ॥३॥

पुतली

लोयन - कोयन मैं अरी असित पूतरी नाँहिं ।
 कारे - नग ए जगमगत रतनारे नग माँहिं ॥१॥
 ललना लोयन मैं न यह पुतरी लसति असेत ।
 अतसी की पखुरी बसी कमल - दलन छवि देत ॥२॥
 कारी - कारी पूतरी प्यारी अँखियन माँहिं ।
 मानिक - रंजित रजत मैं मरकत राजत नाँहिं ॥३॥
 बाल - विलोचन मैं नहीं पुतरो - असित दिखात ।
 अरुन-राग - जुत सित - गगन मैं राजत रवि - तात ॥४॥

अंजन-रेखा

अंजन - लीक अलीक कहि कत बहरावति मोहि ।
 प्यारी मृग - दृग पै रही कारो धारी सोहि ॥५॥
 कै अंजन की रेख लखि अँखियन होत विनोद ।
 सोवत खंजन - सिसु परो कै खंजन की गोद ॥६॥
 कहि अंजन की रेख कत कवि-जन बनत अजान ।
 बरबस काहू सों बिगरि विख उगिलहिँ अँखियान ॥७॥
 बिना सुधाहूँ नहिँ सधत विखहूँ बिना बनै न ।
 कासों काज रखैं न ए काजरवारे नैन ॥८॥
 काजर - रेख रखै न जी - जारनवारी अँख ।
 काहु जी-जरे के जरे जी की है यह राख ॥९॥

पलक

दोहा—

अदलि वदलि वाटन दृगन अनुमानत निज मान ।
 पल - पल तुलत मनहिं लखत पलकन के पलरान ॥१॥
 पल-पल उठहिं गिरहिं परहिं थिरता भूलि गहैं न ।
 नयनन के ललकन परत पलकनहूँ नहिं चैन ॥२॥

बरुणी

अनलगेहुँ अनगन जनन अकुलावति चहुँ ओक ।
 बरु नीकी बरछी अनी नहिं बरुनी की नोक ॥१॥
 कै सिंगार चॉटे जुरे कै बरुनी विवि - नैन ।
 कै कमलन कॉटे लगे कै ए साँटे - मैन ॥२॥
 अरी चुभावति कत रहति सूची मो हिय माँहिं ।
 वाम तिहारी बरुनि को बरु निहारिहौँ नाँहिं ॥३॥
 सूची तरुनी बरुनि मैं जोरे डोरे नैन ।
 दरजी मैन सियत रहत प्रेम - बसन दिन - रैन ॥४॥
 बरुनी - ब्ररनन मैं करत कत इतनो चित गौर ।
 जग - बिजयिनि अँखियान पै दुरत देखियत चौर ॥५॥
 बरुनीवारी पलक मैं न्यारी अँखिया नाँहिं ।
 खंजन के जोरे परे मैन पीजरे माँहिं ॥६॥

नेत्र-तिल

हा—

तेज - बिहीन बिलोकियत मलिन रूप औ रंग ।
 ए तिल कैसे तुलि सकहिं नैन - तिलन के संग ॥१॥

नेसुक सिकुरत नाक लखि परत साँकरे आन ।
 नाक-निवासिन को रहत सदा नाक मैं प्राण ॥ २ ॥
 या तिय-नथ की बात कछु कहत बनत है नाँहि ।
 मुकुत मिले हूँ देखियत फँसी नासिका माँहि ॥ ३ ॥
 निधरक जन साँहैं रहत चूमत अधर रसाल ।
 बेसर - मोती कत चलत बेसरमों की चाल ॥ ४ ॥
 बरबस बिबस करै परै निशि - बासर नाँहैं चैन ।
 बिसरायेहुँ बिसासिनी तिय - बेसर बिसरै न ॥ ५ ॥
 नाँहैं केवल कामिनि-नथहिँ ऐसो भयो सुपास ।
 को मुकुतन को संग करि लहत न नाक - निवास ॥ ६ ॥
 तजि ममता निज बरन की मल परिहरि तन दाहि ।
 करि मुकुतन को संग नथ नाक बिराजत आहि ॥ ७ ॥

कान

दोहा—

कहा भयो अपवाद जो बाद करत जन कोय ।
 अहै प्रसंसित मत यही स्रुति-संमत-मति होय ॥ १ ॥
 भूखित भूखन-भाव सों ए भू मैं दरसाहि ।
 कहा भयो भावुक भये जो स्रुति भावहिँ नाँहि ॥ २ ॥
 बड़े - बड़े मुकुतन कियो निज बस मैं हठ ठानि ।
 बसीकरण की बानि अस बसी करन मैं आनि ॥ ३ ॥
 मुकुतन हूँ को है जहाँ निवसन को अधिकार ।
 कानन गये कहा रखत, जब कानन सों प्यार ॥ ४ ॥
 लोक - बेद - बिपरीत यह रीति जकत चित जोय ।
 स्रुतिसेवी मुकुतन लखे अतन - उदै तन होय ॥ ५ ॥
 सिद्धपीठ से मैने के ए दोउ स्रवन सुहाहि ।
 बाला को सेवत लखत जहँ मुकुतनहूँ काँहि ॥ ६ ॥

नेसुक सिकुरत नाक लखि परत साँकरे आन ।
 नाक-निवासिन को रहत सदा नाक में प्राण ॥ २ ॥
 या तिय-नथ की बात कछु कहत बनत है नाँहि ।
 मुकुत मिले हूँ देखियत फँसी नासिका माँहि ॥ ३ ॥
 निधरक जन साँहैं रहत चूमत अधर रसाल ।
 बेसर-मोती कत चलत बेसरमो की चाल ॥ ४ ॥
 बरबस विबस करै परै निसि-बासर नाँहि चैन ।
 बिसरायेहुँ बिसासिनी तिय-बेसर बिसरै न ॥ ५ ॥
 नाँहि केवल-कामिनि-नथहिँ ऐसो भयो सुपास ।
 को मुकुतन को संग करि लहत न नाक-निवास ॥ ६ ॥
 तजि ममता निज बरन की मल परिहरि तन दाहि ।
 करि मुकुतन को संग नथ नाक विराजत आहि ॥ ७ ॥

कान

दोहा—

कहा भयो अपवाद जो वाद करत जन कोय ।
 अहै प्रसंसित मत यही स्तुति-संमत-मति होय ॥ १ ॥
 भूखित भूखन-भाव सों ए भू मैं दरसाहिँ ।
 कहा भयो भावुक भये जो स्तुति भावहिँ नाँहि ॥ २ ॥
 बड़े-बड़े मुकुतन कियो निज बस मैं हठ ठानि ।
 बसीकरन की बानि अस बसी करन मैं आनि ॥ ३ ॥
 मुकुतन हूँ को है जहाँ निवसन को अधिकार ।
 कानन गये कहा रखत, जब कानन सों प्यार ॥ ४ ॥
 लोक-बेद-बिपरीत यह रीति जकत चित जोय ।
 स्तुतिसेवी मुकुतन लखे अतन-उदै तन होय ॥ ५ ॥
 सिद्धपीठ से मैंन के ए दोउ स्रवन सुहाहिँ ।
 बाला को सेवत लखत जहँ मुकुतनहूँ काँहि ॥ ६ ॥

प्यारी-प्यारी छवि-सनी सुवरन-वारी जोय ।
 वारी पै वारी भई मति मतवारी होय ॥ ७ ॥
 हैं न कंज-कल-नयनि के ए मूमक छवि-रास ।
 अपत होइ कमलन कियो कानन माहिं निवास ॥ ८ ॥
 कत कोऊ बूके विना कानन को पतियात ।
 लखे पात उतपात है पात-पात मन जात ॥ ९ ॥
 मन-मंदिरहिं सलाकयुत कीवो उचित जनात ।
 यह कानन की बीजुरी करति महा उतपात ॥ १० ॥
 सुरचिर सौनन के लखे चकाचौध लगि जात ।
 तहाँ दीठ काकी जुरी जहाँ बीजुरी-पात ॥ ११ ॥

कपोल

दोहा—

काको नहिं बेलमावहीं काहि न करहिं निहाल ।
 ए गुलाब के फूल से गरवोली के गाल ॥ १ ॥
 वा कपोल को है बलित-ललित-लालिमा जौन ।
 माखन को गोला कहे माख न मानत कौन ॥ २ ॥
 बरजोरे कत जो रहत मन मोरे सब काल ।
 गोरे-गोरे ए गरल-भरे निगोरे गाल ॥ ३ ॥
 गोरे-गोरे चीकने अमल अनूप अमोल ।
 मो चित बिचलित होत लखि लोने-ललित कपोल ॥ ४ ॥
 कछु अनखुन करि नहिं चलै अखियन ही सो चाल ।
 गालिब कापै होत नहिं गहव-गुलाबी गाल ॥ ५ ॥
 सपरत कछु न परत वनत लोयन भये अडोल ।
 पलक-पोल पल मैं खुलत पुलकित पाइ कपोल ॥ ६ ॥
 अनगन-जन-मन को करै अनुरंजन सब काल ।
 भोरे-भोरे भावजुत गोरे गोरे गाल ॥ ७ ॥

दाँत

दोहा—

हैं मोती से, कुंद के कोरक से दरसात ।
 चंदमुखी के चारुतामय चमकीले दाँत ॥ १ ॥
 ललकित लोयन मैं बहति अभिनव रस की धार ।
 दारिम-दाने सी लसी दसनावली निहार ॥ २ ॥

रसना

दोहा—

कवहूँ वरसति है सुधा कवहूँ बनति सुखदानि ।
 रसमय जीवन करति है रसना रस को खानि ॥ १ ॥
 बहु-विध-वचनावलि-जननि कलित कला की केलि ।
 है रसालता की थली है रसना रस-बेलि ॥ २ ॥

वाणी

दोहा—

बहु बिलास की सहचरी मंजुल-रचि-अनुभूति ।
 वर-वरनी-बानो अहै मधुमय - कथन - विभूति ॥ १ ॥
 वीन सरिस कल-नादिनी उन्मादिनी अपार ।
 है गौरांगिनि की गिरा स्वर - गौरव - आगार ॥ २ ॥

हँसी

दोहा—

हँसे खिलति है चाँदनी बहति सुधा की धार ।
 दमकि जाति है दामिनी रीभूत है रिभवार ॥ १ ॥
 विलसि मनोहर अधर पै हँसी मोहि मन लेति ।
 बरबस मोह-मरीचिका डारि मोहिनी देति ॥ २ ॥

मुसकान

कवित्त—

किधौं तम-विदु की कतार मैं सुधा की धार
 किरिन कढ़ी है किधौं कालिमा-प्रतीचो मैं ।
 कांति कैधौं हीरा की लसति पाँति-नीलम मैं
 जोति बगरी है कै कलिदजा की वीची मैं ।
 हाँस-रस-सोत कै सिगार-रस-वूदन मैं
 'हरिऔध' कैधौं कला मंद की मरीची मैं ।
 कारे-दंत-पाँति मैं लसी है मुसुकान किधौं
 थिरकि रही है विञ्जु वादर-दरीची मैं ॥ १ ॥

दोहा—

मीन-नयन मन-अयन मैं बरसि सरस रस जाति ।
 मंद - मंद महि पग धरति मंद - मंद मुसुकाति ॥ २ ॥
 है दामिनि की दमक सी दमकति करि रस-दान ।
 वदन - कलानिधि - कला सी कलामयी मुसुकान ॥ ३ ॥
 स - छवि बनावति छविहुँ को वनि सौगुन छविवान ।
 कुसुम - विकास - विमोहिनी विकसित - मुख - मुसुकान ॥ ४ ॥
 सोहति मोही सिता सम मोहति मोह समान ।
 ललना - लाल - अधर - लसी ललक - भरी मुसुकान ॥ ५ ॥

अधर

कवित्त—

कोऊ कहै अमी को निवास अमरावती मैं
 कोऊ कहै कवि की कलित कवितान मैं ।
 कोऊ कहै अमल मयंक की मरीचिन मैं,
 कोऊ कहै सिंसु की सरस बतरान मैं ।

‘हरिऔध’ कोऊ कहै मंजुल रसाल माहिं,
 कोऊ कहै गौरवी गवैयन के गान मैं ।
 मेरे जान केवल निवास है अमिय केरो
 कामिनी के कुसुम - समान अधरान मैं ॥ १ ॥

सवैया—

बिच बैधूक जपा-दल विद्रुम लाल हूँ लालिमा पै ललचाहीं ।
 माधुरी की समता को सदाहिं ये ऊख पियूख मयूख सिहाही ।
 का ‘हरिऔध’ से मानव की कथा देवता दानव हू वलि जाहीं ।
 वीर कहै किन धीर धरा अधरा अवलोकि धरातल माही ॥ २ ॥

वर विद्रुम में कहा लाली इती कहा मंजुलता जपा ऐसी गहै ।
 कहा लाल मैं लाल ललाई इती समता कहा बापुरो बिच लहै ।
 कहा ऊख मयूख पियूख मैं एती मिठास अहै ‘हरिऔध’ कहै ।
 जिती माधुरी कोमलता कमनीयता मोहकता अधरा मैं अहै ॥ ३ ॥

दोहा—

मनसिजहूँ वाके बिना जीवन धारत नाँहि ।
 सुधा मिली काको नहीं अधर - सुधाधर माँहि ॥ ४ ॥
 गगन - लालिमा मैं लसित कल कौमुदी समान ।
 काको मुदित करति नहीं अधर - बसी मुसुकान ॥ ५ ॥

चिबुक

दोहा—

गिरे चिबुक की गाड़ मैं निबुक सकत मन नाँहि ।
 मधुप समान परो रहत मंजुल पाटल माँहि ॥ १ ॥
 देखि छके चितवत रहे मोहे कहि अनमोल ।
 रसिक नयन-तिल कब सके स-तिल चिबुक को तोल ॥ २ ॥

मुख

कवित्त—

वीजुरो विचारी है विकल बिलखानी फिरी
 हीरक के हारहूँ को तेज सब हरि गो ।
 चूर - चूर भयो चोप चुन्नी की चिलकहूँ को
 दुतिवारे - दीपक - दिमाग हूँ उतरि गो ।
 'हरिऔध' बदन बनावत ब्रजेस्वरी कौ
 विधि हूँ को बहुरो बनाइवो बिसरि गो ।
 तरनि के तन मैं न तनिक लुनाई रही
 तारन समेत तारापति फीको परि गो ॥ १ ॥

दीपति दुगूनी दुति रैन-दिन आठो जाम
 दामिनी-दमक सम परत न मंद है ।
 दबकि रहत देखे दीपमलिका को दीप
 वारिज कुमुद पेखे लहत अनंद है ।
 'हरिऔध' सीरो तापकर छन - छन ओप
 बढ़त अपार वृष्णि परत न छंद है ।
 तेज है कि तंत्र है कि तारा है कि यंत्र है
 कि राधिका-बदन है कि रवि है कि चंद्र है ॥ २ ॥

सवैया—

आइकै व्योम बसेरो लियो अब आपनो रूप अनेक सँवारत ।
 द्वै कबौं तीन कलादिक सों प्रकटै कबौं पूरी कलान को धारत ॥
 राधिका-आनन की समता हित व्योत नये 'हरिऔध' विचारत ।
 ऊबि गयो वसि वारिधि-अंक मैं मानों मयंक कलंक पखारत ॥ ३ ॥

दोहा—

छवि लखि वारति प्रान रति मोहत रहत मनोज ।
 है सुदरता - सरित कौ सुदर - बदन सरोज ॥ ४ ॥
 बाकी बिभा लहे लसत अनुपम - रस नभ - अंक ।
 है विनोद - बारीस को मंजुल - बदन मयंक ॥ ५ ॥

ग्रीवा

दोहा—

सरस - राग अनुराग को वाते निकसत सोत ।
 लखे कंठ कंठा - सहित चित उत्कंठित होत ॥ १ ॥
 बाको कहे कपोत सम होत ललित - उर लंठ ।
 हरत कबु को कंबुता कोकिल - कंठी - कंठ ॥ २ ॥

भुजा

दोहा—

विरचित है बर - बीजुरी विविध - बिलास सकेलि ।
 सुबरन - बरनी की भुजा है सुबरन की बेलि ॥ १ ॥
 काम - पास - कमनीय कै सुख - सर - मंजु - मृनाल ।
 विचलित होत बिलोकि चित बलय - बलित - भुज - बाल ॥ २ ॥

कलाई

सवैया—

चूरी सुचारु की चारुताई लखे चंचलता चित चौगुनी आवै ।
 छद्द पछेलन के फरफंद ते मंद भयो मनहूँ दिखरावै ॥
 सूधी सुगोल भई तो कहा 'हरिऔध' हियो जो महा अकुलावै ।
 एरी हेरात है आई कलौ कोऊ कैसे कलाई लखे कल पावै ॥ १ ॥

इथेली

दोहा—

लोक-लालिमा ते ललित लखि करतल-अवदात ।
 खटकं ही मैं रहत हूँ बट के टटके-पात ॥ १ ॥
 अधिक लालिमा लहन हित ललकित रहि सब काल ।
 रखति लाल को हाथ मैं बाल-हथेली-लाल ॥ २ ॥

उँगली

दोहा—

चंपक-कलित-कलीन को किधौँ बिराजत जूह ।
 किधौँ मंजु-कर कमल मैं विलसत करज-समूह ॥ १ ॥
 कर कितने संकेत-कल काहि न करत निहाल ।
 नवल-बाल की आँगुरी ईगुर जैसी लाल ॥ २ ॥

कुच

कवित्त—

श्रीफल कहे ते सुख होत सपने हूँ नाँहि
 तोख होत हिय मैं न कंदुक बखाने से ।
 कंचन-कलस की कथान को उठावै कौन
 रति को सिंधोरा कहे रहत लजाने से ।
 'हरिऔध' जाँमैं बसि मत्त-मन-भुंग मेरो
 कढ़त न दीखै अजौँ कौन हूँ बहाने से ।
 सोभा-सने सौँहैं सोहैं ससि लौँसु-आनन के
 सरस-उरोज ए सरोज सकुचाने से ॥ १ ॥

सवैया—

सुन्दर चाँद सो भोरो-भलो मुख काको अहै भुवि में चित-चोरना ।
गोरो-गुलाब लौं भाव-भरो तन लेत है काको भट्ट मन छोरना ।
ए 'हरिऔध' अनूठी-छटा लखे कैसेहूँ कोऊ सकै मुख मोर ना ।
काको न ए बड़े-नैन किये बस काके हिये में गड़ी कुच कोर ना ॥ २ ॥

उदर

दोहा—

कै है कोऊ काम-थल चलदल - दल - अनुरूप ।
कै विलसित त्रिबली - बलित - नवला - उदर - अनूप ॥ १ ॥
सोहत है सरसिज - दलन सरिस सरस - छबि धारि ।
लगत असुन्दर मानसर सुन्दर - उदर निहारि ॥ २ ॥

रोम-राजि

कवित्त—

उरजबिलंबी कारे केस पन्नगेसन सों
केलि करि खेलि मेलि बदन बदन ते ।
सुठि - सुरसरि - धार मोतोहार मैं समोद
बार - बार बिहरि बिलासिनी मदन ते ।
'हरिऔध' पान काज नाभि - सर को पियूख
बिसरि अपान मिलि मदन - कदन ते ।
लसत न कंचुकी सकुच ढिग रोम-राजि
निकसत पन्नगी पिनाकी के सदन ते ॥ १ ॥

माला

कवित्त—

सरपेच हूँकै पेच माँहँ पारै आँखिन कौ
चेसर हूँ बिकल बनावै मति आन की ।

कहि मृनाल के तार सी कवि - कुल लेत कलंक ।
करति लालची लोचनन तिय लचकीली लंक ॥ २ ॥

जंघा

दोहा—

मति - हीनन के मतन को एरे मन मत मानु ।
दंभ करत ते जे कहत रंभ - खंभ सम जानु ॥ १ ॥
कहा कहिँ हम जानु को जोहि रूप औ रंग ।
कनक - खंभ करि - कर किधौ मंजुल-मदन-निषंग ॥ २ ॥

पिंडुरी

दोहा—

कौन देत नहिँ कलभ - कर - कोमलता को टोंकि ।
सुथरी - प्यारी - पींडुरी प्यारी की अबलोकि ॥ १ ॥
काको भावति है नहीं काहि लुभावति नाँहिँ ।
अति - सुदार यह पींडुरी रस डारति हग माँहिँ ॥ २ ॥

गुल्फ

दोहा—

देखि मंजुता मृदुलता चित यह करत कबूल ।
गोरी के गोरे गुल्फ हैं गुलाब के फूल ॥ १ ॥
परम - मनोहरता मिले मोहित मन करि देत ।
गोल गोल नवला - गुल्फ मोल काहि नहिँ लेत ॥ २ ॥
कै सुख - उपवन - सुमन कै गति-संपुट-अभिराम ।
कै सुंदरता - कुल्फ कै गुल्फ बड़े - छवि - धाम ॥ ३ ॥

कहि मृनाल के तार सी कवि - कुल लेत कलंक ।
करति लालची लोचनन तिय लचकीली लंक ॥ २ ॥

जघा

दोहा—

मति - हीनन के मतन को एरे मन मत मानु ।
दंभ करत ते जे कहत रंभ - खंभ सम जानु ॥ १ ॥
कहा कहहिँ हम जानु को जोहि रूप औ रंग ।
कनक - खंभ करि - कर किधौ मंजुल-मदन-निषंग ॥ २ ॥

पिंडुरी

दोहा—

कौन देत नहिँ कलभ - कर - कोमलता को टोंकि ।
सुथरी - प्यारी - पींडुरी प्यारी की अबलोकि ॥ १ ॥
काको भावति है नहीं काहि लुभावति नाँहिँ ।
अति - सुदार यह पींडुरी रस डारति हग माँहिँ ॥ २ ॥

गुल्फ

दोहा—

देखि मंजुता मृदुलता चित यह करत कबूल ।
गोरी के गोरे गुल्फ हैं गुलाब के फूल ॥ १ ॥
परम - मनोहरता मिले मोहित मन करि देत ।
गोल गोल नवला - गुल्फ मोल काहि नहिँ लेत ॥ २ ॥
कै सुख - उपवन - सुमन कै गति-संपुट-अभिराम ।
कै सुंदरता - कुल्फ कै गुल्फ बड़े - छवि - धाम ॥ ३ ॥

एड़ी

दोहा—

वाते निकसत ही रहत बर - बिनोद - रस - सोत ।
 कौहर सी एड़ी लखे को हरखित नहिँ होत ॥ १ ॥
 लहि लालिमा अनार सी ईगुर सी सब काल ।
 ललना की एड़ी ललित लालहुँ करति निहाल ॥ २ ॥
 तजि सुहावनो सब समय वनि एड़ी-अनुकूल ।
 दुपहर को फूलत रहत दुपहरिया को फूल ॥ ३ ॥

पाँव ✓

दोहा—

ललना के पद-युगल हैं लोभनीय रमनीय ।
 कोमल-पल्लव से मृदुल अमल-कमल कमनीय ॥ १ ॥
 निरखि मंजुता पगन की मगन होत है मार ।
 मुदित तिहूँ पुर को करति नूपुर की भनकार ॥ २ ॥

पद-नख

दोहा—

बहु-मोहक सुकुमारता विकसित सी दिखराति ।
 गोरी-पग-अँगुरीन मैं बिलसति तारक-पाँति ॥ १ ॥
 प्यारी पग-अँगुरीन मैं लसति नखन की जोति ।
 चंपक की कलिका किधौँ मनि - गन - मंडित होति ॥ २ ॥

पद-तल

दोहा—

काम-पताका सम रुचिर सरसिज सरिस ललाम ।
 ललना को पग-तल अहै चंदन-दल-अभिराम ॥ १ ॥
 अनुरागी - जन - उरन मैं सरस - राग भरि देति ।
 तिय-पग-तल को लालिमा मुख-लाली रखि लेति ॥ २ ॥

नायिका के भेद

नायिका के भेद

जाति के अनुसार चार—१-पद्मिनी, २-चित्रिणी, ३-शम्बिनी, ४-हस्तिनी ।

प्रकृति के अनुसार तीन—१-उत्तमा, २-मध्यमा, ३-अधमा ।

वर्मानुसार तीन—१-स्वकीया, २-परकीया, ३-सामान्या ।

वयःक्रमानुसार तीन—१-सुग्धा, २-मध्या, ३-प्रौढा ।

श्रवस्थानुसार दश—१-खडिता, २-कलहातरिता, ३-त्रिप्रलब्धा,
४-उत्कृष्टिता, ५-वासकसज्जा, ६-स्वाधीनपत्निका,
७-अभिसारिका, ८-प्रवत्स्यत्पत्निका, ९-प्रोषितपत्निका,
१०-आगतपत्निका

विशेष

खडितादि दश भेद सुग्धा, मध्या, प्रौढा और परकीया में होने हैं । किसी ने सामान्या में भी इन दशों भेदों को दिखलाया है, किंतु सामान्या में इन दशाश्रों का निरूपण कुछ विद्वानों ने रसाभास माना है । मेरा विचार भी यही है, अतएव सामान्या में इन दश भेदों का वर्णन नहीं किया गया ।

जाति-संबंधी भेद

१-पद्मिनी

पद्मिनी पद्म-गधा, रति-सुंदरी, सुकुमार-तन, अल्प रोमवती और अधिकतर गान-वाद्य-परायणा होती है ।

दोहा—

अति - सुंदर सब-रस - भरी सील - सकोच - निधान ।

कौन कामिनी लोक में है पद्मिनी समान ॥ १ ॥

२-चित्रिणी

चित्रिणी विचित्र-प्रकृति, नृत्य-गान-रता, अल्प-लज्जाशीला और परिहास-प्रेमिका होती है ।

दोहा—

गाइ बजाइ दिखाइ छवि भरति हिये मैं जोति ।
चलि कबूतरी सी तिया नयन-पूतरी होति ॥ १ ॥

३-शंखिनी

शखिनी कृशांगी, निर्लज और अभिमानिनी होती है ।

दोहा—

अनख करति तनिकै चलति लजति न नेकौ बाल ।
देखि निलजता आप ही सलज वनत हैं लाल ॥ १ ॥

४-हस्तिनी

हस्तिनी स्थूल-शरीर, लोम-वती, गज गामिनी, कोपन-स्वभावा, उद्धत-प्रकृति और कटुवादिनी होती है ।

दोहा—

नख-सिख भारीपन-भरो रंग-रूप अ-ललाम ।
नाहिं काम हूँ ते सरत काम-भरी को काम ॥ १ ॥

प्रकृति-संबंधी भेद

१-उत्तमा

उत्तम-स्वभावा धर्म - परायणा, उदार - हृदया, देश - समाज - प्रेमिका और अहितकारी होने पर भी पति की हितकारिणी स्त्री को उत्तमा कहते हैं ।

पति-प्रेमिका

कवित्त—

सेवा ही मैं सास औ ससुर की सदैव रहै,
सोतिन सों नॉहिं सपने हूँ मैं लरति है ।
सील सुघराई त्यों सनेह-भरी सोहति है,
रोस रिस रार ओर क्यों हूँ ना ढरति है ॥

‘हरिऔध’ सकल गुनागरी सती समान,
 सूधे सूधे भायन सयानप तरति है ।
 परम-पुनीत पति-प्रीति मैं पगी ही रहै,
 प्रानधन प्यारे पै निछावर करति है ॥ १ ॥

सवैया—

बैन कहे करुये पिय के हरुये तिय बोलि सदा सनमानै ।
 दोस अनेकन देत तऊ कवहूँ अपने मन रोस न आनै ।
 ना करनी ही करै ‘हरिऔध’ पै वाल न नाकर-नूकर ठानै ।
 नाह के कीने गुनाहन हूँ तिय आपनो नेह निवाहन जानै ॥२॥

सौतिन की तिरछौंही चितौन ते होवै नहीं तनकौ तलबेली ।
 काम की कीरति सी ‘हरिऔध’ लखे रुख रूखो न होत कटेली ।
 पी-अनुकूलता-वारि विना हूँ मदा थल मीतलनाहिँ सकेली ।
 या अलबेली हिचे पलुहै पल ही पल प्रीति-प्रतीति की बेली ॥३॥

आपनो अंग पतंग दहै पै न दीपक-जोति को भाव जनावै ।
 पीतम के संग प्यार-पगी-पतिनी नहिँ पावक हूँ को सकावै ।
 प्रीति-पुनीत की ऐसियै रीनि महीतल मैं ‘हरिऔध’ लखावै ।
 व्याकुल हूँ कलपै मन-मीन विना जल ना पलकौ कल पावै ॥४॥

परिवार-प्रेमिका

कवित्त—

सुधा-सने बैन के विधान मैं अविधि है न
 सहज-सनेह की न साधना अधूरी है ।
 सब ते सरस रहि सरसति सौगुनी है
 भोरे-भोरे भावन ते भूरि भरी-पूरी है ।

‘हरिऔध’ सौति के सुहाग ते सुहागिनी है
 सास औ ससुर की सराहना ते रूरी है ।
 पति-पूत-प्यार मानसर को मरालिका है
 परिवार - पूत - प्रेम - पयद - मयूरी है ॥ १ ॥

बर - दार बनति कुदारता निवारति है
 कुदारन हूँ मैं उदार दरसति है ।
 पर - पति - पूत को स्व-पति - पूत सम जानि
 पावन - प्रतीति पूत - पग परसति है ।
 ‘हरिऔध’ परिवार - हित नव - वीरुध पै
 विहित - सनेह - बर - बारि बरसति है ।
 अनरस हूँ मैं रस - बात बिसरति नाँहि
 रस - मयी - बाल रोस हूँ मैं सरसति है ॥ २ ॥

बानी के समान हंस - बाहनी रहति बाल
 नीर - छीर विमल - बिबेक बितरति है ।
 सती के समान सत धारि है सुखित होति
 बामता मैं बामता ते रखति बिरति है ।
 ‘हरिऔध’ रमा सम रमति मनोरम मैं
 भाव - अमनोरम ते लरति भिरति है ।
 पूत - प्रेम - पोत पै अपार - पूतता ते बैठि
 परिवार - प्यार - पारावार मैं फिरति है ॥ ३ ॥

जाति-प्रेमिका

कवित्त—

सरसी समाज - सुख सरसिज-पुंज की है
 सुरुचि - सलिल की रुचिर - सफरी सी है ।

नाना कुल-कालिमा-कलुख को कलिदजा है
 कल-करतूत-मंजु - मालिका लरी सी है ।
 'हरिऔध' बहु - भ्रम - भँवर समूह भरी
 सकल - कुरीति - सरि सबल - तरी सी है ।
 जानि - हित - पादप - जमात नव-जीवन है
 जाति - जन - जीवन सजीवन-जरी सी है ॥ १ ॥

भारतीय - भव - पूत - भावन - विभूति पाइ
 भाव - मयी अपने अभावन हरति है ।
 अवलोकि अवलोकनीय - बहु - वैभव को
 काल - अनुकूल अनुकूलता करति है ॥
 'हरिऔध' भारत को भुव - सिरमौर जानि
 भावना मैं विभु - सिरमौरता भरति है ।
 धारि धुर सुधरि समाज को सुधारति है
 धीर धरि जाति को उधारि उधरति है ॥ २ ॥

देह-प्रेमिका

कवित्त—

गौरवित सतत अनीत - गौरवो ते होति
 गुरुजन - गुरुता है कहती कबूलती ।
 मुदित बनति अवनीतल मैं फैलि फैलि
 कीरति की कलित - लता को देखि फूलती ॥
 'हरिऔध' प्रकृति - अलौकिकता अवलोकि
 प्रेम के हिंडोरे पै है पुलकित मूलती ।
 भारत की भारती - विभूति ते प्रभावित है
 भामिनि भली है भारतीयता न भूलती ॥ १ ॥

वारती नगर पर मंजु - अमरावती कौ
 नागर - निकर कौ पुरंदर है जानती ।
 धेनु कौ कहति कामधेनु सम काम - प्रद
 कामिनी कौ सुर - कामिनी है अनुमानती ।
 'हरिऔध' भारत - अरुणि - अनुराग - वती
 विपिन कौ नंदन - विपिन है बखानती ।
 तरु कौ बतावति कलपतरु - कमनीय
 मेरु कौ मनोरम सुमेरु ते है मानती ॥ २ ॥

गौरव को गान सुने गौरव गहति बाल
 पद-गुरुता ते गिरे गिरि ते गिरति है ।
 देस की सजीवता ते लहति सजीवता है
 जीवन - बिहीनता ते बढ़ति बिरति है ।
 'हरिऔध' भूति देखे बनति विभूति - वती
 विपति के घरे घोर - दुख ते धिरति है ।
 भारत के भूले गात - सुधि भूलि भूलि जाति
 फूले फले फूली फूली ललना फिरति है ॥ ३ ॥

कांति - मती बनति दिवसपति - कांति ते है
 रंजित करति लोक - रंजिनी रजनि है ।
 सुधाधर-सुधा - सम - सलिल - सु-सिंचित है
 वसुधा - विदित - रत्न - राजि-मंजु-खनि है ।
 'हरिऔध' भाव-मयी-भामिनी-विभावना है
 भुवन - विकास-भूति - भारति - जननि है ।
 भवन - प्रभूत - अनुभूत - सिद्धि-साधना है
 भूतल की सार - भूत भारत - अरुणि है ॥ ४ ॥

नयन मैं नयन - विमोहन - सुमन छवि
 मन मैं बसति मधु - माधव - मधुरिमा ।
 कवि - कल - कंठता है विलसति कानन मैं,
 आनन मैं अमित - महानन की महिमा ।
 'हरिऔध' धी मैं धमनीन मैं विराजति है
 वसुधा - धवल - कर - कीरति - धवलिमा ।
 अंग अंग मैं है अनुराग - राग - अंगना के
 रोम रोम मैं है रमी भारत की गरिमा ॥ ५ ॥

✓ मुरसरि सम सनमानति सकल सरि
 सारे सर मैं है मानसरता निहारती ।
 सुमनस - सुमन कहति सुमनावलि को
 लतिका को कल्पलतिका है निरधारती ।
 'हरिऔध' अंगना भुवन मैं पुनीत भनि
 भारत - अरुनि को उतारति है आरती ।
 रजत निद्धावर करति रज - पुंजन पै
 मंजुल - राजीव - राजि पै है राज वारती ॥ ६ ॥

पग ते गहति पग पग पै पुनीत - पथ
 अमर - निकर काज कर ते करति है ।
 गाइ गाइ गुन - गन सुगुन - निकेतन के
 मंजु - वर लहि वर - विरद - बरति है ।
 'हरिऔध' मानस मैं भूरि - कमनीय-भाव
 भारत की बंदनीय - भूति के भरति है ।
 सुर - धुनि - धार को परसि उधरति वाल
 धरती की धूरि लै लै सिर पै धरति है ॥ ७ ॥

कहाँ है मधुर-साम-गान मुखरित-भूमि
 बानी के विलास की कहाँ है पूत पलिका ।
 कहाँ है सकल - रस - सरस - सरोज - पुंज
 सुख - मूल - मानव - समाज-मंजु अलिका ।
 'हरिऔध' भारत - विभव - वर - वायु वल
 विकच वनै न कैसे बाला - उर - कलिका ।
 प्रेम-सुधा विपुल - विमुग्ध वसुधा मैं भरि
 कहाँ पै वजी है महा - मोहिनी मुरलिका ॥ ८ ॥

जन्मभूमि-प्रेमिका

कवित्त—

कनक - प्रसू है कमनीयता - निकेतन है
 माननीयता - महि मदीयता की अरुनी ।
 लोक - पति-लालित त्रिलोक-पति-लीला-थल
 आलोकित - परम अलौकिकता - सजनी ।
 'हरिऔध' कैसे बिरमै न बहु - मोद मानि
रमनीय - भाव मैं रमित - मन - रमनी ।
 जीवन - विधायिनी है प्राण धन-जीवन की
 जननी - जनक की है जन्म - भूमि-जननी ॥ १ ॥

कैसे सुर - सरि सुर करति असुर हूँ को
 कासी क्यों बनति मुक्ति - मेदिनी-मनोहरा ।
 अरुचिर - दारु चारु - चंदन बनत कैसे
 काँच - महि कैसे होति कंचन - कलेवरा ।
 'हरिऔध' कैसे सैल लहत सती सी सुता
 सिता क्यों सुहाति है सुधारस - सहोदरा ।

कैसे वसुधा को वसुधापन - विदित होत
जो न होति सिद्ध - भूमि भारत - वसुंधरा ॥ २ ॥

चकित बनति हेरि उच्चता हिमाचल की
चाहि कनकाचल की चारुता - चरमता ।
मुदित करति निधि - मानता है नीरधि की
मानस - मनोहरता सुर - पुर की समता ।
'हरिऔध' मोहकता हेरि मोहि मोहि जाति
जनता - अमायिकता मैं है मन रमता ।
महनीय - महिमा निहारि महती है होति
ममतामयी की मातृमेदिनी की ममता ॥ ३ ॥

वेद - गान - गौरवित जननी गजानन की
पति की प्रमविनी कहति गज - गमनी ।
सेवति है सुर - सुरपति सेवनीय जानि
मानति है मानि दानवीय - दल - दमनी ।
'हरिऔध' पावनता भारत - अवनि पेखि
परम - पुनीत रस - पूत होति धमनी ।
मन मैं रमै न कैसे रमा - रमनीय - धाम
राम - जन्म - महि मैं रमै न कैसे रमनी ॥ ४ ॥

निजतानुरागिनी

कवित्त —

सास - असरसता अलसता वधू - जन की
अ-लसित - सकल - बिलासिता सताती है ।
सुकुसुम - कोमल - कुमारन की काम - रुचि
कामिनि - अकमनीय - कामना कँपाती है ।

‘हरिऔध’ देखि देखि देस को पतनप्राय
 परम - दुखित देस - प्रेमिका दिखाती है ।
 बालिका-बिवाह-विधि विविध-विधा है देति
 विधवा-बिवाह की अ-विधि बेधि जाती है ॥ १ ॥

बसन - बिदेसी की बसनता बिसरि सारी
 बिबस बनेहूँ देसी - बसन बिसाहै है ।
 समता - विचार मैं असमता - बिपुल देखि
 पति - प्रीति - ममता को परखि उमाहै है ॥
 ‘हरिऔध’ परकीयता को परकीय जानि
 सकल - स्वकीयता को सतत सराहै है ।
 भारत की पूजनीयता को पूजनीय मानि
 भारतीय - बाला भारतीयता निवाहै है ॥ २ ॥

सुंदर - सिंदूर - बिदु ही ते सुंदरी है होति
 पौडर कौ समझि असुंदर डरति है ।
 सोंधे के सु - बास ते सुवासित रहति भूरि
 साबुन के परसे उसासन भरति है ।
 ‘हरिऔध’ पर के असन कौ असनि कहै
 आपने बसन बेस कौ न बिसरति है ।
 सारी - असँवारी हूँ पहिरि पुलकति प्यारी
 साया परे साया के सवाया सिहरति है ॥ ३ ॥

लोक-सेविका

कवित्त—

वनत कुलीन अकुलीन के करत काम
 कुल कौ कलंकित कुलीनता करावै है ।

विधवा - विलाप ते विकल बसुधा है होति
 विवुध - समाज कौ विवुधता न भावै है ।
 'हरिऔध' लोक - सेविका कौ कल कैसे परै
 काल की करालता न काहि कलपावै है ।
 लोने - लोने - लालन में लहति लुनाई नाहिँ
 लालना - ललाम में ललामता न पावै है ॥ १ ॥

कज - कानि - कलित-कुलीन-खग-कुल काँहिँ
 बाल है बचावति कलेस - लेस - लासा ते ।
 विदलित - मानव को दलन निवारति है
 दलति रहति दिल - दहल दिलासा ते ।
 'हरिऔध' दुख अनुभवति दुखित देखि
 जीनति हैं दाँव भाव-पूत - प्रेम - पासा - ते ।
 उपवास करति विलोकि उपवासित को
 वनति पिपासित पिपासित - पिपामा ते ॥ २ ॥

✓ रूखी - रूखी - बातन ते रूख्य बदलति नाहिँ
 रूखी ना परति है रुखाई देखि रूखे की ।
 खोवति न साख सीख देति है सखीन हूँ कौ
 सुखी ना रहति सूखी नसै देखि सूखे की ।
 'हरिऔध' खूखापन काहिँ अखरत नाहिँ
 खूखी है वनति मूठी बात सुनि खूखे की ।
 दुखिन को करि कै अदूखित सुखित होति
 भूखित न होति बाल भूख देखि भूखे की ॥ ३ ॥

सेवा सेवनीय की करति सेविका समान
 सेवन औ सेवनीयता ते सँवरति है ।

सधवा को सोधि सोधि सोधति सुधारति है
 विधवा को बोधि बोधि बुधता बरति है ।
 'हरिऔध' धोवति कलंकिनी - कलंक-अंक
 बंक - मति - वंकता असंकता हरति है ।
 आनंदित होति करि आदर अनिदित कौ
 निदित की निदनीयता को निदरति है ॥ ४ ॥

मोद मानि मंद-जन-मंदता निवारति है
 मानदैं अमंद को है मंद मंद विहँसति ।
 वरसत नेह - बारि मानस - विरस मॉहिं
 असरस - चित को सरस करि सरसति ।
 'हरिऔध' विकच - वदन अवलोकि बाल
 विकसित - कुसुम - समान बहु बिकसति ।
 रहति सु - वासित सु - कीरति - सुबास ते है
 बिमल-बिलास ते विलासिनी है बिलसति ॥ ५ ॥

धर्म-प्रेमिका

कवित्त—

भजनीय-प्रभु के भजन किये भाव-साथ
 यजनीय - जन के यजन काज तरसे ।
 लोक अवलोकि परलोक-साधना मैं लगे
 बचे लोभ-मूल-लोक - लालसा - लहर से ।
 'हरिऔध' परम - पुनीत अंगना है होति
 बार बार नैनन ते प्रेम - बारि बरसे ।
 धरमधुरीन की सहज - धारना के धरे
 पग - धुरि धरम - धुरंधर की परसे ॥ १ ॥

‘हरिऔध’ कैसी कांत-कल्पना है कामुक की
 कर को कहत करि - कर है उमहि कै ।
 करत कलंकित मयंक - मुखी बतराइ
 आकुल करत अहि काकुल कौ कहि कै ॥ १ ॥

मोल लोल - लोचन को हरत ममोला कहि
 अधर - सुधाधर मैं विबता लहत है ।
 अमल - कपोल को बतावत मधूक सम
 कल - कंठ काँहि कंवु कहि कै दहत है ।
 ‘हरिऔध’ न्यारी मंजु - मानस की मंजुता है
 सुंदर को करत असुंदर रहत है ।
 वनज बनावत बदन - विधु - रंजन कौ
 खंजन स - अंजन - नयन कौ कहत है ॥ २ ॥

चाव है पै चाव मैं अभाव तिय - भाव को है
 पूत - प्रेम - व्यंजन - विहीन रुचि-थाली है ।
 तन - सु - सदन स्वामी सहज - सरस है न
 ममता - रहित मन - उपवन - माली है ।
 ‘हरिऔध’ लालन को ललना बिलोकि चुकीं
 कर मैं न लसति ललित नीति - ताली है ।
 नाहिँ है सलोनोपन मिलत सलोने माहिँ
 लोने - लोने-लोयन मैं नेह की न लाली है ॥ ३ ॥

मर्म-पीड़ित।

कवित्त—

विधुर - विवाह पै विवाह क्यों करत जात
 विधवा क्यों विधवा सदैव रहि हहरति ।

‘हरिऔध’ कैसी कांत-कल्पना है कामुक की
 कर कौ कहत करि - कर है उमहि कै ।
 करत कलंकित मयंक - मुखी बतराइ
 आकुल करत अहि काकुल कौ कहि कै ॥ १ ॥

मोल लोल - लोचन को हरत ममोला कहि
 अधर - सुधाधर मैं विवता लहत है ।
 अमल - कपोल को बतावत मधूक सम
 कल - कंठ कौहि कंबु कहि कै दहत है ।
 ‘हरिऔध’ न्यारी मंजु - मानस की मंजुता है
 सुंदर को करत असुंदर रहत है ।
 वनज वनावत वदन - बिधु - रंजन कौ
 खंजन स - अंजन - नयन कौ कहत है ॥ २ ॥

चाव है पै चाव मैं अभाव तिय - भाव को है
 पूत - प्रेम - व्यजन - बिहीन रुचि-थाली है ।
 तन - सु - सदन स्वामी सहज - सरस है न
 ममता - रहित मन - उपवन - माली है ।
 ‘हरिऔध’ लालन को ललना बिलोकि चुकीं
 कर मैं न लसति ललित नीति - ताली है ।
 नाहि है सलोनोपन मिलत सलोने माहिं
 लोने - लोने-लोयन मैं नेह की न लाली है ॥ ३ ॥

मर्म-पीड़िता

कवित्त—

बिधुर - विवाह पै विवाह क्यों करत जात
 बिधवा क्यों बिधवा सदैव रहि हहरति ।

जन क्यों कुजनता कियेहूँ ना कुजात होन
 जनि जनि लाल है जननि काहें थहरति ।
 'हरिऔध' काहें अहै अबनि - अनीति-मयी
 काहे नाहिं यामैं है मुनीनि लना लहरनि ।
 नर की ललामता क्यों लसति अलीन माहिं
 नारि-छवि काहे है छलीन माहिं छहरति ॥ १ ॥

नर जो पढ़न सो नरोतम वनत काहें
 काहे सो कु - नारि होति नारि जो पढ़ति है ।
 प्रिय जू के पाप काहें पापहूँ न माने जाहिं
 काहें नेक चूके तिय आँखि पै चढ़ति है ।
 'हरिऔध' घूमि गये मकल - वसुंधरा मैं
 काहे घरवारन की कोरति बढ़ति है ।
 काहें तो उग्ररि जात वाको लाज-चादर है
 घरनी जो घरहूँ ते बाहर कढ़ति है ॥ २ ॥

प्यारो जो न कहै कछू उपचार प्यार को तो
 प्यारी को लौं प्यार के के प्यार को ब्यारिहै ।
 प्रिय जो प्रतीति की प्रतीति उपजैहै नाहिं
 तिय तो प्रतीति-पथ को लौं निरधारिहै ।
 'हरिऔध' कैसे नातो ललना-विगार हैहै
 बात वान मैं जो बात लालन विगारिहै ।
 कोऊ पति-बारी तो कहाँ लौं पति-मान कहै
 कोऊ पति पतिनी को पति जो उतारिहै ॥ ३ ॥

सवैया—

आदर आये करै अति ही वतियाँ हूँ सुधा सों भरी मुख भाखै ।
 वान सनेह विगोवै नहीं कर्वाँ सील हूँ ना अखियान की नाखै ।

दोस दै रोस किये 'हरिऔध' के नेकहूँ ना अपने मन माखै ।
पै परतीन के प्रेम - पगे - पति को पतिनी परतीति न राखै ॥ ४ ॥

३—अधमा

पति की अहितकारिणी, उद्धत-स्वभावा और कर्कशा स्त्री को अधमा कहते हैं।

कवित्त—

रूप है तो कहा कोऊ और रूपवारो नाहिँ
रखत रसालता न बनत रसीले हैं ।
बनक बनाइ इतरात बात बात मैं हैं
रंग बिगरे हूँ बने रहत रंगीले हैं ।
'हरिऔध' नारि कहा छगुनी छबीली नाहिँ
छिति माहिँ वेई नहीं छयल छबीले हैं ।
गोरी - गोरी - ललना गरे परि न भोरो बनै
गोरे - गोरे - मरद - निगोरे गरबीले हैं ॥ १ ॥

नैनन के बान साँचे बान ही बनैगे अब
कामिनी के पास बाँकी-भौहन की असि है ।
वरसि बचन गोले बिबस बनैहै महा
कसक निकासि भुज - पासन सों कसिहै ।
'हरिऔध' रखहिँ अकस न अकस - वारे
ना तो कोऊ सुबस बसेहूँ नाहिँ बसिहै ।
केहरि सी लंक - वारो हरि है कलंक - अंक
नागिनि अलक-वारी नागिनि सी डँसिहै ॥ २ ॥

आन-बान-वारो आन-बान दिखराइहै तो
कैसे ना कमान को कमान-वारी सजिहै ।
नैनन के अंबु मैं जो अंबुता न साँची पैहै
कंबु तो न कैसे कंबुता दिखाइ बजिहै ।

‘हरिऔध’ काभिन की कनक मनक - वारी
 कनक - लतान की कनकना ने भजिहै ।
 चचरीक - रुचि छोड़िहै न चंचरीकना तो
 चंपकना चंपक - वरनि कैसे तजिहै ॥ ३ ॥

चंचल - चखन-वारी चंचल न कहै काहि
 भोरी भीरु भूरि - धूरि अँखिन में भरिहै ।
 फंदे सी अलक - वारी फंदे माँहि पारि देहै
 छैलन को फूल की छरी सी नारि छरिहै ।
 ‘हरिऔध’ हारे हार मानिहे न हार - वारी
 दुलही - दुलार - वारी दूलह सो लरिहै ।
 कलही नकारे गोरे - गोरे - गाल - वारे सुनै
 लाल मुँह लाल लाल गाल - वारी करिहै ॥ ४ ॥

धर्म-संबंधी भेद

स्वकीया

विनय-शीला, नगल-स्वभावा, यह-कर्म-परायणा और प्रति-रता स्त्री को स्वकीया कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

पावन - पुनीत - गृह - गुन - मन-भावन के
 चावन सहित एरो रसना उचारि लै ।
 दान सनमान में तिलोक में न ऐसो आन
 मेरी कही मान यहै मन निरधारि लै ।
 सकल - अलौकिकना एक ‘हरिऔध’ ही में
 तूह उर वार वार विलखि विचारि लै ।

प्यारे-प्यारे-मुख पै सँवारे - कारे - केसन कौ
 एरे मेरे नेह - वारे नैनन निहारि लै ॥ १ ॥

सवैया—

कामिनी के कल - बैन सुने नहीं कानन हूँ करी कोटि - कला है ।
 प्रीतम - प्रीति - प्रतीति मैं बाल मनेह - वती - सिय लौं सबला है ।
 ही 'हरिऔध' मयी अखियान तिराजत एक ही नंदलला है ।
 भाग-भरी त्यो सुहाग - भरी अनुराग - भरी नबला - अबला है ॥२॥

स्वकीया के भेद

अवस्था के अनुसार स्वकीया के निम्नलिखित तीन भेद हैं—

१—मुग्धा, २—मव्या और ३—प्रौढा ।

१—मुग्धा

समधिक लजावती, काम चेष्टा-रहित अकुरित-यौवना को मुग्धा कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

बयन सुधा मैं सनि - सनि सरसन लागे,
 कान परसन लागे नयन नवेली के ।
 आँगुरी की पोरन मैं लालिमा दिपन लागी,
 गुन गरुआन लागे गरब गहेली के ।
 'हरिऔध' हेरि हेरि हियरो हरन लागी,
 चाहि चितवन लागी कोरक चमेली के ।
 मंजु छवि छिति - तल पर छहरान लागी,
 छूअन छवान लागे केस अलबेली के ॥ १ ॥

कर पग जल - जात सरिस भये हैं मंजु
 गति मैं भई है सोभा सरस - नदन की ।

अनन अमंड - चंद्र सरिस द्विप लन्ग्यो
जाहि सो जगी है जोति अनन - सदन की ।
‘हरिऔध’ यौवन सरद की समैया पाइ
कुंद की कली लौं भई पॉति है रदन की ।
चंचलता अखिन वसी है खंजरीट जैसी
चाँदनी - सी फैली चारु चाँदनी वदन को ॥ २ ॥

सवैया—

पीन भये कुच कानिनी के दोऊ केहरि सी कटि खीन भई है ।
बंकता भौहन माहिं ठई मुख पै नव जोति - कला उनई है ।
जोवन अंग दिग्यो ‘हरिऔध’ गये गुन हूँ अब आय कई है ।
केस लगे छहरान छवान हूँ कानन लौं अखियान गई हैं ॥ ३ ॥

सुग्धा के भेद

ज्ञान के अनुसार सुग्धा के दो भेद हैं—१-अज्ञातयौवना और २-ज्ञातयौवना ।

अज्ञातयौवना

जिस सुग्धा को अपने यौवन के आगमन का ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञात-यौवना कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

अबि गई हौं बतावै कहा नहीं क्यों हंसि मोन की वान गही है ।
घेरत हैं ‘हरिऔध’ कहा हमें नृतनता हम कौन लही है ।
ए वजमारे न टारे टरै कहा औरन की इनै पीर नहीं है ।
ठौर न भौरन को है कहूँ किधौं भौरन की मति भूलि रही है ॥१॥

ज्ञातयौवना

जिस सुग्धा को अपने अकुरितयौवना होने का ज्ञान होता है उसे ज्ञात-यौवना कहते हैं ।

सवैया—

चंचलता ही न आनि ठनी कछु होन लगी अँखियान सो चूको ।
बीर बनाव सिंगार हूँ मैं अनुराग भयो सो लखात बधू को ।
पी 'हरिऔध' की बात चले पगि लाज मैं लागी बिलोकन भू को ।
चोज सो ऊँचे उरोजन हेरि लखै लगी रोज सरोजन हूँ को ॥१॥

ज्ञातयौवना के भेद

ज्ञातयौवना के दो भेद है—१-नवोढ़ा और २-विश्रब्धनवोढ़ा ।

नवोढ़ा

लजा और भय के आधिक्य से जो पति का ससर्ग नहीं चाहती, वह नायिका नवोढ़ा कहलाती है ।

उदाहरण

दोहा—

इत उत दौरि दुरति रहति दूरहि ते बतराति ।
पिय तन - छाँह बनन चहत तिय लखि छाँह सकाति ॥ १ ॥

बरवा—

करि चतुरैया चाहत पकरन बाँह ।
छै नहिँ सकत छयलवा पै तन - छाँह ॥ २ ॥

विश्रब्धनवोढ़ा

रति में अल्प अनुराग और पति में कुछ विश्वास जिसे हो जाता है उस नायिका को विश्रब्धनवोढ़ा कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

प्रीतम को गुन जानै नहीं तबहूँ सुनि नाम लजान लगी है ।
कानन को 'हरिऔध' कही रस की बतिया हूँ सुहान लगी है ।

अंक असंक भरे 'हरिऔध' कौ रीति गहे रति की अति प्यारी ।
काम-कलोल मैं काल वितावति बाल-बिलोल-बिलोचन-वारी ॥ १ ॥

दोहा—

कबहूँ कबहूँ कामिनी रखति लाज सों काज ।
तन मैं मन मैं नयन मैं अतन बिराजत आज ॥ २ ॥

प्रौढ़ा के भेद

प्रौढ़ा के दो भेद हैं—१-रतिप्रीता २-आनंदसंमोहिता ।

रतिप्रीता

जिसको रति से अधिक प्रीति होती है उसे रतिप्रीता कहते हैं ।

दोहा—

भरे उमंग परे रहहु कहाँ भयो पिय भोर ।
है तमचुर को रव नहीं बोलत तम मैं चोर ॥ १ ॥

आनंदसंमोहिता

रति-सुख-जनित आनंद से मोहित नायिका को आनंदसंमोहिता कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

नाना केलिकला करति लहे लाल सुख - कंद ।
रोम रोम मैं भरि बहत वाको उर - आनंद ॥ १ ॥
अंगराग आनंद को अंग अंग मैं पोति ।
रस - बस ह्वैह्वै कामिनी काम-कामिनी होति ॥ २ ॥

मध्या और प्रौढ़ा के भेद

मान-भेद के अनुसार मध्या और प्रौढ़ा के तीन भेद होते हैं, अर्थात्—
१-धीरा, २-अधीरा, ३-धीराधीरा ।

अंक असंक भरे 'हरिऔध' कौ रीति गहे रति की अति प्यारी ।
काम-कलोल में काल बितावति बाल-विलोल-विलोचन-वारी ॥ १ ॥

दोहा—

कबहूँ कबहूँ कामिनी रखति लाज सो काज ।
तन में मन में नयन में अतन बिराजत आज ॥ २ ॥

प्रौढ़ा के भेद

प्रौढ़ा के दो भेद हैं—१-रतिप्रीता २-आनदसमोहिता ।

रतिप्रीता

जिसको रति से अधिक प्रीति होती है उसे रतिप्रीता कहते हैं ।

दोहा—

भरे उमंग परे रहहु कहाँ भयो पिय भोर ।
है तमचुर को रव नही बोलत तम में चोर ॥ १ ॥

आनंदसंमोहिता

रति-सुख-जनित आनंद से मोहित नायिका को आनदसमोहिता कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

नाना केलिकला करति लहे लाल सुख - कंद ।
रोम रोम में भरि बहत वाको उर - आनंद ॥ १ ॥
अंगराग आनंद को अंग अंग में पोति ।
रस - बस है है कामिनी काम-कामिनी होति ॥ २ ॥

मध्या और प्रौढ़ा के भेद

मान-भेद के अनुसार मध्या और प्रौढ़ा के तीन भेद होते हैं, अर्थात्—
१-धीरा, २-अधीरा, ३-धीराधीरा ।

१—धीरा

नारी-विलासमूचक चिह्नो को देखकर धैर्य के साथ मादर कांन प्रकाश करने-
वाली नायिका को धीरा कहने है, उसके दो भेद हैं—मध्याधीरा और प्रौढाधीरा ।

मध्याधीरा

मादर व्यंग वचन द्वारा रोष प्रकट करनेवाली मध्याधीरा कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

मिलि मिलि मोद-चारी मुकुलित मल्लिका सों
कुंज कुंज क्यारिन कलोल करि फूले हो ।
पान कै प्रकाम - रस आम - मंजरीनहूँ के
उर - अभिराम को अराम उनमूले हो ।
'हरिऔध' ठौर ठौर भौरि भुकि मूमि मूमि
चूमि चूमि कंज की कलीन को कवूले हो ।
तजि नहन्हई-मंडु - मालती - चमेलिन को
कौन भ्रम बेलिन भँवर आज भूले हो ॥ १ ॥

सवैया—

चौगुनी चंचलता हूँ किये हमें चाव ही सो चुप हूँ रहनो है ।
औगुन की वतियानहूँ मैं 'हरिऔध' मदा गुन ही गहनो है ।
भाव तिहारे भलेई अहँ हमें भूलि न भौर कळू कहनो है ।
फेरी करौ कै करो जिनि तेरी सरोजिनि को सब हो सहनो है ॥ २ ॥

प्रौढाधीरा

प्रकट मे मान का कोई भाव न दिखलाकर संयोग-समय उदासीनता ग्रहण
करनेवाली नायिका प्रौढाधीरा कहलाती है ।

उदाहरण

सवैया—

आवत ही विकसौ हैं मिली अलसौ हैं बिलोकि नही बदल्यो रुख ।
 वैन हरे हरे बोलि सुधा-सने बैसही बाल दियो पिय को सुख ।
 पै रचे केलि-क्रिया 'हरिऔध' के दावि सकी नहीं अंतर के दुख ।
 छोरन देत न कंचुकी के बँद जोरन देत नही मुख सों मुख ॥ १ ॥

२—धीराधीरा

नारी-विलास-सूचक चिह्नों को देखकर कुछ गुप्त और कुछ प्रकट कोप दिखलानेवाली नायिका धीराधीरा कहलाती है। इसके भी दो भेद हैं—मध्या धीराधीरा और प्रौढ़ा धीराधीरा।

मध्या धीराधीरा

रोदन-सहित व्यग वचन कहनेवाली नायिका धीराधीरा कहलाती है।

उदाहरण

सवैया—

भोर भये पै पधारे कहा भयो मेरी सदा सुख ही की घरी है ।
 एरी कबू 'हरिऔध' करै हमै तो उनकी परतीति खरी है ।
 वृष्णि बिचारि कहै किन बावरी बीच ही मैं कत जाति मरी है ।
 साँवरे प्रेम पसीजि परी नहिँ मो अखिया असुआन भरी है ॥ १ ॥
 दोहा—

ए उमड़े असुआ नहीं कत कीजै सखि माख ।

अरी सनेह - भरी लसै यह तिल-वारी आँख ॥ २ ॥

प्रौढ़ा धीराधीरा

मान करके तर्जन-गर्जन-पूर्वक व्यग-वचन-वाण द्वारा पति को बिद्ध करने-वाली नायिका को प्रौढ़ा धीराधीरा कहते हैं।

ऐसी न लालिमा है अँखियान की जो 'हरिऔध' पै अँखिन पारै ।
सूल सी सालति ऐसियै भूल अरी पिय को मति फूल सों मारै ॥१॥

स्वभाव-संबंधी भेद

नायिका के स्वभाव-संबंधी तीन भेद बतलाये गये हैं—१-अन्यसुरतिदुःखिता
२-चक्रोक्तिगर्विता और ३-मानवती । यह भेद मध्या और प्रौढ़ा ही में माना
गया है । परकीया और सामान्या में भी ग्रहीत हो सकता है ।

अन्यसुरतिदुःखिता

अन्य स्त्री के शरीर पर प्रिय-संभोग चिह्न देखकर दुःख प्रकाश करनेवाली
नायिका अन्यसुरतिदुःखिता कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

पान-वारे - ओठन की लालिमाहूँ लूटी गई
गारत भयो है रंग गोरे - गोरे - गाल को ।
आली तेरे आनन को ओपहूँ परानो कहूँ,
मरदि गयो है मान तेरी मंजु - चाल को ।
'हरिऔध' सारे - अंग सेद मैं रहे हैं डूबि
ऊबि ऊबि सासैं भरै भाखत न हाल को ।
एरी रूप - वारी कौने तोपै बटपारो करी
एरी वारी भोरी कौने लूट्यो तेरे माल को ॥ १ ॥

दोहा—

परम निठुर पै जात ही भयो कडा तोहि बीर ।
कत तू पीरी परि गई उठी कौन सी पीर ॥ २ ॥
कत हौं पठई कत गई तू वापै करि प्यार ।
अरी रीफि कैसे गयो तो पै मो रिक्खवार ॥ ३ ॥

ऐसी न लालिमा है अँखियान की जो 'हरिऔध' पै आँखिन पारै ।
सूल सी सालति ऐसियै भूल अरी पिय को मति फूल सो मारै ॥१॥

स्वभाव-संबंधो भेद

नायिका के स्वभाव-संबंधी तीन भेद बतलाये गये हैं—१-अन्यसुरतिदुःखिता
२-चक्रोक्तिगविता और ३-मानवती । यह भेद मध्या और प्रौढ़ा ही में माना
गया है । परकीया और सामान्या में भी गृहीत हो सकता है ।

अन्यसुरतिदुःखिता

अन्य स्त्री के शरीर पर प्रिय-सभोग चिह्न देखकर दुःख प्रकाश करनेवाली
नायिका अन्यसुरतिदुःखिता कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

पान-वारे - ओठन की लालिमाहूँ लूटी गई
गारत भयो है रंग गोरे - गोरे - गाल को ।
आली तेरे आनन को ओपहूँ परानो कहूँ,
मरदि गयो है मान तेरी मंजु - चाल को ।
'हरिऔध' सारे - अंग सेद मैं रहे हैं डूबि
ऊबि ऊबि सासैं भरै भाखत न हाल को ।
एरी रूप - वारी कौने तोपै बटपारी करी
एरी वारी भोरी कौने लूट्यो तेरे माल को ॥ १ ॥

दोहा—

परम नितुर पै जात ही भयो कडा तोहि बीर ।
कत तू पीरी परि गई उठी कौन सी पीर ॥ २ ॥
कत हौं पठई कत गई तू वापै करि प्यार ।
अरी रीफि कैसे गयो तो पै मो रिभवार ॥ ३ ॥

बरवा—

रजनीपति - छवि अँखिया निरखि लजाय ।
कैसे मोर छयलवा रहत लुभाय ॥ ४ ॥

प्रेमगर्विता

पति-प्रेम का गर्व रखनेवाली स्त्री प्रेमगर्विता कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

साजि साजि बीरी पानदान भरि राखै
खासे खासदानहूँ मैं लाइ अतर धख्यो करै ।
मानत न लै लै साज साजत रहत सेज
तानत बितान जाते सुमन भख्यो करै ।
'हरिऔध' भूखन हूँ सकल सजाइ
मंद - मंद बतराइ मोद मन मैं भख्यो करै ।
चहल - पहल परिचारिकान हूँ के रहे
महल हमारे मंजु टहल कख्यो करै ॥ १ ॥
बिमुख मयूख ते हूँ ऊबि ऊख-रस हूँ ते
अधर - पियूख ही को परकि पियो करै ।
आन न बिलोकै हेरि आनन - मनोहर को
तानन सुनाइ मोहि प्रानन लियो करै ।
'हरिऔध' कारी सटकारी तमतोमवारी
जोहि जोहि जोमवारी जुलफैं जियो करै ।
प्यारे - प्यारे - मन - वारे मोहित - करनहारे
सौतुक हमारे केते कौतुक कियो करै ॥ २ ॥

मानवती

प्रिय का अपराध सूचित करनेवाली चेष्टा जिस स्त्री में पाई जाती है उसे मानवती कहते हैं ।

बरवा—

रजनीपति - छवि अँखिया निरखि लजाय ।
कैसे मोर छयलवा रहत लुभाय ॥ ४ ॥

प्रेमगर्विता

पति-प्रेम का गर्व रखनेवाली स्त्री प्रेमगर्विता कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

साजि साजि बीरी पानदान भरि राखै
खासे खासदानहूँ मैं लाइ अतर धख्यो करै ।
मानत न लै लै साज साजत रहत सेज
तानत वितान जाते सुमन भख्यो करै ।
'हरिऔध' भूखन हूँ सकल सजाइ
मंद - मंद बतराइ मोद मन मैं भख्यो करै ।
चहल - पहल परिचारिकान हूँ के रहे
महल हमारे मंजु टहल कख्यो करै ॥ १ ॥
विमुख मयूख ते ह्वै उबि उख-रस हूँ ते
अधर - पियूख ही को परकि पियो करै ।
आन न विलोकै हेरि आनन - मनोहर को
तानन सुनाइ मोहि प्रानन लियो करै ।
'हरिऔध' कारी सटकारी तमतोमवारी
जोहि जोहि जोमवारी जुलफै जियो करै ।
प्यारे - प्यारे - मन - वारे मोहित - करनहारे
सौतुक हमारे केते कौतुक कियो करै ॥ २ ॥

मानवती

प्रिय का अपराध सूचित करनेवाली चेष्टा जिस स्त्री में पाई जाती है उसे मानवती कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

किती कामिनीन वारे रसिक कलानिधि सो
 कालिमा लगी ना कवौं कौमुदी-कहानी में ।
 मदमाने भृंगन सो माखै मालती हूँ नाहिं
 भाग्यै ना मसूसि रुसि मरी मुरभानी में ।
 'हरिऔध' की नौ कही मानु एरी मानवारी
 वनियों न मान की हूँ तनकी निसानी में ।
 करत गुमान तू तो कैसे रहै अरमान
 मान तू करत तो करत मनसानी में ॥ १ ॥

सवैया—

कछु मोसो भई तकसीर नही हठ कौ हकनाहक तू न अरै ।
 'हरिऔध' है सूधो सदा को कहा करि के छल छंदन ताको छरै ।
 मन मानै हमारी कही कबहूँ पै मया के न मोसो मिजाज करै ।
 यह कैसी कुबानि तिहारी परी जो घरी-घरी तासो तनेनी परै ॥२॥

ज्येष्ठा-कनिष्ठा

कतिपय विवाहिता स्त्रियों में पति को जो नवसे अधिक प्यारी हो उसको ज्येष्ठा और अन्य स्त्रियों को कनिष्ठा कहते हैं ।

दोहा—

पिय जिय राजी भो उठी सजी सौति - उर पीर ।
 मँजी रही कब की जो यों बजी मंजु - मंजीर ॥ १ ॥

कवित्त—

सुंदर सुहाग की सराहना न मोते होनि
 तेरे मंजु भागहूँ की गरिमा अथोर है ।

भोरे भोरे भाव हैं अभाव-हारी 'हरिऔध'
 चरचा तिहारे चावहूँ की चहुँ ओर है ।
 आलय मैं केती आला-आला-अलवेली अहँ
 तिहारे निरालापन ही को तऊ सोर है ।
 प्रीतम बँध्यो है प्यारी तेरे प्रेम डोर ही मैं
 तेरी नैन - कोर ही मैं नैन की मरोर है ॥ २ ॥

परकीया

जो स्त्री गुप्त रूप से परपुरुष की अनुरागिनी होती है उसे परकीया कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त —

चहुँ ओर चरचा चवाइन चलायो आनि
 पायन परी है खरी-बेरी लोक लाज की ।
 गुरु-जन हूँ की भीर तरजन लागी, परी
 बरजन ही की वानि आलिन-समाज की ।
 हाय ! 'हरिऔध' हूँ से अपने पराये भये
 सूभति न मोको कोऊ सूरति इलाज की ।
 कढ़ति न क्यो हूँ रोम - रोम मैं समाई वह
 सूरति - सलोनी - मनभाई ब्रज - राज की ॥ १ ॥

आँसुन मैं डूवि डूवि जावैं टक लावैं नाहिँ
 ऊवि अकुलावैं जो पै धीरज बँधाइये ।
 'हरिऔध' छवि पै छकहिँ छलकहिँ छूटि
 छूटि ललकहिँ जो पै छनक न लाइये ।
 थिर ना रहहिँ लोक-लाजहिँ बहहिँ भूलि
 सौँहैं ना लखहिँ जो पै पलटि लखाइये ।
 कबहूँ जो रोचन - तिलक - वारे - साँवरे पै
 छोरिकै सकोचन ए लोचन लगाइये ॥ २ ॥

सवैया—

दुख आपनो कासों कहाँ सजनी सदा साथ लगी तो उपाधै रही ।
सबकी सब भौंति रही सहतै तवहूँ रुचि तो पल आधै रही ।
कव प्यार कियो कपटी 'हरिऔध' लगी नित ही यह व्याधै रही ।
मुखबोलन को हौं सदा तरसी जिय मूधी चितौन की साथै रही ॥३॥

कान ए का न करै फिर क्यो सुनि तानन हीं इन वानि विगारी ।
मोहि गयो मन-मोहन पै तो भई तवहूँ मन सों मन-वारी ।
पै हमें वृष्णि परी ना अर्जां हरिऔध' की सौं वतिया यह न्यारी ।
वावरी कैसे रंगी रंग लाल में मो अखियान की पूतरी-कारी ॥४॥

कल कानि रमी करि कोन कला ललना-कुल आकुल-प्रानन में ।
'हरिऔध' नयो रस काने भखो रमिया के अलौकिक-गानन में ।
किन नाई सुधा वसुधा-तल की मुरली की मनोहर-नानन में ।
अलि मोहनी आनि कहाँ ते वमी मनमोहन मोहन-आनन में ॥५॥

दुख-वारि विमोचत नैन रहै अहै चैन न मैन के वानन में ।
पथ-प्रेम कौ छेम भरो है नही अहै नेम न नेह-निदानन में ।
'हरिऔध' है योग वियोग-सनो अहै छोह नही छविमानन में ।
चतुराइन की चरचा है कहा अहै चूक भरी चतुरानन में ॥६॥

दोहा—

हिलि-मिलि वे चलि जात हैं ए दृग रहहिं विसूरि ।
नैननहूँ को देखियत नैनन पारत धूरि ॥ ७ ॥
मो नैनन बेलमाइ ए नैन करहिं उतपात ?
का अजगुत की बात जो जाति जाति मिलि जात ॥ ८ ॥
चाह-भरी-अखियान ते हम चितवत तुव ओर ।
पै न चूकि चितयो कवौं तू एरे चित-चोर ॥ ९ ॥

विकत त्रिपुल-आकुल रहत बहँकत बनत अयान ।
 वंसी-तानन कान सुनि नयन निरखि मुसुकान ॥ १० ॥
 लौटावत लूटी परो लौटि लपेटे भाग ।
 लटपटात लोयन गये बँधे लटपटी पाग ॥ ११ ॥

बरवा—

भलही मोर ननदिया बरबस आय ।
 बोलति बोल बिरहिया जिउ जरि जाय ॥१२॥
 खान पान सुधि भूली गयहु अपान ।
 टप टप टपकत असुआ दोउ अखियान ॥१३॥
 विसरति नाहिँ सनेहिया तजत न आन ।
 जल बिन तलफि मछरिया त्यागत प्रान ॥१४॥
 बढ़ति जाति विकलैया निक्षि न सिराति ।
 दिन दिन सजनी देहिया छीजति जाति ॥१५॥

परकीया के भेद

परकीया नायिका के दो भेद हैं—ऊढा और अनूढा । इन दोनों के भी दो-दो भेद हैं—उद्बुद्धा और उद्बोधिता ।

ऊढा

जो विवाहिता स्त्री गुप्त रीति से दूसरे से प्रीति करती है उसे ऊढा कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

बिलोकेहूँ त्रिपुल बिहाल ना गहूँ बिराम
 बान सखियान की परी है बरजन की ।
 तोखैं ना तनिक तात तमकि तनेने होहि
 बात हित नात की है काँत तरजन की ।

एरी वीर हरिऔध' निपट अधोर कियो
 पीर उर आनत न लाग्य लरजन की ।
 भोरी बनी बिपुल बिथोरी विस बोरी बनी
 जरो री निगोरी ऐसी लाज गुरजन की ॥ १ ॥

वारि के भरेहूँ तोख लहत न कैसहूँ हूँ
 हँसियो न जानैं ऐसी महत - उदासी हूँ ।
 लोक-लाजहूँ ने काज राखत कळू ना कवौं
 गाज के परे हूँ नेरी पूरन - उपासी हूँ ।
 'हरिऔध' औरन की चाह सपने हूँ नाहिँ
 तेरे प्रेम - वूँद ही की अनुदिन आसी हूँ ।
 उछरी ए अखियाँ हमारी ऐन - चातकी सी
 एर घनस्याम तेरे रूप - रस प्यासी हूँ ॥ २ ॥

सवैया—

वावरो सो मन मेरो भयो रहै भूलि न भावत भौन बसेरो ।
 पीर सी होति रहै हियरे दुख पावत पातकी - प्रान घनेरो ।
 क्यों हूँ नहीं 'हरिऔध' कहूँ लगै उवत हे जियरो बहुतेरो ।
 एरी न जानत मो पै कहा कियो पीतम मेरी परोसिनी केरो ॥३॥

वीर अधीर भई तो कहा परी पोर भरी छतिया अब चाँपनी ।
 प्रीति रतीक न जा 'हरिऔध' मैं ताकी प्रनीति करी बनी पापिनी ।
 या अपकीरति की बतिया निज हाथन मोहिँ परी मखि थापनी ।
 मो पतिआन पै गाज परै पति - आन के हाथ गई पति आपनी ॥४॥

अनूदा

जो अविवाहिता स्त्री किसी पुरुष से गुप्त प्रीति करती है उसे अनूदा कहते हैं ।

कवित्त—

संकुचित भौं हैं करि सोचति कछू है कबौं
 कंटकित गात होत कबौं गरबीली को ।
 ढरकि रहे हैं सेद - कन रोम - कूपन सो
 छाम ह्वै गयो है तन सकल छबीली को ।
 'हरिऔध' कहै डूबि डूबि मन काहें जात
 गहन लगी क्यो ऊबि ऊबि गति ढीली को ।
 लहि लहि लाज कौन काज भरि भरि आवै
 रहि रहि आज नैन ललना रसीली को ॥ १ ॥

सवैया—

सुनती बतिया सखियान हूँ की गुरु लोगन हूँ की कही करती ।
 नहिं बारि बहावती अखिन सो अपने उर धीरज हूँ धरती ।
 हकनाहक ही हठ कै 'हरिऔध' हितून हूँ सो ना कबौं अरती ।
 अरी वा मन - भावन साँवरे के संग कैसहूँ भाँवरें जो भरती ॥२॥

सुंदर चीकनो चाव भरो अलबेलो अलौकिकता को सहारो ।
 लाइ हिये दुख - मेटनवारो छबीलो छकी - अखियान को तारो ।
 सूधो सजीलो सुजान गुनी 'हरिऔध' धरातल गौरववारो ।
 बीर बताय दै क्यों मिलिहै वह भावतो बालपने को हमारो ॥३॥

उद्बुद्धा

अपनी इच्छा से उपपत्ति से प्रेम करनेवाली परकीया को उद्बुद्धा कहते हैं ।

कवित्त—

मंद-मंद समद-गयंद की सी चालन सों
 गवालन लै लालन हमारी गली आइये ।
 पोखि-पोखि प्रानन को सानन सहित
 इन कानन को बाँसुरी की तानन सुनाइये ।

‘हरिऔध’ मोरि मोरि भौं हैं जोरि जोरि ह्य
 चोरि चोरि चितहूँ हमारो ललचाइये ।
 मंजुल-रदनवारो मुद के सदनवारो
 मदन-कदनवारो वदन दिखाइये ॥ १ ॥

काको सुत कैसी छवि धारत बसन कैसे
 कैसी बानी बोलि को पियूख वरसावै है ।
 जानत जुगुत कैसी मोहत कहाँ धौं करि
 मंद-मुसुकान काकी मन अपनावै है ।
 ‘हरिऔध’ की सौं कही मानु देखं नेक
 काको रूप कामिना को बावरी बनावै है ।
 काके बस ब्रज की बिलासिनी भई हैं वीर
 कौन बनमाली बन वाँसुरी बजावै है ॥ २ ॥

सवैया—

हम कैसी करैं कित को चलि जायँ महा दुख में हमैं पारती हैं ।
 हरिकै छल सो सिगरी कुलकानि विचारन हूँ को विगारती हैं ।
 ‘हरिऔध’ न मानती हैं छनहूँ कवाँ सृषेहूँ नॉहिं निहारती हैं ।
 यह रावरी नेह-मयी आँखयोँ हमैं बावरी सी किये डारती हैं ॥३॥

साँभ सकारे मया करिकै कवहूँ गुरु लोगन के अनदेखे ।
 आपनी या छवि मैन-मयी दरमायो करौ हित कै हित लेखे ।
 नातो अहो ‘हरिऔध’ सुनो तन रहै नहीं पतिआन के पेखे ।
 प्यारे न मानती हैं अँखियोँ विन रावरी साँवरी मूरत देखे ॥३॥

उद्धोषिता

उत्पत्ति चाटनी ने प्रेरित होकर प्रीति करनेवाली नायिका को उद्धोषिता कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

मोको विलोकत ही अपने मन मैं मुख मानि महा-उमगानी ।
आसन दीनो समादर कै मुख वाजि हरे हरे मंजुल-बानी ।
सील के पेचन माँहि परो 'हरिऔध' सनेह सनी सकुचानी ।
प्यारे तिहारी प्रमोद भरी पतिआ पढ़िकै पुलको पतिआनी ॥१॥

परकीया के छः भेद

व्यवहार और कार्य-कलाप सबध से परकीया छः प्रकार की होती है ।
१-गुप्ता, २-विदग्धा, ३-लक्षिता, ४-कुलटा, ५-अनुशयाना और ६-मुदिता ।

१—गुप्ता

पर-पुरुष-विहार-सबधी क्रिया को गोपन करनेवाली परकीया गुप्ता कहलाती है, वह तीन प्रकार की होती है—१-भूतगुप्ता, २-वर्तमानगुप्ता और ३-भविष्यगुप्ता ।

✓ भूतगुप्ता

✓ भूतकालिक विहार गोपन करनेवाली भूतगुप्ता कहलाती है ।

उदाहरण

दोहा—

भाग जगावन काज मैं माँगन गई भभूत ।
कहाँ करौं भोरे - जनन कौँहिँ भिखो जो भूत ॥ १ ॥
सुनत हुती मैं रसिक-जन हुतो सरस बतरात ।
मोहि कलंकित करि कइति कत कलंक की बात ॥ २ ॥

वर्तमानगुप्ता

वर्तमानकालिक विहार गोपन करनेवाली वर्तमानगुप्ता कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

टूट टूक कोनी मेरी कंचुकी हूँ कोरवारी
 मारी-जरतारी फारी जेवर नमायो है ।
 तिलरी हूँ मंजु मनि मोतिन की तोरि डारी
 बेनी हूँ विथोरि डारि छोरि दधि खायो है ।
 'हरिऔव' त्रासन ते कौपत करेजो अजौं
 माँसु न कदति आँसु आँखिन मैं छायो है ।
 मूत-भरो निपट-कुचाली कूर करनूत
 कैमो या सपूत आली काहू घर जायो है ॥१॥

दोहा—

गिरि ते गिरत निहारि कै पकरि लियो प्रिय मोहि ।
 तू बौरी सी कन बकति भया कहा है तोहि ॥ २ ॥

भविष्यगुप्ता

उदाहरण

दोहा—

जो कुंजन जैहौं नहीं किमि लैहौं दल फूल ।
 का कैहौं अनुकूल जन जो हैहौं प्रतिकूल ॥ १ ॥
 बर पूजन जैहौं न क्यों है बरसाइन कालि ।
 छल - छंदी कैहै कहा मो पै कीच उछालि ॥ २ ॥

२—विदग्धा

चतुराई और बुद्धिमत्ता के नाथ पर पुत्र-निहार-सर्व-वी कार्य साधन करनेवाली
 परकीया को विदग्धा कहते हैं—उसके दो भेद हैं—प्रचनविदग्धा और क्रियाविदग्धा ।

वचनविदग्धा

पर-पुरुष-विहार-सबधी कार्य-साधन मे वचन-चातुरी से काम लेनेवाली परकीया 'वचनविदग्धा' कहलाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

बैन ननदी के सुनि सूल सी उठन लागी
 देवर के तेवर करेजो मेरो हूलिगो ।
 सासु की सुने पै आँखि आँसु ढरकन लाग्यो
 सौतिन की बातन हमारो पेट फूलिगो ।
 हेरि 'हरिऔध' टेरि सखिन सुनाई बाल
 जात हौं तहाँई जितै मैन उनमूलिगो ।
 तट - कालिदी पै बंसी - बट के निकट वीर
 नीर भरिबे को घट घाट ही पै भूलिगो ॥ १ ॥

क्रियाविदग्धा

क्रिया-चातुरी से पर-पुरुष-विहार-संबधी कार्य साधन करनेवाली परकीया क्रियाविदग्धा कहलाती है ।

उदाहरण

दोहा—

चपल-नयन चित-चोर को चितवत लखि चहुँ ओर ।
 कै मंजुल - मंजीर - ध्वनि सरस करी दृग कोर ॥ १ ॥

३—लक्षिता

जिस परकीया का परपुरुषानुराग लक्षणो से प्रकट हो जाता है उसे लक्षिता कहते हैं ।

चाव सों एक को आइ गह्यो उमड़े घन को भर लावत जोही ।
एक सों भाख्यो बिलासिनि यों किन भींजत आइ बचावत मोही ॥१॥

५—अनुशयाना

संकेत-स्थल के नष्ट होने से संतप्त रमणी को अनुशयाना कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१—संकेतविघटना (वर्तमान), २—संकेतनष्टा (भावी) तथा ३—रमणगमना (भूत) ।

संकेतविघटना

वर्तमान संकेत-स्थल नष्ट होने से दुःखित ललना को संकेतविघटना कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

कहा भयो जो ह्वै गई लता-बिहीन निकुंज ।
घर समीप बिलसत अहैं अजौं घने-तरु-पुंज ॥ १ ॥
सूने-सदनन के नसे चूर भयो कत चित्त ।
बहु-बिहार-उपवन अहैं अजौं बिहार-निमित्त ॥ २ ॥

संकेतनष्टा

दोहा—

कत सिसकति ह्वैहै उतै रसिक-जनन ते भेंट ।
हैं तेरी ससुरारि मैं सुंदर सजे सहेट ॥ १ ॥
सखि ससुरे मैं सैर की अहै असुविधा नाहिं ।
उत अभिमत-फल-दायिनी-बहु-फलवारी आहिं ॥ २ ॥

रमणगमना

संकेत-स्थल में प्रियतम के गमन का अनुमान कर जो स्त्री अपनी अनुपस्थिति पर तप्त होती है उसे रमणगमना कहते हैं ।

कवित्त—

आलिन को आनन बिलोकि अकुलानी महा
केला के भ्रमेला मिले कुफल करेला के ।

चाव सो एक को आइ गह्यो उमड़े घन को भर लावत जोही ।
एक सो भाख्यो विलासिनियो किन भीजत आइ बचावत मोही ॥१॥

५—अनुशयाना

सकेत-स्थल के नष्ट होने से सतत रमणी को अनुशयाना कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१—सकेतविघटना (वर्तमान), २—सकेतनष्टा (भावी) तथा ३—रमणगमना (भूत)।

सकेतविघटना

वर्तमान सकेत-स्थल नष्ट होने से दुःखित ललना को सकेतविघटना कहते हैं।

उदाहरण

दोहा—

कहा भयो जो हूँ गई लता-बिहीन निकुंज ।
घर समीप बिलसत अहूँ अजौँ घने-तरु-पुंज ॥ १ ॥
सूने सदनन के नसे चूर भयो कत चित्त ।
बहु-बिहार-उपवन अहूँ अजौँ बिहार-निमित्त ॥ २ ॥

सकेतनष्टा

दोहा—

कत सिसकति हूँहै उतै रसिक-जनन ते भेंट ।
हूँ तेरी ससुरारि मैं सुंदर सजे सहेट ॥ १ ॥
सखि ससुरे मैं सैर की अहूँ असुविधा नाहिं ।
उत अभिमत-फल-दायिनी-बहु-फुलवारी आहिं ॥ २ ॥

रमणगमना

सकेत-स्थल में प्रियतम के गमन का अनुमान कर जो स्त्री अपनी अनुपस्थिति पर तप्त होती है उसे रमणगमना कहते हैं।

कवित्त—

आलिन को आनन बिलोकि अकुलानी महा
केला के भमेला मिले कुफल करेला के ।

गारत गुलाबी रंग भयो गोरे गालन को
 सौहैं परी जाय मानो आँचक नपेला के ।
 ढारि ढारि आँसुन की धार दोऊ आँखिन मो
 निदत विचार 'हरिऔध' अबहेला के ।
 बेला बीनी वृभिकै बेहाल अलबेली भई
 अलबेले हाथन विलोकि फूल बेला के ॥ १ ॥

बरवा—

आयो प्रिय असरैया गैयन साथ ।
 पहुँचि न सकनि लुगैया मीजनि हाथ ॥ २ ॥
 विलखति स्वरी गुजरिया विडरनि नॉहिं ।
 निरग्वि गुलाव - गजरया प्रिय-गर मॉहिं ॥ ३ ॥

६—मुदिता

वाञ्छित की अकस्मान् प्राप्ति में आनन्दित होनेवाली पत्नीया को मुदिता कहते हैं ।

कवित्त—

अधियारी कुहू को डरारी-कारी रेन मॉहिं
 जामैं धिरी भारी-घटा पवन - प्रसग ते ।
 दामिनी दिपे पं भौन वार पं विलोक्यो बाल
 मद-गौन - वारो - प्यारो मंजुल-मतंग ते ।
 'हरिऔध' मोहि मद-प्याला सी पिअन लागी
 ज्वाला हूँ कडन लागी बाला - अंग अंग ते । ✓
 उरज-उतंग ते अनग - रंग पैठी जाति
 ऐन बैठी ऐठी जाति आनंद - उमंग ते ॥ १ ॥

गरवीली - गोरटी लजीली-अँखियान-वारी
 लूटी सी फिरति छूटी सखिआन-संग ते ।
 कुंज-पुंज क्यो हूँ लखि पाई गुंज-माल वारो
 जाका सुघराई है सवाई सौ अनंग ते ।
 'हरिऔध' हेरे भई वेसुध बिकी सी बाल
 भाव - भंगो हूँ गई छगूनी भंग-रंग ते ।
 तरकत मैन की तरंग ते तनी के वंद
 फरकत अंग अंग आनंद-उमंग ते ॥ २ ॥

सामान्या अथवा गणिका

केवल धन के निमित्त प्रेम करनेवाली स्त्री सामान्या कहलाती है, इसमें प्रवचना की मात्रा अधिक होती है ।

उदाहरण

कवित्त—

मंद मंद मीठे बैन बोलि मन औरै करै
 नैन - सैन ही सों मैन जू को उरथान दै ।
 पीनता दिखावै हाव - भाव परिपाटी माँहँ
 रमन-प्रनाली मैं प्रवीनता प्रमान दै ।
 'हरिऔध' सुधा ही सी स्रवत कहै जो कबौं
 प्रानप्यारे मोको मंजु माल - मुकतान दै ।
 मान दै दै सहित सनेह अपनावै प्रान
 हरति अपान हूँ को हँसि करपान दै ॥ १ ॥

प्रौढ़ा प्रोषितपतिका

कवित्त—

चूमि चूमि प्यार ते उचारती बचन ऐसे
 जाते प्रेम प्रीतम को तोपै भूरि छावतो ।
 मोहित हूँ तेरे चोंच माँहिं चारु-चामीकर
 'हरिऔध' हीग हेरि हिय पै लगावतो ।
 एरे काक बोलत कहा है ककनीन बैठि
 मंजुल-मनीन तेरे चरन जरावतो ।
 नैनन को तारो बाँकी-बड़ी-अँखियान-वारो
 प्यारो-प्रान वारो जो हमारो कंत आवतो ॥ १ ॥
 पी कहाँ वहाँ हूँ जो पुकारतो पपीहा पापी
 प्यारो कैसे प्रानन को धीरज बँधावतो ।
 क्यों हूँ मन मानतो न उनको मनाये आली
 जो पै मोरनी लै सोर मोर हूँ मचावतो ।
 'हरिऔध' कैसे देस माँहिं निवसत आली
 कोऊ तो बिभेद या को हमको बतावतो ।
 ऐसई जो होतो वाँ डरारो बजमारो घन
 कैसे मनवारो ना हमारो कंत आवतो ॥ २ ॥
 पतिया न आई एक बतिया न साँची भई
 प्रीति मैं तिहारी तऊ छतिया पगी रहै ।
 आज काल ही मैं प्रान चाहत पयान कीने
 तिनमें प्रतीति तेरी तबहूँ खगी रहै ।
 प्यारे 'हरिऔध' तुमैं नीके ना निहाखो तऊ
 रोइ रोइ जामिनी मैं अँखिया जगी रहै ।
 मोमन सपन हूँ मैं मगन भयो ना तऊ
 पगन तिहारे मेरी लगन लगी रहै ॥ ३ ॥

प्रौढ़ा प्रोषितपतिका

कवित्त—

चूमि चूमि प्यार ते उचारती वचन ऐसे
 जाते प्रेम प्रीनम को तोपै भूरि छावतो ।
 मोहित हूँ तेरे चोच मॉहि चारु-चामीकर
 'हरिऔध' हीरा हेरि हिय पै लगावतो ।
 एरे काक बोलत कहा है ककनीन बैठि
 मंजुल-मनीन तेरे चरन जरावतो ।
 नैनन को तारो बाँकी-बड़ी-अखियान-वारो
 प्यारो-प्रान वारो जो हमारो कंत आवतो ॥ १ ॥

पी कहाँ वहाँ हूँ जो पुकारतो पपीहा पापी
 प्यारो कैसे प्रानन को धीरज बंधावतो ।
 क्यो हूँ मन मानतो न उनको मनाये आली
 जो पै मोरनी लै सोर मोर हूँ मचावतो ।
 'हरिऔध' कैसे देस मॉहि निवसत आली
 कोऊ तो बिभेद या को हमको बतावतो ।
 ऐसई जो होतो वाँ डरारो बजमारो घन
 कैसे मनवारो ना हमारो कंत आवतो ॥ २ ॥

पतिया न आई एक बतिया न साँची भई
 प्रीति मैं तिहारी तऊ छतिया पगी रहै ।
 आज काल ही मैं प्रान चाहत पयान कीने
 तिनमें प्रतीति तेरी तबहूँ खगी रहै ।
 प्यारे 'हरिऔध' तुमैं नीके ना निहाख्यो तऊ
 रोइ राइ जामिनी मैं अखिया जगी रहै ।
 सोमन सपन हूँ मैं मगन भयो ना तऊ
 पगन तिहारे मेरी लगन लगी रहै ॥ ३ ॥

सवैया—

तजि रावरी साँवरी सूरत साँवरे या हिय और समानो नहीं ।
वह मीठी सुधा मों सनी बतियाँ मुनि कानन धीर धरानो नहीं ।
हम कैसी करें 'हरिऔध' कहो अब मोसो कछू तो सिरातो नहीं ।
इन आँखिन प्यारे तिहारे बिना जग और तो कोऊ दिखातो नहीं ॥४॥

दोहा—

दमकति नभ मैं दामिनी घन छाये चहुँ ओर ।
चित तरसत है दरम को बरसत है दृग मोर ॥ ५ ॥
नभ धुरवा धावन लगे विधत विरह के तीर ।
तनिक धीर नहीं धरि सकत मो चित परम अधीर ॥ ६ ॥

बरवा—

कैसे बसत विदेमवों बलमु - नदान ।
तलफत मोर करेजवा कलपत प्रान ॥ ७ ॥
चमकन चपल विजुरिया अलि चहुँ पाम ।
काँपत मोर करेजवा उपजत त्रास ॥ ८ ॥

परकीया प्रोषितपतिका

कवित्त—

बावरी है जाती बार बार कहि वेदन को
बिलखि बिलखि जो विहार थल रोती ना ।
पीर उठे हियरा हमारो दूक दूक होत
ध्याइ प्रान-नाथ जो कसक निज खोती ना ।
'हरिऔध' प्यारे के पधारि गये परदेम
नैन नसि जात जो सपन संग सोती ना ।
तन जरि जातो जो न असुआ डरत आली
प्रान कढ़ि जातो जो प्रतीति दरहोती ना ॥ १ ॥

मरो मुरभायो मन मारिये कहाँ लौं कहो
 कठिन हिये पै कौ लौं पाहन बसाइये ।
 कोटि काम हूँ ते अभिराम स्याम प्यारे-काज
 कलपि कलपि कौ लौं वासर बिताइये ।
 'हरिऔध' अनुछन अँखिन को तारो हुतो
 जाके बिना एक पल हूँ ना कल पाइये ।
 उधो वाही लालन के सुललित पायन की
 धूरि हूँ मिलै ना जो लै लोचन लगाइये ॥ २ ॥

सवैया—

क्यौं हूँ नहीं सहि जाहि अरी उर में उपजे दुख पुंज-अपार ए ।
 दाह दुगूनियै होत उसासन प्रान रहे 'हरिऔध' अघार ए ।
 हाय ! न सीतल होत छनो कबहूँ इन नैनन के जल-धार ए ।
 डारत छार किये हियरा बिरहागि के बोर अचूम अँगार ए ॥ ३ ॥

पीर पराई पछानत हौ परतीत हूँ प्यारे प्रसंसन जोग है ।
 भाव हूँ को है अभाव नहीं कमनोय-सुभाव हूँ को सहयोग है ।
 पै 'हरिऔध' न जानि पखो परदेस मैं क्यौं बिसखो मो बियोग है ।
 भाखिये भूल तिहारी कहा मनभावते भाग ही को सब भोग है ॥ ४ ॥

ओट भये हूँ तिहारी बड़ी अँखियान ते होत रहै बिपरीतै ।
 माधुरी मंजुल - बैनन की 'हरिऔध' अजौं हमरो मन जीतै ।
 डोलत बावरी सी वन - वीथिन बूझति ना कज्जु नीत अनीतै ।
 ना बिसरै वह सूरत - प्यारो बिसूरत ही निशि बासर बीतै ॥ ५ ॥

खंडिता

अन्य-नारी-सभोग-चिह्न-चिह्नित प्रातरागत नायक-दर्शन से कुपिता खंडिता कहलाती है ।

मुग्धा /

दोहा—

चक्रित भई अवलोकि कै उलटे पलटे बेख ।
 मन - रजन के अधर पै निरखे अंजन - रेख ॥ १ ॥
 लाल भोर आये कछू बोल न पाई बाल ।
 गुनन लगी कारन निरखि उर को विन-गुन माल ॥ २ ॥

मध्या

कवित्त—

बोलत वनै न वारि वहै वड़ी आँखिन मों
 विफल वनी हँ देखि वेख बल-भैया को ।
 लाली लखि नैनन की रिस मों भई है लाल
 भूल्यो सब ख्याल अक निरखि मुगैया को ।
 'हरिऔध' हरे हरे आखर हिये के कड़ि
 आवत अधर पै न पावत समैया को ।
 मदन - मजेज मैं विहाल वावरी मी वनी
 वदन विलोकै बैठी सेज पै कन्हेय को ॥ १ ॥

दोहा—

अधर लगो अंजन निरखि चितवति दृग भरि लेति ।
 उससि कछू चाहति कहन लाज कहन नहिं देति ॥ २ ॥

/ प्रौढ़ा

कवित्त—

मेरे भाग जागत ही जामिनी वितैवो हुनो
 कौन काज आप हँ लखान अलमाने से ।
 प्यारी पीक लीकहिं अनूठे अधरान छोरि
 कहा लाभ कलित-रूपोल पै लगाने से ।

‘हरिऔध’ प्यारे साँची कहौ छलछंद छोरो
 भोर ही कहॉ हो आज फिरत भुलाने से ।
 रावरे विसाल दग-कंज लाल है रहे हैं
 सूरज उगे हूँ क्यों सरोज सकुचाने से ॥ १ ॥

परचि गई हौं पेचपाच-वारे बैनन सो
 परपच कीने मोहि मिलत सहारो ना ।
 काट छॉट-वारी-बानि काटत करेजो अजौं
 कपट किये हूँ कूट - बचन उचारो ना ।
 ‘हरिऔध’ जाहु जागि जामिनो विताई जितै
 जियरा हूँ जावक लिलार लाइ जारो ना ।
 ढंग वारी-साखिन पै डारो ना हमारो मन
 रंग-वारी-आँखिन को मोपै रंग डारो ना ॥ २ ॥

परकीया

दोहा—

हौं जागी सारी - निसा बनि बड़ - भागिनि - बाल ।
 लाल तिहारे ए नयन - युगल भये क्यों लाल ॥ १ ॥
 भूरि - भाग - वारो भयो काहू के पग सोहि ।
 लाल ! भाल - जावक दहत क्यों पावक बनि मोहि ॥ २ ॥

कलहान्तरिता

प्रिय से कलह कर अतरित पश्चातापपरायणा स्त्री कलहान्तरिता कहलाती है ।

उदाहरण

सुग्धा

दोहा—

जल छलकत है नयन मैं भलो लगत नहिं भोर ।
 पिय ते कलह किये भयो क्यों कलही मन मोर ॥ १ ॥

मुख ते कबू कहति नहीं किननो करति मकोच ।
 लरिकार्डि छूडी नहीं कहा लरे को मोच ॥२॥
 मरम बनावहु जलद-तन चलि करि रम मय केलि ।
 अहे कतह - रवि - कर तई दुलहो - उलही - बेलि ॥३॥

मध्या ✓

दोहा—

पिय मो लरि लरि नू रही तव तो बहु इतरान ।
 अब लोयन को जल बनो तेरो कलह दिखान ॥१॥
 मोचि सोचि अपनी दमा कत सकुचनि सुकुमारि ।
 कलह - कालिमा क्यों धुलनि जो न होत टग - वारि ॥२॥

शौदा ✓

कवित्त—

मान के किये ते मान रहत कहाँ धौं कैसे
 मेरे जान मानही की बातें हैं अमान की ।
 मन मैं ममूमि महा - मुरझि रनी हौं वीर
 नेक - सुधि मोको ना रही है ग्यान - पान की । ✓
 हाथ ! 'हरिऔध' हूँ सो हियरो हरन - वारो
 रुसि गयो मोमों जरो वानि अपमान की । ✓
 छवि पै लुभाइ को लगै है छतिया सो मोहि
 पान को करै है सुधा मंजु - बतियान की ॥१॥ ✓

दोहा—

बरबस करुये वयन कहि मो सरबस हरि लीन ।
 कैसे नीरस नहि बननि रसना रस सो हीन ॥२॥ ✓

परकीया

दोहा—

दूटि सलिल - भाजन गयो छूटि न पायो पंक ।
 कलह भयो तासो अली जा हित सह्यो कलंक ॥१॥

ता सरसिज को कर सकी कहा सहज सनमान ।
सरसत मो मन अलि अहै करि जाको रस - पान ॥ २ ॥

विप्रलब्धा ✓

सकेत-स्थल मे प्रियतम की अप्राप्ति से आकुल और लुब्ध नायिका विप्रलब्धा कहलाती है ।

उदाहरण

मुग्धा

दोहा—

पीर उठे पीरी परी पिय ते भई न भेट ।
दुलही - दुख दूनो भयो सूनो मिले सहेट ॥ १ ॥
तिय आई आयो न पिय भई समय की भूल ।
काँटे लौं कसकन लगे कलित - कुंज के फूल ॥ २ ॥

मध्या ✓

दोहा—

देखि सेज सूनी परी केलि - भवन भो काल ।
बिचलित अलबेली भई बिन अलबेले लाल ॥ १ ॥
केलि-भवन आई बधू भरी उमंग-उछाह ।
बारि-बाह लोचन बने बिना बिलोके नाह ॥ २ ॥

प्रौढ़ा ✓

दोहा—

बार बार बहराइ कै तूने कियो अबार ।
बादि अहै पिय के बिना उपवन-त्रिपिन बहार ॥ १ ॥
ललक - भरी आई बधू मिले नाँहि सुख-मूल ।
केलि-भवन हूँ नहिँ भयो केलि-मयी अनुकूल ॥ २ ॥

परकीया

कवित्त —

सीतल सलिल - वारे सर सरसावैं नाहिं
 कुंन लौं लगे हैं कुंज-पुंज गरवीली को ।
 सुललित - फूलन सो मूल सी उठन लागी
 भयो अनुकूल न मयंक अरसीली को ।
 'हरिऔध' मंड-मंड - मास्त हख्यो अनंद
 लूटन लग्यो है मै न चैन हूँ छवीली को ।
 लाल विन एरी वोर मंजुन-निकुंज हूँ मैं
 नीरम भयो है रम ललना - रसीली को ॥ १ ॥

उत्कंठिता

आने का निश्चय करके भी जिसका प्रियतम विद्वाग्भ्यक्त में यथासमय न आवे अथवा आवे ही नहीं, उम आकुल और उत्कंठित स्त्री को उत्कंठिता अथवा उत्का कहते हैं ।

उदाहरण

मुग्धा

दोहा—

कहा भयो आये न क्यों मुख ते कइत न बैन ।
 चित - चंचलता कहत है चंचल - नयनी नैन ॥ १ ॥
 कहीं रुके अरुमे कहा किधौं गये पथ भूल ।
 या सोचन चंपक - वरनि बनी कुसुम को फूल ॥ २ ॥

मध्या

दोहा—

भई बेर क्यों का भयो यह विचारि सुकुमारि ।
 कबौं विलोकति पथ कबौं भरति दगन मैं बारि ॥ १ ॥

बैठति उठति विकल बनति बिलपति लहति न चैन ।
चितवति सखि - मुख दुखित बनि काटे कटति न रैन ॥ २ ॥

शौढ़ा ✓

दोहा—

वीती निसि आये नहीं अब लौं नयनानंद ।
कहा करौं कैसे गहौं वामन बनि कै चंद ॥ १ ॥
सेज - परी सिसकति कबौं कबौ भरति है आह ।
घरी घरी उठि उठि बधू पिय की जोहति राह ॥ २ ॥

बरवा—

आवति खिन अँगनैया खिन चलि जाति ।
उठि उठि गिनति तरैया कटति न राति ॥ ३ ॥
पसरी निरखि जुन्हैया चंदहिँ चाहि ।
कामिनि परी सेजरिया उठति कराहि ॥ ४ ॥

✓ परकीया

कवित्त—

पौन मंद बह्यो छाई सेतता दिसन माँहिं
दोपक मलीन भयो अंधकार टरिगो ।
गात सियरानो बोले वृंद चरनायुध के
कलरौ चिरियन को चारो ओर भरिगो ।
'हरिऔध' आये नाँहिं अखियाँ उनीदी भई
अहह हमारो भाग आज हूँ बिगरिगो ।
एरी वीर देखु अरुनाई छाई अंबर में
तारन - समेत तारापति फीको परिगो ॥ १ ॥

✓ वासकसज्जा

प्रिय-समागम का निश्चय करके जो केलि-सामग्री को सजित करती अथवा सखियों द्वारा सुसज्जित होती हो उसे वासकसज्जा कहते हैं ।

उदाहरण

मुग्धा

गोहा—

नवला कन सकुचति इतो मजत मँवारत कुंज ।
 दुरे छवीली होत का दुरत नहीं छवि-पुंज ॥ १ ॥
 काहें सजति न सेज अलि साज मिले अनुकूल ।
 विकच कमल-कर मैं फवहिं खिले फवीले फूल ॥ २ ॥

मध्या

गोहा—

नहल-टहल के समय मन काको हरति न वीर ।
 कलरव-रत-कटि-किकिनी वजत मंजु मंजीर ॥ १ ॥
 सकुचति कवीं सकुच नजति तिय मव लेति महेज ।
 अभिमत-साजन ते सजति सखिन मजाई सेज ॥ २ ॥

प्रौढा

गोहा—

बोलि बोलि मखियान को कहि कहि बैन रसाल ।
 केलि-सदन को मुर-सदन मरिम बनावति बाल ॥ १ ॥
 वासि वासि बर-वास ते सजि सजि केलि-अवास ।
 बिलसति रहनि विलासिनी करि करि विविध-विलास ॥ २ ॥

परकीया

कवित्त—

वेठी हुती मंदिर मैं कलित-कुरंग-नैची ।
 जाको लखि काम-कामिनी को मान किलिगो ।
 क्या हूँ कढ़यो तहाँ आइ साँवरो-छवीलो-छैल
 जाको गान-तानन ते ताके कान पिलिगो ।

ललना ललन मिलन चली गति लखि लजत गयंद ।
वदन - चंद की जोति ते होति चंद - दुति मंद ॥ २ ॥

परकीया

सवैया—

मानी - मनोज को मान सरोरत मोहन मोहन को मृग-नैनी ।
जीति जतावत जोम भरी जलजात - बरूथन को जग - जैनी ।
'औधहरी' अलकावलि सों अलि को अकुलावति आनँद-ऐनी ।
भानुजा - कूल पै जात चली कल - कुंजन कूजत कोकिल-बैनी ॥१॥

सुंदर - भाव - भरे तन पै बगरी पर-भूखन-जोति भली है ।
सोंधे सनी अलकावलि हूँ चहुँ घेरि लई अलि को अवली है ।
मंजुल-गौन पै ए 'हरिऔध' गयंद हूँ की गति जाति छली है ।
भानु-लली-प्रिय-रंग-रली कल-केलि-थली महँ जाति चली है ॥२॥

परकीया के भेद

परकीया अभिसारिका के तीन भेद हैं—१-शुक्लाभिसारिका, २-कृष्णा-भिसारिका और ३-दिवाभिसारिका ।

शुक्लाभिसारिका

चाँदनी रात के अनुकूल वेश धारण करके प्रिय-समागम के लिये जाने वाली स्त्री को शुक्लाभिसारिका कहते हैं ।

दोहा—

सेत - बसन हीरक - जटित त्रिविध - त्रिभूखन धारि ।
चलो चाँदनी रात में चंदकला - सी नारि ॥ १ ॥

कृष्णाभिसारिका

अंधियाली रात्रि के अनुकूल वेश धारण करके प्रियसमागम के लिये जानेवाली परकीया स्त्री को कृष्णाभिसारिका कहते हैं ।

ललना ललन मिलन चली गनि लखि लजत गयंद ।
वदन - चंद की जाति ते होति चंद - दुति मंद ॥२॥

परकीया

संवया—

मानी - मनोज को मान मरोरत मोहन मोहन को मृग-नैनी ।
जाति जनावन जोम भरी जलजात - वरूथन को जग - जैनी ।
'श्रौधहरी' अलकावलि सो अलि को अकुलावति आनंद ऐनी ।
भानुजा - कृत पै जात चली कल - कुंजन कूजन कोकिल-वैनी ॥१॥

सुंदर - भाव - भरे तन पै वगरी पर-भूखन-जोति भली है ।
सोधे जनी अलकावलि हूँ चहुँ घेरि लई अलि को अवली है ।
मंजु-नैन पै ए 'हरिश्रौध' गयद हूँ की गनि जाति छली है ।
भानु-लली-प्रिय-रंग रली कल-केलि-थली महुँ जाति चली है ॥२॥

परकीया के भेद

परकीया अभिसारिका के तीन भेद हैं—१ अनुकूल-वेश २-कृष्णा-
भिसारिका और ३-दीवाभिसारिका ।

अनुकूल-भिसारिका

चौदनी रात के अनुकूल वेश धारण करके प्रिय-समागम के लिये जाने
वाली स्त्री को शुक्लाभिसारिका कहते हैं ।

दोहा—

सेत - वसन हीरक - जटित विविध - विभूखन धारि ।
चलो चौदनी रात में चंदकला - सी नारि ॥१॥

कृष्णाभिसारिका

श्रद्धियाली रात्रि के अनुकूल वेश धारण करके प्रियसमागम के लिये
जानेवाली परकीया स्त्री को कृष्णाभिसारिका कहते हैं ।

कवित्त—

नीले - नीले - नूतन - निचोल नये तन धारि
 असित - मिसी मैं पूरि पंगति रदन की ।
 भूखन पहिरि नव - नीलम - जटित अंग
 दीपति दुराइ खोलि जेहरि पदन की ।
 'हरिऔध' अति अधियारी अमा रैन माँहि
 वनि कै मिजाज-बारी भामिनी मदन की ।
 चलत सहेट चंद-मुखी के चहूँघा चाहि
 चाँदनी सी फैली चारु चाँदनी बदन की ॥ १ ॥

दोहा—

नील निचोलन के सहित पहिरि नीलमनि माल ।
 चली तमो-मय रजनि मैं तमो-मयी बनि बाल ॥ २ ॥

दिवाभिसारिका ✓

प्रिय-मिलाप के लिये दिन में सकेत-स्थल को जानेवाली अथवा उसको बुलानेवाली परकीया को दिवाभिसारिका कहते हैं ।

दोहा—

दूर करन कामिनि चली मदन-जनित-संताप ।
 तप-रितु-तीखे-तपन के ताप को न गिनि ताप ॥ १ ॥

प्रवत्स्यत्पतिका

प्रियतम-प्रवास-गमन से व्याकुल और सतत स्त्री को प्रवत्स्यत्पतिका कहते हैं ।

उदाहरण

मुग्धा

दोहा—

प्रिय को करत पयान लखि भरि आये युग नैन ।
 चाहत कछू कहन बधू पै कछु कहत बनै न ॥ १ ॥
 ढिग आई प्रिय-गमन सुनि भयो चकित-चित लोल ।
 आँखि खोलि देखन लगी पै न सकी मुँह खोल ॥ २ ॥

मध्या

सवैया—

ठाढ़ी सिंगार कै नारि हुती इतने मैं विदेस गयो मुनि पी को ।
 नैन ते नीर भूखो इतनो अस हाल भो जाते तहाँ तरुनी को ।
 डूवि गई पहिले कटि लौं 'हरिऔध' उरोज डुठ्यो पुनि नीको ।
 ऐसही देखत हा दृग के अमुअन सो भीज्यो लिलार को टीको ॥१॥

बरवा—

प्रोतम जात विदेसवाँ निपट अनेस ।
 सिसकति खरी गुजरिया वगरे केस ॥ २ ॥

प्रौढा

कवित्त—

रावरे निहारे बिना बावरी बनैगी कौन
 देखे बिना तुमैं काकी अखिया मिहायगी ।
 कौन सूनी - सेज पै चढ़ैगी परतेजि प्रान
 दूनी - दाह काफे अग अगन दिखायगी ।
 'हरिऔध' प्यारे जो पै करत पयान तो कहो
 तो प्रान राखि कने को लौ अकुलायगी ।
 कौन दुख पैहै नैन-नीर बरमैहै कौन
 कौन बिलखैहै कौन पीछे पछतायगी ॥ १ ॥

परकीया

कवित्त—

चलन चहत प्रान-प्यारो परदेस आलो
 आकुल है हियरा हमारो सुधि लेखै ना ।
 चकि चकि रहत चहुँकित चितै कै चित्त
 वेदन - विवम् है कै सुरति सरेखै ना ।

‘हरिऔध’ प्यारे-संग करन पयान ही मैं
 आपनी भलाई पापी प्राण हूँ परेखै ना ।
 बिलखि बिलखि भरि भरि बार बार बारि
 नैनहूँ निगोरो आज नैन भरि देखै ना ॥ १ ॥

आगतपतिका

प्रियतम-विदेशागमन से उत्कूल स्त्री को आगतपतिका कहते हैं।

उदाहरण

मुग्धा

दोहा—

सुनि मुख ते सखियान के पिय को आवत ऐन ।
 पड़े पलक के पौवड़े ललकन लागे नैन ॥ १ ॥
 आये लाल विदेस ते ललना भई निहाल ।
 अनुरंजित - चित - रुचि कहत रोरी - रंजित - भाल ॥ २ ॥

मध्या

दोहा—

सुने कंत को आगमन उमड़यो उमग - पयोद ।
 ललना - युगल - नयन लगे बरसन वारि - बिनोद ॥ १ ॥
 प्रीतम आये पौर पै भई देखि बहु भीर ।
 छकी पै सकी तोरि नहिँ लोक - लाज - जंजीर ॥ २ ॥

बरवा—

आवत जानि छयलवा पकरि कपाट ।
 कामिनि खरी अटरिया जोहति बाट ॥ ३ ॥

प्रीढ़ा

कवित्त—

बार बार प्यार ते बिलोके चंद-मुख-चारु
 फेर मैं परे से अंधकार मेरे ही के हैं ।

छीन लीनो भैन ते अचैन हूँ हमारो सवै
 चैन-दैन-वारे-वैन वारे जे अमी के हूँ ।
 'हरिऔध' विरह-हरनवारी आखिन सो
 करत प्रयोग मोपै मोहक ससी के हूँ ।
 पी के मिले जटिल अनेसे सवै जी के नसे
 अब हम जान्यो कि हमारे भाग नोके हूँ ॥ १ ॥

सवैया—

छाई रही अबला - मन में धुरवान को धावन देखि उदासी ।
 श्री 'हरिऔध' हूँ आये विदेम मो आइ कही इतनेहिँ मैं दासी ।
 आनंद के असुआन वहे अकुलाइ के दौरि चली चपला-सो ।
 लाल के अग-तमाल सो जाइ रही लपटाइ लवंग-लता सी ॥ २ ॥

चरवा—

फरकत वाम-नयनवाँ सजनी मोर ।
 आवत अयन सजनवाँ सुनत बहोर ॥ ३ ॥
 आवत सदन सजनवाँ अति बड़ भाग ।
 उड़ि उड़ि आज अंगनवाँ बोलत काग ॥ ४ ॥

परकीया

दोहा—

सुनि आवन मुखचंद को छोरि सकल छर छंद ।
 ललकत तिय देखन चली छवि-छनकन मुख चंद ॥ १ ॥
 मिले विदेसी मोत के रह्यो न मान मरोर ।
 ललना के लोयन बने आनन - चंद - चकोर ॥ २ ॥

स्वाधीनपतिका

जिस नायिका का प्रिय उसके सौंदर्य अथवा सद्गुणों पर मुग्ध होकर
 उसका वशीभूत होता है उसे स्वाधीनपतिका कहते हैं ।

उदाहरण

मुग्धा

दोहा—

जकी छकी नवला रहति छिपि छिपि वितवति काल ।
 तन मैं छवि छहरत निरखि छनों न छोरत लाल ॥ १ ॥
 छॉह बचावति लाड़िली छोरत ना अलि - बूंद ।
 तऊ बदन - अरबिद के लालन भये मिलिद ॥ २ ॥

मध्या ✓

दोहा—

लाल-गरे परि ललित बनि लहि सु - बास सब काल ।
 फवि फैलावति ही रहति फूल - माल सी बाल ॥ १ ॥
 सकुच - भरी पति - करन ते सज्जित ह्वै सरसाति ।
 परी किन्नरी सी रुचिर - सेज परी दरसाति ॥ २ ॥

श्रीढ़ा ✓

सवैया—

काज परे हूँ न जाय कबौ कहूँ मो पति आपनी आनि अरो रहै ।
 नेक न मानत औरन की 'हरिऔध' को मेरो ही ध्यान खरो रहै ।
 साजत साज सँवारत भूखन सुंदर भावन मॉहिं भरो रहै ।
 भूख औ प्यास बिसारि सदैव अवास मैं मेरे हो पास परो रहै ॥ १ ॥

परकोया

सवैया—

अरी और तियान ते सौँहै परे हूँ कबौ अपनो हग जोरै नहीं ।
 अनखाय नहीं अपमान किये रस हूँ मैं कबौ बिस घोरे नहीं ।
 'हरिऔध' हमारो हजारन मैं हमरे हित ते मुँह मोरै नहीं ।
 छकि मो छवि ऊपर छॉह की भॉति छबीलो हमैं छन छोरै नहीं ॥ १ ॥

नायक

दोहा—

सुखित सकल को करि बनत सुर - समान नर कौन ।
बसुधा पै बरसत सुधा सरसत - ससि - सम जौन ॥ ३ ॥

२—धीरोद्धत

अभिमानि, शूर, चपल, मायावी, प्रचंड, दुर्दांत, कोपन-स्वभाव और अपनी प्रशंसा के पुल बाँधनेवाला पुरुष धीरोद्धत कहलाता है

उदाहरण

कवित्त—

मैं हौं महा-मानी करि पैहौं का न माया किये,
वाधा बोध भये दौरि बाँधि दैहौं बिधि को ।
बिगरे बिदारि दैहौं वड़े - बड़े - बोरन को
तमके नसैहौं सारी-साधना की सिधि को ।
'हरिऔध' कोप किये लोप कैहौं लोकन को
पावक ते पूरि दैहौं पुहुमी-परिधि को ।
ककुभ के बारन की बोटी बोटी काटि दैहौं
गिरि को उपाटि दैहौं पाटि दैहौं निधि को ॥ १ ॥

दोहा—

मोहि मुदित दिनमनि करत ससि सेवत सब भाँति ।
मेरे पद - नख सरिस है नभ - तल - तारक - पाँति ॥ २ ॥
मायामय हूँ होत है जा माया लखि मौन ।
मो सम जग मैं दूसरो मायावी है कौन ॥ ३ ॥
धनु लै धावत मोहि लखि कौन न होत अधीर ।
धरकत धरनी - धरन - उर धरती धरति न धीर ॥ ४ ॥

दोहा—

सुखित सकल को करि बनत सुर - समान नर कौन ।
वसुधा पै वरमत सुधा सरसत - ससि - सम जौन ॥ ३ ॥

२—धीरोद्धत

अभिमानी, शूर, चपल, मायावी, प्रचंड, दुर्दांत, कोपन-स्वभाव और अपनी प्रशंसा के पुल बाँधनेवाला पुरुष धीरोद्धत कहलाता है ।

उदाहरण

कवित्त—

मैं हौं महा-मानी करि पैहौं कान माया किये,
वाधा बोध भये दौरि बाँधि दैहौं विधि को ।
बिगरे बिदारि दैहौं बड़े - बड़े - बोरन कौ
तमके नसैहौं सारी-साधना की सिधि को ।
'हरिऔध' कोप किये लोप कैहौं लोकन को
पावक ते पूरि दैहौं पुहुमी-परिधि को ।
ककुभ के बारन की बोटी बोटी काटि दैहौं
गिरि को उपाटि दैहौं पाटि दैहौं निधि को ॥ १ ॥

दोहा—

मोहि मुदित दिनमनि करत ससि सेवत सब भाँति ।
मेरे पद - नख सरिस है नभ - तल - तारक - पाँति ॥ २ ॥
मायामय हूँ होत है जा माया लखि मौन ।
मो सम जग मैं दूसरो मायावी है कौन ॥ ३ ॥
धनु लै धावत मोहि लखि कौन न होत अधीर ।
धरकत धरनी - धरन - उर धरतो धरति न धीर ॥ ४ ॥

दोहा—

कोमल-मुख ते कढ़त है कोमलतामय बैन ।
 ललित देखि ललकत रहत धोरललित को नैन ॥ ३ ॥
 तन मैं मन मैं नयन मैं बहत रहत रस-सोत ।
 चिंतामनि चोरी भये चित चिंतित नहिँ होत ॥ ४ ॥
 ललकि लुनाई लखन की लोयन को है लाग ।
 अंगन मैं छलकत रहत राग-रंग अनुराग ॥ ५ ॥

४—धीरप्रशान्त

नायक के अधिकांश गुणों से युक्त प्रशान्त ब्राह्मणादिक को धीरप्रशान्त कहा जाता है, इनमें त्याग और क्षमाशीलता की विशेषता होती है ।

उदाहरण

कवित्त—

परम-कुलीन है कुलीनता को गौरव है
 पै न काहू अकुलीन काँहिँ निदरत है ।
 विभव-भरो है पै न अनुभव-हीनता है
 भूति-हीन-जन को विभूति बितरत है ।
 'हरिऔध' सूर है पै बनत कबौं ना सूर
 सारो-उर-तम सूर सरिस हरत है ।
 धीर है पै देखि कै अधीर को अधीर होत
 बीर है पै धर्म-बीर-बीरता बरत है ॥ १ ॥

धीरता गभीरता विदित बर बीरता मैं
 सबल-सरीरता मैं सांति निवसति है ।
 तेज ओज साहस अभीति नीति रीति माँहिँ
 प्रीति-परतीति माँहिँ सुचिता बसति है ।

दोहा—

कोमल-मुख ते कढ़त है कोमलतामय बैन ।
 ललित देखि ललकत रहत धोरललित को नैन ॥ ३ ॥
 तन मैं मन मैं नयन मैं बहत रहत रस सोत ।
 चितामनि चोरी भये चित चितित नहिँ होत ॥ ४ ॥
 ललकि लुनाई लखन की लोयन को है लाग ।
 अंगन मैं झलकत रहत राग-रग अनुराग ॥ ५ ॥

४—धीरप्रशान्त

नायक के अधिकांश गुणों से युक्त प्रशान्त ब्राह्मणादिक को धीरप्रशान्त कहा जाता है, इनमें त्याग और क्षमाशीलता की विशेषता होती है ।

उदाहरण

कवित्त—

परम-कुलीन है कुलीनता को गौरव है
 पै न काहू अकुलीन काँहि निदरत है ।
 बिभव-भरो है पै न अनुभव-हीनता है
 भूति-हीन-जन को विभूति बितरत है ।
 'हरिऔध' सूर है पै बनत कबौं ना सूर
 सारो-उर-तम सूर सरिस हरत है ।
 धीर है पै देखि कै अधीर को अधीर होत
 बीर है पै धर्म-बीर-बीरता बरत है ॥ १ ॥

धीरता गभीरता विदित बर बीरता मैं
 सबल-सरीरता मैं साँति निवसति है ।
 तेज ओज साहस अभीति नीति रीति माँहिँ
 प्रीति-परतीति माँहिँ सुचिता बसति है ।

‘हृदिन्द्रैश्च’ उदित - उदारता - निकेतन है ✓
 चोखी-चातुरी को चित-चारुता कसति है ।
 मानस - महत्ता ते है महती रहति मति
 उर में सतोगुन की सत्ता विलसति है ॥ २ ॥

दोहा—

निज - गौरव हित नहीं हरत पर के गौरव काँहि ।
 जनता को हित वसत है सुजन - सुजनता माँहि ॥ ३ ॥
 जो जन होत अधीर नहीं परे भीर पर भीर ।
 हरत रहत पर - पीर जो है सोई बर - बीर ॥ ४ ॥
 कौन सुजन ताके सरिस अहै अवनि मैं, आन ।
 जो अपने सनमान सम समझत पर - सनमान ॥ ५ ॥
 निरखे हूँ निरखत नहीं जन - अपराधन काँहि ।
 छमावान जैसी छमा है छमाहुँ मैं नाँहि ॥ ६ ॥
 बहु-असरस जा मैं परे परम - सरम है होन ।
 सुजन - तरल - उर मैं बहत ऐसो रस को सोत ॥ ७ ॥

नायकों के सात्त्विक गुण

नायकों के सात्त्विक गुण आठ हैं । वे निम्नलिखित हैं—
 १-शोभा, २-विलास, ३-माधुर्य, ४-गाम्भीर्य, ५-धैर्य, ६-नेज, ७-ललित
 और ८-श्रौद्धर्य ।

शोभा

शूरता, चातुरी, सत्य, उत्साह, अनुकूलिता, नीच में घृणा और उच्च में
 सख्ती उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरण के धर्म को शोभा कहते हैं ।

बदाहरण

कवित्त—

सूरता मैं सासन - उदारता है दरसति
 साँच माँहि नीति - निपुनाई निवसति है ।
 भूत को भलाई है उझाह मैं विराजमान
 धिन माँहि नीच - हित - बासना बसति है ।
 'हरिऔध' सोभा ही ते सोभावान सोभित है
 उच्च - रुचि प्रतियोगिता ते विकसति है ।
 अनुरागिता मैं लोक - अनुराग को है रंग
 चातुरी मैं चारु - चित चारुता लसति है ॥ १ ॥

दोहा—

अवनी - तल - अपकार - तम करि निज - कर सों दूर ।
 लहे सूरता बनत है जन - जीवन - नभ - सूर ॥ २ ॥
 नर - गौरव - गिरि-सिखर को करति बिपुल-झबिमान ।
 लोक - हितकरी - चातुरी लसि चाँदनी समान ॥ ३ ॥
 मानवता विकसति न तो जो न सचाई होति ।
 है वह जन - मन - ससि-सुधा नरतन दीपक-जोति ॥ ४ ॥
 बहु - फल - दायक - वनत है छन छन करि छबिवंत ।
 है उझाह नर - विटप को सरसत - लसत - बसंत ॥ ५ ॥
 मानव - मानस - मोहिनी रस - दाइनी - महान ।
 कौन अहै अनुरंजिनी अनुरागिता समान ॥ ६ ॥
 जाते अव मैं धुन लगै सो धिन ताहि सुहात ।
 नीचन को सौ जतन सों सुजन सुधारत जात ॥ ७ ॥
 जन करि करि प्रतियोगिता कब न जगावत भाग ।
 कौन लगावत है नहीं भली-लगन की लाग ॥ ८ ॥

विलास

विलासमान की दृष्टि धीर, गति विचित्र और वचनावली मुसकुराहट लिये होती है, तथा भाव में गर्व का विकास होता है ।

उदाहरण

कवित्त—

गौरवित गति ते मृगाधिप को मान हरि
 ओज - मंजु - गिरि पै बिहरि बिलसत है ।
 भरत दिगंत मैं दिवाकर समान तेज
 मुख मैं प्रभाव - पूत - वचन बसत है ।
 'हरिऔध' सबल - बिलास को विकास बनि
 कंज लौं बिभूति - सरसी मैं बिकसत है ।
 धीरता - बलित - चितवन ते चकित करि
 मंद - भरो - बीर मंद मंद बिहँसत है ॥ १ ॥

दोहा—

पर - अपकारक उरन मैं उपजावति बहु - पीर ।
 बीर - धीर - चितवन करति पापिन कौंहि अधीर ॥ २ ॥
 भीर परति है कुजन पै निरखि बदन - गंभीर ।
 बनति रहति है अगति - गति धीर - बीर - गति - धीर ॥ ३ ॥
 लोक - बिजयिनी - बीरता चलति बीर को घेरि ।
 अरि - कुरंग थहरत रहत केहरि सी गति हेरि ॥ ४ ॥
 विदित करति है बीर की बिभुता सबल - सरौर ।
 प्रकटति चित - गंभीरता गिरा - मेघ - गंभीर ॥ ५ ॥

माधुर्य

आकुल होने के कारणों के उपस्थित होने पर भी आकुल न बनना माधुर्य कहलाता है ।

उदाहरण

कवित्त—

तहाँ अरि साहसी मचावत समर - धोर
 जहाँ सूरमा हूँ को न पाँव ठहरत है ।
 तहाँ करवाल लै कमाल कै कै किलकत
 महा - काल - केतन जहाँ पै फहरत है ।
 'हरिऔध' जघन हिलत ना डटे - दल मैं
 घेरे परे घन के समान घहरत है ।
 पवि - पात भये नाँहिँ नेकौ थहरत गात
 नाँहिँ नर - केहरि निहारि हहरत है ॥ १ ॥

दुख को समूह देखि सामुहें सकात नाँहिँ
 साहस - सहित सारी आपदा सहत है ।
 प्रतिकूल - वायु बहे आकुल न नेकौ होत
 आँच सहे कंचन सी मजुता लहत है ।
 'हरिऔध' बार बार तंग जंग माँहिँ भये
 अंग - अंग भरित उमंग ते रहत है ।
 खर - तीर - पीर हूँ ते बनत अधीर नाँहिँ
 भीर परे बीर बीरता कै निबहत है ॥ २ ॥

दोहा—

भव - दुख - पारावार को है सो अनुपम - पोत ।
 विचलितकर - साधन लहे जो चित - चलित न होत ॥ ३ ॥
 नर - पुंगव थहरत नहीं कठिन काल अवलोक ।
 आकुल करत न तासु चित आकुलतामय - ओक ॥ ४ ॥
 दुख - दिवस हूँ मैं दुख सकत सबल - मनन को ब्रू न ।
 कंटक मैं ही रहत है विकच गुलाब - प्रसून ॥ ५ ॥

गाम्भीर्य

भय, शोक, क्रोध और हर्ष आदि के कारण उपस्थित होने पर भी निर्विकार रहना गाम्भीर्य कहलाता है ।

उदाहरण

कवित्त—

उदधि - गभीर - डर छुभित कबौं ना होत
 वामैं छवि अछवि समान ही है छहरति ।
 सकल - विकार - हीन - बहु-विध-भावन मैं
 छोभसयी - भावना छनेक नाँहिँ ठहरति ।
 'हरिऔध' मानस बिमोहित तहौ ना होत
 जहाँ महा - मोह की पताका-मंजु फहरति ।
 चित माँहिँ नाना - लालसान ते ललित-भूत
 लोभनीय - लोभ की लहर नाँहिँ लहरति ॥ १ ॥

दोहा—

कामिनि की कमनीयता कामुक करति न ताहि ।
 जासु कामना मैं बसति काम - बासना नाहिँ ॥ २ ॥
 सदा एक - रस रहत बुध भये विबेक उदोत ।
 सुख मैं सुखित बनत नहीं दुख मैं दुखित न होत ॥ ३ ॥
 सुरपति - अनुपम - पद लहे होत न बिपुल - निहाल ।
 निरखि उठत करवाल हूँ बनत न लोचन लाल ॥ ४ ॥
 हारि परे हूँ हरन हित पर - धन हेरत है न ।
 बहु - रिस हूँ मैं नाहिँ कहत बिबुध अनैसे बैन ॥ ५ ॥
 बेधत नाँहिँ गभीर - डर मारि कुसुम - सर मैन ।
 चोरि सकति चिंता नहीं वाके चित को चैन ॥ ६ ॥

धैर्य

बड़े से बड़ा बिघ्न उपस्थित होने पर भी अपने काम पर डटे रहने का नाम धैर्य है।

उदाहरण

कवित्त—

धरि धरि धूरि मैं मिलैहै ऊधमिन कोहिं
 अंधाधुंध हूँ को अंधपन - सारो खोवैगो ।
 साधि साधि सब साधनान कोहिं पैहै सिधि
 उचित - विधान कै अर्बाधि को विगोवैगो ।
 'हरिऔध' धीर काम छोड़ैगो अधूरो नाहिं
 धुन - बारि द्वारा धाक धब्बन को धोवैगो ।
 बाधक के बंधन बिधिन मैं बँधैगो नाहिं
 बाधा पर बाधा परे बाधित न होवैगो ॥ १ ॥

बिबिध - बिपुल-बिघ्न बारिवाह को समीर
 बहु - बिध - बाधक - बिधान-तम-रवि है ।
 सकल - बिफलता - सरोजिनी को हिम-पात
 अगति - गहनता - तृनावलि को गवि है ।
 'हरिऔध' निज - काज - साधन-निरत-धीर
 नाना - प्रतिबंध - पुंज - पावक को ह्वि है ।
 आपद - अगाध - अंबुनिधि को है कुंभजात
 पुंजी - भूत - बिपद - पहारन को पवि है ॥ २ ॥

दोहा—

सारत अपनो काज सब भभरत देखि न भीर ।
 पीर न पीरन को गनत बनत अधीर न धीर ॥ ३ ॥

छुटी समाधि न संभु की भयो न तप - अबसान ।
 लगे सरग - तिय - नयन - सर चले पंचसर - बान ॥ ४ ॥
 तीखे सहसन बिसिख ते बिधि - बिधि कै बहु ठाँव ।
 तजत धीरता धीर नहिँ धरत न पीछे पाँव ॥ ५ ॥

तेज

अन्य के किये गये आक्षेप और अपमानादि को प्राण जाने की सभावना होने पर भी सहन न करना तेज कहलाता है ।

उदाहरण

कवित्त—

रोम रोम बिधे बाधा बाधा को न मानि लोहिँ
 बिबिध - बिरोधन निवारि निबहत हैं ।
 अपमान भये पै अपान हूँ बिसरि जाहिँ
 मान गये प्रान - दान करि उमहत हैं ।
 'हरिऔध' बाद भये बदत न काल हूँ को
 खीजे बैर वामदेव हूँ ते बेसहत हैं ।
 होत हैं तिरोहित सकारे के सितारे सम
 औरन को तेज तेज - वारे ना सहत हैं ॥ १ ॥

बंक - भौह अवलोकि बंकता गहत भूरि
 नेसुक - कलंक लगे भूलत अपान है ।
 बात बड़े बात बात माँहिँ रिस-बस होत
 सोस के गये हूँ ना सहत अपमान है ।
 'हरिऔध' तीखी-आँख्यान हेरि तीखो होत
 आन पर आन बने गहत कृपान है ।
 तेज-वान-जन-अभिमान-तम को है भानु
 दुवन - गुमान - बन - दहन समान है ॥ २ ॥

दोहा—

तजत आनवारो नहीं कबहूँ अपनी आन ।
 बचन - बान नहीं सहि सकन सहत बान पै बान ॥ ३ ॥
 दहत रहत है तूल सम दंभिन - दल - अभिमान ।
 तेजवान को तेज है पावक - पुंज - समान ॥ ४ ॥
 प्रकृति - पुस्तिका को अहै परम - प्रभा - मय - पेज ।
 दानव - मानस - तम हरत मानव - मन - रवि - तेज ॥ ५ ॥
 तेजवान नहीं सहि सकत काहू की ललकार ।
 वार करन हित कर गहत तुरत कौन तरवार ॥ ६ ॥
 तेजवान - कर मैं अहै वह कराल - करवाल ।
 जासु सहचरी कालिका है जेहि सहचर काल ॥ ७ ॥

ललित

वाणी, देश और शृंगार की चेष्टाओं की मधुरता की ललित सजा है ।

उदाहरण

कवित्त—

मधुर युगल - पद - तल - मंजु - लालिमा है
 नूपुर - मधुर - ध्वनि मोहक - मदन है ।
 मधुर कपोल - बिलसित - अलकावलि है
 मधुर अधर - राग - रंजित - रदन है ।
 'हरिऔध' परम - मधुर युग - लोचन है
 परम - मधुर विधु विमल - बदन है ।
 मधु बरसावत है मधुर मधुर बोलि
 मधु के समान लाल माधुरी - सदन है ॥ १ ॥

बेस बसनादि मॉहिं बिलसति माधुरी है
 त्रिबिध - विलास मैं बिकास दरसत है ।
 रमनीय - तन कामिनीन - मन मोहत है
 कमनीय - कांति देखि काम तरसत है ।
 'हरिऔध' मुख मनोहरता - निकेतन है
 सुधा के समान मंजु-हास सरसत है ।
 भाव - भरे - कौयन मैं लसति ललामता है
 बड़े बड़े लोयन ते रस बरसत है ॥२॥

सवैया—

सुंदर - बेस सुहावन-वानक पाग सजी - सित सीस पै सोहति ।
 नंजु बन्नी अलकावलि कौहिं न कौन सी कामिनी है जकि जोहति ।
 दीठि के तारन मैं कमनीयता है छवि की मुकुतावलि पोहति ।
 बैन की माधुरी है चित चोरति नैन की माधुरी है मन मोहति ॥३॥

दोहा—

मंद मंद हँसि मधुर बनि मोहत है मन मोर ।
 काको चित चोरत नही चितवन ते चित - चोर ॥४॥
 कस मैं रहत न मन निरखि कारो कुंचित - केस ।
 काको बस मैं नहीं करत बहु - सुहावनो - बेस ॥५॥
 मो मन मोहत बर - बसन बदन - मंजु-अवदात ।
 लोनो - नयन ललित - वयन परम - सलोनो गात ॥६॥
 मोहन के ही कथन मैं है मोहन को बान ।
 काके मधुर-वयन सुने कान करत मधु - पान ॥७॥
 सुरली - बादन मैं करत काको बदन कमाल ।
 काकी बानक है बनी अंक - लसे वन - माल ॥८॥

श्रौदार्य

प्रियभाषणपूर्वक दान, शत्रु-मित्र मे समान दृष्टि और चित्त के उदार भाव को श्रौदार्य कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

एकरस सबको मधुर - रस दान काज
 सरस - रसाल सम फरत रहत है ।
 बारिधर सरिस वरसि लोक - हित - बारि
 याचक - समूह - सर भरत रहत है ।
 'हरिऔध' प्रेम साथ प्रिय बैन बोलि बोलि
 चैन दैनवारी बानि बरत रहत है ।
 दीनता की दोनता को दरिकै दुरंतमान
 दिन दिन दानी दान करत रहत है ॥ १ ॥

चारुतामयी है है अचारुता सहारौ नाँहि
 कु-बिचार कैसे सुबिचारन की सूची हैं ।
 बुरो भाव जानै ना सुभावना - निकेतन हैं
 कुरुचिवती न अहैं, सुरुचि - समूची हैं ।
 'हरिऔध' सूधी हैं अहैं न बंक-गति-बारी
 पगी हैं सनेह मैं लोहार की न कूँची हैं ।
 नीची कैसे होहि कबौ नीचन पै कैसे परै
 ऊँचन की अँखियाँ रहति अति - ऊँची हैं ॥ २ ॥

कैसे एक बिपुल - पुनीत बनि पुलकत
 कैसे दूजो पतित कहाइ दुख सहतो ।
 कैसे एक घर मैं बधावरौ बजत नित
 दूजो घर कैसे दीह - दावा माँहिँ दहतो ।

‘हरिऔध’ जीव यदि जानतो अभेद भेद
 कैसे तो बिभेद के प्रचाह मॉहिं वहतो ।
 बुरो छूत-छात जो न छाती पै सवार होति
 कैसे तो अछूत को अछूत कोऊ कहतो ॥ ३ ॥

कौन है परायो कौन आपनो बिचारै किन
 ऊँच नीच मानि कत पाप में पगत है ।
 मिलि मिलि सबसो सुखित कत होत नॉहिं
 क्यो न सुख सबको बिलोकि उमगत है ।
 ‘हरिऔध’ भागो भागो काहू सो फिरत कत
 या जग में कौन तेरो सगो ना लगत है ।
 तन तन मॉहिं जगमगत रतन एक
 जन जन मॉहिं एक जोत ही जगत है ॥ ४ ॥

सवैया—

✓ मानवता तिनमैं है कहा जे कुरंगन बेधि बिनोद हैं पावत ।
 ते ‘हरिऔध’ कहाँ हैं दयालु जे बान बिहंगन पै हैं चलावत ।
 है तिनको उर मजु कहाँ जे अहैं मधुपावलि को कलपावत ।
 है तिनमैं कहाँ कोमलता कुसुमालि को धूल मैं जे है मिलावत ॥५॥

दोहा—

रवि ससि काको सग कहहिं काको समझहिं आन ।
 सबको गिनत समान हैं समता - ममतावान ॥ ६ ॥
 को बैरी है कौन है दान - बीर को बीर ।
 सबको बितरत है सुरभि बहि बहि सरस समीर ॥ ७ ॥
 बिना कहे दानी करत दया दान हरि पीर ।
 बिन जॉचे सरिसरन मैं नीरद बरसत नीर । ८ ॥

दानिन को चित होत है दीन-जनन अनुकूल ।
 कर सुबरन बरसत रहत भरत बदन ते फूल ॥ ६ ॥
 तजि उदार जन को हरत दीनन को धन-प्यास ।
 है काके कर-कमल मैं कमला - मंजु - मवास ॥ १० ॥

नायक के और भेद

रूप-यौवन-सम्पन्न, गुण-मान, राग-रस-ज्ञाता, सुरसिक, सहृदय और नाना-
 कला-कुशल नायक के धर्मानुसार तीन भेद—१-पति, २-उपपति और ३-वैसिक;
 तथा अवस्था के अनुसार दो भेद १-मानी और २-प्रोषितपति माने गये हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

चोज-वारी बातन सों मोहत मनोज हूँ को
 मंजु - मुख - लुरित अलक लोक -फंद है ।
 साँवरो सलोनो मंद-मंद हँस टोनो करै
 गौरवित - गमन विमोहक गयंद है ।
 'हरिऔध' बैन कैसे ताको सुखमा को कहै
 जाको हेरि नैन हूँ को नाको होत बंद है ।
 ✓ आँखिन को तारो लोक-हियरा-हरन-वारो
जीवन सहारो प्यारो ब्रज-नभ-चंद है ॥ १ ॥

मगन भयो है मन लालिमा पगन पेखि
 ढखो पींडुरी की या सुठार-ढलकन पै ।
 सुगठन जोहि जक्यो युगल - जघनहूँ को
 छक्यो काछना हूँ की सुछवि छलकन पै ।

‘हरिऔध’ राजी भयो नव - रोम-राजी हेरि
 मोहि सो गयो है मंजु - माल - हलकन पै ।
 गोल गोल-अमल-रूपोल पै मचलि अख्यो
 बाँकुरे - बिहारी को अमोल - अलकन पै ॥ २ ॥

कंज से नयन बैन अमिय सने से अहैं
 अलकन हूँ पै आभा नौगुनी लखाई है ।
 चितवन चारु चाल मंजुल - मराल की सी
 छलकति रोम रोम छवि - सुखदाई है ।
 ‘हरिऔध’ हेरि हेरि लोक-कामिनीन हूँ की
 देव - भामिनीन हूँ की मति भरमाई है ।
 नैन - अभिराम सुख-धाम घन-स्यामजू की
 सुंदरता काम हूँ ते सौगुनी सवाई है ॥ ३ ॥

सवैया—

छलकी सी चहुँघा छई सी परै छवि अंगन माँहि समाती नही ।
 सुकुमारता जैसी लसै तन मैं कहूँ तैसियै और दिखाती नही ।
 ‘हरिऔध’ बिलोकत ही बनि आवै लखे अखिया हूँ अघाती नही ।
 मन - भावती - साँवरी - सूरत रावरी बावरी काहि बनाती नही ॥४॥

१—पति

शास्त्र-विधि से विवाहित कुल-मर्यादाशाल सुपुरुष को पति कहते हैं ।

सवैया—

धीर गँभीर गुनी गरुओ जेहि गौरव की गरिमा नित गैयत ।
 सील सकोच सनेह सनो सुखमा लखि जाको हियो सरसैयत ।
 मोद - भरो ‘हरिऔध’ मनोहर मैन की मूरत जाहि बतैयत ।
 री बड़भागिनो भाखे कहा बड़े भागन प्यारो पती जग पैयत ॥१॥

पति के भेद

पति पाँच प्रकार के होते हैं—१-अनुकूल, २-दक्षिण, ३-धृष्ट, ४-शठ और ५-अनभिज्ञ ।

अनुकूल

जो पुरुष एक ही विवाहिता पत्नी में अनुराग रखकर दूसरी की कामना नहीं रखता उसको अनुकूल कहते हैं ।

सवैया—

लखि प्यारी तिहारी मनोहरता सुर की वनिता हुँ सराहूँ नहीं ।
मन - मोहनी आनि मिले हूँ कवाँ अपने मन भाँहिँ उमाहूँ नहीं ।
‘हरिऔध’ विहाइकै प्रेम तिहारो कछु हम और बिसाहूँ नहीं ।
तव आनन छोरि कै आन कछु अखियान बिलोकन चाहूँ नहीं ॥१॥

दक्षिण

अनेक स्त्रियो पर समान स्नेह रखनेवाले पति को दक्षिण कहते हैं ।

सवैया—

हम ऐसे अजौ अवलोके नहीं अलकावलि पेच परे जे नहीं ।
जग मैं जनमे जन ऐसे कहाँ या उरोजन ओर ढरे जे नहीं ।
‘हरिऔध’ न ऐसे मुने छिति मैं छवि नीकी निहारि छरे जे नहीं ।
ए बड़ी बड़ी आँखें बधूटिन की गड़ि जात हैं काके करेजे नहीं ॥१॥

धृष्ट

बहुत अपमानित होकर भी जो लज्जित नहीं होता और चाटुकारी करता है उस अधम पति को धृष्ट कहते हैं ।

कवित्त—

कैसहूँ जो आपनो कियो है मन मेरी आली
 नीकी करै ताको जो सँवाचि अब फेरै ना ।
 रार जो मची है मेरे नैन हिय प्रानन मैं
 भलो अहै ताको जो बिवेचि तू निवेरै ना ।
 'हरिऔध' याहू को न मन मैं कछू है आनि
 मोको कबौँ प्यारे प्राननाथ कहि टेरै ना ।
 साँची कहै होत बार बार बलिहारी अरी
 बाँके नैनवारी क्यो हमारी ओर हेरै ना ॥ १ ॥

शठ

छल-पूर्वक अपराध गोपन करने मे निपुण पति को शठ कहते हैं ।

कवित्त—

भौँहैं जनि तानै रोस मन मैं न आनै ✓
 हौँ कियो न मनमानी मेरी बातन मैं कान दै ।
 अखियाँ ललौँहैं नाँहि नीर बरसौँहैं भई
 कहौँ करि सौँहैं मेरी पति तू न जान दै ।
 'हरिऔध' बापुरो न जानै छल छदै ताहि
 क्यो न सनमानै निज अंक मॉहि थान दै ।
 मति कलपावै मेरे प्रान कही मेरी मान ✓
 एरी प्रानप्यारी मोको हँसि कर पान दै ॥ १ ॥

अनभिज्ञ

जिसको शृंगार रस की सरस क्रियाओं का यथार्थ ज्ञान नहीं होता ऐसे असमर्थ पुरुष को अनभिज्ञ कहते हैं ।

सवैया—

अकुलाये वनै न बिलोकत हूँ कत लोक की लीकन डाँकती हो ।
अनजान बनी सी कहा जल पै नख ते अखरान को आँकती हो ।
'हरिऔध' अबूझ अजौँ है कहा बिन बूझे भरोखन भाँकती हो ।
तरुनी तुम कौन को आन-भरी तिरछी अखियान ते ताकती हो ॥१॥

२— उपपत्ति

परदारानुरागी पुरुष को उपपत्ति कहते हैं । इसके दो भेद हैं—वचन-चतुर और क्रियाचतुर ।

सवैया—

मैन जगावती हूँ तन मैं अपने बस मैं मनहूँ करि राखै ।
बोले बिना हूँ भुरावति सी बतियानहूँ भाव-भरी बहु भाखै ।
नेसुक सैनन ही 'हरिऔध' की पूरी करै कितनी अभिलाखै ।
ढारहिं धार सुधा की हिये बहु - प्यार - भरी परतीन की आँखै ॥१॥

वरवा—

चोरति करि चतुरैया चित को चैन ।
ताकति तरुन तिरियवा तिरछे नैन ॥ २ ॥

वचन-चतुर

वचन चातुरी द्वारा पर-स्त्री-संबंधी प्रीति-कार्य-साधन-तत्पर पुरुष को वचन-चतुर कहते हैं ।

कवित्त—

मोती - माल - गंग - तीर - बासी मन मेरो
कुच संभु को उपासी तापै रोस धारियत है ।
तानि तानि बाँकी दोऊ भौहन - कमानन
बिखीले नैन - बानन सों बेधि डारियत है ।

‘हरिऔध’ राखै नाँहिं नेक ध्यान धर्म हूँ को
 बेद औ पुरान हूँ की लोक टारियत है ।
 एरी नैन-तीर-वारी कहा तीर-वासिन को
 तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है ॥ ३ ॥

चचलता चौगुनी ठनैगी चंद मुख चाहि
 चाव भरे चटुल-चकोरन की चारी मैं ।
 भीरु-भूरि हूँहै भट्ट भभरि सुगंध-अंध
 ठोर ठौर भौरवारी-भौर-भीर-भारी मैं ।
 ‘हरिऔध’ मोर मंजु-बेनी हूँ बिथोरि दैहै
 बृंदावन-छोर की विलास-चारी-बारी मैं ।
 सारी जरतारी पैन्हि भूलि जनि जा री उतै
 आ री प्रान प्यारी तू हमारी फुलवारी मैं ॥ ४ ॥

क्रियाचतुर ✓

क्रियाचतुरी से पर-स्त्री-सबधी प्रीति-कार्य-साधन-तत्पर पुरुष को क्रियाचतुर कहते हैं ।

सवैया—

क्यारिन कूल कछारन मैं कल-कुजन-पुंजन गाजन लागी ।
 बिस्व बिमोहन वारी-कला बगरी चहूँ ओर विराजन लागी ।
 ए ‘हरिऔध’ बिहाइ कै लाज हूँ लाजवतीन को भाजन लागी ।
 बावरी कै ब्रज की बनितान को वाँसुरिया बन बाजन लागी ॥ १ ॥

३—वैसिक

वेश्यानुरक्त पुरुष को वैसिक कहते हैं ।

सवैया—

क्यों हूँ न याम जनात है जात रिभावत ऐसी रहूँ रतिआन मैं ।
 देखत ही मन टूटि परै कछु राखहिं ऐसी छटा छतिआन मैं ।

ए 'हरिऔध' करो कितनो हूँ बिलंब पै होत नहीं पतिआन मैं ।
बीस गुनी मिसिरी ते मिठास है बार-बिलासिनी की बतिआन मैं ॥ १ ॥

१—मानी

प्रिया से रुष्ट होकर मान करनेवाला पुरुष मानी कहलाता है ।

कवित्त—

भरसति पूखन प्रकोप की प्रखरता ते
रूखे-रूख तीखन मरीचिन ते कुम्हिलात ।
कुवचन-प्रबल पवन की झकोर लागे
प्रति-पल वाको वा मृदुल-तन थहरात ।
'हरिऔध' विरह-द्वारि की दपट लागे
महमही - मंजुल - प्रमोद - वारी मुरभात ।
तेरे प्रेम-वारि ही ते एरे बारि-धरस्याम
बाल अलबेलो नेह - बेली ज्यों लहलहात ॥ १ ॥

२—प्रोषितपति

विदेश में प्रिया-विरह से विकल और संतप्त पुरुष प्रोषितपति कहलाता है ।

सवैया—

घोर मचाइ कै सोर घरी घरी घेरि करै घन हूँ विपरीतै ।
दौरि दिसान महा-भयदाइनि-दामिनि हूँ करै दीह-अनीतै ।
कैसी करै 'हरिऔध' कहो कै कछु है विदेस की ऐसियै रीतै ।
प्यारी बिना बहु-भारी भई यह कारी-डरारी-निसा नहिँ बीतै ॥ १ ॥
कैसहूँ मोहि न भूलत है सो पयान समै को बिसूरिबो भारी ।
होत है दाह घनी उर मैं तुमरी गति याद परै जब प्यारी ।
बावरो सो 'हरिऔध' भयो वह क्यो बिसरै नटि जान अगारी ।
सालती हैं अजहूँ उर मैं अंसुआन भरी अखियान तिहारी ॥ २ ॥

उद्दीपन-विभाव

उद्दीपन-विभाव

जो रम को उद्दीपित करते हैं उन्हें उद्दीपन-विभाव कहते हैं। सखा, सखी, दूती, ऋतु, पवन, वन, उपवन, चद्र, चाँदनी, पुष्प और परागादि उनके अंतर्गत हैं।

उदाहरण

ऋवित्त—

कुंज - पुंज मैं है मंजु गुंजत मिलिद-बुंद
 छवि - पुंजता है कंज - पुंज मैं कलोलती ।
 भारवती सौरभ के भार ते बिपुल बनि
 वैहर - बसत की है मंद मंद डोलती ।
 'हरिऔध' लालिमा अनार कचनारन की
 ललकि ललकि है लुनाई - मुख खोलती ।
 मानव - अबौरो - मन बार बार वौरो करि
 वौरो-कोकिला है वौरे-आमन पै बोलती ॥ १ ॥

कौमुदी कुमोदिनी की परम - प्रमोदिनी है
 कमनीय - मेदिनी है कुमुद - निकर ते ।
 राजित रजत - दुति ते है तरु - राजि - दल
 रुचिर बनी हैं बेलि रुचि - रुचिकर ते ।
 'हरिऔध' राका-रजनी हूँ लोक-रंजिनी है
 बहु - अनुरंजिता हूँ कांति - कांतकर ते ।
 सुधा-धाम बार बार करि वसुधा-तल को
 सुधा - बिदु चुवत सुधाकर के कर ते ॥ २ ॥

दोऊ हैं जलधि - जात सरसात सीकरन
 दोऊ हैं बसीकरन - पथ अनुसरते ।
 दोऊ हैं सुखद ताप - कदन मदन - धाम
 सीतलता - सदन सरस - रसधर ते ।
 'हरिऔध' दोऊ हैं सजीवन स-जीवन के
 आजीवन जीवन को मोद हैं बितरते ।
 सुधा - धार स्रवत धरा पर सुधाधर ते
 सुधा - बिटु चुवत सुधाकर के कर ते ॥ ३ ॥

पुलकित - कोमल - कलित - किसलै समान
 सु - ललित - पानि औ मृदुल-पग दरसात ।
 बिकसित - मरस - प्रसून लौ प्रमोद - वारे
 प्यारे प्यारे अघर सुगंधन-सने लखात ।
 'हरिऔध' जाकी हरियाली लाली जोबन की
 लगे - नेह - वायु मंद मंद मंजु लहरात ।
 लपटी नव - तनु - तमाल अलबेले - लाल
 बाल-अलबेली नेह-बेली ज्यों लहलहात ॥ ४ ॥

कंत जो न आयो कत आयो तो बसंत-पापी
 पावक लगावति पलासन की पाँति है ।
 कल - कंठ - कूक बहु - बिकल बनावति है
 बौरे-बौरे आमन बिलोकि बिलखाति है ।
 'हरिऔध' बैहर ते बिहरि करेजो जात
 अवलोकि कुसुम - अवलि अकुलाति है ।
 पीरे पीरे-पातन ते पीरी परी जाति वाल
 सीरे उपचारन ते सीरी परी जाति है ॥ ५ ॥

दोहा—

अमल-धवल-नभ-तल भयो नवल - प्रभा को पाय ।
 खिले-कमल जल मैं लसत पल पल नव-छत्रि छाया ॥ ६ ॥
 निकरत नभ मैं निरखियत रस-मय-किरिन पसारि ।
 रतनाकर - अंकम - रतन नव - रतनन - छत्रि धारि ॥ ७ ॥
 मधुर - तान गूँजत गगन तजत तेज गुन भान ।
 रस - मय करत वसुंधरा समय - सुरन को गान ॥ ८ ॥
 निर्मल - नीले - नभ दिपत नव - दुतिवंत - कलिद ।
 फूले - फूले - कमल पै भूले फिरत मिलिद ॥ ९ ॥
 हरे लेत काको न मन खिले फूल ए लाल ।
 हरी हरी ए पत्तियो हरी भरी ए डाल ॥ १० ॥

बरवा—

वन बागन मैं मोरवा करत पुकार ।
 इत उत होत भिंगुरवा घन - भनकार । ११ ॥

सखा -

समान-शील व्यसन, सुख दुःखादि में नायक का सच्चा सहायक पुरुष
 सखा कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

सुख मैं सुखित सदा रहत दुख मैं दुखित दिखात ।
 सहज - सखा सब दिवस रस बरसत सरसत जात ॥ १ ॥

सखा के भेद

सखा चार प्रकार के होते हैं—१-पीठरुद, २-विट, ३-चेट और ४-विदूषक ।

१—पीठमर्द

मानवती नायिकाओं के प्रसन्न करने में समर्थ सखा पीठमर्द कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

धूमि धूमि धिरि धिरि लगे नभ मैं घन घहरान ।
मान छोरि दै मानिनी कही हमारी मान ॥ १ ॥
सरस - देह पादप भये नेह - पाठ करु कठ ।
कोकिल - कंठी मान तजु कूकि उठे कल - कंठ ॥ २ ॥

२—विट ✓

जो सखा सब प्रकार की कलाओं में कुशल होवे उसको विट कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

मोहत ललना - लाल - उर त्रिलसि लालसा माँहि ।
सकल - कला - कोविद सकत कौन कला करि नाँहि ॥ १ ॥
बिबिध - भाव प्रगटत रहत सरस एक ते एक ।
तिय - पिय - सुख - तन - छाँह बनि छोरत नाँहि छनेक ॥ २ ॥

३—चेट ✓

नायक-नायिका को यथावसर चातुरी से मिला देने में निपुण सखा चेट कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

कबौँ मिलावत कुंज मैं कबौँ कालिदी - कूल ।
चेट करत चेटक रहत काल मिले अनुकूल ॥ १ ॥

मुक्तामय कत करत नहिँ सीचि बारिधर - गात ।
 लखे मालती - कुंज मैं कनक - बेलि लहरात ॥ २ ॥
 क्यों न मयूरी करति है सफल नयन - जलजात ।
 कालिंदी के कूल पै बिलसत बारिद - गात ॥ ३ ॥

४— विदूषक

विविध कौतुक, स्वाँग और हास-विलास द्वारा जो नायक और नायिका को आनंदित करता रहता है उसे विदूषक कहते हैं । ✓

उदाहरण

दोहा—

हँसत हँसावत ही रहत रिभ्रवत सहित बिबेक ।
 सौतुक ललना लाल के कौतुक करत कितेक ॥ १ ॥
 करत रसिकना ही रहत बसि रसिकन मन माँहिं ।
 हरि बनि राधा को छलत बनि राधा हरि काँहिं ॥ २ ॥

✓ सखी

जिस सहचरी से नायक-नायिका कोई भेद नहीं छिपाते तथा जो सुख-दुःख में मन्त्री हितकारिणी और सहायिका होती है उसे सखी कहते हैं ।

✓ उदाहरण

दोहा—

चित्त - कलिका हित जो बनति प्रातकाल की पौन ।
 सखी सरिस सुखदाइनी सरसमना है कौन ॥ १ ॥

सखी के भेद

हित-दृष्टि से सखी चार प्रकार की होती है—१-हितकारिणी, २-व्यंग्य-विदग्धा, ३-अंतरंगिणी और ४-बहिरंगिणी । कर्म उसके चार होते हैं—
 १-मंडन, २-शिक्षा, ३-उपालभ और ४-परिहास ।

१—हितकारिणी

जो नायिका का कार्य शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से करती है वह सखी हितकारिणी कहाती है ।

दोहा—

✓ हित ही मैं रत रहति है हितू - सखी दिन - राति ।
 सुखित सुख बिलोके बनति दुख मैं दुखित दिखाति ॥ १ ॥
 तन मन वारत ही रहति धरति न धन को ध्यान ।
 सखी निवाहति नेह है हित पै है बलिदान ॥ २ ॥

२—व्यंग्यविदग्धा

उचित अवसर पर जो व्यंग्य-वचन द्वारा अपना कार्य साधन करती अथवा निज अभिप्राय प्रकट करती है, उसे व्यंग्यविदग्धा सखी कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

कत अँगिराति जम्हाति बहु भयो कौन सो तंत ।
 कत धरकत उर अधर कत अरी भयो छतवंत ॥ १ ॥
 बाल कहा तेरे भये लोचन इतने लाल ।
 वामैं बिलसत लाल हैं परिगो किधौ गुलाल ॥ २ ॥

३—अंतरंगिणी

सर्वभेदज्ञ और प्रत्येक रहस्य की बात जाननेवाली सखी अंतरंगिणी कहाती है । यह सखी जो कार्य जिसके निमित्त करती है उसका ज्ञाता उसको छोड़ अन्य नहीं हो सकता ।

उदाहरण

दोहा—

सब मम मन ही की करति मान - भरी रहि मौन ।
 अंतरंगिनी के बिना अंतर जानति कौन ॥ १ ॥

जासु बचाये पति रही क्यों न ताहि पतियाहिं ।
तासो अंतर कौन जो अंतर राखत नाहिं ॥ २ ॥

४—बहिरंगिणी

बाहर की जो अनेक बातों से अभिज्ञ होती है और अपना कार्य स्पष्ट बातें कहकर करती है उसको बहिरंगिणी सखी कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

रोम्फि रिभावति ही रहति मंद-मंद मुसुकाति ।
बतिया कहि कहि रस-भरी रस बरसत ही जाति ॥ १ ॥
साध पुजावति सुख लहति बिलसति भरे - उमंग ।
गरब गहेली हूँ सधति सधी सहेली संग ॥ २ ॥

मंडन

नायिका को वसन-आभूषणों से सजाना, उसके बालों को गूँथ देना इत्यादि मंडन कहलाता है ।

दोहा—

मोहत तव गर मै रहै मो मन बनै निहाल ।
मोहन को मोहत रहै मंजु महमही माल ॥ १ ॥
पहिराई चुनि चूनरी सजे सुहावन - साज ।
अंजन-रंजित दृग किये पिय-मन-रंजन काज ॥ २ ॥

शिक्षा

सखी शिक्षा सबधिनी जो बात कहती है उसे शिक्षा कहते हैं ।

कवित्त—

दीपक-सिखा-सी-दुति-खासी देह की दिखाय
सौतिन को दुसह-दवा सी दहिबो करो ।
भाव - भरी इन अखियान सों चितै कै
मनमोहन-चितै को चोरि लीबो चहिबो करो ।

पाइ परजंक पै पियारे 'हरिऔध' काँहि
 अंक भरि भावती मयंक गहिबो करो ।
 दाख लौ रसीले रस - वरसीले - बैन बोलि
 निज-अभिलाख लाख-लाख कहिबो करो ॥ १ ॥

उपालंभ

नायक एव नायिका को उलाहना देना उपालंभ कहलाता है ।

दोहा—

जा रस ते सरसत रहत मनसिज - मंजुल - बान ।
 तरुनी नू तानति कहा तापै भौह - कमान ॥ १ ॥
 जाते असरसता लहति परम-सरस-दृग-कोर ।
 भली भामिनी होति नहिं ऐसी भौह - मरोर ॥ २ ॥
 चाके छत ते अछत - उर छरछरात दिनरात ।
 क्यो तेरे तिरछे - नयन वरछी हैं वनि जात ॥ ३ ॥

परिहास

नायिका को हँसाने, छेड़ने अथवा आनदित करने के लिये सखी जो बात कहती है उसे परिहास कहते हैं ।

दोहा—

चख ते चिनगारी कड़ी चितवत पिय की ओर ।
 तजि चिनगो चुगिहै कहा आनन - चंद - चकोर ॥ १ ॥
 उचित मिलन ही मिलन है भलो न अनमिल-संग ।
 गोरो - तन कारो वनत परसे कारो - रंग ॥ २ ॥
 है सुंदर भोरी - हँसी गोरी - गोरी - देह ।
 नेह निबाहत कोन है करि नेहिन सो नेह ॥ ३ ॥

दूती

संदेश ले जानेवाली, नायक-नायिका में सयोग करानेवाली और समयो-पयोगी वचन-रचना में निपुण स्त्री को दूती कहते हैं। वह तीन प्रकार की होती है—उत्तमा, मध्यमा और अधमा। उसके कर्म छः हैं; १-विनय, २-स्तुति, ३-निदा, ४-प्रबोध, ५-संघट्टन, ६-विरहनिवेदन। कभी नायिका स्वयं भी दूतत्व करती है उसे स्वयदूती कहते हैं।

उदाहरण

कवित्त—

‘छवि अवलोकें मैलो लगत छपाकर है
 लोल - लोल-लोचन बिलोके ललचाति है ।
 मधुमयी मंजु - मुसुकान चित चोरति है
 मोहनी पै मोहि मोहि मोहित दिखाति है ।
 ‘हरिऔध’ कमनीय - काम सम तन हेरि
 कामिनी की सारी-मान-कामना हेराति है ।
 रिस - भरी रस - भरे सैनन ते सरसाति
 सीरे-सीरे-बैनन ते सीरी परि जाति है ॥ १ ॥

सवैया—

आनन-चंद्र की जो है चकोरिका चित्त ते ताहि उतारत लाजैं ।
 चातकी जो घन से तन की अहै तापै न गाज गिराइ कै गाजैं ।
 जो ‘हरिऔध’ सुधा न पिआवत तो बसुधा मैं बसेहुँ न भाजैं ।
 जो सुख-साजन ते न सजावत साजन तो दुख-साज न साजैं ॥२॥

दूती-प्रकार

मधुर और प्रिय वचनों द्वारा अपना कार्य साधन करनेवाली को उत्तमा, कुछ मधुर कुछ तीखी बातों से काम लेनेवाली को मध्यमा और उग्रस्वभावा तथा मधुर-कटुवादिनी को अधमा दूती कहते हैं।

विनय

स्त्री अथवा पुरुष से विनय करके जब दूती कार्य साधन करती है तब उसे विनय कहते हैं।

उदाहरण

उत्तमा दूती

दोहा—

सुधि लीजै मो विनय सुनि गहत पिपासित पाय ।
सुधा - पियासे को सकति तू ही सुधा पित्राय ॥ १ ॥

मध्यमा

दोहा—

मोहहु मोहित रसिक पै रस वरसहु दै मान ।
नय न तजहु नीरज - नयनि करहु विनय मम कान ॥ १ ॥

अधमा

दोहा—

कर जोरे हूँ नहिँ तजति वरजोरी की बान ।
गिनती के हैं सुख - दिवस करु विनती को ध्यान ॥ १ ॥
कोँटे लौँ कसकत रहत अस कत बोलत बैन ।
अकरुन किये कहा फिरति करु सकरुन ए नैन ॥ २ ॥

स्तुति

जब दूती स्तुति अथवा प्रशंसा द्वारा अपना कार्य साधन करती है तब उसे स्तुति कहते हैं।

उदाहरण

उत्तमा

दोहा—

तेरे जैसे नहीं सुने मधुर - रस - भरे बैन ।
 ऐसे काके कमल से बड़े बड़े हैं नैन ॥ १ ॥

कवित्त—

विबस वनाइ वारनादिक बिहंग हूँ को
 वनचर वानरादि हूँ को बहरावै है ।
 बिटप औ बल्ली हूँ विमोहि बिलमावै बारि
 बहत वथार हूँ की गति विरुभावै है ।
 'हरिऔध' बूझि देखै वैगुन बिलोकै कहा
 बावरी जो ब्रज बनितान को बनावै है ।
 विबुध बरुथ विबुधेस विधि हूँ को बेधि
 वीर बनमाली बन बाँसुरो बजावै है ॥ २ ॥

मध्यमा

दोहा—

कामैं ऐसी सरसता कामैं ऐसो भाव ।
 कहूँ मिल्यो नहीं भावती तो सम मृदुल-स्वभाव ॥ १ ॥

अधमा

दोहा—

अपनावत ही रहत हूँ मोहि लेत हूँ भोल ।
 मेरे लोयन मैं बसे तेरे लोयन लोल ॥ १ ॥

निंदा

नायक अथवा नायिका की निंदा करके दूती का कार्य साधन करना निंदा कहलाता है ।

उदाहरण

उत्तमा

दोहा—

सुरसरि - धारा मैं परति वैतरनी को बारि ।
कबहूँ निदित जो बनति परम अनिदित नारि ॥ १ ॥

मध्यमा

कवित्त—

कहा कलपाये ऐसी कल्प - लता सी हूँ को
जीवन - स्वरूप जाके जग मैं जिये के हो ।
भलो कौन भाखिहै रखे ते भेद तासों तुम
एक फल जाके नाना-साधन किये के हो ।
'हरिऔध' कहत बनै ना पै कहेई बनै
खीन लखि ताको जाके जनम लिये के हो ।
कूटि कूटि कपट तिहारे पोर पोर भरी
निपट कठोर तुम साँवरे हिये के हो ॥ १ ॥

दोहा—

हाँ निंदत भूले नहीं है निदित तव चाल ।
क्यों एनी - नैनी कहे परति तनेनी बाल ॥ २ ॥

अधमा

दोहा—

भाल-अंक को कहि बुरो भौंह करति कत बंक ।
तू है नाँहिँ कलंकिनी तो कत लग्यो कलंक ॥ १ ॥

प्रबोध

स्त्री अथवा पुरुष का प्रबोध करके अर्थात् उन्हे समझा बुझाकर जब दूती अपना कार्य साधन करती है तब वह प्रबोध कहलाता है। ✓

उदाहरण**उत्तमा**

दोहा—

सुख - रजनी ऐहै बहुरि नसि जैहैं सब संक ।
बिकसित ह्वैहै उर - कुमुद लखि पिय-बदन-मयंक ॥ १ ॥

मध्यमा

दोहा—

परी जाति कत दूबरी कत तव तन पियरात ।
धीर धरे ही भावती दुख के दिवस सिरात ॥ १ ॥

अधमा

दोहा—

वे सोअत सुख-नींद हैं तू रोअति दिन - राति । ✓
वे उत आकुल हैं न तो तू इत कत अकुलाति ॥ १ ॥

संघट्टन

नायक और नायिका के परस्पर सम्मिलन का साधन दूती की जिस क्रिया द्वारा होता है उसे संघट्टन कहते हैं ।

उदाहरण

उत्तमा

कवित्त—

गति-मति मान-अपमान की कथान भूलि
 तेरे गुन-गान ही की विरद लियो है री ।
 दिन - रैन तेरे नैन - बैन ही की बातें कहै
 तेरी तीखी - सैनन पै मन हूँ दियो है री ।
 रटनि लगी है आठो जाम तेरे नाम ही की
 तेरो ही भयो सो 'हरिऔध' को हियो है री ।
 आलो तूने लोनो लोनो सोनो सो सरीर लहि
 सहज-सलोनो हूँ पै टोनो सो कियो है री ॥ १ ॥

कलित - कपोलन पै अलकै लुरी हैं मंजु
 सुललित - आभा लसी अधर - तमोर की ।
 हियरो हरनवारे हिय पै फवे हैं हार
 अंगन-प्रभा है आछे - भूखन-अथोर की ।
 'हरिऔध' बेस - बसनादिक बखाने बनै
 आने बनै उर मैं निकाई नैन - कोर की ।
 एरी बीर काकी मति बावरी बनी है नाँहिं
 सु - छवि बिलोकि बाँकी नवल-किसोर की ॥ २ ॥

मध्यमा

सवैया—

जीवन है सिगरे जग को लखि जीवत तेरे ही आनन-ओर है ।
 प्रान है कामिनि को 'हरिऔध' पै हेखो करै तव-आँखिन-कोर है ।
 भाग है ऐसो तिहारो भटू इतनो कत कीजत मान - मरोर है ।
 "है घन-स्याम पै तेरो पपीहरा है ब्रज-चंद्र पै तेरो चकोर है" ॥१॥

चलहु बहु सरस बनि हरहु पिय असरस - दुख - पुंज ।
कंज - नयनि तौ बिन भई अललित ललित - निकुंज ॥ ३ ॥

मध्यमा

दोहा—

सरसिज है सोई सरस जो सब दिन सरसात ।
सूखे - मुँह ते कत कहति तू सखि सूखी - बात ॥ १ ॥
बिकसित है है करति है भँवर काँहिँ रस - लीन ।
कबौँ कमलिनी ना बनति कोमलता ते हीन ॥ २ ॥

अधमा

दोहा—

कहिहै बतिया बहँकि तो कछू न रहिहै हाथ ।
कितनी रहति कुरंगिनी एक कुरंगम साथ ॥ १ ॥
देखी कितनी सुंदरी सुने बहु मधुर - बैन ।
तेरे ही कामिनि नहीं अहँ कमल से नैन ॥ २ ॥

स्वयंदूती

जो नायिका दूती का कार्य स्वयं करती है उसे स्वयं-दूती कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

कौन सों सोग भये जलजात लौँ कोमल आनन है कुम्हलायो ।
कौन सी पीर भई उर मैं अहँ आँखिन जाते अजौँ जल छायायो ।
साँची कहो 'हरिऔध' कहा भयो जो इतनो मन है मुरभायो ।
क्काके बियोग बिभूति मले तन गोरो गुलाब सों क्यों पियरायो ॥१॥

चलहु बहु सरस बनि हरहु पिय असरस - दुख - पुंज ।
कंज - नयनि तौ बिन भई अललित ललित - निकुंज ॥ ३ ॥

मध्यमा

दोहा—

सरसिज है सोई सरस जो सब दिन सरसात ।
सूखे - मुँह ते कत कहति तू सखि सूखी - बात ॥ १ ॥
बिकसित है है करति है भँवर कोहिँ रस - लीन ।
कबौं कमलिनी ना बनति कोमलता ते हीन ॥ २ ॥

अधमा

दोहा—

कहि है बतिया बहँकि तो कछू न रहि है हाथ ।
कितनी रहति कुरंगिनी एक कुरंगम साथ ॥ १ ॥
देखी कितनी सुंदरी सुने बहु मधुर - बैन ।
तेरे ही कामिनि नहीं अहँ कमल से नैन ॥ २ ॥

स्वयंदूती

जो नायिका दूती का कार्य स्वयं करती है उसे स्वय-दूती कहते है ।

उदाहरण

सवैया—

कौन सों सोग भये जलजात लौं कोमल आनन है कुम्हलायो ।
कौन सी पीर भई उर मैं अहँ अखिन जाते अजौं जल छायायो ।
साँची कहो 'हरिऔध' कहा भयो जो इतनो मन है मुरझायो ।
क्राके बियोग बिभूति मले तन गोरो गुलाब सों क्यों पियरायो ॥१॥

कवित्त—

दूनो आब - ताब है गुलाब गुलदाउदी मैं
 आभा उफनाति सी लखाति है निवारी मैं ।
 चंपा चारु चाँदनी पै चौगुनी चढ़ी है विभा
 सौगुनी - प्रभा है सेत - सेवती सँवारी मैं ।
 'हरिऔध' जैयै कत कलित - कुसुम काज
 कूल कालिंदी की वा अलीनवारी-वारी मैं ।
 न्यारी-न्यारी छबि के सुगंध-वारे प्यारे-फूल
 क्यारी-क्यारी फूले हैं हमारी फुलवारी मैं ॥ २ ॥

अन्य उद्दीपन-विभाव

✓ पवन

दोहा—

परसि परसि काको नहीं पुलकित करत सरीर ।
 सहज - सुवासन ते सनो सीतल - मंद - समीर ॥ १ ॥

वन ✓

दोहा—

अलका को मोहत रहति वाकी ललित - निकुंज ।
 नंदन अभिनंदन अहै छिति-तल-वन छबि-पुंज ॥ १ ॥
 पादप-पुंज-प्रधान थल खग-मृग-निकर-निवास ।
 बहु-बिलसति वन-भूमि है बनि मधु-मंजु मवास ॥ २ ॥

उपवन

दोहा—

कलित-पादपावलि-लसित ललित-लतान-निकेत ।
 मंजुल-कुसुमावलि-बलित उपवन है छबि देत ॥ १ ॥

पुष्प

दोहा—

ललकित-लोयन मैं बिलसि बनि छिति-छवि-अनुकूल ।
फूले हैं क्यारीन मैं रंग रंग के फूल ॥ १ ॥

पराग

दोहा—

क्यारिन मैं महमह महेकि लहि अलिगन - अनुराग ।
बन - बागन बिहरत रहत सरस - प्रसून पराग ॥ १ ॥

चंद्र

दोहा—

स्याम स्याम छवि अंक से अंकित करि निज-अंक ।
मोहि मोहि काको नहीं मोहित करत मयंक ॥ १ ॥
नभ मैं कम तारे नहीं काम - रूप अ - कलंक ।
बरसत बसुधा मैं सुधा सुधा - निवास - मयंक ॥ २ ॥
कैसे छिटकति चाँदनी करि छविमय छिति-अंक ।
क्यों होती रंजित रजनि होतो जो न मयंक ॥ ३ ॥
चोर - चैन - हर चारुता - चोर रुचिर - रुचि - रंक ।
है चकोर - चित - चोर जग - लोचन - चोर - मयंक ॥ ४ ॥
केहि आनंदित नहिं करत हँसि हँसि बनि सुख - अंक ।
प्रकृति - भाल - चंदन - तिलक गगन प्रसून मयंक ॥ ५ ॥

~चाँदनी

दोहा—

काहू की कीरति - बिमल फैली है मन मोहि ।
कै चमकति है चाँदनी चारु - धरा पै सोहि ॥ १ ॥

चारु - चंद की चाँदनी बिलसी भू - तल माँहिँ ।
 सुधा - धार धोवति अहै कैधो बसुधा काहिँ ॥ २ ॥
 काको है सुख होत नहिँ काहि न होत हुलास ।
 लखे चाँदनी - अंक में गुल - चाँदनी - बिलास ॥ ३ ॥
 के छिटकी है चाँदनी लहे समय अनुकूल ।
 राका - रजनी को अहै कैधो कांत - दुकूल ॥ ४ ॥
 किधौं बिछी है चाँदनी किधौं प्रकृति को हास ।
 किधौं खिली है चाँदनी कैधो चंद - बिकास ॥ ५ ॥

षट् ऋतु

वसंत

कवित्त—

पादप को पुंज पूरि गयो पीरे - पातन ते
 पाटल - प्रसून हूँ परागन पगंत है ।
 कुहू कुहू क्वैलिया कदंबन पै कूकै लगी
 कुंज कुंज काम की कला हूँ प्रगटंत है ।
 एहो 'हरिऔध' कुंद कंज कचनारन में
 बगर बजारन बिनोद बगरंत है ।
 ठौर ठौर भौरन लग्यो है भौर - भौर - वारो
 बागन में बौर - वारो बगखो बसंत है ॥ १ ॥

नये - नये - कोपल में मंजरी लसी है मंजु
 न्यारी ही भई है छटा दिपत - दिगंत की ।
 चहूँ ओर चंचरीक - पटली करति गान
 आभा भई गगन अनोखे निसिकंत की ।
 'हरिऔध' छिति पर छाई है छगूनी छटा
 चारों ओर सुछवि बनी है छबिवंत की ।

पौन के लगे ते कैसो डोलत है तरु-बृंद
कैसी आज फूलो फुलवारी है बसंत को ॥ २ ॥

कम कमनीय हैं न जग - अनुरंजिनो हैं
बिलसति कोपलें वितप - अंकु जेती हैं
फूले फूले फूलन पै गुंजत मधुप - पुंज
चिरिया हूँ चहकि चहकि वित चेती हैं ।
'हरिऔध' लतिकारें बिपुल ललित बनि
ललकित लोचन मैं लोच भरि देतो हैं ।
करि अठखेलियाँ ललामता की लालो रखि
लाल लाल बेलियाँ निहाल करि लेती हैं ॥ ३ ॥

मधु - मोह बनि है मधुप मैं बिराजमान
काकली ह्वै कोकिल - कलाप मैं बसत है ।
चौगुनो - चमक बनि राजत मयंक मैं है
चारु - चोदनी मैं चारुता मिस हँसत है ।
'हरिऔध' हरे - हरे तरु मैं हरीतिमा है
छवि - ब्याज बारिज - बरुथ मैं बसत है ।
सरस - सुमन पै बरसि रस सरसत
बेलिन - बिलास मैं बसंत बिलसत है ॥ ४ ॥

फूले हैं पलास कैधौ दहकि दवारि लागी
कूकै पिक कैधौ कंठ बधिक - प्रवीन को ।
उलही धरा पै लसी लतिका - ललित कैधौ
जोहि जोहि जालन सो जकखो जमीन को ।
'हरिऔध' बाहत बिखीले - बाँके वानन को
कैधौ बिकस्यो है जूह कुसुम - कलीन को ।

एरी बन बागन मैं बगखो वसंत कैधौं
पंचवान खेलत सिंकार विरहीन को ॥ ५ ॥

काढ़ि लैहै क्वैलिया करेजो कूकि कुंजन मैं
वावरी बनैहै मौरि आम - अमराई मैं ।
गूँजि गूँजि भौरन की भीर हूँ अधीर कैहै
पीर हूँ उठैगी पीरे - पात की पराई मैं ।
एहो 'हरिऔध' मेरे हिय ना हुलास रैहै
बारिज - विकास हेरे पास की तराई मैं ।
अंतक लौं अत ए करैंगे काम - तंत - वारे
कंत जो न आयो या वसंत की अवाई मैं ॥ ६ ॥

मोरि मान सकल गुमान अभिमान हूँ को
मरदि गयो है मेरे मन हूँ मलीन को ।
चूर चूर करिकै चपल - चित - वैन हूँ को
चोरि लै गयो है चाव कुसुम - कलीन को ।
प्रीतम हमारे 'हरिऔध' प्रान - प्यारे बिना
करिकै उजार मंजु केलि को थलीन को ।
पारिकै अनंत - सोक सागर मैं अंत आली
मारिकै चल्यो है री वसंत विरहीन को ॥ ७ ॥

सवैया—

कै कुसुमावलि है बिकसी अथवा कुसुमाकरता उमही है ।
पा मलयानिल - मोहकता मलयचल सी बनी मंजु मही है ।
नंदन के बन सी कमनीयता पादप - पुंज मैं पूरि रही है ।
चैत - सुधाकर के कर सों कढ़ि चारु - सुधा बसुधा पै बही है ॥ ८ ॥

फूलि कै फूलन मैं तन को तरु - किसुक को तनिकौ लरजै ना ।
 आम हूँ बौरि कै बाग मैं बूझत बौरी बनावन मैं हरजै ना ।
 गूजिवो त्यागि कै भृंग न ताइवे की 'हरिऔध' रखै गरजै ना ।
 कूकि कै काढ़त प्रान क्यों कोऊ कसाइनी क्वैलिया को बरजै ना ॥ ६ ॥

दोहा—

कुसुमित करि उपवन बिपिन बनि बनि बहु छबिवंत ।
 बरबस लोयन मैं बसत बिलसत - सरस - बसंत ॥१०॥
 बसि बसि जन - लोयनन मैं ललकित-चित हरि लेति ।
 सेमल - सुमन - ललामता लालायित करि देति ॥११॥
 काको मन मोहत नहीं कासो लहत न प्यार ।
 चैत - सित - सिता मैं बिलसि सेत - सुमन - कचनार ॥१२॥
 को नहिँ ललकत बहु - लसित हेरि पलासन - पाँति ।
 कौन लालसा कुसुम - कुल - लाली लखि न ललाति ॥१३॥
 आकर होतो कुसुम को जो कुसुमाकर नाँहिं ।
 कैसे सुंदर - कुसुम - सर मिलत कुसुम - सर काँहिं ॥१४॥
 कैसे बनि बिकसित - बिपुल बिकसत सुमन - अनंत ।
 कैसे रस - बरसत रहत सरसत जो न बसंत ॥१५॥

ग्रीष्म ✓

कवित्त—

सूख्यो कंठ तालु साथ रसना दहन लागी
 पूखन बिखै मैं ओठ अजहूँ न डोले हैं ।
 बानी जू सिधानी त्रास मानि बहु ताप केरो
 आतप - प्रताप के न बैन जऊ बोले हैं ।
 'हरिऔध' बापुरो कहै तो कछु कैसे कहै
 तन ते बिचार के किये ही कड़े सोले हैं ।

दावा किये उर मैं निदाघ - दाघ आँकन कौ
अनुमान - पग हूँ मैं परत फफोले हूँ ॥ १ ॥

तजिकै तमोल तिल - तेल तहखानन कौ
तरुनी - तियान ते बिदूरता गहत है ।
बरफ बनाई बारुनी ते ह्वै बिरत बीर
व्यजन - बयार ते बिनोद न लहत है ।
'हरिऔध' सीरे - सीरे व्यंजन बिहाय सारे
बसन - बिभूखनादि हूँ को ना चहत है ।
जोर भये जगत मैं जरत - जलाकन के
जीवन को जीवन मैं जीवन रहत है ॥ २ ॥

लपट औ बिदहत लूकन को कावा होत
बायु दहि दावा होत दिनकर - चंड ते ।
'हरिऔध' अगनित - आयत अलावा होत
रज - कन लावा होत तपन - अखंड ते ।
दिसि दिसि दगधित - धूरन को धावा होत
श्रीखम - छलावा होत दीधित - उदंड ते ।
जगत पजावा होत तीन - लोक आवा होत
भूमि तपि तावा होत आतप - प्रचंड ते ॥ ३ ॥

कहा इत ठाढ़ी करै लखै कि न कैसो दव
देहिन दिसान को दहत दरसत है ।
तरुन के पातन कौ तन तच्चि कारो भयो
तोय तपि ताप सों तपन परसत है ।
'हरिऔध' गिरिन को गात गरमानो घनो
जरि जरि रज को समूह भरसत है ।

भागि चलु एरी भौन माँहिं भोर ही ते आज
आतप - अगार ते अँगार बरसत है ॥ ४ ॥

अमित - उमंड सो विहंडित ह्वै वार वार
ठंडता अठंडता भई है खंड खंड की ।
अंड बंड बाँकी बरिवंडता हूँ होन लागी
बीर । घनसार - खंड हूँ से बरिवंड की ।
ग्रीखम - प्रचंड की प्रचंडता मैं 'हरिऔध'
खंडित उदंडता भई है ब्रहमंड की ।
दंडहिं उदंड ह्वै अखंड - महि - मंडल को
दावा - दंड - मंडित - मरीचै मारतंड की ॥ ५ ॥

आतप मैं पूखन की प्रखर - मरीचिन ते
थर थर रूखन की पाँति हूँ कँपति है ।
जीवन की भाखै कौन जीवन बिना हूँ जरि
रज की जमाति नाम - जीवन जपति है ।
'हरिऔध' भभरि भभूकन औ लूकन ते
छायावान - कुजन मैं छाया हूँ छपति है ।
जोम ते जलाकन के जगत पजावा भयो
भौन भये आवा भूमि तावा सी तपति है ॥ ६ ॥

सूखे जात तपरितु - त्रास ते सरित सर
कूपन मैं आप दुरि ताप ते बचत है ।
'पानिप - विहीनता बिलोकि बारि-वारन की
बारिधि के पेट माँहिं पानी ना पचत है ।
'हरिऔध' भीखनता हेरिकै भभूकन की
भूरि - भय - अभिभूत भूतल जँचत है ।

पल पल बहु - हिम - जल ते सिँचत तऊ
तवा लौं स - अंचल हिमाचल तपत है ॥ ७ ॥

बार बार बरि बरि उठहिँ बिपुल - बन
पावक मैं पादपता पादप की पगी है ।
तपरितु - ताप ते तवा सम तपति महि
बारि हूँ की सीतलता आतप ते भगी है ।
‘हरिऔध’ भरे से अगार हैं अँगारन सों
आग सी बगर औ बजारन मैं लगी है ।
ज्वाल उगिलत ज्वालामुखी के समान रवि
ज्वालमाला सारे जगती - तल मैं जगी है ॥ ८ ॥

प्रतपित तपरितु - ताप ते बसुंधरा है
प्रलय - प्रकोप ते तिहूँ पुर किधौ तये ।
पावक - दुरंत ते दिगंत है दहत किधौँ
दावा - मय सेस के सहस - फन है गये ।
‘हरिऔध’ कोऊ दव - गिरि है बमत दव
नरक - अँगार कैधौँ छिति - तल पै छये ।
खुल्लिगो तिलोचन को तीसरो बिलोचन कै
दिव माँहिँ द्वादसो दिवाकर उदै भये ॥ ९ ॥

दावामय बने सीरे सीरे सारे - उपचार
सेस - फन साँस भई सरस - समीरता ।
पावक ते पूरि गये सरित सरोवरादि
नभ छाई धूरि बनि धरती - अधीरता ।
- ‘हरिऔध’ तपरितु - तीखन - तपन तपे
तात भो तुहिन लोप भई नीर - नीरता ।

चंदनता चूर चूर भई चारु - चंदन की
दूर भई सिगरी उसीर की उसीरता ॥ १० ॥

सवैया—

लेप उसीर को है सरसावत भावत चंदन-चूर बगारो ।
सेद-सनो-तन है सुख पावत सीरे - समीर को पाइ सहारो ॥
ही अनुरागत है अवलोकत सीतल - बारि है लागत प्यारो ।
तावन - वारो उपावन हूँ किये आयो निदाघ सतावन-वारो ॥११॥
भीखन भोर ही ते बनि पूखन है जन के तन को बहु तावत ।
आग लगाइ अगारन माँहि अँगार धरातल पै बगरावत ॥
का 'हरिऔध' करै कित जाय अहै तप-ताप अपार तपावत ।
ना तहखानन मैं कल आवति ना खसखानन मैं सुख पावत ॥१२॥

दोहा—

निज-जननी को देखि दुख उठति ताप लहि भूरि ।
धधकत दव लखि धरनि मैं रवि दिसि धावति धूरि ॥ १३ ॥
दहन बने रवि-करन के 'दाह' न सकत निवारि ।
कैसे हूँ उबरत नही जो न बरत जन बारि ॥ १४ ॥
काहि बहु तपावत नहीं तपरितु - आतप - ताप ।
तपन आपहूँ करन ते पिअत सरित सर आप ॥ १५ ॥
का अचरज जो बहु जगी जग-जीवन को प्यास ।
बन को नाम जपति अहै जरि जरि बन की घास ॥ १६ ॥

पावस ✓

कवित्त—

प्यारे - प्यारे कारे - घन घूमन चहूँघा लगे
तन मन बापुरे बिदेसिन के लरजे ।

उलही ललित लतिका हूँ लहरान लागी
 सलिल - सने से भये सूखे रहे थर जे ।
 'हरिऔध' धूँधरित धुरवा दिसान कीने
 फोरै कान केकी ए न मानै बीर बरजे ।
 पीरद बियोगिनी के धीरद संयोगिनी के
 नीरद के गगन नगारे आनि गरजे ॥ १ ॥

कुंजन मैं बार बार कूकत कलापी - कुल
 पपिहा पुकार बार बार प्रीति परखत ।
 घूमि घूमि घेरि बार बार घन घहरत
 हिलि हिलि तरु बार बार चित करखत ।
 'हरिऔध' बार बार फिल्ली-फनकार होति
 तिय - हिय लागि बार बार पिय हरखत ।
 बीजुरी बिकासित करत व्योम बार बार
 बारिधर बार बार बारि - धारा बरखत ॥ २ ॥

बनो ठनी विविध - बिलासवती - बाल होय
 बास बँगलान होय बसन बसा रहै ।
 बार बार बीजुरी को बिपुल - बिकास होय
 बरखत बारि होय बारिद घिरा रहै ॥
 'हरिऔध' बीना बेनु बजत स-मोद होय
 बाँदी होय बेना होय बढ़त बिभा रहै ।
 बीरा होय बीरी होय बारुनी बयार होय
 बारी बैस होय तबै बरखा - बहार है ॥ ३ ॥

कारी कारी घटा नभ घूमि घहरान लागी
 बाघरी हमारी तऊ बतिया बनी कहाँ ।

‘हरिऔध’ प्यारी-छवि छाई अवनो-तल पै
 पावै मोद सीतल है तबौ मेरो ही कहॉ ।
 लाग करि आई बाग बिरह दबाइवे कौ
 एरी पै अभाग - वारी पावै सुघरी कहॉ ।
 जौ लौ या हमारो जी हरा न नेकौ होन पायो
 पातकी - पपीहरा पुकार-यो तौ लौ पी कहॉ ॥ ४ ॥

भूखन बिना ही भूरि भूखित भई सो लसै
 भावुकता दीखै भामिनी के भाव भोरे मैं ।
 चंचल-चितौन चित मॉहिं चुभि चुभि जाति
 चारुताई - चौगुनी लखाति चारु-डोरे मैं ॥
 पन्नगी सी पेंग पारि पारि कै पलटि जात
 लपकि लपटि जात ‘हरिऔध’-कोरे मैं ।
 ऊँची-ऊँची - तानन ते कानन सुधा बगारि
 गोरे - गोरे - आनन की मूलति हिंडोरे मैं ॥ ५ ॥

सवैया—

या कजरारी घटान-छटान को बैठी अटान बिलोकत जाति है ।
 मोद मयूरिन को लखि कै मन ही मन मोद-भरो मुसकाति है ॥
 प्रात परी सी घरी ही घरी ‘हरिऔध’ के अंक परी अलसाति है ।
 बाल बिलासवतीन को बीर बिलासमयी बरसात की राति है ॥६॥

चहुँ-कोद पयोद बिलोकन मैं निज मोद-भरो मन दीबो करो ।
 करि कौतुक हूँ कल-कुंजन मैं हियरा हमरो हरि लीबो करो ।
 ‘हरिऔध’ मयूरिन साँ मिलिकै नव-प्रेम-सुधा नित पीबो करो ।
 चोरवा चित को हित क्रीनो भद्र मोरवा सोरवा अब कीबो करो ॥७॥

दोहा—

वीर धीर कैसे धरहुँ रहत न चित मैं चेत ।
 परम अधीर - पपीहरा पी पी कहि जिय लेत ॥ ८ ॥
 अरुन पीत सित कत करत स्याम सलोनी अंग ।
 कत बादर बद बनत हैं बदलि बदलि कै रंग ॥ ९ ॥
 मो मन ही मानत नहीं कहा करैगो मैंन ।
 बादर के बरसे कहा जब जल बरसत नैन ॥ १० ॥

शरद्

कविच—

मंद - मंद - हसन गगन बिच चंद लाग्यो
 करतूति दामिनी भई है कला-नट सी ।
 निरमल - जल - वारे सरन खिले हैं कंज
 जिन पै लगी है भौर भीरन की ठट सी ।
 'हरिऔध' चहुँ ओर सरद बिकास पायो
 पावस - प्रतापी की गई है आयु घट सी ।
 चटकीली चाँदनी ते रंजित भई है भूमि
 कढ़ति दिसान सों सुगंध की लपट सी ॥ १ ॥

बिना कीच कैसी स्वच्छ राजति बसुंधरा है
 कैसी मंजु - नीलिमा अकास मैं बसति है ।
 गंध लै समीर हूँ बहत मंद मंद कैसो
 कैसी यह बिमल - दिसा हूँ विहँसति है ।
 'हरिऔध' दीसत हैं सर मैं सरोज कैसे
 धीर बहि कैसी सरिता हूँ सरसति है ।
 सोहत है सीतल मयंक कैसो नभ माँहि
 कैसी अबनी-तल पै चाँदनी लसति है ॥ २ ॥

नीर-वारे कारे कारे घन की निकाई नसी
 नीलिमा अनंत - नभ - मंडल की नीकी है ।
 केका - रव केकिन - कदंब ते अनाकुल हैं
 बहु सोभा हंस - अवली ते अवनी की है ।
 'हरिऔध' घोर अंधकार हूँ न दीखै कहूँ
 आभा चहूँ ओर चंद - वारी रजनी की है ।
 चपलाई चपला की अब ना लखाई परै
 छिति पर छाई चारुताई चाँदनी की है ॥ ३ ॥

विकसित - बारिज - बरुथ मैं बढी है बिभा
 छवि अधिकाई भूरि - भृंग - लपटान की ।
 घेरि घेरि घूमत दिखात हैं न कारे - घन
 घरी घरी होति नाँहैं घहर घटान की ।
 'हरिऔध' अनुपम - सरद - अवाई देखि
 आभा भई औरै आज आंगन अटान की ।
 छन छन चाँदनी ते बनति छबीली छिति
 छूटे चंद - मंडल ते छहर छटान की ॥ ४ ॥

बिमल - बिकास ते गगन विकसित भयो
 परम - प्रकास - पुंज पसखो धरा पै है ।
 दीपति-दुगुनी सों दिखाति है दिसा हूँ दिव्य
 राजत रजत द्रुम - दलन - प्रभा पै है ।
 'हरिऔध' बिपुल-बिकासिनी-बिभा की बात
 पुनों की बिभावरी की भाखी जात कापै है ।
 छीर-धार जैसी चारु - चाँदनी चहूँघा लसै
 स्रवत सुधा सों आज चंद बसुधा पै है ॥ ५ ॥

छीरनिधि कैधों आज छहरत भूतल पै
 छायानाथ कैधों छपानाथ मिस उगा है ।
 सुभ्रता सतोगुन की राजत दिगंत मैं कै
 समवेत - सेतता तिलोक की अजूबा है ।
 'हरिऔध' सरद मैं कैधों सुर - मंडल ने
 रजत - मयी कै मंजु - मेदिनी को पूजा है ।
 कोऊ नट-कीली जोति कैधों अटकीली भई
 चटकीली - चाँदनी कै बगरी चहूँघा है ॥ ६ ॥

कैधों महा तीत्र - तेज - वारो बड़ो-तारो कोऊ
 तजिकै अनंत या धरा की ओर छूट्यो है ।
 कैधों ओप - वारे असुरारि को अपार जूह
 मोद मानि स्तंग पै हिमाचल के जूट्यो है ।
 'हरिऔध' कैधों चारु-सरद-सिता है लसी
 कैधों भूपै हीरा की कनीन कोऊ कूट्यो है ।
 छीरनिधि कैधो आज फूट्यो है बसुंधरा पै
 छिति पै छपाकर कै नभ छोरि दूट्यो है ॥ ७ ॥

अंतक लौं दिव मैं दिपत निसिकंत
 कै प्रकास प्रलै-काल के दुरंत-दिनपत को ।
 महा - ताप - वारो चलै मारुत चहूँघा किधौं
 स्वास बिख - वारो है फनीस फुंकरत को ।
 'हरिऔध' किधौं तीत्र - तारक - पतन होत
 पावक बमत कै त्रिसूल पसुपत को ।
 पसरी कराल - काल - सरद - जुन्हैया किधौं
 ज्वालमाल आवत है जारत जगत को ॥ ८ ॥

हित तू हमारो नाथ कीनो ना हिमंत माँहिँ
 कैसहूँ सिसिर मैं न मानस सम्हाखो तू ।
 आवन को तंत तेरो भयो ना बसंत माँहिँ
 मेरो जिय ग्रीखम - जलाकन मैं जाखो तू ।
 'हरिऔध' का भो जो न पावस-प्रताप माँहिँ
 मेरे तन - तापन को तामस निवाखो तू ।
 जरद भई हूँ मारी करद करेजे काम
 कैसे मेरो दरद सरद मैं बिसाखो तू ॥ ६ ॥

सवैया—

मूरतिमान कै मोद लसै कै बिनोद - भरो रजनी - मुख राजै ।
 भाग-भरी जग की जननी के सु-भाल को कै यह भूखन भ्राजै ।
 कै 'हरिऔध' सतोगुन की यह सीतलता भरी सूरति छाजै ।
 पारद-पुंज कै रूप धरे फबै कै नभ सारद - चंद बिराजै ॥१०॥
 नव-नीलिमा या नभ की हमरो यह भाव-भरो मन बेधत है ।
 बहि बासमयी यह सीरी - बयार बिनोदन हूँ को बगेदत है ।
 'हरिऔध' बिना सब सारद - सुंदर - साज करेजो कुरेदत है ।
 छुटै छोभ हूँ ना रतिया को छनौ छतिया को छपाकर छेदत है ॥११॥

दोहा—

सारद - ससि सोहत गगन बरसत सुरस - अथोर ।
 दूनी भू - आभा भई छई छटा चहुँ ओर ॥१२॥
 औरै आभा नभ बसी बिभा लसी ससि माँहिँ ।
 बसुधा भयी सुधामयी तारे तरनि लखाहिँ ॥१३॥

हेमन्त ✓

कवित्त—

तीखी-जोति जाल हूँ मैं जरत-मसाल हूँ मैं
 जगी ज्वालमाल हूँ मैं लपट्यो लसंत है ।

कूलन कछार हूँ मैं सरित सेवार हूँ मैं
 बन मैं बयार हूँ मैं बहु बिहरंत है ।
 'हरिऔध' व्योम हूँ मैं तारन के तोम हूँ मैं
 सूरज मैं सोम हूँ मैं दरस्यो सतंत है ।
 हंसन-अहार हूँ मैं हिम के पहार हूँ मैं
 हीरा हीर-हार हूँ मैं राजत हेमंत है ॥ १ ॥

पोर पोर आँगुरी की बारि ते गरन लागी
 सीकर मलीन या दिगंतन करै लगो ।
 कोमल मरोचै हूँ गई हूँ मारतंड हूँ की
 आतप मैं प्रानिन को प्रेम हूँ अरै लगो ।
 'हरिऔध' भू पर लखात है हेमंत छायो
 दिन दिन बासर को गात हूँ गरै लगो ।
 या तन को सीरी पौन परसे कसाला होत
 पादप के पातन पै पाला हूँ परै लगो ॥ २ ॥

बदन दुराये ही रहत रैन मैं मयंक
 त्रासै ते समीर बीर सरद भयो सो है ।
 भू तजि लखात नभ-जात बारि सीकर हूँ
 गात सेत गगन गिरीन हूँ गयो सो है ॥
 'हरिऔध' महा उत्पात ते हेमंत ही के
 धूसरित बरन दिगंतन लयो सो है ।
 दबक्यो दिवाकर दिखात अति भीत ही ते
 सीत ही ते संकुचित बासर भयो सो है ॥ ३ ॥

सिसकत रहत तमीपति रजनि मॉहिँ
 तमरिपु हूँ को होत कदत कसाला है ।

सी सी करि घरी घरी घूमत चहुँघा रहै
 सीरी-पौन हूँ को गरमी को परयो लाला है ।
 'हरिऔध' आकुल हूँ अरो खरो रूख हूँ है
 ठरो सीत-भरो वाको ठौर हूँ को ठाला है ।
 वूफि परै बाला हिम-गाला सी दुसाला माँहिँ
 पाये सीतकाल ज्वालमाला भई पाला है ॥ ४ ॥

दीखै सीकरन माँहिँ सपरि गयो सो ससी
 दिवानाथ लंका और आकुल अरे अहँ ।
 सीरी साँस भरत अधीर हूँ समीरन हूँ
 सरित सरोवर हूँ हिम मैं गरे अहँ ।
 'हरिऔध' पावक हूँ पाहन मैं पैठ्यो जात
 दलन दुराये गात पादप खरे अहँ ।
 पाला नाँहिँ पखो सीत प्रबल-प्रमाद ही ते
 प्राण बिन तारे आइ पातन परे अहँ ॥ ५ ॥

सीतल हिमाचल-दरी सी सब साला लगै
 संगिनी प्रतीति होति सुधा सीरे-पंक की ।
 माला लगै मोती की हिमोपल-जमाति जैसी
 कामिनी जनाति है बिभूति हिम-अंक की ।
 'हरिऔध' हेरत हिमंत करतूति ऐसी
 तुहिन-सनी सी है सुपेती परजंक की ।
 पाला लगै पावक दुसाला लगै कंज-पात
 रवि की मरीचि लागै किरनै मयंक की ॥ ६ ॥

पाला को कसाला ताहि कंपित न करि पैहै
 जाके कंठ माँहिँ मृग-नाभि मंजु-माला है ।

बहि बहि सीतल - समीर क्यों सतैहै ताहि
 सकल - बिभूतिमयी जाकी सुख - साला है ।
 'हरिऔध' ताको हिम-पात को कहा है त्रास
 जाके पास परम - मधुर - मधु - प्याला है ।
 जगी ज्वाल-माला है बसन तूल-वाला अहै
 बाला है दुसाला है हेमंत को मसाला है ॥ ७ ॥

धाई चली आवति है कैधो ध्रुव-धाम ही ते
 कैधो गिरी भू पै चंद-मंडल के फोरे ते ।
 कैधों याहि काढ़यो कोऊ उदक-सरीर गारि
 कैधों बनी सीतलता जग की निचोरे ते ।
 'हरिऔध' कहै ऐसी दुसह - हिमंत - बात
 कैधो भई सीरी बार बार हिम बोरे ते ।
 कैधों चली चंदन परसि मलयाचल को
 कैधों कढ़ि आवति हिमाचल के कोरे ते ॥ ८ ॥

बात ना चलैये नाथ सिसिर बितावन की
 सुरति बसंत मैं बिसारिकै न फूलै तू ।
 गरब न कीजै भूलि ग्रीखम गँवावन को
 पावस न आवन उमंग मैं न मूलै तू ।
 'हरिऔध' कैसो तेरो कठिन करेजो है जो
 सरद समैया हूँ मैं रह्यो प्रतिकूलै तू ।
 कीने केते तंतन के प्रानन को अंत हैहै
 कहीं मानि कंत या हेमंत को न भूलै तू ॥ ९ ॥

सवैया—

फाग रचै पिय सों सिसिरै पति साथ बसंत मैं बागन होवै ।
 ग्रीखम मैं तहखाने बसै घन की छवि पावस मैं सँग जोवै ।

भाग-भरी 'हरिऔध' तिया सुख सों अपनो सब साज सँजोवै ।
साथ लखै सरदै नभ चंद हेमंत मैं कंत - गरे लगि सोवै ॥१०॥

कैधों प्रभाकर - आतप मैं अरे कै मद - प्यालन को अपनाये ।
कैधों धरे पट - तूल - भरे किधो साल - दुसालन सों लपटाये ।
सीत हेमंत को कैधों टरै 'हरिऔध' अधूम - अँगार तपाये ।
कै कमनीय उरोजन - वारी सरोज - मुखोन को अंक लगाये ॥११॥

दोहा—

जीव जंतु की बात का तृन - तरु होत समीत ।
पाला को लहि बिपुल - बल पाला - भारत सीत ॥१२॥
भूमि कुहासामय भई सीत न समभत पीर ।
दुरि दिन बितवत दिवसपति सर सर चलत समीर ॥१३॥
तृन - तरु - तन जीवन - बदन भाफ - पुंज है भूरि ।
किधौं कुहासा है परत पसरत पुहुमी पूरि ॥१४॥

शिशिर

कवित्त—

घटी-जाति-राति हूँ मैं दिन अधिकात हूँ मैं
पियरात पात हूँ मैं प्रगट जनावै है ।
तीखे होत घाम हूँ मैं केते धूम धाम हूँ मैं
ललना ललाम हूँ मैं रमत लखावै है ।
'हरिऔध' तान हूँ मैं रंग-वारे-गान हूँ मैं
आन - वारी बान हूँ मैं मधुर दिखावै है ।
चोप चाव चैन हूँ मैं मंद - मंद - बैन हूँ मैं
सुद - ऐन - ऐन हूँ मैं सिसिर सुहावै है ॥ १ ॥

तोख तन पावै तूल - भरे कपरे के धरे
 अजहूँ मलीनता दिगंत की गई नहीं ।
 प्यारे लगै भौन भारी - भारी परदान - वारे
 भीखनता अजौं भानु - कर ने लई नहीं ।
 'हरिऔध' चहूँ ओर सिसिर छयो तो कहा
 आप हूँ मैं सीतलता - सहज भई नहीं ।
 मंजुल - निकार्ई चारु चंद मैं समाई नॉहँ
 चारुता - अनूठी चाँदनी मैं चितई नहीं ॥ २ ॥

साथ प्राननाथ के सिसिर मैं समोद - बाल
 सरित सरोवरादि माँहँ अबगाहै ना ।
 बार बार धूप हो मैं बैठे छवि - वारी जाय
 सीत-छोभ माँहँ छकी चाहै छनौ छॉहै ना ।
 'हरिऔध' सी सी करै सीतल - समीर लगे
 सीतलता बाकी अजौं सुमुखी सराहै ना ।
 चाँदनी मैं कहे नेकौ चित मैं उमाहै नॉहँ
 चंद-मुखी चाव करि चंद हूँ को चाहै ना ॥ ३ ॥

तपि कै तमारि निज तीखन - मरीचिन ते
 नेकौ सीत प्रबल - प्रमादन को तोरै ना ।
 पावक को दहत - अँगारो पट तूल - डारो
 पूरो पूरो हिम को महत - मान मोरै ना ।
 'हरिऔध' सिसिर समैया हूँ मैं सीरी-पौन
 गौन करि भौनन मैं देत दुख थोरै ना ।
 औरन की कहा पाई जरदी पतौअन हूँ
 सर्दी मरदी कै तऊ बेदरदी छोरै ना ॥ ४ ॥

सवैया—

भावत ना सरपेच असुंदर कान के कुंडल को कहती है ।
बाजू धरै भुज मैं न भट्ट कर सों कल-कंकन ना गहती है ।
माह मैं ए 'हरिऔध' मनोहर - हार हूँ ना उर पै बहती है ।
कंठ-सिरी मन मैं न टिकै कटि - किकिनी ते नटि कै रहती है ॥ ५ ॥

तीसी लसी बहु - खेतन मैं अपनी कुसुमावलि सों छवि छावत ।
पात चने के हरे हरे कोमल काकी नहीं अँखिया बेलमावत ।
ए 'हरिऔध' प्रसून केराव के लै चित काहि नहीं ललचावत ।
मानस काको नहीं सरसे सरसों के सुहावने फूल लुभावत ॥ ६ ॥

मंजुल - बायु लगे बल खाइ बिलोचन मॉहिँ समाय रही हैं ।
ओस की बूदन सों सरसाय सहेलिन मॉहिँ सोहाय रही हैं ।
ए 'हरिऔध' किती तितिलीन को प्यार से पास बुलाय रही हैं ।
पीरे - प्रसूनन सों बिलसी उलही रहरै लहराय रही हैं ॥ ७ ॥

दोहा—

सिता नहीं प्यारी लगति ससि हूँ करत स-भीत ।
निसि सियराये ही बढ़ति सिसिर समय को सीत ॥ ८ ॥
उर मैं हिम - सर सों लगत सिहरत सकल - सरीर ।
सी सी कहि सिसकल न को परसत सिसिर - समीर ॥ ९ ॥
परि साँसत मैं सीत की हरति रहति है ऊब ।
हरे हरे निज - दलन मिस हरे हरे कहि दूब ॥ १० ॥
लोक सीत - साँसत सहत दुरि दिन बितवत घाम ।
सिसिर मॉहिँ कुहरा परे मचत महा कुहराम ॥ ११ ॥
ओस - सीकरन मॉहिँ दुरि सीत सहति भरी ऊब ।
हरे हरे कोमल - दलन - बलित दूबरी - दूब ॥ १२ ॥

शिशिर-अंतर्गत होरी

कवित्त —

द्वारन को दर को दरीचिन को देहरी को
 दिसन को देहिन को रंजित कीनो है ।
 बगर को बीथिन को बाटन बजारन को
 बिटप को बेलिन को कीनो रँग भीनो है ।
 'हरिऔध' अबिर उड़ाइ कै अवासन को
 औरै ओप अवनि को आँगन को दीनो है ।
 नूपुर को नासिका को नथ को नवेलिन को
 बाल अलबेलिन को लाल करि लीनो है ॥ १ ॥
 तबल पै तारन पै तंत्रिन तमूरन पै
 तान - वारे तन पै प्रवाल तरसत है ।
 कानन पै कुंजन पै कंज पै कुमोदिनी पै
 क्यारिन पै कूल पै ललाई दरसत है ।
 'हरिऔध' आनन पै अंगन अवनि हूँ पै
 ऐन पै अटा पै अरुनाई अरसत है ।
 गोधन पै गिरि पै गवैयन पै गोपन पै
 गोपिन के गोल पै गुलाल बरसत है ॥ २ ॥
 ऐसो बाढ़यो फाग को प्रपंच ब्रज-बीथिन मैं
 बीज लालिमाको मानो लोकन मैं बवै गयो ।
 लाल भयो गगन अवनि सब लाल भई
 दिसन ललाई छाई रवि - तेज खवै गयो ।
 'हरिऔध' लाल लाल हेरि गिरि तरु तोम
 नर पसु पंखी मीन बिधि - ज्ञान गवै गयो ।
 लाग्यो जौ लौँ भाँकन भरोखे सो उभकि
 तौ लौँ राता मुख बापुरे-बिधाता हूँ कोहै गयो ॥ ३ ॥

बोलि बोलि बैस - वारी ब्रज की बधूटिन को
 लूट सी करी है वा अवीर-वारे-थाल की ।
 मारि पिचकारी तार्क कलित - कपोलन पै
 लाल लाल मंडली बनाई ग्वाल-बाल की ।
 'हरिऔध' चकित बनति बहु चौंकत सी
 चोरत सी चाल काहू मंजुल - मराल की ।
 गोरे - गोरे-गाल-वारी ए री वह गोरी-बाल
 लाल पै चली है मूठ भरि कै गुलाल की ॥ ४ ॥

गरबीले - ग्वारन की गारी हूँ न कान कीनी
 तनक न मानी आन तीखी-तान-तारी की ।
 रंग की उमंग को अनंग - भरे बैनन को
 सुरति न कीनी सॉवरे की गति न्यारी की ।
 'हरिऔध' ध्यान में न आनी धोखे हूँ धमार
 धूम हूँ धमार - वारे धीर - धुरधारी की ।
 मीड़ित-गुलाल - मंजु - बदन-रसाल मोरि
 बिहँसि बचाई बाल चोट पिचकारी की ॥ ५ ॥

गावत है गारी भरो गीतन असंक हूँ कै
 बोलन कबीर मैं निसंक अति दरसाय ।
 लाल कीनो बीथिन बजारन गुलाल फेंकि
 अबिर उड़ाइ लीनी अरुन दिसा बनाय ।
 'हरिऔध' ऐसो अपमान कैसे सह्यो परै
 ललिते कहा तू इतो रही आज अरगाय ।
 गहि कै गरब वाको होरी को निवारै क्यो न
 ऊधम मचावै कौन एरी बरसाने आय ॥ ६ ॥

डारि दीनो रंग तो उमंग कत उनो भयो
 बिगख्यो कहा जो मुख माँहि मली रोरी है ।
 कुंकुम चलाये कौन हानि भई अंगन की
 मारि पिचुकारी कौन करी बरजोरी है ।
 'हरिऔध' तेरो होत कहा अपकार है
 जो बार बार ग्वालन की बजति थपोरी है ।
 रूसन को रार को न रोस को कछू है काम
 एरी बृखभानु की किसोरी आज होरी है ॥ ७ ॥

ठानत हो सदा हठ आपनी ही बातन को
 ताके रोकिबे को कहाँ काको को सहेजि है ।
 होइ जै है कछू बिपरीति तो बतावो लाल
 बरसाने कौन सो सँदेसो कोऊ भेजि है ।
 'हरिऔध' अबिर गुलाल लौ बनी है बात
 बूझि देखो कहँ लौं करेजो परतेजि है ।
 पुष्प-रस-कनिका लगे ते जाको पीर होति
 ताको अंग कैसे रंग-घावन अँगेजि है ॥ ८ ॥

कत पिचकारी कर माँहि लीने आवत है
 ब्रज मैं जनात तू तो निपट हठीलो है ।
 नेक मेरी बातन को भूलि ना करत कान
 होरी के गुमान मैं गजब गरबीलो है ।
 'हरिऔध' कहा लाभ अनरस कीने होत
 सुबस बसे हूँ ब्रज कैसे तू लजीलो है ।
 ए हो लाल वा पै रंग छोरिबो छजत नाँहि
 गात-रंग ही सों बाको बसन रँगिलो है ॥ ९ ॥

वीर बरसानो छोरि गोकुल गई ही आज
 जान्यो ना गोपाल ऐसो ऊधम मचायहैं ।
 सारी बोरि दीनी सारो-गात करि लीनो लाल
 जैसे छल कीनो ताहि कैसे बतरायहैं ।
 'हरिऔध' अब तो न आपने रहे हैं नैन
 करिकै उपाय कौन इनै समझायहैं ।
 अंग लाग्यो रंग तो सलिल सो छुड़ाय लैहैं
 नेह संग लाग्यो तासो कैसे छूटि पायहैं ॥१०॥

झरो रंग चाव सों हमारे इन अंगन पै
 कबहूँ कछु ना लाल भूलि हम कहिहैं ।
 बोरि दीजै सिगरी हमारी सारी केसर मैं
 मन मैं बिनोद मानि मौन साधि रहिहैं ।
 'हरिऔध' अँखियाँ छकी हैं रावरी छबि मैं
 इनपै दया ना कीने क्यों हूँ ना निबहिहैं ।
 परिबो पलक को तो कैसेहूँ सहत प्यारे
 परिबो गुलाल को गोपाल कैसे सहिहैं ॥११॥

सवैया—

चेटक सी करि चोरि गई चित चाव-भरी चलि चंचल-चाल सों ।
 मोहि गई मनमोहन को वा अबीर-भरी मनि-मोतिन-माल सों ।
 ए 'हरिऔध' चलाइ पिचूकन बेधि गई जुग-नैन बिभाल सों ।
 लाल-गुलाल लपेटि गई वह गोरटी हाल ही लाल के गाल सों ॥१२॥
 ताकि कै मारत हो पिचकारी तऊ मन मैं तनकौ नहिं खीजत ।
 रंग मैं सारी भिंगोय दई हम ताको उराहनो हूँ नहिं दीजत ॥
 पै इतनी बिनती 'हरिऔध' मया करि क्यों हमरी न सुनीजत ।
 साँवरे-रंग-रंगी अँखियान को प्यारे गुलाल ते लाल क्यों कीजत ॥१३॥

अनुभाव

अनुभाव

जिन क्रियाओं से रसास्वाद का अनुभव होता है उनको अनुभाव कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है—१-सात्त्विक, २-कायिक, ३-मानसिक और ४-आहार्य।

१—सात्त्विक

शरीर के स्वाभाविक अग्र-विकार को सात्त्विक भाव कहते हैं इनके आठ भेद निम्न लिखित हैं—

१-स्तम्भ, २-स्वेद, ३-रोमाञ्च, ४-स्वर-भंग, ५-कप, ६-वैवर्ण्य, ७-अश्रु और ८-प्रलय। किसी किसी ने जूभा को भी सात्त्विक भाव माना है; ऐसी दशा में उसके नव भेद होंगे।

स्तम्भ

कारणविशेष से समस्त अंगों की गति अथवा क्रिया का अवरोध हो जाना स्तम्भ कहलाता है।

उदाहरण

दोहा—

लाल लखे ललना छकी भो चित बिपुल अचैन।
 बोले बोलत नहिं बनत खोले खुलत न नैन ॥ १ ॥
 पारे पलक परत नही लोयन भये अडोल।
 लोल-लोयनी करति है काहें नॉहिं कलोल ॥ २ ॥

स्वेद

केलि, भय, परिश्रम आदि के कारण रोम-कूप से निकले जल-बिन्दु को स्वेद कहते हैं।

उदाहरण

सवैया—

ऊँची अटा पै अकेली हुती अलबेली खरी करि रूप-उँजारो ।
एड़िन छै छहरात हुतो 'हरिऔध' छुट्यो कच घूघुर-वारो ।
औचक आइ दोऊ अँखियाँ इतनेहिँ मैं मूँदि लियो पिय-प्यारो ।
भेद-भरो मन ऊबि छरो गयो सेद मैं डूबि गयो तन सारो ॥१॥

रोमांच

किसी कारण रोमो का खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है । ✓

उदाहरण ✓

सवैया—

बूमि भली-बिध कीजै कछू अलि काज उतावली के नहिँ नीके ।
चौगुनी-चंचल होति चले 'हरिऔध' कथानक केलि-थली के ।
धीर धरे हूँ बनैगी न बीर जो कामिनी क्यों हूँ परी कर पी के ।
नेक ही नैन लरे सिगरे-तन-रोम खरे हूँ गये रमनी के ॥१॥

कंप ✓

शीत, कोप और भय आदि से अकस्मात् अग अग के काँप उठने को कंप कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

✓संग सहेलिन को गयो छूटि कै बानर पोछूँ पखो बन केरो ।
तोको अचानक आइ कपूत कोऊ कै कलेस दियो बहुतेरो ।
कै यह पूस को सीरो-समीर सताइ गयो 'हरिऔध' घनेरो ।
कौन सी बात भई बतराय दै जो इतनो तन काँपत तेरो ॥१॥

दोहा—

कहा भयो कत बावरी तेरो मुख पिथरात ।
कत पीपर के पात लौं थर थर काँपत गात ॥ २ ॥

स्वर-भंग ✓

स्वाभाविक ध्वनि मे विकार होने को स्वर-भंग कहते है ।

उदाहरण

सवैया—

घिरे नभ मैं घन घूमत हे 'हरिऔध' हुती सब ओर बहार ।
बिचार कियो अस चाव-भरो चित गाइये मंजुल - राग-मलार ।
इतै अलबेली अलाप कियो उतै आइ गये ब्रजराज - कुमार ।
भयो सुर - भंग निहारत ही उतखो मनो बाजत बीन को तार ॥१॥

वैवर्ण्य ✓

शरीर की काति मे अंतर पड़ने को वैवर्ण्य कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

अबै आई बिनोद - भरी मुसकात भयो यह बीच ही कैसो दई ।
'हरिऔध' सों धाड़कै कोऊ कहो इतनो यह जात है काहें तई ।
नित ही बन - कुंजन आवती हैं बजी बाँसुरिया हूँ न आज नई ।
अरी कौन-सी पीर भई पल मैं मो परोसिनी जो परि पीरी गई ॥१॥

अश्रु ✓

कारणविशेष से नेत्रो से जल-पात होने का नाम अश्रु है ।

उदाहरण

सवैया—

आई अपार - बिनोद भरी बनिता ढिग साँवरे सील-निधान के ।
 आदर-मान ही मैं 'हरिऔध' कढ़े मुख बैन बिदेस पयान के ।
 ऊबि कै ऊँची उसास लई सुख भूल गये सिगरे सनमान के ।
 मोती समान कपोलन ह्वे अखियान ते बूढ़ गिरे असुआन के ॥१॥

दोहा—

तुमरे बिछुरे प्रानपति रहे न अपने नैन ।
 बारि बिमोचत रैन - दिन पावत पलौ न चैन ॥ २ ॥
 अरी बीर बरजत कहा रुदन करन दै मोहिं ।
 सजल - नयन - बल ही सकल - हिय - दुख हरए होहिं ॥ ३ ॥

प्रलय

किसी वस्तु में तल्लीन होकर देह-दशा की विस्मृति को प्रलय कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

ललकति राधा नाम लै पुलकति पकरि अलीन ।
 ललना लालन है गई है लालन मैं लीन ॥ १ ॥

जुंभा

भय, मोह और आलस्य के कारण क्षण-क्षण में खोलकर जमुहाई लेने को जुंभा कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

जुरे नयन पिय-नयन ते नयन फेरि फिरि जाति ।
सजल-भाव ते भूरि भरि जलज-मुखी जमुहाति ॥ १ ॥

२—कायिक

आँख, भौंह, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ की जाती हैं उनको कायिक कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

अति प्यार-पगी बतिया हूँ सुने पिय-प्यारे प्रतीति को छोरै लगी ।
अनुराग-रँगे अभिलाखन मैं अभिमान के आखर जोरै लगी ।
'हरिऔध' के सीस महावर-रेख निहारत ही मुख मोरै लगी ।
तिरछी अँखियान ते ताकि तिया अनखान-भरी तृण तोरै लगी ॥१॥

३—मानसिक

मन-संबंधी आमोद-प्रमोद का नाम मानसिक अनुभाव है ।

उदाहरण

कवित्त—

गिरि-सानु पै है चारु चाँदनी लसति कैसी
पसरी प्रभा है कैसी पादप-निकर मैं ।

भरना भरत नीर-कन हैं पियत कैसे
 ओप है अपार कैसो पाहन-पसर मैं ।
 'हरिऔध' कैसी खिली कलित-कुमोदिनी है
 सुभ्रता बसी है कैसी सीपन-सगर मैं ।
 कैसो बारि हलत समीर मंद-मंद लागे
 कैसो भलमलत मयंक मानसर मैं ॥ १ ॥

रंग-भरे कलित-कमोरे रंग बरसत
 चारुता निचोरे लेति रोरी मंजु-भाल की ।
 मानस मैं मोद-सुधा-सरिता हिलोरे लेति
 प्रीति-गाँठ जोरे लेति जोति-मनि-माल की ।
 'हरिऔध' छोरि पिचकारी चित छोरे लेति
 बोरे लेति रस मैं लचकि लंक बाल की ।
 लालन के लोने-लोने-लोयन को चोरे लेति
 गिरि गोरे-नालन पै गरद गुलाल की ॥ २ ॥

दोहा—

बिलसत हैं सरसिज-युगल मनरंजन - ससि-गोद ।
 मोद-निकेतन बदन लखि काहि न होत बिनोद ॥ ३ ॥

४—आहार्य

✓विश धारण को आहार्य अनुभाव कहते है ।

दोहा—

पहिरि सु-कुंडल कल - मुकुट पीत-ब्रसन बन-माल ।
 कर मैं मुरली लै बनी मुरली - धर ब्रज - बाल ॥ १ ॥

सात्त्विक अलंकार

नायिकाओं के अर्द्धांस सात्त्विक अलंकार माने गये हैं। उनमें से तीन अंगज, सात अयत्नज और अट्ठारह स्वभावसिद्ध हैं।

अंगज—१-भाव, २-हाव और ३-हेला।

अयत्नज—१-शोभा, २-काति, ३-दीप्ति, ४-माधुर्य, ५-प्रगल्भता, ६-औदार्य और ७-धैर्य।

स्वभावसिद्ध—१-लीला, २-विलास, ३-विच्छित्ति, ४-विब्वोक, ५-किल-किचित, ६-विभ्रम, ७-ललित, ८-मोहायित, ९-विहृत, १०-कुट्टमित, ११-मौग्ध्य, १२-विक्षेप, १३-कुतूहल, १४-हसित, १५-चकित, १६-कैलि, १७-मद और १८-तपन।

विशेष

प्रायः भाषा-ग्रथो मे दश 'हाव' माने गये हैं, और ये, वे ही हैं जो स्वभावसिद्ध अलंकारों की गणना में १ से १० सख्या तक लिखित हैं। कोई कोई इन में 'हेला' को मिलाकर 'हाव' की सख्या ग्यारह और कोई 'बोधक' को मिलाकर बारह बतलाते हैं। समस्त 'हाव' अनुभाव के अतर्गत है, उनका स्वतंत्र स्थान नहीं है।

संयोग-समय में नायिकाओं में जो स्वाभाविक चेष्टाएँ अथवा भौह नेत्रादि के विलक्षण व्यापार मनोविकारों के आधार से होते हैं वे ही 'हाव' कहलाते हैं। ये प्रायः मनोभावों के अल्पविकास के सूचक मात्र होते हैं।

अंगज सात्त्विक अलंकार

१—भाव

निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र काम-विकार को भाव कहते हैं।

उदाहरण

दोहा—

वहै पवन सौरभ वहै वहै आम को बौर।
वहै कामिनी हूँ अहै भयो आज मन और ॥ १ ॥

है कालिंदी - तट वहै वहै कवंब रसाल ।
 आज कहा तोको भयो इत आवत ही बाल ॥ २ ॥
 वहै कोकिला - रव अहै वहै भृंग - गुंजार ।
 आज बनी क्यो बावरी निरखि वसंत-बहार ॥ ३ ॥
 वहै मलय की मंजुता खग - कुल वहै कलोल ।
 भयो जात कत लाड़िली तव चित इतनो लोल ॥ ४ ॥

२—हाव

सयोग-समय मे स्त्रियो के स्वाभाविक भ्रू-भग-विलासादि को हाव कहते है ।

उदाहरण

दोहा—

सरसावति काको नहीं रस - निचुरत मुसुकान ।
 तिरछी - चितवन कहति है तिय - चित की बतियान ॥ १ ॥
 रस राखन मैं नहिँ रखति नेक कसर दृग - कोर ।
 पिय - मन की कहि जाति है तिय की भौँह-मरोर ॥ २ ॥

३—हेला

संयोग-समय मे विविध-विलास-भावों के प्रकटित होने का नाम हेला है ।

उदाहरण

दोहा—

गुलचा दै तिरछे चितै दृग नचाइ मुख मोरि ।
 बाल भुरावति लाल को बिहँसी भौँह मरोरि ॥ १ ॥
 कबौँ करति हाँसी कबौँ छीनि लेति उर-माल ।
 कबौँ झाड़ - वाली कहति अहै छिछोरो लाल ॥ २ ॥

अयत्नज सात्त्विक अलंकार

१—शोभा

रूप-यौवन आदि से सपन्न शरीर की सुदरता को शोभा कहते हैं ।

उदाहरण ~

दोहा—

छन छन नवता लहत है छवि छलकत-अवदात ।
चंद सरिस सुंदर - बदन मृदुल - सलोनी - गात ॥ १ ॥
तिल बन जाति तिलोत्तमा काम-कामिनी छाम ।
है ललामता को निलय ललना - रूप - ललाम ॥ २ ॥

२—कांति

स्मर-विलास से बढी हुई शोभा का नाम कांति है ।

उदाहरण

दोहा—

काम-कलामय है लसति हरति कल्पना - क्तांति ।
बिकसे-अभिनव-कुसुम सी कांतिमयी को कांति ॥ १ ॥
बिलसे नवला - अंग मैं काम-कला की जोति ।
चामीकर से गात की चमक चौगुनी होति ॥ २ ॥

३—दीप्ति ~

बहुविस्तृत कांति को दीप्ति कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

दीपावलि तन-दुति निरखि दबकी सी दिखराति ।
विबिध-जोति उजरी फिरति जरी बोजुरी जाति ॥ १ ॥

विलसत यौवन में अहै चाको भाव - अनूप ।
लोक - बिकासक - काम को दुति है बिकसित-रूप ॥ २ ॥

४—माधुर्य

सब दशाओ मे रमणीय रहना माधुर्य कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

होत नहीं मसि - बिंदु ते अललित बाल - लिलार ।
औरो मन - रंजन करत दृग लहि अंजन-सार ॥ १ ॥
अधर पान की पीक ते अधिक - ललाम लखात ।
मिसी मले नबला - दसन नव - नीलम बनि जात ॥ २ ॥
तिरछे चलि लहि बंकता करि चंचलता मान ।
अधिक मधुमयी बनति हैं ललना की अखियान ॥ ३ ॥

५—प्रगल्भता

केलि-कला मे निर्भयता का नाम प्रगल्भता है ।

उदाहरण

दोहा—

दोऊ आलिगन करहिं दोऊ करहिं कलोल ।
पिय को तिय तिय को पिया चूमत अधर कपोल ॥ १ ॥

६—औदार्य

सदा विनय रखना औदार्य कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

मधुर बोलि सनमान करि सबको हित उर धारि ।
करति सदन को सुर - सदन सुर - ललना सी नारि ॥ १ ॥

७—धैर्य ✓

आत्मश्लाघा से युक्त अचंचल मनोवृत्ति को धैर्य कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

नव - प्रसून नावक बनै पावक मलय - समीर ।
परम धीर - अनुरागिनी है है नाँहि अधीर ॥ १ ॥
पिय - मुख - चंद - चकोरिका जी है पंथ निहार ।
सुधा - बिदु होवै गरल बरसै इंदु अँगार ॥ २ ॥

स्वभावसिद्ध सात्त्विक अलंकार

१—लोला ✓

प्रेम वश प्रिया, प्रियतम का अन्योन्य-वेश-धारण लीला हाव कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

लालन बनि बनि राधिका राधा बनि बनि लाल ।
बिहँसत बोलत बहु लसत ललकत करत निहाल ॥ १ ॥

कवित्त—

सिखि-पच्छ सोह्यो सीस कुंडल-ललित कान
जापै फबि फैली प्रभा अलक - समाज की ।
बंसी कर लसी उर बन - माल मोती - माल
जोति कछु तीखी परी अँखिया-सलाज की ।

कटि - तट पीत - उपरैना लस्यो 'हरिञ्चौध'
 कहत वनै ना श्याम नाई - मंजु आज की ।
 विजन विराजि बृखभानु जू की जाई
 कैसी बनक बनाई मन - भाई ब्रजराज की ॥ २ ॥

२—विच्छित्ति

साधारण शृंगार से नायिका के मोहक शोभाधिक्य का नाम विच्छित्ति है ।

उदाहरण

सवैया—

या कल-कंज से पायन की लखि लालिमा लाल हूँ लागत औगुनी ।
 चारुता चारु - चमीकर ते नवला - बर - अंग विराजति चौगुनी ।
 दीख परै 'हरिञ्चौध' हमै नव - भूखन ते तन की दुति नौगुनी ।
 एक ही केसर - आड़ दिये सुखमा मुख की ससि ते भई सौगुनी ॥१॥

३—विलास

सयोग-समय में नेत्र-व्यापार कटाक्षःदि तथा गति, स्थिति, आसनादि की विलक्षणता को विलास कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

ललकति पुलकति मुरि हँसति चितवति लहति बिकास ।
 नवल - बाल बिलसति रहति करि करि विविध-विलास ॥ १ ॥
 चितवति कबौँ चकित बनति कबौँ हँसति मुसुकाति ।
 करि बिलास बहु लाड़िली लोयन मॉहँ समाति ॥ २ ॥

४—विभ्रम

प्रिय के संयोग-समय मे आतुरता-वश भ्रूषणादि का उलटे पलटे धारण कर लेना विभ्रम कहलाता है । भ्राति का नाम भी विभ्रम है ।

७—विब्बोक

गर्व-पूर्वक प्रिय के अन्यादर का नाम विब्बोक है।

उदाहरण

कवित्त—

बन-वारो कारो-कूर-किंसुक न पावै ठौर
 उपवन-वारी-मंजु-मल्लिका की क्यारी मैं ।
 बैठि नहिँ क्योँ हूँ सकै बायस-लड़ैतो जाय
 मंडली-मराल-बालिका की छवि-वारी मैं ।
 'हरिऔध' कौन तू कहाँ को है विचारै कि न
 नेसुक मैं नातो नंद हूँ को दैहौँ गारी मैं ।
 कैसे सौँहैं दीठ तू करत रे कुँवर कान्ह
 जानत कहा न बृखभानु की दुलारी मैं ॥ ३ ॥

८—कुट्टमित

सुख-समय में मिथ्या दुःख-चेष्टा और कृत्रिम रोष प्रकट करने का नाम कुट्टमित है।

उदाहरण

सवैया—

तोसों गरीब सनेह कै मो सम राज-सुता सों कहा फल पैहै ।
 तेरे समान सपूत सों नेह कै कौन तिया जग मैं जस लैहै ।
 दूर खरे 'हरिऔध' रहो परे छाँह तिहारी सबै बिनसैहै ।
 साँवरो नंद को छोरो छुबै जनि गोरो सरोर मो गोरो न रैहै ॥१॥

९—विह्वत

संयोग-समय में लज्जादि के कारण मनोभिलाष में व्याघात उपस्थित होना विह्वत कहलाता है।

७—विब्वोक

गर्व-पूर्वक प्रिय के अनादर का नाम विब्वोक है ।

उदाहरण

कवित्त—

बन वारो कारो-कूर-किसुक न पावै ठौर
 उपवन-वारी मंजु मल्लिका की क्यारी मैं ।
 बैठि नहिँ क्यों हूँ सकै बायस-लडैतो जाय
 मंडली-मराल-बालिका की छवि-वारी मैं ।
 'हरिऔध' कौन तू कहाँ को है बिचारै कि न
 नेसुक मैं नातो नंद हूँ को देहौँ गारी मैं ।
 कैसे सौहैं दीठ तू करत रे कुँवर कान्ह
 जानत कहा न बृखभानु की दुलारी मैं ॥ ३ ॥

८—कुट्टमित

सुख-समय में मिथ्या दुःख-चेष्टा और कृत्रिम रोष प्रकट करने का नाम कुट्टमित है ।

उदाहरण

सवैया—

तोसों गरीब सनेह कै मो सम राज-सुता सो कहा फल पैहै ।
 तेरे समान सपूत सो नेह कै कौन तिया जग मैं जस लैहै ।
 दूर खरे 'हरिऔध' रहो परे छाँह तिहारी सबै बिनसैहै ।
 साँवरो नंद को छोरो छुवै जनि गोरो सरोर मो गोरो न रैहै ॥१॥

९—विहृत ✓

सयोग समय में लज्जादि के कारण मनोभिलाष में व्याघात उपस्थित होना विहृत कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

तिय कछु चाहत कहन पै लाज जीह गहि लेत ।
 मुख के मधुमय-वयन के काज नयन करि देत ॥ १ ॥
 वा लज्जा ते बावरी कहा काज तू लेति ।
 पिय के कान समीप जो वीन बजन नहि देति ॥ २ ॥

१०—ललित

सर्वांग सरस और शृंगारित करने को ललित हाव कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

लाल रिभावन को हँसति बोलति बैन रसाल ।
 लोने - लोने - नयन को लोल बनावति बाल ॥ १ ॥
 लोच - भरे लोचनन ते बनति । ललन चित - चोर ।
 चाव सहित ललना रहति पिय - मुख - चंद - चकोर ॥ २ ॥

११—मद

सौभाग्य, यौवन आदि के अभिमान से उत्पन्न मनोविकार को मद कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

वे किनमें हैं बावरी हैं जिनमें रस नाहिं ।
 मधु न होत तो मधुप क्यो जात माधवी पाहिं ॥ १ ॥
 कौन अहै गुन - आगरी रसिक जिअत केहि जोहि ।
 अरो नागरी ही सकति नागर - नर को मोहि ॥ २ ॥

१२—केलि

कांत के साथ कामिनी की विहार-फ़ीड़ा को केलि कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

सजि सजि सुमन - समूह सो बनि वसंत की बेलि ।
पुलकि पुलकि ललना करति निज - लालन ते केलि ॥ १ ॥

१३—तपन

प्रियतम के वियोग मे कामजनित उत्ताप को तपन कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

सीरे सीरे लेप सब बनत दीप के नेह ।
नव वियोग - तप - ताप ते तवा भई तिय - देह ॥ १ ॥
कबहुँ रुकत कबहुँ बहत कबहुँ होत अथाह ।
सोच सकोचन मैं परो लोचन - बारि - प्रवाह ॥ २ ॥

१४—मुग्धता

ज्ञात पदार्थ को भी प्रियतम के सामने अज्ञात समान पूँछना मुग्धता कहलाती है ।

उदाहरण

दोहा—

पिय बतरावहु बोलिकै मधुर अमी से बैन ।
खिले कमल से हैं किधौँ मुँदे कमल से नैन ॥ १ ॥
अस जनात लाली गई अवनी-तल पै पोति ।
कत लालन मो पग परत लाल चाँदनी होति ॥ २ ॥

१५—कुतूहल

रमणीय वस्तु के देखने के लिये चंचल होना कुतूहल कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

जाकी कलित - कथान को तू भाखति कथनीय ।
 सो कित को है कौन है कैसे है कमनीय ॥ १ ॥
 अली जहाँ है बज रही मुरली सब - रस - मूल ।
 चलु चलु अवलोकन करै सो कालिदी - कूल ॥ २ ॥

१६—विक्षेप

भूषणों की अधूरी रचना, बिना कारण इधर-उधर देखना, धीरे से प्रियतम से कोई रहस्य की बात कहना आदि विक्षेप कहलाता है ।

उदाहरण

दोहा—

इत उत चितै कबौं कळू धीरे कहि हँसि देति ।
 पहिरि अधूरो - आभरन मन - पूरो करि लेति ॥ १ ॥
 पहिरे द्वै द्वै चूरियाँ इत उत चितवत जाति ।
 बतिया कहि कहि भेद की भेद - भरी मुसुकाति ॥ २ ॥

१७—हसित

यौवन-विकास से उत्पन्न अकारण हास को हसित कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

पिय - मन - मोहन को करति रस-बस विविध विलास ।
 मधुर - मंद - गति गहति तिय मंद मंद करि हास ॥ १ ॥

कौन नहीं कामुक वनत कौन सकन चित रोकि ।
हास - भरी - नवलान को ओचक हास - बिलोकि ॥ २ ॥

१८-चकित

प्रियतम के सामने अकारण डरना और घबराना चकित कहाता है ।

उदाहरण

दोहा—

कल्लु सकाइ सकुचाइ कल्लु कल्लु अकुलाइ अकाल ।
चकित वनावति काहि नहिँ चकित - बिलोचन - बाल ॥ १ ॥
इत उत चितवति चौकि बहु भरि लोयन मै भाव ।
चकित वनावत लाल को चकित - बाल को चाव ॥ २ ॥

बोधरूहाव

दोहा—

ललना लालन को चितै दीन्हें वार बगारि ।
लालन निज - मुख पै लियो कर - नीलांबर डारि ॥ १ ॥

रस निरूपण

रस निरूपण

स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों के सहित चमत्कृत होकर मनुष्यों के हृदय में अलौकिक और विलक्षण आनन्द का स्वरूप धारण करता है, तब वह रस कहलाता है।

उदाहरण

कवित्त—

सोच ना रखत भव - मोचन को भाव देखि
 रुचि माँहिँ रुचिर - प्ररोचना भरत है ।
 प्रतपित होत पाप - तापते न प्रेम लहे
 प्रथित - प्रताप - बल पातक हरत है ।
 'हरिऔध' हरि के विचारित - चरित गाइ
 बिचलित - चित को उबारि उबरत है ।
 पावन - अनिदित - पराग को मिलिद बनि
 वंदित - पदारविद वंदन करत है ॥ १ ॥

मंजु - चंद - मुख देखि मानस बनत सिंधु
 सुनि बैन कान - रस - पान कै अघाये हैं ।
 कल - केलि अवलोकि मुदित - महान होत
 भोरे भोरे भावन ते भूरि - सुख पाये हैं ।
 'हरिऔध' मंजुल - मधुर - मुसुकानि हेरि
 उमगि उमगि सुधा - सर मैं अन्हाये हैं ।
 परम - सलोने गोरे - गालन पै वारि जात
 लोने - लोने - लालन पै लोचन लुभाये हैं ॥ २ ॥

बन बन माँहिँ दरसत सुर - तरु नाहिँ
 सरस - रसाल को सदन है न बौर बौर ।

नर नर माँहिं नाहिं नरता निहारी जाति
 प्रभुता - प्रभाव - पूत होत नाँहि पौर पौर ।
 'हरिऔध' सब मैं समान गुन - गन है न
 बहु - रस - बलित बनत नाँहि कौर कौर ।
 घर घर माँहिं रमनीय - रमनी है कहाँ
 कमनीय - खनि अवननी मैं है न ठौर ठौर ॥ ३ ॥

मद - माती - मुदित - मयूर - मंडली के काज
 पारत पियूख कौन घन की घहर मैं ।
 मंजु - सुर - मत्त या कुरंगन के हेत कौन
 बेबसी भरत बेनु - बधिक - निकर मैं ।
 'हरिऔध' होति जो न मोह मैं महानता तो
 बँधत मिलिद कैसे कंज के उदर मैं ।
 मन कैसे रमत चकोर औ मरालन कौ
 मोद - वारे मंजुल - मयंक - मानसर मैं ॥ ४ ॥

मरु - भूमि - मारुत बनत मलयानिल है
 रहत अमरता न अमर - नगर मैं ।
 लहत न बारि - बूँद बारि - धर बारिधि मैं
 बनजाति बारि - धारा धूरि बारि-धर मैं ।
 'हरिऔध' अनुकूल - दैव प्रतिकूल भये
 गरल सुधा की सोत होत सुधा - कर मैं ।
 पावत न मधु है मधुप मधु माधव मैं
 मिलत मराल कौ न मोती मानसर मैं ॥ ५ ॥

मरु - भूमि नंदन - बिपिन बनि बिलसत
 नंदन - बिपिन दग्ध होत दरसत है ।

पामर - परम नाक - पति पद पावत है
 नाक - पति पामर - पगन परसत है ।
 'हरिऔध' कल्पना रहित काल - कौतुक है
 कल्प - तरु कबहूँ अंगारे बरसत है ।
 अ - सरस बनत बसंत दाघ के समान
 दाघ बनि सरस - बसंत सरसत है ॥ ६ ॥

गुनिन मैं गौरव लहत गुन - आगर है
 नागर - निकर निवसत है नगर मैं ।
 सोहत है पावन - सलिल - सुर - सरि माँहि
 किसलय - कलित लसत तरु - वर मैं ।
 'हरिऔध' मान है समान संग माँहि होत
 मंजुलता बसति मयंक - मंजु - कर मैं ।
 सर मैं खिलत सरसीरुह - समूह देखे
 मिलति मराल - मंडली है मानसर मैं ॥ ७ ॥

चरन बिनाहूँ अहै चलति अचल माँहि
 करन बिनाहूँ वार करति अपार है ।
 बोरन को मारि मारि अमर बनावति है
 धीरन को बाकी धार परम - अधार हैं ।
 'हरिऔध' संतत हरति जन - जीवन है
 जीवन को तबहूँ रखति बहु - प्यार है ।
 पानिप अछत सदा रहति पिपासित है
 तेज-वारी हूँ कै तम - वारी तरवार है ॥ ८ ॥

सवैया—

बावरी बोध न होवै अजौ कर कैसे लियो गिरि-गोधन सारो ।
 त्यो छन ही महुँ पान कियो किमि पावकहूँ बन - दाहन - वारो ।

हेरि कहै 'हरिऔध' हिं देवकी क्यो गहि नाथि लियो अहि-कारो ।
कंस हूँ को मल मारि लियो किमि फूलसो कोमल-लाल हमारो ॥ ६ ॥

काम न ऐहै विकास कबौं रस हीनन सो रस प्यास न जैहै ।
चाहे करै उपवास सदा कबौं काहू बिसासो - अवास न जैहै ।
कै बन-बास उदास रहै पै अनेदिन को बनि दास न जैहै ।
पास कपास-प्रसूनन के अलिवास - विलास को आस न जैहै ॥१०॥

दोहा—

दोऊ नैनन मैं रही छवि - रावरी समाय ।
चहूँ - ओर तिहुँ - लोक मैं तू ही एक लखाय ॥११॥
कारे कारे कूबरे सिगरे बरन लखाहिँ ।
बरनि सकत कैसे कोऊ सुवरन - बरनी काहिँ ॥१२॥
कहा भाग ऐसो अहै बिगारि बनै जो बात ।
कबहूँ दूध बनै न सो जो कैसहुँ फटि जात ॥१३॥
भलो बुरो समयो नही है अपने बस माँहिँ ।
पै 'हरिऔध' न होत सो भाग लिखी जो नाहिँ ॥१४॥
बोली रिसौहैं - बैन ए कत कीजत अलि बार ।
वन - वागन मैं बावरी बगरी देखु बहार ॥१५॥

शृंगार

स्थायी भाव—रति

देवता—विष्णु भगवान् अथवा श्रीकृष्ण

वर्ण—श्याम

आलंबन—नायक और नायिका

उद्दीपन—

सखा, सखी, वन, वाग, उपवन, तड़ाग, चद्र, चाँदनी, चदन, भ्रमर, कोकिल, ऋतुविकास आदि—

अनुभाव—भृकुटि-भग, कटाक्ष, हाव, भाव, मृदु सुसकान आदि—

संचारी भाव—उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर शेष २६ स्मृति, हर्ष, औत्सुक्य, जड़ता, मति, विबोध आदि भाव—

किसी किसी की सम्मति है कि इस रस में कुल संचारी भाव आते हैं—

विशेष

विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव के संयोग से शृंगार रस उत्पन्न होता है, इनके द्वारा ही रति की पुष्टि होती है। प्रिय वस्तु में मन के पूर्ण-प्रेम-परायण-भाव का नाम रति है, ऐसी रति उत्तम कोटि के नायक नायिकाओं में ही होती है, अतएव प्रायः पर-स्त्री और अनुराग-शून्या वेश्या को कुछ लोग नायिका में परिगणित नहीं करते। १-संयोग और २-विप्रलंब शृंगार के दो भेद हैं।

इस रस में संचारी, विभाव और अनुभाव सब भेदों सहित आते हैं; अतएव इसे रसराज कहते हैं।

१—संयोग शृंगार

एक दूसरे के प्रेम में पग कर नायक नायिका जब परस्पर दर्शन, स्पर्शन और संलापादि में रत होते हैं, तब वह संयोग शृंगार कहलाता है।

उदाहरण

कवित्त—

राधिका - नयन मैं हैं मोहन - नयन बसे
 मोहन बिकत राधा - नयन निकाई पै ।
 प्यारी - मुख - सुखमा सराहत रहत प्यारो
 प्यारी मोहि जात प्यारे मुख - मंजुताई पै ।
 'हरिऔध' स्याम को कहति रमनी है काम
 स्याम रति वारत रमनि रुचिराई पै ।
 लाल को लुभावति है ललना-ललित - छवि
 ललना लटू है भई लाल की लुनाई पै ॥ १ ॥

पिय - तन - घन तिय - मुदित - मयूरनो है
 पिय - तिय - नलिनी मिलिद - मतवारे हैं ।
 कौमुदी तरुनि है कुमुद - मन मोहन को
 मोहन तरुनि लतिका के तरु प्यारे हैं ।
 'हरिऔध' नारि है सरसि मीन - प्रीतम की
 प्रीतम मराली - नारि मानसर प्यारे हैं ।
 बाल बनी बालम - बिलोचन को पूतरी है
 लाल बने ललना के लोयन के तारे हैं ॥ २ ॥

२—विप्रलंभ

जब अनुराग अत्यंत प्रबल और प्रिय-समागम का अभाव रहता है, तब विप्रलंभ अथवा वियोग शृंगार को उत्पत्ति होती है। इसके निम्नलिखित तीन भेद हैं—

१-पूर्वानुराग, २-मान और ३-प्रवास ।

उदाहरण

सवैया—

बावरी बेकल क्यों न बनौं पल ही पल क्यों न उठौं अकुलाई ।
 बेदन ते बिलखौं न कहा इन नैनन ते असुआन बहाई ।
 क्यों न गहौं 'हरिऔध' अधीरता कैसे लहौ थिरता मनभाई ।
 एरी लगी छत मैं छतिया के गोपाल की वा अखियान लुनाई ॥१॥

१—पूर्वानुराग

मिलन अथवा समागम से प्रथम हृदय में जो अनुराग का आविर्भाव होता है, उसको पूर्वरग अथवा पूर्वानुराग कहते हैं, इसके चार मार्ग हैं—

१-प्रत्यक्ष दर्शन २-चित्रदर्शन ३-श्रवणदर्शन ४-स्वप्नदर्शन

१—प्रत्यक्ष दर्शन

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के नयनगोचर होने पर जिम अनुराग का प्रादुर्भाव होता है, उसे प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

कलित - कपोलन पै अलकें लुरो हैं मंजु
 सुललित - आभा लसी अधर - तमोर की ।
 हियरा - हरन - वारे उर पै फवे हैं हार
 अंगन प्रभा है आछे - भूखन - अथोर की ।
 'हरिऔध' बेस वसनादिक वखाने बनै
 आने बनै चित मैं निकाई नैन - कोर की ।
 एरी बीर काकी मति बावरी बनी है नाँहि
 सु - छवि बिलोकि बाँकी नवल-किसोर की ॥ १ ॥

अति अनुकूल सुख - मूल कालिंदी के कूल
 लोक - सिद्ध - पीठ जाको श्रुति ठहरावै है ।
 'हरिऔध' स-विधि सम्हारि निज-साँसन को
 आसन हूँ मारि संक-त्रासन भगावै है ।
 एरी बीर बिटप कदंब पै न बैठो आज
 रस पैठो मजु - मीठी - बाँसुरी बजावै है ।
 काहू मोहिनी को मोह-वारो मन, मोहन को
 मोहन हमारो मत्र - मोहन जगावै है ॥ २ ॥

भूलि ना सकी हौं हूलि हूलि हिय मेरे उठै
 ललित - लुनाई वाके लोयन - ललाम की ।
 प्यारी छवि पापी-प्राण पलक बिसारै नाँहिं
 आनन बगारे कारे - कारे - केस-दाम की ।
 'हरिऔध' कान हूँ न मानै पान कीने बिना
 चैन-देन-वारी - सुधा बैन - अभिराम की ।
 आँखिन समाई क्यों हूँ कढ़त न माई वह
 मंद मंद मंजुल अवाई घनस्याम की ॥ ३ ॥

दीहा—

मो मन अपनो करत है वाँकी - भौंह - मरोर ।
 आवत है चितवत - चकित चाव-भरो - चित-चोर ॥ ४ ॥

२—चित्रदर्शन

चित्रदर्शन द्वारा जिस अनुराग की उत्पत्ति होती है उसे चित्रदर्शन कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

भावुकता भव-भूति-निकेतन भाव-भरो मुख है बहु - भावत ।
 भाल को रोचन मोहत है मन लोचन-लोच-भरो ललचावत ।

ए 'हरिऔध' हँसी हित - जोरति हेरन है हियरा हुलसावत ।
चित्र तिहारो चितेरे बताइ दै चित्त बसे हूँ क्यो चित्त चुरावत ॥ १ ॥

दोहा—

चित्तै चित्र मैं लाल के अमल - अमोल - कपोल ।
ललकित लालायित भये ललन्य - लोयन - लोल ॥ २ ॥

३—श्रवण-दर्शन

रूप, गुण अथवा कीर्ति श्रवण से जो अनुराग उत्पन्न होता है उसे श्रवण-दर्शन कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

तू बतरावति है मुसकाइ कै मो - मति माधुरी माँहिँ फँसी है ।
पल्लव से तव होठ हिले नव-नेह-लता उर माँहिँ लसी है ।
हौँ छबि देखे बिनाहिँ छरी गई तू छरे मोहि भई सु - जसी है ।
नैन मैं मेरे रमे मन-मोहन बैन मैं मोहनी तेरे बसी है ॥ १ ॥

दोहा—

मानस को मोहन लगे मन - मोहन छबि - ऐन ।
लोने लोने बैन सुनि भये सलोने नैन ॥ २ ॥

४—स्वप्नदर्शन

स्वप्न में दर्शन करने से किसी में जो अनुराग उत्पन्न होता है, उसे स्वप्न-दर्शन कहते हैं—

उदाहरण

सवैया—

राति ही ते है अराति भयो उर आकुल - भाव उसास सनो है ।
है न उबार उमाहन ते बहु - दाहन ते दुख होत घनो है ।

भूलति मृरति ना 'हरिञ्चोध' को भावन-नीरद नैन बनो है ।
सो सपनो जरि जाउ मखी अपनो मुख जाते भयो सपनो है ॥ १ ॥

दोहा—

होवै बहु कमनीय कोउ कै कामिनि अनुकूल ।
सपनो सपनो है अरी तू यह सपनो भूल ॥ २ ॥

२—मान

प्रियापराधजनित प्रणय कोप को मान कहते है । यह तीन प्रकार का होता है—लघु, मध्यम और गुरु ।

लघु मान

पर-पत्नी-अवलोकन-जनित मान को लघु मान कहते हैं, यह हँसी और मीठी मीठी बातों ही से निवृत्त हो जाता है ।

उदाहरण

दोहा—

मोको करि करि बावरी हँसहिं खिजहिं खिसियाहिं ।
पिय ए अखियोँ रावरी कत इत उत चलि जाहिं ॥ १ ॥

मध्यम मान

परस्त्री-प्रशंसा-सूचक वाक्य अथवा आदरपूर्वक उसका नाम लेते सुनकर जो मान होता है, उसे मध्यम मान कहते है, यह विनय और शपथ आदि से दूर हो जाता है ।

उदाहरण

दोहा—

अब लौँ पतियाई बहुत पिय कब लौँ पतियाहिं ।
' जो जिय को भावति न तिय मुँह मैं आवति नाहिं ॥ १ ॥

गुरु मान

अन्य स्त्री रमण विश्वास जनित मान को गुरु मान कहते हैं, यह नाना अलंकार देने और पाँव पड़ने से दूर होता है ।

उदाहरण

दोहा—

प्रिय तो मनहीं की करहु जो मन मानत नाहिँ ।
वाही के परसहु पगन जा पग परसे जाहिँ ॥ १ ॥

३--प्रवास

प्रियतम के परदेश निवास को प्रवास कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है
१-भूत प्रवास, २-भविष्य प्रवास ।

भूत प्रवास

जिस प्रवास का सबध भूतकाल ने होता है उसे भूत प्रवास कहते हैं ।

उदाहरण

सवैया—

अति आतुर व्यासे समान पियूख भरे अखरा-रस पीजत है ।
दिन हूँ ढिग आवन के गुनि कै अपनो हियरा थिर कीजत है ।
पद प्रान प्रिया पढ़ि कै 'हरिऔध' बहे असुआ तनु भीजत है ।
यह रावरी-प्रेम-पगी-पतिया रखि कै छतिया नित जीजत है ॥ १ ॥

पति ही परदेसी भयो तो कहो तिय जीवन को फल कौन लहा ।
'हरिऔध' न धोरज होवै छनौ अकुलात अहै मन मेरो महा ।
तन मो सी तियान के दाहन मैं जग मैं जस कौन सो तेरो रहा ।
बिहरै हियरा नहिँ बूझि परै बिधना हम तेरो बिगाख्यो कहा ॥ २ ॥

लखि कै या कपूत-कला-निधि कौ सिगरो कल आपनो खोवती हैं ।
 नभ के इन तारन की अवली निज नैन के तारन पोवती हैं ।
 'हरिऔध' न आँख लगै कबहूँ दुख सो पल हूँ नहि सोवती हैं ।
 पतिया पढ़ि कै सिगरी रतिया पकरे छतिया हम रोवती हैं ॥ ३ ॥

दोहा—

जिय तरसत पिय मिलन कौ पावत पलौ न चैन ।
 पूस मास पावस भयो दृग वरसत दिन रैन ॥ ४ ॥
 बिबस भई बनि बावरी कैसे दिवस सिराहिं ।
 छरछराति छाती रहति पाती आवति नाँहिं ॥ ५ ॥

भविष्य प्रवास

जिस प्रवास का सबध भविष्य काल से होता है, उसे भविष्य प्रवास कहते हैं ।

उदाहरण

दोहा—

लखत बिदेस पयान को होत तिगूनो तंत ।
 मानत कंत कही नहीं आवत सरस - वसंत ॥ १ ॥
 जाहु बिदेस, इतो कहहु, तब जीहैं केहि जोहि ।
 कहि पी कहाँ पपीहरा जब कलपैहै मोहि ॥ २ ॥
 छकी गमन सुनि छैल को बनी छबीली मूक ।
 छटपटाति छिति पर परी छाती भई छटूक ॥ ३ ॥

बरवा—

श्रीतम जात बिदेसवाँ निपट अनेस ।
 सिसकत खरी तरुनिया बगरे केस ॥ ४ ॥

दश दशा

प्रियतम की वियोगावस्था में जो दशाएँ प्राणी की होती हैं, वे प्रायः दश प्रकार की होती हैं, इसलिए इनको दश दशा, कहते हैं। ये दशाएँ अभिलाषा से प्रारंभ होकर मरण तक पहुँचती हैं, उनके नाम ये हैं—

१-अभिलाषा, २-चिन्ता, ३-स्मरण, ४-गुण-कथन, ५-उद्वेग, ६-प्रलाप, ७-उन्माद, ८-व्याधि, ९-जड़ता और १०-मरण। किसी किसी ने ११ वीं दशा मूर्च्छा भी मानी है।

१-अभिलाषा

वियोगावस्था में प्रियतम के मिलने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं।

उदाहरण

कवित्त—

सोभा के निधान सुख-कंद-कट-कंधन पै
 मान सों या आपनी भुजान कब रखिहौं ।
 मधुर - सुधा से सुखमा से भरे बैनन को
 कब इन प्यासे दोऊ सौनन सों चखिहौं ।
 'हरिऔध' प्यारे को लगाइ छतिया सो कब
 बतिया प्रतीति-प्रीति रीति की परखिहौं ।
 मृदु-बोल बोलि कब लोल - नैन - लालन कौ
 करत कलोल कालिंदी के कूल लखिहौं ॥ १ ॥

ब्रज मैं पधारि ब्रजजीवन विनोद दैहैं
 बृन्दावन - बीथिन मैं विहँसि बिचरिहैं ।
 लैहैं सुवि विपुल विहाल - ब्रज - बालन की
 तानन सुनाइ सुधा कानन मैं भरिहैं ।

‘हरिऔध’ फेर कब्रौ अनुकूल ह्वै लाल
 कूल पै कलिंद - तनया के केलि करिहैं ।
 हरिहैं हमारो दुख - पुंज गुंजमाल - वारे
 कुंज के विहारी फिर कुंज में बिहरिहैं ॥ २ ॥

दोहा—

कब वियोग - निसि बिनसिहै लहे दिवस - संयोग ।
 कब अखियाँ अवलोकिहैं मुख - अवलोकन - योग ॥ ३ ॥
 घन-रुचि-तन-नव-छबि निरखि कब नचिहै मन-भोर ।
 बदन - चंद अवलोकिहै कब मम - नयन - चकोर ॥ ४ ॥

२—चिंता

प्रिय प्राप्ति अथवा चित्त-शान्ति-साधन विचार को चिंता कहते है ।

उदाहरण

कवित्त—

प्रेम को पियूख जो न परतो प्रपंच माहिँ
 तो न योग - भोग देव - दानव मैं ठनती ।
 सुख को पयोधि तो न बनतो अ - सुख-सिंधु
 बिबिध - बिभूति अबिभूति मैं न सनती ।
 ‘हरिऔध’ अबिधि उपाधि क्यो परति पीछे
 अवधि की आस क्योँ बिसास-जर खनती ।
 तो न मन - काम - रिपु कामुकता काम देति
 मोहन की मोहनी जो मोहनी न बनती ॥ १ ॥

सवैया—

होति न जो ममता ब्रज की ब्रज के दुखियान को क्योँ दुख खोतो ।
 भूलतो जो अनुरागिन को अनुराग को तो बहतो किमि सोतो ।

तो बनतो 'हरिऔध' हितू नहिँ जो उर मैं हित - बीज न बोतो ।
 मोहनी तो मन को न त्रिमोहति मोहन मैं यदि मोह न होतो ॥२॥
 बावरी सी भई बेदन ते कलपै पल ही पल प्राण हमारे ।
 भूलि न चैन परै असुआन मैं डूबे रहैं अखियान के तारे ।
 मेरी घरी है पहार भई जब ते 'हरिऔध' बिदेस सिधारे ।
 बीर हमैं न बतावत है कोऊ कैसे बितावत हैं दिन प्यारे ॥३॥

दोहा—

चिनगी सी तन मैं लगति चौकत राति सिराति ।
 चिंता - मनि चेतत नहीं चित - चिंता नहिँ जाति ॥ ४ ॥
 छार करति क्यों तन नहीं है दाहति दिनराति ।
 जो चिंता है चिंता तो क्यों न चिंता बन जाति ॥ ५ ॥

३-स्मरण

वियोग समय में प्रिय के सयोग समय की बातों, चेष्टाओं, और समागम-सुखों की स्मृति को स्मरण कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

काहे लोल - लहर समीर ते करत केलि
 सरिता कलोल - मयी होति क्यों सलिल से ।
 काहें है रसालता ते लसत रसाल - पुंज
 डोलत प्रसून क्यों है मंजुल - अनिल से ।
 'हरिऔध' चित जो बिलोकि कै बिकल होत
 काहें तरु - बुंद तो बने हैं मोह-मिल से ।
 लतिका-ललित तो लसी है क्यों तमाल-अंक
 क्यों हैं कंज कलित - कलिंदजा मैं बिलसे ॥ १ ॥

सवैया—

मंजु तमालन सों लिपटी नव - लोनी - लता है बिथा उपजावति ।
 कुंजन के बर - बेलि बितान को मंजुलता है महा - कलपावति ।
 सुंदरता ससि - सोभित - रैन की चारु - क्षिता-सितता है सतावति ।
 बारिद के अवलोकत ही अलि बारिद - गात की है सुधि आवति ॥२॥
 वेई निकुंजन जा मैं लखी इन नैनन ते वह सूरत-सौवरी ।
 वेई कलिदजा के कल कूल भरी जहाँ प्रीतम के संग भावरी ।
 वेई घने-बर-बेलि बितान जहाँ 'हरिऔध' भई ही निछावरी ।
 हौं भिम्भकी परी भावरी बोर बिलोकत ही मति ह्वै गई बावरी ॥ ३ ॥

दोहा—

नव-जल-धर-तन सुधि भये चूर होत चित-चैन ।
 लखि कलिद-तनया-सलिल होत सलिल मय-नैन ॥ ४ ॥
 है लहरति लोनी-लता बायु बहति है मंद ।
 दुचित होत मो चित चितै चैत - चाँदनी चंद ॥ ५ ॥

४-गुण-कथन

वियोग समय में प्रिय गुणानुवाद-कथन को गुण-कथन कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

पर-दुख-दुखी क्यों न दुखी दुख देखि होत
 काहे पीर पर - पीर - हारी ना हरत है ।
 पर - नैन - भरे जाको नैन भरि आवत है
 वाको दृग मो दृग भरे,ना क्यों भरत है ।

‘हरिऔध’ सोई मोहि धीरज बँधावै क्यों न
 धीर जो अधीरन बिलोकि ना धरत है ।
 दयानिधि क्यों न दयानिधिता दिखावत है
 करुना क्यों करुना-निधान ना करत है ॥ १ ॥

आँखिन को तारो क्यों हमारो है परारो होत
 उर को हरन-हारो कत होत कोही है ।
 असरस होत क्यों सरस-आदरस - वारो
 क्यों न देत दरस मयंक-मुख- जोही है ।
 ‘हरिऔध’ बिरह-पयोधि परी ऊवति हौं
 क्यों न बाँह गहत सु-बाट को बटोही है ।
 जनम को छोही काहें परम अछोही भयो
 मोहन सों मोही काहें भयो निरमोही है ॥ २ ॥

सवैया—

कामुकता-कमनीय-निकेतन कामिनी की अँखियान को तारो ।
 सूधो संधो सुख-धाम सुधा-सनो सुंदर-सील-सनेह-सहारो ।
 भाव-भरो सुथरो भव - बल्लभ जीवन - जीवन - भूतल - प्यारो ।
 मोहि न कोऊ मही-तल मैं मिल्यो मोहन लौं मन-मोहन-वारो ॥ ३ ॥
 साँवरे अंगन सी सुकुमारता साँवरे-अंगन मैं निवसी है ।
 मंजुल-आनन - सी कमनीयता मंजुल - आनन माँहि लसी है ।
 ए ‘हरिऔध’ अहैं दृग से दृग मंजु - हँसी सम मंजु-हँसी है ।
 मोहन - बैनन सी मधु-मानता मोहन बैनन ही मैं बसी है ॥ ४ ॥

दोहा—

गिरत उठत थहरत चढ़त थिरकत होत उतंग ।
 तऊ न तव - गुन - गुन तजत मो - मन अगुन-पतंग ॥ ५ ॥

रही अवधि की अवधि नहिं सुधि हूँ को सुधि नाँहिं ।
तिय, पी, सुगुन-सरस-सुधा सरसति बसुधा माहिं ॥ ६ ॥

५-उद्वेग

प्रिय-वियोग से व्याकुल होकर किसी विषय में चित्त न लगाने का नाम उद्वेग है ।

उदाहरण

कवित्त—

गात पियरात तो न हियरो हिरानो जात
चित्ता तो बिवेक-हीन-बेदना न जनती ।
सूखतो न अधर उसास ते न ऊब होति
रार तो न आस औ निरास माँहिं ठनती ।
'हरिऔध' बिधि को बिधान तो न बेधि देत
तो न प्रेम मंजुता अमंजुता मैं सनती ।
बायु-चिर-संगिनी बिहंगिनी सी बेगवान
योगिनी बियोग मैं बियोगिनी जो बनती ॥ १ ॥

सवैया—

राति सिराति तो बार न बीतत बात बियोग की काहि बतैये ।
जोहत पंथ थके युग लोचन क्यों दुख-मोचन को लखि पैये ।
बेसुध हौं 'हरिऔध' बिना भई कौ लौं बिधान कथान सुनैये ।
का करिये सखि संगम की बिधि बायु बिहंगम क्यों बनि जैये ॥२॥

दोहा—

ऊबति बीते अवधि दिन कोमल-तन-कुँभिलात ।
तितनो आकुल होति तिय जितनो चित्त अकुलात ॥ ३ ॥
सुन पिय-आगम प्रात ही युग सम बीतत राति ।
परलहि परी बनन चाहति सेज-परी अकुलाति ॥ ४ ॥

मोहि सताइ बचैगो न पातको पातक-सिंधु मैं ताहि डुबैहौं ।
 दैहौं बिथोरि कलंकित-कालिमा छोरि मयंक मयंकता लैहौं ॥१॥
 तो से कपूत के पाप ही ते बड़वानल बारिधि को तन तावत ।
 तो सम पामर होत न, कौन तो, गीतम-ती को कलंक लगावत ।
 पी 'हरिऔध' बिना अब पातको मोहूँ को पात्रक लाइ सतावत ।
 डूबन को कहुँ एरे मयंक तू एक चुड़क हूँ बारि न पावत ॥४॥

दोहा—

ताको कैसी विरह दुख ताको कहा प्रवास ।
 मेरे मानस मैं अहै निस - दिन जासु निवास ॥ ५ ॥
 कैसी है यह साँवरी - सूरति कहत बनै न ।
 निवसति है अँखियान मैं अँखियाँ निरखि सकैं न ॥ ६ ॥
 रुधिर - भरो क्यों है खरो किंसुक कुसुमन-व्याज ।
 आह आह कै कोकिला कहा कराहति आज ॥ ७ ॥
 मो चित विचलित होत है बहि बहि दहत सरीर ।
 बरजि बरजि आवै न इत सोतल - मंद - समीर ॥ ८ ॥

७-उन्माद

वियोगावस्था में संयोगोत्सुक हो बुद्धि-वियर्ष्य-पूर्वक वृथा व्यापार करने, जड़, चेतन विवेकरहित होने और व्यर्थ हँउने, रोने आदि को उन्माद कहते हैं।

उदाहरण

कवित्त—

हँसै, रोवै, गावै, बतरावै, बकै, बोलै नाँहँ
 उठै बैठै, धावै भरै बन बन भाँवरी ।
 नभ को निहारै कछू कहै फिर भू को चहै
 जकी हो सो रहै जो बिलोकै छवि साँवरी ।

‘हरिऔध’ काहू को कही न उर आनै
 रूख पात हूँ सों पूछै औ बखानै बात रावरी ।
 काल रही नैनन को पूतरी जो बाल आज
 एरे निरदयी तेरे देखे बिना बावरी ॥ १ ॥

इत उत दौरी फिरै हूँसैं रोवैं थिरैं नाँहि
 अनु - छन दीवो करै बन बन भाँवरी ।
 इक टक लावैं जो-पयोद लखि पावैं कहूँ
 भिरहिँ तमाल हूँ बिलोकि छबि साँवरी ।
 ‘हरिऔध’ उघरी ही रहैं लाज हूँ ना बहैं
 पलकन हूँ ना चहैं धीते हूँ विभावरो ।
 प्यारी वह सूरत तिहारी अहो प्रान-नाथ
 अँखियाँ हमारी भई देखे बिना बावरी ॥ २ ॥

सवैया—

बातैं बियोग-बिथा सों भरी अरी बावरी जानैं कहा बनबासी ।
 पीर हूँ नारिन के उर को ना पछानत ए तरु-तीर - निवासो ।
 सोभा, स्वरूप, मनोहरता ‘हरिऔध’ सी यामैं न है छबि खासी ।
 बाल तमाल सों धाइ कहा तू रहा लमटाइ लवंग-लता सो ॥३॥

दोहा—

बनति कमलिनी राति की बिगत-निप्ता ससि जोति ।
 भये रावरी - छबि सुरति बाल बावरी होति ॥ ४ ॥
 रोअत हँसत लरत भिरत ललकत लहत न चैन ।
 बिना रावरे - मुख लखे भये वावरे नैन ॥ ५ ॥

८—व्याधि

वियोग-व्यथा-जनित शरीरकृशता, पांडुता आदि अस्वास्थ्य को व्याधि कहते हैं।

‘हरिऔध’ काहू को कही न उर आनै
 रूख पात हूँ सो पूछै औ वखानै बात रावरी ।
 काल रही नैनन को पुतरी जो बाल आज
 एरे निरदयी तेरे देखे बिना बावरी ॥ १ ॥

इत उत दौरी फिरै हँसैं रोवैं थिरै नाँहि
 अनु - छन दीबो करै बन बन भाँवरी ।
 इक टक लावैं जो-पयोद लखि पावैं कहुँ
 भिरहिँ तमाल हूँ बिलोकि छवि साँवरी ।
 ‘हरिऔध’ उधरी ही रहैं लाज हूँ ना बहैं
 पलकन हूँ ना चहैं बीते हूँ बिभावरी ।
 प्यारी वह सूरत तिहारी अहो प्रान-नाथ
 अँखियाँ हमारो भई देखे बिना बावरी ॥ २ ॥

सवैया—

‘बातैं बियोग-विथा सों भरी अरी बावरी जानै कहा बनबासी ।
 पीर हूँ नारिन के उर को ना पछानत ए तरु-तीर - निवासी ।
 सोभा, स्वरूप, मनोहरता ‘हरिऔध’ सी यामैं न है छवि खासी ।
 बाल तमाल सो धाइ कहा तू रहा लरटाइ लवंग-लता सो ॥३॥

दोहा—

बनति कमलिनी राति की विगत-निता सति जोति ।
 भये रावरी - छवि सुरति वाल बावरी होति ॥ ४ ॥
 रोअत हँसत लरत भिरत ललकन लहत न चैन ।
 बिना रावरे - मुख लखे भये वावरे नैन ॥ ५ ॥

८-व्याधि

वियोग व्यथा-जनित शरीरकृशता, पांडुता आदि अस्वास्थ्य को व्याधि कहते हैं ।

कवित्त—

भावत न भौन भार भये अंग - भूखन हैं
 सेज सतराति ना सुहाति मंजु-सारी है ।
 चाँदनी दहति है अँगारे वरसत चंद
 चारु-भूत कंजन की चारुता न प्यारी है ।
 'हरिऔध' बिना सुख-साध आधि-व्याधि भई
 पावक ते पूरित-प्रसूनन की क्यारी है ।
 फूँकि फूँकि देत है बसंत बजमारो मोहिं
 कूकि कूकि कोकिला हूँ हनति कटारी है ॥ १ ॥

सवैया—

लोनी-लवंग - लता लहराइ बिलोचन मेरे नहीं ललचावत ।
 कोमल-मंजुल-पादप के दल हैं न अलौकिकता दिखरावत ।
 कौन सो रोग भयो बिछुरे पिय भोग नहीं जिय को बेलमावत ।
 हैं फल भावत ना मन - भावने हैं न लुभावने फूल लुभावत ॥ २ ॥

दोहा—

है बिलास की आस नहिं पास रह्यो सुख कौन ।
 मोहिं अभावन - मय कियो मन - भावन तजि भौन ॥ ३ ॥
 छन छन छीजत जात तन छत्रि-बिहीन भो भौन ।
 मो छतिया मैं हूँ गयो पति बिछुरत छत कौन ॥ ४ ॥

बरवा—

सूखत याहि अनेसवाँ यह तन हाय ।
 पिय सों कहत सनेसवा कोउ न जाय ॥ ५ ॥
 छुवतहिं सखिन अँगुरिया जरि बरि जाहिं ।
 घघकति बिरह - अगिनिया अंगन माँहि ॥ ६ ॥

दाहत देह दुलहिया बिरह - अँगार ।
सीतल होत न अखियन की जलधार ॥ ७ ॥

६-जड़ता

अंगों तथा मन के चेष्टाशून्य होने और इन्द्रियों की गति के अवरोध को जड़ता कहते हैं ।

उदाहरण

कवित्त—

पतिया छुये हो काहे छतिया छिलन लागी
गात छोरि गई क्यो छबोली-छवि छलकै ।
क्यों है छरि गई क्योँ छलावा मैं परी लखाति
छूटे केस, क्योँ है छटा-हीन मंजु अलकै ।
'हरिऔध' कहा भयो कौन सी वही है वायु
काहे लोप भई लोक लोभनीय-ललकै ।
बोलि बोलि के हूँ काहे सकति न वोलि बाल
खोलि खोलि के हूँ काहेँ खोलति न पलकै ॥ १ ॥

सवैया—

चंपक की लता चारु रही नहि क्योँ कुँभिलात है बेलि चमेली ।
काहेँ भई चकि कै जकि कै छकि कै छन मे नव वाल दुहेली ।
ए "हरिऔध" विलोकतही पतिया क्योँ भई तिय को तलबेली ।
काहेँ न खोलति है अखियान के वोलाति काहेँ नही अलबेली ॥ २ ॥

दोहा—

पर की कही नहीं सुनत अपनी कहति न बात ।
तिय है पाहन ह्वे गई कियौँ भयो पवि-पात ॥ ३ ॥

हिलत डुलत बोलत नहीं खोले खुलत न नैन ।
कहा भयो पतिया पढ़त धरकति छतिया है न ॥ ४ ॥

१०-मूर्छा

वियोग-दशा मे शरीर के दुःख-सुख का ज्ञान न रहने का नाम मूर्छा है ।

उदाहरण

कवित्त—

जो चित चिता की भाँति चिनगी लगावै चेति
वाते तो अचितिन अचित उपकारी है ।
जो उर नरक नाना-यातना-निकेतन है
वाको अनुरागिनी धरा मैं कौन नारी है ।
'हरिऔध' बिधि के बिधान ते कहा है बस
या ही ते बतावति वियोग-व्यथा-वारी है ।
मीनता मलीन-मीन-केतनता ते है मंजु
चेतना ते चौगुनी अचेतनता प्यारी है ॥ १ ॥

सवैया—

होत है ज्ञान कबौं हित कौ नहिं, गॉठ कबौं हित की जुरि जाति है ।
मोह-मयो कबहूँ दिखराति कबौं सब मोहन ते मुरि जाति है ।
प्रीति कबौं छलको सो परै कबौं दीरघ-लोग्यन मैं दुरि जाति है ।
है सियराति अचेत भये तिय चेतत चाँदनी मैं चुरि जाति है ॥२॥

दोहा—

दहो तिया पतिया पढ़त रही देह-सुधि नाँहिं ।
पकरि उर छिलत आपनो मुरछि परी महि माँहिं ॥३॥
कित ते इत आई अरी मंद मंद करि गौन ।
मुरछित है छिति पर परी अहै परी यह कौन ॥४॥

११—मरण

प्राण-परित्याग का नाम मरण है, वियोगावस्था में चरम नैराश्य की गणना मरण दशा में की जाती है ।

उदाहरण

कवित्त—

परलोक हूँ मैं पन पूरो होत काहु को तो
 उर को प्रतीति प्राणप्यारे की बनो रहै
 अहित भये हूँ मेरे प्राते-रोम-कूपन मैं
 'हरिऔध' प्यारे ही के हित की ठनी रहै ;
 हौं तो हौं मरत पै मिलत जो मुचे हूँ कबू
 तो हौं चहौं प्रेम ही को वाहुनी छनी रहै ।
 लगी रहै लोयन कौ ललक प्रिलोकन की
 मुख-अवलोकन की लालसा बना रहै ॥१॥

हैं हैं दुखी अस्वियों हमारी तुमैं देखे विनः
 आग हूँ वरैगे बार बार मेरे उर मैं ;
 तेरे कल-बैन विना कान हूँ न पैहै कल
 नीरसता छैहै किन्नरीन हूँ के सुर मैं ;
 अधर तिहारो पान कीने विना 'हरिऔध'
 मावुरी न रहि जैहै सुधा से मधुर मैं ;
 तेरे विना एरे प्राण-प्यारे ए हमारे-प्राण
 पाइहैं प्रजोद नः पुरंदर के पुर मैं ॥२॥

सवैया—

काल कराल करालता मैं परि छानी छिनीसन हूँ की छिली है ;
 रैहूँ नही अमराधिप से अमरावति हूँ कबौं जाति गिली है ।
 ए 'हरिऔध' दली जो गई नहिं ऐसी कहाँ कोऊ बेलि खिली है ।
 जैहै सुधानिधि हूँ कवहूँ मरि काहि सुधा दसुधा मैं मिली है ॥३॥

दोहा—

अंत-समय अनुराग - मय पिय आवहिँ जो भौन ।
 तो मम - जीवन - सम सफल जीवन है जग कौन ॥ ४ ॥
 मग जोहत लोचन थके अब रहि जात न मौन ।
 जिअत मिलहु जो मिलि सकहु मुये मिलत है कौन ॥ ५ ॥
 तुम आये नहिँ देह तजि पौन करत है गौन ।
 मम - प्यासी अखियान को प्यास बुझै है कौन ॥ ६ ॥
 जिअन लालसा है नहीं सुनहु रसिक - सिर - मौर ।
 अधर - सुधारस - लालची चाहत सुधा न और ॥ ७ ॥
 मरत पै चहत मानियहु मेरी इतनी बात ।
 मम - तन - रज पै पिय कबहुँ रखियहु पग-जल जात ॥ ८ ॥

करुण रस

स्थायी भाव-शोक

देवता-यमराज

वर्ण-कपोतचित्रित

आलंबन

प्रिय बंधु, समाज, देश की अपार हानि, स्वजनवृद्ध का मरण, शोचनीय व्यक्ति, दुःख-दग्ध प्राणिसमूह आदि !

उद्दीप्त

दाह कर्म, प्राणिसमूह की विविध यातना, शोचनीय अथवा दुःख-जनक दशा का दर्शन, समाज और देश-पतन का निरीक्षण आदि ;

अनुभाव

भूमि-पतन, रोदन, भाग्यनिदा, दुःखप्रदर्शन, विवर्णता, उच्छ्वास, निःश्वास, स्तंभ, प्रलाप आदि ।

संचारी भाव

निर्वेद, मोह, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता, उन्माद, चिंता आदि ।

विशेष

इष्ट के नाश और अनिष्ट की परिपुष्टता अथवा आविर्भाव से इस रस की उत्पत्ति होती है । किसी किसी ने वरुण को इस रस का देवता मना है ।

उदाहरण

दिनों का फेर

कवित्त—

रमा - कमनीय - कर - लालित रहे जे लोक
 तिनके अमोल - लाल अन्न को ललात हैं ।
 सुंदर सँवारे जाके सुर से सदन हुते
 धरा परे ताके नैन - तारे दिखरात हैं ।
 'हरिऔध' फूटे भाग भुवनाभिरामन के
 भोरे - भोरे - तात भूमि-भार भये जात हैं ।
 जाको बल-बिभव विलोकि लोक - पाल भूले
 ताके कुल - वालक बलूले लौं विलात हैं ॥ १ ॥

पल पल पैहै आज तिनको पतन होत
 देव - विभवों ते भौन जिनके भरे रहे ।
 ताको तात पलत चबाइ तरु - पातन को
 परे जो सदैव कल्प - पादप तरे रहे ।
 'हरिऔध' तेई अंशकूप पाहुने हैं बने
 भूप है स - भीत द्वारे जिनके खरे रहे ।
 ताको देखि आसन तजत ना गवासन हूँ
 सासन ते जाके पाकसासन डरे रहे ॥ २ ॥

धन के कुबेर गये बीते हैं बराक हूँ ते
 सूखि सूखि सुर-तरु बने हैं तुच्छ तिनके ।
 साज - बाज जिनको धराधिप ते दूनो हुतो
 तिनके गिरों हैं रोम रोम पास रिन के ।

‘हरिऔध’ तेज - हीन तारे हैं तरनि बने
 एक से रहे हैं मेदिनी में दिन किनके ।
 तने बिने तिनके निवास हैं तरुन तरे
 सोने के सदन हे सुमेर जैसे जिनके ॥ ३ ॥

कलित - कपाल अहैं कालिमा - बलित होत
 सूखे जान कोमल कमल से बदन हैं ।
 लालसा - लसित उर मैं है सूल सालि जाति
 कसक - प्रतोद मंजु - मोद के कदन हैं ।
 ‘हरिऔध’ लोचन हमारे अजहूँ ना खुले
 भये बिकराल कूर - काल के रदन हैं ।
 रतन - समूह भरे सौध बिनसे है जात
 सूने परे जात सजे सोने के सदन हैं ॥ ४ ॥

बसुधा मैं बंदनीय ज्ञान को बिकास भयो
 जाके बेद - गान की मधुर - ध्वनि गूँजे ते ।
 ताके बंश - जात मूढ़ता के तम ते हैं धिरे
 मान हैं रखत माँगि माँगि मान दूजे ते ।
 ‘हरिऔध’ जाकी भूत-भावना बिभूति हुती
 सोई है अपूत, भाव - पूत - उर भूँजे ते ।
 आज पेट - पूजा ताकी पूजनीय - पूँजा भई
 पूजनीय पूजे गये जाके पग पूजे ते ॥ ५ ॥

करुण कथा

कवित्त—

कैसे भला चौगुनो न चित - चैन चूर होतो
 क्यों न चंद बदन त्रिपुल होतो पियरो ।

कैसे रोम रोम मैं समायो दुख ऊन होतो
 कैसे होतो कलुक दहत - गात सियरो ।
 'हरिऔध' विधवा-विलाप जो करत नाँहि
 कैसे भला बावरो बनत तो न जियरो ।
 कैसे पिक-कूकते करेजो ना मसकि जात
 हूक ते न कैसे टूक टूक होतो हियरो ॥ १ ॥

कब लौं निबाह होतो वेदना - बहन करि
 कौ लौं करि केते ब्योत काया काँहि कसती ।
 व्रत-उपवास कै वितावति दिवस कौ लौं
 कब लौं बचावति विवेचना विनसती ।
 'हरिऔध' बार बार त्रिपुल - बेहाल बनि
 कैसे बाल - विधवा बसुधरा मैं बसती ।
 मन को मसोस जो न कढ़तो उसास - मिस
 उर की कसक जो न आसू है निकसती ॥ २ ॥

रूप होते जाको है कुरूपता - कुरोग लगे
 कबौं जो कलंक - अंक ते न उबरति है ।
 बारि - धर जाको तन दहत बरसि बारि
 जाकी मति मधु - रिनु - माधुरी छरति है ।
 'हरिऔध' ऐसी बाल-विधवा अभागिनी है
 जाको दुख अनुरागिनी हूँ ना दरति है ।
 चाँदनी चमकि जाके चित को हरति चेत
 जाको चैन चूर चद - चारुता करति है ॥ ३ ॥

ससुर को सुर जाके सुर सों मिलत नाँहि
 जाकी जर सासु है बिसासिनी खनति है ।

देवर के तेवर हैं जाको बेधि - बेधि देत
 औगुन - गनन जाके ननद गनति है ।
 'हरिऔध' कैसे होवै बिधवा व्यथित नॉहिं
 जाको जाति नाना यातना हित जनति है ।
 जाकी पति पिता - सम पाता हूँ रखत नॉहिं
 जाके हित माता हूँ विमाता सी बनति है ॥ ४ ॥

सवैया—

नागिनि-सी भई फूल की सेज द्वागिनि-सी उर माँहिं बरी है ।
 मंजु कला-कर काल भयो बिधवा - सुख - साज पै गाज परी है ।
 सो बिधि क्यों न भई जरि छार अहो 'हरिऔध' जो दाह भरी है ।
 काहें भई छतिया छत - पूरित काहें छरी गई फूल - छरी है ॥५॥

जाको छबीलो उछाह भरो छलिया - बिधि के छलछंद ते छूट्यो ।
 जाको सु-जीवन मंजु-हरा भव-कंटक काल के हाथ ते टूट्यो ।
 ए 'हरिऔध' सुहागिन होत ही जाको सुहाग अभाग ने लूट्यो ।
 वा सम कौन अभागिनि जाको भये बड़ भागिनि भाग है फूट्यो ॥६॥

कारुणिकता

कवित्त—

जाकी कुसुमावलि - कलित चितचोर हुती
 सोई भूरि - धूरि - भरो भूतल पै परो है ।
 जाको फल चाखि रही रसना सरस बनी
 पात बिनु नीरस हूँ ताको गात गरो है ।
 एहो 'हरिऔध' जो अवनि-अंक लाल हुतो
 सोई आज काल को कवल बनि अरो है ।

ताप-जरो जीव जाते सुखित - खरो है भयो
सोई हरो भरो तरु सूखो, सरो, मरो है ॥ १ ॥

सवैया—

नीले बितान मैं हैं न लसे अब हैं न बसे तम मैं बनि न्यारे ।
हैं रजनी के न अंक बिभूखन हैं न बिलोचन - रंजन - हारे ।
ए 'हरिऔध' न हीरक से अब है बिलसे बर - जोति - बगारे ।
तेज - बिहीन है धूरि - भरे महि मैं हैं परे बिखरे नभ - तारे ॥२॥

पर्म-व्यथा

कवित्त—

आवत है दूर ते बिमोहित बिपुल बनि
भावतो न मानतो अभाव को तो हरतो ।
तन - मन - वारि भूरि - भावरैं भरत हेरि
रोझ जो न जातो भले - भाव ते तो भरतो ।
'हरिऔध' कहै एरे दीप तू दिपे है कहा
* लोक ते नहीं, तो परलोक ते तो डरतो ।
देह क्यों दहत है पतंग जैसे प्रेमिक को
नेह भरो है कै क्यों सनेह है न करतो ॥ १ ॥

सवैया—

चंद चक्रोर को चाहै नहीं पै चक्रोर है चंद को चाहि निहारत ।
नीर कबौं नहिं मानत मीन कौ मीन है नीर ते जीवन धारत ।
ए 'हरिऔध' अनेही कबौं नहिं नेह कै नेहिन काहिं निहारत ।
है न पयोद पपीहरा प्रेमिक प्राण पपीहा पयोद पै वारत ॥२॥

लोचन-विहीनता

कवित्त—

जाति - दयनीय - दसा देखि दुख होत नॉहिं
 लोच - भरी - बात पै रहत ललचाये हैं ।
 हित को अहित औ अहित को कॅहॅहिं हित
 पेच - पाच - वारे पेच पाच पै लुभाये हैं ।
 'हरिऔध' भूल ही पै भूल हैं करत जात
 अजहूँ लिलार - लेख को न भूल पाये हैं ।
 कोरे वनि करहिं निहोरे करजोरे रहैं
 भोरे-भोरे-भाव भोरे - हिदुन को भाये हैं ॥१॥

जगत मैं जाकी जगमगत सु - जोत रही
 वाकी जाति - वारे नॉहिं जागत जगाये हैं ।
 तेज - हीन भये जात तात तेज - वारन के
 जीवन - विहीन जग - जीवन के जाये हैं ।
 'हरिऔध' आज तिल ताल तिनहूँ को भयो
 कवहूँ तिलोक के जे तिलक कहाये हैं ।
 भरत के पूत हूँ उभारे उभरत नॉहिं
 भारतीय भोरे - भोरे भाव पै लुभाये हैं ॥२॥

तंत कै कै हिदुन को अंत जो न दैहैं करि
 कैसे तो दिगंत मॉहिं कीरति बितरिहैं ।
 कैसे भारतीयता - विभव को बिकास कैहैं
 भूति जो न भरत - कुमारन की हरिहैं ।
 'हरिऔध' देस प्रेमपाग मैं पगौंगे किमि
 जो न जाति-लालसा लहू सो हाथ भरिहैं ।

कैसे कुल-कमल कहाइहैं कमाल करि
कुल को कलंक ते कलंकी जो न करिहैं ॥ ३ ॥

सवैया—

केते कलंक भयों के भये बलि केते गये गरिमा ते गिले हैं ।
ऐसे धरा मैं अनेक धँसे जिनके मुख-पंकज हूँ न खिले हैं ।
छीजि गये अजौं छीजत जात तऊ हिय पाहन से न हिले हैं ।
धूर पै फूल-से-बाल मरे बहु धूल मैं लाखन लाल मिले हैं ॥४॥

विनय

सवैया—

औगुन के ही रहे बन औगुनी नाँहि गुनी गुन की गरुआई ।
औरन पेरी भई पुलकावलि जानि परी नहिँ पीर पराई ।
आकुल भो 'हरिऔध' कहाँ अवलोकत ही जनता अकुजाई ।
देखि भरी दुखिया-अखियान का है न कत्रौं अँखिया भर आई ॥१॥

आँखि-बिहीन हौं आँखिन आछत नाथ कबौं अँखिया मत फेरो ।
मो मति पंगु भई है, मया करो अंध औ पंगु को पंथ निबेरो ।
है 'हरिऔध' तिहारो न और को जैहै कहाँ तजि कै पग तेरो ।
मो करनीन ते काज कहाँ करुना करिकै करुनाकर हेरो ॥२॥

विपत्ति-वासर

दोहा—

जल सूखे, असरस भयो, सरसिज नाँहि लखाहि ।
कैसे विसर न जाँय खग ऐसे सरवर काँहि ॥ १ ॥
दूर भई सब मंजुता ताकत नाँहि मिलिद ।
अवनीतल पै है परो धूरि भरो अरबिंद ॥ २ ॥

मिलंत नहीं फल फूल दल रही न छाया आस ।
 कैसे आवैं खग सकल सूखे - तरु - वर - पास ॥ ३ ॥
 ऋरि सूखे रज मैं मिले भये काल प्रतिकूल ।
 न्यारी लाली रखत हे लाल लाल जे फूल ॥ ४ ॥
 जिन मैं तरु - वर लहलहे रहे महा - छवि देत ।
 हैं सजरे सूखे परे हरे भरे ते खेत ॥ ५ ॥

मनोव्यथा

दोहा—

कब तोको निरखत नहीं पपिहा प्रीति - समेत ।
 घन तू पाहनता करत जो पाहन हनि देत ॥ १ ॥
 कत चमकावत बारि - धर चपला - मिस तरवारि ।
 चाहत केवल बूँद द्वै चातक चोंच पसारि ॥ २ ॥
 आजु कालि मैं लेहु सुधि मरत जिआवहु पालि ।
 घन तब जल वरसे कहा सूखि गयो जब सालि ॥ ३ ॥
 हरो भरो मरु नहि भयो बुभी न चातक - प्यास ।
 घन तो वरसत वारि कत जो जरि गयो जवास ॥ ४ ॥

अकरुण चित्त

दोहा—

कोऊ चितवत चित्त दै कब चाहक की ओर ।
 अछत चारु कर चंद के चिनगी चुगत चकोर ॥ १ ॥
 कहा नेह करि कीजिये भलो न नेही संग ।
 दीपक के देखत दहत अपनो गात पतंग ॥ २ ॥
 कैसे तानत बान तू छोड़ि मनोहर तान ।
 रंग रखत कैसे बधिक हरि कुरंग को प्रान ॥ ३ ॥

जो जानत जन तोरिहैं लखि सुखमा - सुखमूल ।
 तो काहे को फूलतो कबहूँ कोऊ फूल ॥ ४ ॥
 कहा मनोहरता मिले पाये सरस - सुबास ।
 मधुप न मोहत तो कहा सुदर - सुमन - विकास ॥ ५ ॥

बेचारे बिहंग

दोहा—

बसत बिपिन मैं खात फल पिअत सरित - सर - नीर ।
 तिन बिहगन कहँ बेधही मारि बधिक - गन तीर ॥ १ ॥
 काहे बिधि सुंदर कियो दियो सुहावन - रंग ।
 बधिक - बान बेधत रहत जो बिहंग को अंग ॥ २ ॥
 तीखे बानन ते बिधत कुसुम - मनोहर - अंग ।
 चित्रित पर लै का करै ए बापुरे बिहंग ॥ ३ ॥
 बसुधा मैं बेधत बधिक गहत गगन मैं बाज ।
 कहाँ जाय बिहरै बसै बेवस बिहग - ममाज ॥ ४ ॥

अंतर्वदना

दोहा—

जाते आलोकित बनै तिमिर - भरे सब ओक ।
 कबहूँ फिर अबलोकिहै भारत वह आलोक ॥ १ ॥
 गई आँखि हूँ जाहि लहि जोहन - वारी होति ।
 कहा कबौँ फिर जागिहै जाति माँहि सोइ जोति ॥ २ ॥
 जाते बहु - विकसित बनत जनजन, पूजे आस ।
 का कबहूँ हैहै न फिर वैसो सरस - विकास ॥ ३ ॥

अद्भुत

स्वायो भाव—विस्मय अथवा आश्चर्य

देवता - ब्रह्मा

वर्ण - पीत

आलंबन

ग्रन्थैकिक वस्तु असंभवित-व्यापार लोकोत्तर-कार्यकलाप विचित्र दृश्य आदि ।

उद्दोषन

लोक-चकितकर-कार्य-कलाप, वस्तु और व्यापारों का दर्शन, गुण-श्रवण, महिमा-निरूपण, वैचित्र्य-अत्रलोकन आदि ।

अनुभाव

स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, गद्गद स्वर, सभ्रम, नेत्रविकास आदि ।

संचारी भाव

वितर्क, आवेग, भ्रांति, हर्ष, औत्सुक्य, चाचल्य आदि ।

विशेष

किसी किसी ने इम रस का देवता गधर्व माना है ।

रहस्यवाद

धनहरण

कवित्त—

छवि के निकेतन अछूते - छिति - छोर मॉहिं
 काकी छवि - पुंजता छगूनी - छलकति है ।
 बन उपवन को ललामता ललाम है है
 काकी लखि ललित - लुनाई ललकति है ।
 'हरिऔध' काको हेरि पादप हरे हैं होत
 कुसुमालि काको अबलोकि पुलकति है ।
 कौन बतरै है बेलि मॉहिं काकी केलि होति
 कली कली मॉहिं काकी कला किलकति है ॥ १ ॥

मंद मंद सोतल - सुगंधित - समीर चलि
 कत प्राणि - पुंज को पुलकि परसत है ।
 भूरि - अनुराग - भरी ऊषा को कलित अक
 कत प्रति - बार है सराग सरसत है ।
 'हरिऔध' अंत ना मिलत इन तंतन को
 कत है सुहावनो दिगंत दरसत है ।
 काकी सुधा - धार ते सुधाकर सरस बनि
 सारी - बसुधा पै न्यारी - सुधा बरसत है ॥ २ ॥

लहलहे काको लहे - उलहे - बिटप होत
 कासों हिले लतिका ललाम है है हिलती ।
 काके गौरवों ते गौरवित है लसत गिरि
 धन - रासि धरा काके बल सों उगिलती ।
 'हरिऔध' होतो 'लोक मैं न लोक-नायक तो
 कलिका कुसुम की बिलोकि काको खिलनी ।

दमकं दिखाति काकी दमकति - दामिनी में
चाँदनी में चंद्र में चमक काकी मिलती ॥ ३ ॥

एक तिनके ते है अनंतता बिदित होति
पथ - रज - कन हूँ कहत 'नेति' हारे हैं ।
सत्ता की महत्ता पत्ता पत्ता है बताये देति
काल की इयत्ता गुने लोमस, विचारे हैं ।
'हरिऔध' अनुभूति - रहित विभूति अहै
विभव-पयोधि-बारि-विदु लोक सारे हैं ।
भव - तन मैं हैं भूरि भूरि रवि सोम भरे
बिभुरोम रोम मैं करोरोँ व्योम-तारे हैं ॥ ४ ॥

देहिन को सुखित सनेहिन - समान करि
पंखे अति - मंजुल - पवन के हिलत हैं ।
चंद्र के मनोरम - करनते अवनि काज
चाँदनी के सुंदर बिछावने सिलत हैं ।
'हरिऔध' कौन कहै काके अनुकूल भये
सीपन मैं मोती मनभावने मिलत हैं ।
कीच माँहि अमल - कमल बिकसित होत
धूल माँहि सुमन - सुहावने खिलत हैं ॥ ५ ॥

काल - अनुकूल कैसे कारज - सकल होत
पिक कूके कैसे सारो ककुभ उमहतो ।
बिकसित कैसे होति कला कुमुमायुष की
कैसे लहराति लता पादप उलहतो ।
'हरिऔध' हेतु-भूत सत्ता जो न कोऊ होति
कुसुम - समूह कुसुमाकर क्यों लहतो ।

बैहर क्यो डोलति बहन कै मरंद भार
मलय - समीर मंद मंद कैसे वहतो ॥ ६ ॥

फूल खिले देखे कै बिलोके हरे - भरे - तरु
भूलि निज - भाव ललचाई ललकै थीकी ।
जा थल दिखातो लोक-लोचन छबीलो लाल
औरै छवि देख वाँ उमंग - छलकै छकीं ।
'हरिऔध' उत भव - हित मैं लुकत हरि
इत सुख-मुख जोहि जोग - जुगते जकी ।
कित हैं लसे न विलसे न दृग सौहैं कबौ
आँखि मैं बसे हूँ ना बिलोकि आँखियाँ सकीं ॥ ७ ॥

वसि घर बार मैं विसारे घर वारिन को
घरी घरी वचि घेर घारन के घेरे ते ।
तम मैं उँजारो किये उर को उँजारो लहि
देखे जग - जीवन के जीवन को नेरे ते ।
'हरिऔध' कहै भेद खुलत अभेद को है
सारे - फेर - फारन ते मानस को फेरे ते ।
कानन के कानन की बातन को कान करि
आँखिन की आँखिन को आँखि मॉहि हेरे ते ॥ ८ ॥

नैश गगन

कवित्त—

आलोकित उजरे सुनहरे सुहावने हैं
कारे पीरे नीले हरे भूरे रतनारे हैं ।
नयन - विमोहन विचित्रता - निकेतन हैं
विधि - कमनीय - कंज - कर के सँवारे हैं ।

‘हरिऔध’ बिभु-बिभुता के हैं अनंत ओक
 लोक - अनुरंजन के सहज सहारे हैं ।
 तेज-तोय-निधि के बबूले - चमकीले चारु
 व्योम-न्तरु - तोम के फबीले - फूल तारे है ॥ १ ॥

प्रकृति - असीमता- अनतता के अंकुर हैं
 आकर हैं अमित - प्रभाकर के थल के ।
 बिपुल - अलौकिकता - ललित- निकेतन हैं
 केतन हैं लौकिक - ललामता महल के ।
 ‘हरिऔध’ बिभु की बिभूति ते बिभूति-मान
 वैभव हैं मूल - भूत साधन सकल के ।
 दिवि के दुलारे लोक-प्यारे तेज-पुंज - वारे
 सुथरे - सँवारे सारे - तारे नभतल के ॥ २ ॥

कोटि कोटि कोस को है अंतर सितारन मैं
 लाख लाख कोस माँहिं काया निवसी अहै ।
 अवलोके गये नाँहिं अजहूँ कई करोर
 मति अजौँ कोटिन की थिति मैं फँसी अहै ।
 ‘हरिऔध’ गिने नाना - तारन - कतारन के
 अरब खरब की विवृति बिनसी अहै ।
 तारे हैं अनंत या अनंत-नभ मंडल मैं
 एक एक तारे मैं अनंतता बसी अहै ॥ ३ ॥

कोटि-कोटि-तारे भिन्न भिन्न रंग-रूप-वारे
 बिपुल बगारे जोति बगरे अरे अहैं ।
 कोटि कोटि छन छन छीजत बनत जात
 जगत - जवाहिर से कोटिन जरे अहैं ।

‘हरिऔध’ कोटि कोटि दिवि दिवि-पति देव
 कोटि कोटि धाता पाता अंक मैं परे अहैं ।
 सारे - बिभा-वारे के समूह का सहारे दै दै
 भारे - भारे - भूरि-भानु नभ मैं भरे अहैं ॥ ४ ॥

किधौं हैं अनंत मैं अनंत-वायु - यान उड़े
 प्रकृति - बधू के किधौं लोचन के तारे हैं ।
 नंदन - बिपिन तरु के हैं किधौं दिव्य-फल
 किधौं कल्प - पादप प्रसून - पुंज प्यारे हैं ।
 ‘हरिऔध’ किधौं हैं बिमान दिवि देवन के
 उड़हि पतंग कै पतगम ए सारे हैं ।
 रतन पसारे हैं कि पारे के सँवारे - पिंड
 अनल - अंगारे किधौं न्यारे - नभ-तारे हैं ॥ ५ ॥

सागर, सरित, सर, बन, उपवन, मेरु,
 धन, जन, बिपुल बहन कै अभै से हैं ।
 पल पल भ्रमत रहहि बिकसहि भूरि
 दिव्यता - निकेतन बतावैं किमि कैसे हैं ।
 ‘हरिऔध’ लाख लाख कोस को कलेवर है
 तारक - बिमान मंजु आप आप - जैसे हैं ।
 बड़े - बेग - वान छवि-मान तेज के निधान
 आन नभयान, ना जहान माँहिं ऐसे हैं ॥ ६ ॥

किधौं नील - अंबर मैं सलमा, सितारे टँके
 किधौं नभ अंक मैं अनंत जोति जाल हैं ।
 स्यामल चँदोवे के किधौं हैं चमकोले बिंदु
 किधौं मान - सर मैं कलोलत मराल हैं ।

‘हरिऔध’ किधौं ताल मॉहिं हँ कमल फूले
 किधौं तम - तोम मॉहिं बरत मसाल हँ ।
 तारक कै निसि-कंठ - माल के मुकुत - मंजु
 खेलत कै दिदि मैं दुलारे देव - बाल हँ ॥ ७ ॥

हीरक लुभात हेरि सेतता सितारन की
 वारति ललाई लाल - तारन पै गुंजता ।
 तारक - अवलि अवलोकि मोहि मोहि जाति
 नंदन - विपिन कुसुमों की कल - कुंजता ।
 ‘हरिऔध’ मंजुता कथन मैं कला कर की
 मानव चकित होत हेरि मति - लुंजता ।
 छहरि छहरि छके - नैनन को छोरे लेति
 तारों-भरी राति की अछूती - छवि-पुंजता ॥ ८ ॥

कतहूँ प्रकृति की अछूती - छटा छहरति
 कहूँ देव - बाला मंजु - मंडली हँसति है ।
 कतहूँ दिखाति है कतार तारकावलि की
 कहूँ जगी-जोति सुधा - धारा मैं धँसति है ।
 ‘हरिऔध’ ताकी अलौकिकता बतावै कौन
 जाँमैं सारी-कांति कांति-कांत की बसति है ।
 बहु - रवि-ससि ते ललित ओक ओक अहै
 नभ मैं ललामता त्रिलोक की लसति है ॥ ९ ॥

विचित्र चित्र

कवित्त—

दिवि है अदिवि उन देव हूँ अदेव अहँ
 वाकी न्यारी - जोति अहै जगत जहाँ नहीं ।

वाको तेज जित को हरत तम - तोम नाँहि
 तेज वितरत है तरनि हूँ तहाँ नहीं ।
 'हरिऔध' जहाँ पै न रस सरसत वाको
 सरस मिलत सरि सर हूँ वहाँ नहीं ।
 तीनो लोक माँहि रंग रंग की कलायें करि
 मन की तरंग है तरंगित कहाँ नहीं ॥ १ ॥

मरो जन हेरत न भुवन - विभूति काँहि
 जोहत न भानु जोति भव मैं पसारे है ।
 सूँघत न सुनत न गहत कहत कछु
 काठ - सम रहत विचारन ते न्यारे है ।
 'हरिऔध' नाँहि अनुभवत परस पौन
 सारी - अनुभूतिन ते रहत किनारे है ।
 जीवन - बिहीन - जन को न जग - भान होत
 जगत की सत्ता जीव - जोवन सहारे है ॥ २ ॥

कहूँ तरु हिलत लसति तृन - राजि कहूँ
 कुसुम खिलत कहूँ बेलि उलहति है ।
 नाचत मयूर कहूँ गान है करत भुंग
 कलित कथान कहूँ सारिका कहति है ।
 'हरिऔध' कतहूँ कलोलत हैं मृग - यूथ
 प्रकृति - बधूटी कहूँ नटति रहति है ।
 कहूँ रंग रंग के कमल सो लसे हैं सर
 कतहूँ तरंग - वती सरिता बहति है ॥ ३ ॥

कहूँ रस - धारा कहूँ वहति रुधिर - धारा
 कोऊ कुम्हिलात कोऊ कंज लौं खिलत है ।

कहूँ हैं मसान कहूँ सरग बिराजमान
 कोऊ बिहँसत कोऊ वेत लौ हिलत है ।
 'हरिऔध' बिधि - करतूति बहु - रंगिनी है
 कहूँ राग - रंग कहूँ हियरा छिलत है ।
 कतहूँ अराजक, है राजत स्वराज कहूँ
 कोऊ राज लेत कोऊ रज मैं मिलत है ॥ ४ ॥

आगि लागि जाति है जवासन के तन माँहि
 बिदहत अरक - दलन अवलोके हैं ।
 पी पी कहि बारि पी न सकत पपीहरा है
 पवि के प्रहार हूँ रुकत नाँहि रोके हैं ।
 'हरिऔध' पावस मैं निसि तम-तोम माँहि
 बरत प्रदीप पादपन पै बिलोके हैं ।
 बारिद बहावत सुधा है बसुधातल पै
 बरसत मोती मंजु-मारुत के भोके हैं ॥ ५ ॥

हंस को गयंद औ गयंद हंस होत हेरे
 रंभा के सु - खंभ बारिजों पै गये रोके हैं ।
 चंपक की कलित - कलीन माँहि तारे मिले
 भुजग कलभ - कर माँहि अवलोके हैं ।
 'हरिऔध' मंजुल जपा - दल बनत लाल
 गहब गुलाबन पै मोती गये लोके हैं ।
 कंजन मैं ललित - लुकंजन लसत देखे
 बिधु मैं चपल - युग - खंजन बिलोके हैं ॥ ६ ॥

अनुकूल रहि प्रतिकूलता करहिं नित
 वचन - रसाल कहि खींचि लेत खाल हैं ।

‘छल’ ना करहिँ पै करेजो छीलि छीलि देहिँ
 राखत कपाल बीनि लेत बाल बाल हैं ।
 ‘हरिऔध’ का हैं ए स्वराज-तरु-आलबाल
 सुमन की माल कै भुजंग - विकराल हैं ।
 जाति - हित - ढाल किधौँ हितू कंठ-करवाल
 हिदू - कुल - लाल किधौँ हिदू-कुज-काल हैं ॥ ७ ॥

मंदिर बिलोकि कै पुरंदर सिहाने रहैं
 पास सदा इंदिरा को आसन परो रहै ।
 सारे-लोक पिसेँ पावै कन ना पिपीलिका हूँ
 पै प्रभूत - धन धरा - धिप लौँ धरो रहै ।
 ‘हरिऔध’ चाहत हैं भोरे - भाग वारे यहै
 छूवै ना छदाम द्वारे धनद खरो रहै ।
 भावते अभाव हरि भोला - नाथ भूले रहैं
 भवन सदैव भूरि - बैभव - भरो रहै ॥ ८ ॥

दीहा—

है लौकिकता - रहित हरि परम अलौकिक - चीज ।
 है बारिद - भव - सालि को जगत - ब्रिटप को बीज ॥ ९ ॥
 चित - अलि कत भरमत रहत कहाँ नहीं है वास ।
 बिकसित - कुसुमन मैं अहै काको सरस - बिकास ॥१०॥
 कहाँ नहीं निवसत अहै सकल - लोक - अभिराम ।
 लखन जोग लोयन लखत वाको रूप - ललाम ॥११॥
 आलोकित वाको करै मिल्यो न वह आलोक ।
 लोक छोरि परलोक को कत अवलोकत लोक ॥१२॥
 तीनों लोकन मैं फिरे देखे तीनों काल ।
 कहि पायो परलोक को को अवलोकित - हाल ॥१३॥

हित चाहै पर अहित करि दै दै पूजा भूरि ।
 हरि आँखिन हूँ मैं अधम भोंकन चाहत धूरि ॥१४॥
 का जग है काहें भयो कहा हेतु का काम ।
 कौन बतैहै कौन है या मंदिर को राम ॥१५॥
 बाँधन हित भव - उदधि मैं सत - रज - तम को सेतु ।
 है त्रि - देव की कल्पना एक देव के हेतु ॥१६॥
 प्रेम - पिपासा है बढ़ी चित प्रति - दिन पवि होत ।
 पारावार तरन चाहत रचि पाहन को पोत ॥१७॥
 कैसे अनुरागी बनै है न राग - मय अंग ।
 'लाल' न, कारो चित भयो लहे लाल को रंग ॥१८॥

हास्य

स्थायी भाव—हास

देवता—प्रमथ अर्थात् शिवगण

वर्ण—श्वेत

आलंबन—विकृत आकार, विचित्र वेशभूषा और अनुपयुक्त वचन आदि के आधार ।

उद्दीपन—विचित्र स्वरूप, अव्यवस्थित वेशभूषा व आकार प्रकार, टेढ़े मेढ़े वचन और हृदय में गुदगुदी उत्पन्न करनेवाले अगभगी, भाव आदि ।

अनुभव—नेत्रों का मुकुलित और वदन का विकसित होना, मध्य अथवा ऊँचे स्वर से हँसना, खिलखिलाना आदि ।

संचारीभाव—निद्रा, आलस्य, हर्ष, चपलता आदि ।

विशेष

किसी किसी ने स्थायी भाव हास का छ भेद माना है, यह युक्तिसंगत नहीं । सभी स्थायी भाव वासनारूप हैं, अतएव अतःकरण में उनका स्थान है, शरीर में नहीं । स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित के नाम और लक्षण बतलाते हैं कि उनका निवासस्थान देह है, अतएव ये हसन क्रिया के ही भेद हैं ।

उदाहरण

कांत कल्पना

कवित्त—

कारे कारे अहि ते कपाल परि - पूरित है

अलि की अचलि आली अलक-लुरी की है ।

वरञ्जी बिसारे - बान - बलिन बिलोचन हैं
 अधरहिं लाली मिली बिबता चुरी की है ।
 'हरिऔध' गात में बसत करि केहरि हैं
 कुरुचि ते चूर भई चारुता चुरी की है ।
 कैसी कमनीय - कामिनी की कमनीयता है
 कल्पना मधुर कैसी रूप - माधुरी की है ॥ १ ॥

सवैया—

सॉप से केस भवैं करवार सी हैं अँखियाँ सफरीन सी नाची ।
 सीप से कान, है नासिका कीर सी, बिबता है अधरान में राची ।
 कंबु सो कंठ उरोज हैं मेरु से लंक मृनाल के तंतु सी बाँची ।
 चारुता है कै अचारुता है यह चंद्र - मुखी कियोँ कोऊ पिसाची ॥२॥

परिहास-परायणा

कवित्त—

कामुक - कुजन जो कुजनता के काज कै है
 सहज - मना तो क्यों सहज-साज सजि है ।
 कुरुचि - निकेतन जो बोइ है कुरुचि - बीज
 सुरुचिबती तो क्यों सुरुचिता न तजि है ।
 'हरिऔध' कोऊ असरलता निबाहि है तो
 सरला - परम क्यों सरलता को भजि है ।
 निपट - निलज जो निलजता दिखाइ है तो
 नारी-लाज-वारी कौ लौं लाज कै कै लजि है ॥ १ ॥

सवैया—

सामने होति नहीं अँखियाँ मुँह फेरि सुनावत बैन रसीले ।
 आनन जोहत बासर बीतत मोहिं रिभावत खोजि बसीले ॥
 ए 'हरिऔध' मरोरत भौह नचावत नैनन को करि हीले ।
 कोऊ लजीली लजैहै कहाँ लगि आप ही जो हैं लजात लजीले ॥२॥

घुड़की धमकी

कवित्त—

आँखि दिखराइहैं तो दुगुनी दिखैहौ आँखि
 पर - चित - चोरन की कसर निकारिहौं ।
 रार जो मचैहैं तो तिगूनी तकरार हैहै
 पीछे परे बार बार पकरि पछारिहौं ।
 'हरिऔध' मान किये बनिहौं गुमानिनी हौं
 कैसे भला नारी है अनारिन ते हारिहौं ।
 गारिहौं गरब सारो गोरे - गात-वारन को
 मरद - निगोरन की गरमी निवारिहौं ॥ १ ॥

मंद - मंद हँसि मंजु - बैनन सुनैहैं नाँहि
 चित हूँ न चंचल - चितौनन ते चोरिहैं ।
 लोल - लोल-लोथन ते मानस लुभैहैं नाँहि
 भौह हूँ न भाव - साथ कबहूँ मरोरिहैं ।
 'हरिऔध' नर हैं नकारे तो नकारे रहैं
 नारि हूँ नरन ते तमाम नातो तोरिहैं ।
 अब चाव साथ बैठि रुचिर - अगारन मैं
 गोरे - गात-वारन को गोरी ना अगोरिहैं ॥ २ ॥

आदर न पैहैं तबौ बार जो वितैहैं खरे
 तबौ ना लुभैहैं जो मनो - भव लौ लसिहैं ।
 सहज - सनेह के न भाजन बनैगे तबौ
 मंद - मंद मोहक - मयंक लौ जो हँसिहैं ।
 'हरिऔध' अकस तजत ना अकस - वारो
 कसे कौहिं कब लौ कसौटिन पै कसिहैं ।
 कबौ काहू कामिनी नयन मै बसे तो बसे
 नर अब नारि के नयन मै न बसिहैं ॥ ३ ॥

सरस - बदन - वारी बिरस - बदन ह्वैहै
 गुनन - गहन - वारी औगुन को गहिहै ।
 उपहास कै है मंद - मंद - बिहँसन - वारी
 नेह - गोह - वारी - नेह - गोहता न लहिहै ।
 'हरिऔध' पति - परतीति मै न प्रीति रहे
 राग - मथी महि मै बिराग - धारा बहिहै ।
 पिक - बैनी पिक - बैनता ते पुलकैहै नाँहि
 मृग - नैनी - मृग - नैनता ते रुसि रहिहै ॥ ४ ॥

मोहक - मधुर - प्रेम मलय - समीर लगे
 कामना की बेलि नाँहि मंद-मंद हिलिहै ।
 नंदन - बिपिन - सम - मानस - मनोरम मै
 मंजु - भाव - पारिजात-कुसुम न खिलिहै ।
 'हरिऔध' कांत को अकांत अबलोकिहै तो
 मृदुल - करेजो कुल - कामिनी को झिलिहै ।
 कोमलता कमल - बदन की न काम ऐहै
 कनक - लता मै कमनीयता न मिलिहै ॥ ५ ॥

सबला अबला

कवित्त—

सास औ ससुर मैं न नेह जो भयो तो कहा
 दृग मैं सनेह - मयी जब महि सारी है ।
 माता और पिता के मनाये और माने कहा
 मानवी को जब मंजु - मानवता ध्यारो है ।
 'हरिऔध' मानै क्योँ समाज-जीति मान-वारी
 वाने जब समता को ममता पसारो है ।
 पूजि पूजि पद प्रेम - रंग - रंगे - प्रेमिन को
 बिना पति पूजे पूजनीय होत नारी है ॥ १ ॥

कैहौँ सावधान है स्वतंत्रता - सुरा को पान
 कौ लौँ परतंत्रता कसैलो - रस चखिहौँ ।
 हरिहौँ गुमान मगरूरी - अविचारिन को
 परम - अनारिन कौ नारो हूँ परखिहौँ ।
 देखि 'हरिऔध' बंक-भौह ना सकैहौँ नेक
 मुख ना कलंक - अंक-अंकित के लखिहौँ ।
 बे - परद हैहौँ ना निवारि सारे - परदान
 चादर उतारि लाज - चादर मैं रखिहौँ ॥ २ ॥

जुलुमी - नरन के दुसह - जुलुमन काँहिँ
 आजु लौँ सबो तो सबो अब नाँहिँ सहिहै ।
 देखिहै न आँख क्योँ फूटी-आँखि-वारन को
 या हू को न सोच है कि कोऊ कहा कहिहै ।
 'हरिऔध' ढाहि ढाहि भीतन अभीत हैहै
 दूक दूक करि परदान को उमहिहै ।

नाचिहै उघरि जो उघारन न मुख पैहै
 बंद कौ लौं घरनी घरन मॉहिँ रहिहै ॥ ३ ॥

सवैया—

प्रीति न कैहैं कबौं परदान ते नीति - पुरातन ना प्रतिपालिहै ।
 लाख करौ कोऊ पै कुल-लाज को लोयन-कोयन मॉहिँ न लालिहै ।
 जो कहिहै 'हरिऔध' कबौं कछु सूल लौं तो तेहि के उर सालिहै ।
 घूँघट घालि लौं घूँघट - लोलुप घूँघट - वारी न घूँघट घालिहै ॥४॥

पुष्प-वर्षा

कवित्त —

लंबी लंबी - बतियाँ सुनी है लालसायें भरी
 सुफल न लाये नेह - बीज देखे बोके हैं ।
 चूर चूर किये केते अरुचिर - चावन को
 चूके बिना चित के चपल - भाव रोके हैं ।
 'हरिऔध' बाला है अचल लौं अचल ताहि
 नाहिँ बिचलाते चाल-माहत के भोके हैं ।
 वार वार लाली अवलोकी है कपोलन की
 लालन के लाल-लाल-लोयन बिलोके हैं ॥ १ ॥

अखिल-छबोले हैं छबीली-छबि-अनुरागी
 रस - मयी रसिका के रसिक बसेरे हैं ।
 मधु-मयी मधु की मधुरता पै मोहित हैं
 मधु - लोभी करते मधुप - सम फेरे हैं ।
 'हरिऔध' कैसे नारि - समता करैगो नर
 रूपसी मैं रत रूप - वारे बहुतेरे हैं ।

लाल सब लोच-वारे-लोचन के लालची हैं
कामुक - सकल काम - कामिनी के चेरे हैं ॥ २ ॥

छवि के निकेतन हैं छवि के सहारे बने
तन मैं नवलता लसावति नवेली है ।
मोहकता मिली जोहि जोहि मोहनी को मुख
गौरव गहाइ देत गरब - गहेली है ।
'हरिऔध' नरता की नारिता सजीवन है
नारि के सनेह ही ते साहिबी सहेली है ।
अलबेले याहि ते रहत अलबेले बने
अलबेलेपन मैं बसति अलबेली है ॥ ३ ॥

भामिनी के ओप-वारे भाल के बिमल-भाव
तम - वारे - मानस के मंजुल - अँजोर हैं ।
घन-रुचि-रुचिर चिकुरवारी-कामिनी के
कामुक - निकर - कमनीय - तन - मोर हैं ।
'हरिऔध' सकल - सरस - चित चाव-साथ
सरसा के कलित - रसों मैं सराबोर हैं ।
चखन की कोर चितचोर की है चितचोर
चंद-मुख-वारे चद - मुखी के चकोर हैं ॥ ४ ॥

सवैया—

बंदी ललाम न कैहै लिलार को जो न बनी रहिहै मुख लाली ।
जो है बिलासिता की जननी तो न कानन माँहिँ बिराजिहै बाली ।
बाजिहै ना पग - नूपुर हूँ यदि मानवता बनिहै मतवाली ।
दूखित ह्वैहै बिभूखन ते तो बिभूखित ह्वैहै न भूखन-वाली ॥५॥

अधजल गगरी

कवित्त—

बालपन ही ते जो न बानरता बादि देति
 लोग क्यों न तारी दै दै बानर तो कहते ।
 दूर जो न करति विपुल पसु को सी बानि
 कैसे तो न पसुता - तरंग ही मैं बहते ।
 'हरिऔध' गहते न गैल मनुजातन की
 बहूँके गरूर - वारे गौरव न लहते ।
 नारी को परखि कौन हरति अनारीपन
 नारी जो न होति तो अनारी नर रहते ॥ १ ॥

सच्चे जाति-हितैषी

सवैया—

हैं जनता को जगावत 'जागि कै पै नहीं जागि सकी मति सूती ।
 हैं अवनितल के उपकारक छाँह नहीं कुल - प्रीति है छूती ।
 जाति रसातल जाति चली पै कहावत हैं जग में करतूती ।
 सारत काज सपूत समान हैं काहै सपूत की और सपूती ? ॥१॥
 'वा' नरता को करेजो निकारिहौ नारिता की जर जो खनती है ।
 'वा' विधि के उर हूँ को विदारिहौ जो विधि-बामता मैं सनती है ।
 ए 'हरिऔध' कबौं नहिँ मानिहौं 'छूटी न' गाढ़ी अजौ छनतो है ।
 तो सधवा करिहौं विधवान को जो सधवा, विधवा बनती है ॥२॥

नेता

सवैया—

जाति मैं बोधत आगि रहैं कुल मैं हैं विरोध की आग जगावत ।
 आग लगाइ कै दूर खरे रहि ब्योत बुभावन के हैं बतावत ।

हैं हरिऔध बने अगुआ पर आग ही के उगिले सुख पावत ।
 हैं सुलगावत देस मैं आग तउ मुँह मैं नहीं आग लगावत ॥१॥
 नाम से काम बड़ी बड़ी बात बड़े कपटी तऊ उन्नत चेता ।
 चौकत पातन के खरके पग फूँकि धरें पै बनै जग-जेता ।
 हैं धँसे जात धरातल मॉहि कहावत लोक मैं ऊरध - रेता ।
 जोरत प्रीति अनीति न छोरेत नीति न जानत नाम है नेता ॥२॥

सच्चे बीर

कवित्त—

अपनी अधम-रुचि रुचि-कर-बेलि काँहि
 बालिका-रुधिर-धार ही सो सदा सीचिहौं ।
 तनिक न ह्वैहौं दुखी तिय - तन - तापन ते
 देखि महा - पापन को नयन, न मोचिहौं ।
 नाम मेरो सुने नाक नरक सिकोरिहै तो
 यमराज - दंड सौँहैं बनिहौं दधीचि हौं ।
 खोलिहै जो मुँह तो तुरंत ऐचि लैहौं जीह
 बोलिहै जो बाल-बिधवा तो खाल खोचिहौं ॥ १ ॥

सवैया—

हैं मिटे जात पै आँखिन खोलत हैं बहे जात पै देत हैं खेवा ।
 हैं सग को कबौं बात न पूछत हैं ठग काँहि खिआवत मेवा ।
 हैं सनमान बिसासिन-नारि को हैं चलो जात रसातल बेवा ।
 देस को सेवक दूसरो कौन है दूसरी कौन है देस की सेवा ॥२॥
 ऊँची न कैसे रखें अँखियाँ बने ऊँच हैं नीचन काँहि चपेटे ।
 ओरन को किमि मान करै जब मान मिल्यो मरजाद के मेटे ।
 साहुर हैं पै बने मधु - मान हैं, हैं फन साँप के फूल लपेटे ।
 कैसे न दूर बड़पन सो रहें, हैं बड़े औ बड़े बाप के बेटे ॥३॥

सच्चे सपूत

सवैया—

पूत हौ, काहु को दास नहीं अपनो पद कैसे नहीं पहिचानिहौ ।
 एक पदो लिखो, मूढ़ है दूसरो, कैसे समान दुहूँन को जानिहौ ।
 जो 'हरिऔध' भई मन को नहीं कैसे भला तो नहीं हठ ठानिहौ ।
 बाप के मानन की कहा बात मैं बाप के बाप हूँ को नहीं मानिहौ ॥१॥

कोऊ नवीन नवीनता को तजि कैसे पुरातन - पंथ गहैगो ।
 याको करै परवाह कहा लागि बाप जो वाहि कपूत कहैगो ।
 ए 'हरिऔध' सपूत कहा करै कैसे भला अपमान सहैगो ।
 बात के माने नहीं मन मानिहै बाप के माने न मान रहैगो ॥२॥

का करै पूत बड़ो सुखिया जननी जो रहै दुखिया बनि भूखो ।
 बाको भला कबौं कैसे मिले कछु दैव बनाइ दियो जेहि खूखी ।
 बाप के भाग ही को यह भोग है जो नहीं पावत रोटियौ रूखी ।
 जो मुख सूखो न देख्यो गयो कबौं सो मुख बात कहै यदि सूखी ॥३॥

साहब बहादुर

कवित्त—

सूट की सनक क्यों न सिर पै सवार होय
 क्यों न कोट पतलून प्रीति होवै महती ।
 नकटाई कालर गले न परि जाय कैसे
 टोप बूट-चाट क्यों रहै न रुचि सहती ।
 'हरिऔध' क्यों न बुरो मानें जात पाँत-बारे
 क्यों न होवै जनता अनेक बात कहती ।
 साहब हमारे कैसे साहब बनहिं नाँहि
 साहब बने ही जो पै साहिबी है रहती ॥ १ ॥

बाप को न मानै सनमानै जननी को नाँहि
 मेम कुल-बाला को बखाने उमहत हैं ।
 निज बेस तजि पर - बेस पै बिकाने रहै
 बोली हूँ बिरानी बोलि बोलि निबहत हैं ।
 'हरिऔध' कौन सी सपूती दिखरैहैं और
 साहब हमारे साहिबी हो मैं रहत हैं ।
 पोटी दूहि दूहि कै पुनोत-परिपाटिन की
 चोटी काटि काटि बात चोटी की कहत हैं ॥ २ ॥

सवैया—

सूट की चाट के चेरे रहे कबहूँ उतरी नहीं बूट की बूटी ।
 संपति बानक-बंदिनी सी रही हैट के हाथ गई पति लूटी ।
 ए 'हरिऔध' बंधी मरजाद हूँ कोट के बंधन मैं परि टूटी ।
 कालर काल भई कुल-मान की नाक कटी नकटाई न छूटी ॥३॥

कच्चा चिट्ठा

सवैया—

काम ते क्यों न करै मनमानते जे मन के गये दास गिने हैं ।
 कैसे नहीं तब ताने सहै जब बानै बुरी रहती दहिने हैं ।
 ए 'हरिऔध' है मूँछ बनी अथवा मुख के छबि-चारे छिने हैं ।
 या बिगरैल बिलासिनि हाथ सों बालम मूँछ के बाल बिनै हैं ॥१॥

चाहत के रसचाखन चाहिँ भूत के पूत चुरैल के चेले ।
 बानर है पहचानन चाहत पारस से मनि को मुख मेले ।
 का 'हरिऔध' कहै गति काल की केले समान कहाँहैं करेले ।
 झैल छिछोरे, छछूँदर हैं बने, बैल कहावत हैं अलबेले ॥२॥

बज्र-प्रहार

कवित्त —

पाइ कै बिजाति-पग-लेहन सरग-सुख
 कैसे जाति-हित के नरक माँहिँ परिहै ।
 करि कै कुटिल-नीति-सरस-सुधा को पान
 कैसे ना सुनीति की सुरा को परिहरिहै ।
 'हरिऔध' तोरत जो गगन-तरैया अहै
 कैसे दृग-तारन मैं जोति तो बितरिहै ।
 कुल को कलंक अकलंकता को वानो अहै
 हिंदू - कुल बिपुल - कलंक कैसे हरिहै ॥ १ ॥

कैसे तो कपूत हूँ सपूत - सिर - मौर हूँहै
 भारतीयता के झूठे 'भाव' न दिखैहै जो ।
 देस प्रेम-पथ को पथिक क्यो कहैहै कूर
 आपने समाज मैं न पावक लगैहै जो ।
 'हरिऔध' क्योँ कुल-कलंक पैहै नेता-पद
 काढ़ि कै करेजो जाति को न कलपैहै जो ।
 आप हूँ पिसाई माँहिँ परिकै पिसैगो खल
 पिसे जात हिदुन को औरो पोसि दैहै जो ॥ २ ॥

जा कुल के अहै कैसे वा कुल के काल हूँहै
 गाज बनि आकुल-समाज पै क्योँ परिहै ।
 कैसे भारतीयता बहाने भार - भूत रहि
 जाति-भव - विदित - विभूति काँहिँ हरिहै ।
 'हरिऔध' नेता कहवाइ क्योँ अनीति कैहै
 रुधिर - पिपासित - उदर कैसे भरिहै ।

पास कै प्रपंचिन को पाइहैं पिसाई कैसे
हिदुन को पोसि कै पिसान जो न करिहैं ॥ ३ ॥

वचन-वाण

कवित्त—

वे हैं मूढ़ जो न रूप - चंद्र छवि देखि मोहैं
नरक - अंधेरी काको कहाँ पै लखाति है ।
जहाँ बाँकी परम - मधुर - भुनकार होति
काको तहाँ कथा पाप - पुत्र की 'सुनाति है ।
'हरिऔध' लोभ की लहर लहराति जहाँ
तहाँ जाति - पाँति, पाँति बाहर जनाति है ।
पेटवारे कैसे तब पेट की न मानै कही
बेचि बेचि बेटी जब पेटी परि जाति है ॥ १ ॥

चावन की चारुता में चारुता रहति नाँहि
भावन ते भावुकता करति किनारो है ।
बिबिध-बिलास की बिलासिता बिलीन होति
रस-हीन बनत सकल-रस प्यारो है ।
'हरिऔध' बिना धन रूप है बिरूप होत
सुंदर सनेह हूँ ना लहव सहारो है ।
कैसे भरो पूरो छैल चाहिँ छबीली नाँहि
कहूँ नाहिँ पूछो जात छूछो हाथवारो है ॥ २ ॥

मुँह-कौर छीनि छीनि भूखे नर-नारिन कौ
कैसे भरे पेटन को बारबार भरते ।
कैसे देस-प्रेमिन के नैनन के सूत्र होते
कैसे जाति - प्रेमिन के चित ते उतरते ।

‘हरिऔध’ कैसे दास बनते बिलासिता के
 कैसे धन धनिक - बसुंधरा को हरते ।
 चित्त को विदेसी भाव कैसे तो बिदित होत
 जो न हम देसी हूँ विदेसी पट धरते ॥ ३ ॥

श्रवैया—

तो कहा सीढ़िन पै चढ़िकै कियो चाव के साथ जो ऊँचे चढ़े ना ।
 तो कहा दूर भई मन - मूढ़ता मानवता ते गये जो मढ़े ना ।
 तो कहा कोऊ कियो गढ़िकै ‘हरिऔध’ गये यदि ठीक गढ़े ना ।
 तो कहा आगे बढ़े जो बढ़े नहीं तो कहा पूत - पढ़े जो कढ़े ना ॥४॥
 सीस पै माँग बनी अवलोकिकै पौरुख पानिप खोइ परायो ।
 बाल बने अरु मूँछ मुँड़ी लखि वीर को बानो महा बिलगवायो ।
 साहस कैसे विचारो करै नर मैं न रह्यो नर को सरमायो ।
 जाति मपूतन सूरपनो सब आँखिन मैं सुरमा हूँ सनायो ॥५॥

निराले लाल

दोहा—

वे जनमे हैं आप ही अथवा मिले भभूत ।
 कैसे मानै बाप को हैं न बाप के पूत ॥ १ ॥
 क्यों न भला चाँटे सहे हैं माई के लाल ।
 कैसे मुँह - लाली रहै बिना भये मुँह लाल ॥ २ ॥

नाभी नेता

दोहा—

रही नीति की सुधि नहीं भूली नीयत बात ।
 कैसे करै अनीति नहि नेतापन है जान ॥ १ ॥

निकसै मुँह ते बात किमि जाति गई जब चेति ।
 बात रखन की लालसा बात बनन नहिँ देति ॥ २ ॥
 जा नेता की मति हरत नेतापन अनुराग ।
 सो न परत जो नरक में तो है नरक अभाग ॥ ३ ॥

दिल के फफोले

दोहा—

कैसे तिनकी लालसा लहू - भरी नहिँ होय ।
 जिनकी मुँह - लाली रही कुल ललना को खोय ॥ १ ॥
 ते किमि रखिहँहिँ जाति - पति कितनाहूँ लें काँखि ।
 आँखिन के तारे छिने जिनकी गई न आँखि ॥ २ ॥
 बेगानोपन लहि बने जो बेगाने माल ।
 कैसे हिदू - हित करें वे हिदू - कुल - बाल ॥ ३ ॥
 वे क्यों देखें जाति - दुख देखि देखि दिन रैन ।
 द्वै द्वै अँखियन के अँजत जिनकी अँखियाँ हैं न ॥ ४ ॥
 इतनो हूँ समझत नहीं तऊ बनत हैं पूत ।
 जाको कहत अँजुत हैं वामें कैसी छूत ॥ ५ ॥

माननीय महंत

दोहा—

कैसे बनें महंत नहिँ महि मैं महिमा - वान ।
 सकल दान चेली करति रखति रखेली मान ॥ १ ॥
 मानत बात न काहु की मुख के साज अनंत ।
 जाय महंती या रहै मन की करत महंत ॥ २ ॥
 बार - बिलासिनि सों बिलसि करि कमला सों हेत ।
 चाहत सरग महंत नहिँ यहाँ सरग सुख लेत ॥ ३ ॥

सच्च साधु

दोहा—

जो साधुन को भेस धरि करत असाधुन काम ।
 ताको जो मिलिहैं न तो काको मिलि हैं राम ॥ १ ॥
 जो योगी संयोग लहि तजिहै योग प्रसंग ।
 तो गुरुता दिखराइहै कैसे गेरुओ रंग ॥ २ ॥
 वे कैसे नहीं भूलिहैं ताड़ विलोकि अपान ।
 जिनको ताड़ी लगति है करि ताड़ी को पान ॥ ३ ॥
 पावन जो करतो नहीं वाको संत - सुजान ।
 सुरा - मान होतो न तो सुरसरि - सलिल - समान ॥ ४ ॥
 कैसे काहू संत को तो सिर जातो धूम ।
 धूम - पान की नहीं मचति जो धरती मैं धूम ॥ ५ ॥
 जो नव - जीवन - दायिनी गँजा - चिलम न होति ।
 कैसे साधु - जमात मैं जगति ज्ञान की जोति ॥ ६ ॥
 जो न भोग को भूलतो योगी पी पी भंग ।
 कैसे होतो भाव - मय भव - भयावनो - रंग ॥ ७ ॥

भंग-तरंग

दोहा—

मतवाली कैसे नहीं वाकी कला लखाय ।
 जा कवि - मुँह - लालो रहति मद की लाली पाय ॥ १ ॥
 तो क्यों जय लहिहै नहीं कहि जय जय कवि कोय ।
 जो कविता पै बिजयिनी बिजया - देवी होय ॥ २ ॥
 छन हूँ छूटत है नहीं कूंडी सोंटा संग ।
 कविता सो गाढ़ी छनति गाढ़ी छाने भंग ॥ ३ ॥

वा कवि मैं ही मिलति है कवि की सहज - उमंग ।
 जाकी कविता रंग मैं बिलसति भंग - तरंग ॥ ४ ॥
 धूरि माँहिं सुधबुध मिलै प्रतिभा होय अपंग ।
 सुधा - मयी कविता करत कवि - जन छाने भंग ॥ ५ ॥
 कवि - पुंगव कलि - काल मैं कूर हूँ कां करि लेति ।
 कौन जड़ी - बूटी नही बूटी जन को देति ॥ ६ ॥
 देवी होति चुरैल है देव - दूत यम - दूत ।
 भंग - भवानी सों मिले नाना - भाव - भभूत ॥ ७ ॥

व्यंग-वाण

दीहा—

जन को लूटत रहहिँ लै दुगुनो - तिगुनो - ब्याज ।
 अहैँ महाजन करत हैं महाजनी के काज ॥ १ ॥
 सोना ताँवा को करहिँ ताँवा सोना काँहिँ ।
 साहु कहावहिँ पै सदा मूसि मूसि धन खाँहिँ ॥ २ ॥
 साहु साहु कहि होत है सब दिन साहु - बखान ।
 कतर - ब्योत करि चोर हूँ के हैं कतरत कान ॥ ३ ॥
 चाहत सरग - विमान हैं वै दमरी को दान ।
 बनियन की छूटत नहिँ बनियापन की बान ॥ ४ ॥
 कौड़ी खात हराम की लेत राम को नाम ।
 कौन दूसरो पाइहै स्वर्ग - लोक - अभिराम ॥ ५ ॥

वीर-रस

स्थायी भाव—उत्साह

देवता—महेंद्र

वर्ण—कनक-काति-निभ-गौर

आलंबन विभाव—रिपु अथवा रिपु का विभव एव ऐश्वर्य्य आदि ।

उद्दीपन विभाव—रिपुचेष्टा, उमकी ललकार, मारू-वाद्य, रण-कोलाहल, कड़खा गान आदि ।

अनुभाव—अग-स्फुरण, नेत्र की अरुणिमा, युद्ध के सहायक उपादान—
यनुष आदि की खोज, सैन्य-सग्रह आदि ।

संचारी भाव—गर्व, अमूया, उग्रता, धैर्य्य, मति, स्मृति, तर्क आदि ।

विशेष

किसी किसी ने इद्र को इस रस का देवता माना है । वीर-रस के प्रायः
चार भेद माने गये हैं ।

१-धर्मवीर, २-युद्धवीर, ३-दानवीर, ४-दयावीर । मेरा विचार है कि
पँचवॉ कर्मवीर भी माना जाना चाहिए ।

धर्मवीर

वेद-शास्त्र के वचनो और सिद्धांतो पर अचल श्रद्धा और विश्वास आल-
वन, उनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण, मनन आदि उद्दीपन विभाव,
तदनुकूल आचरण और व्यवहार अनुभाव एव धृति, क्षमा आदि धर्म के दश
लक्षण संचारी भाव हैं । धर्मवीर मे धर्म-धारण और धर्म-संपादन के उत्साह
की पुष्टि है ।

उदाहरण

कवित्त—

समय - सरसता निहारि सरसत जात
 कूल - अनुकूलता बिलोकि उमहत है ।
 बार बार भरि भरि अमित-उमंग माहि
 तरल - तरंगिनी - तरंग मैं बहत है ।
 'हरिऔध' लोक-पति-लीला पै लुभानो मन
 ललकि ललकि भाव-लीनता लहत है ।
 बोलत रहत है सलिल-कल-कल मॉहिं
 कला - मयी - केलि मैं कलोलत रहत है ॥ १ ॥

दरति रहति है दुरित के दुरंत - भाव
 हरति रहति है मन मलिन - मलीनता ।
 करति रहति है अपार - उपकारन को
 नासति रहति अपकारन की पीनता ।
 'हरिऔध' मोचति बिलोचन - बिपुल - मल
 सोचति सदैव सदाचार - समीचीनता ।
 जनम सुधारि सारी धरनी उधारति है
 धरम - धुरंधर की धरम - धुरीनता ॥ २ ॥

पलित - जटा - कलाप कलित-पताका अहै
 साध - भरी - साधना के सुंदर सदन की ।
 कानन की मुद्रा योग - मुद्रा की सहेलिका है
 माला कर कंज की क्रिया है मंजु-मन की ।
 'हरिऔध' संत-जन-सहज-उपासना की
 बोधिनी है पूत - बिभा गैरिक - वसन की ।

सुचि अनुभूति की प्रसूति है तिलक-रुचि
भव की विभूति सी विभूति है बदन की ॥ ३ ॥

आपदा-सहित सारी अपकारिता निवारि
कनक - कनकता को कहत निकाम, ना ।
वाकी बामता मैं अभिरामता - अमित भरि
तजत सकामता समेत धन - धाम, ना ।
'हरिऔध' होत अविवेकी ना विवेक-वारी
रति ते बिरति हूँ मैं गहत बिराम, ना ।
सारत है काम सारी-काम-वारी बातन ते
राखत न काम-मयी कामिनी की कामना ॥ ४ ॥

मानस मैं सरिता सनेह की है लहरति
लोचन मैं लोक - प्रेम - रस निचुरत है ।
कोमल - बयन मैं लसत है सुधा को सोत
चावन को चित - चारुता ते चुपरत है ।
'हरिऔध' भावुकता - भरित - उदार - नर
भावन मैं भावना सुहावन भरत है ।
लाहि भूत - हित को प्रभूत - अनुभूत - पोत
बनि भाव - पूत भव - सागर तरत है ॥ ५ ॥

गमन करत मंद मंद है सु - पथ माँहिँ
अपुनीत - पंथ को न पग परसत है ।
लोक हित - लोलुपता ललित - अयन - बनि
रस - बितरन को बयन तरसत है ।
'हरिऔध' संत - जन बरद - करन माँहिँ
बसुधा - विमोहिनी - विभूति दरसत है ।

प्रेम - बर - वारि बार बार बरसत नैन
उर मैं सुधा को मंजु - सोत सरसत है ॥ ६ ॥

लोक होत ललित तिलोक - पति - लाभ होत
ललक अलौकिक - बिलोचन लहत है ।
रुचि होत रुचिर बिचार अति चारु होत
मानस महान - मोद लहि उमहत है ।
'हरिऔध' भीने भव - रंग मैं विभूति होति
भूत - हित - तरु प्रीति - भू मैं पलुहत है ।
चित्त चाव भरे होति भावना प्रभाव - मयी
भाव - भरे - उर मैं 'अभाव' ना रहत है ॥ ७ ॥

जाकी कृति रतन - मयी है रतनाकर सी
जाकी कल - कीरति कलाकर सो सेत है ।
लोक-पति की सी जाकी लोक-हित-चितना है
जाको चित, चेतना लौं रहत सचेत है ।
'हरिऔध' सोई है धरा मैं धर्म - धुर-धारी
जाकी धनु - धारिता न रुधिर - उपेत है ।
दान-धारा जाकी धाराधर लौं बरसि जाति
जो जन धरा - धर लौं धीरता - निकेत है ॥ ८ ॥

चित के मलिन भाव अमलिन होत जात
बिमल - बिलोचन के प्रेम - वारि चूये ते ।
उचित विचारन के कंधे ना छिलन देत
उपचित बहु अविचारन के जूये ते ।
'हरिऔध' धरम - धुरंधर मुदित होत
मोह - मद विनसे प्रमादिन के मूये ते ।

झाये रहे उर मैं अवनि के अछूते भाव
वनत अपूत ना अछूत - जन छूये ते ॥ ६ ॥

छीन को बिलोकि छीन, धन छीन लेत नाँहि
बनि कै सचेत न हरत चित - चेत है ।
ओरन को दुख देखि परम दुखित होत
हरो भरो करत रहत हित - खेत है ।
'हरिऔध' जीवन दे जीवन - बिहीनन को
पूजनीय - जन जगती मैं जस लेत है ।
रिस कै मसकि मोसि देत ना मसक हूँ को
दाँत पीसि पीसि काहू को न पीसि देत है ॥१०॥

हरत रहत है अहेतुक विकारन को
काहू पै कबौं न कोह करत कहर है ।
मद - मान - मत्तता निवारत है वाको मद
प्रम - पूत काम के फरेरे की फहर है ।
'हरिऔध' मोह ते न मोहत महान जन
वाको मोह - रवि पाप - ताप - तम-हर है ।
लोक - हित - लाभन पै ललकि लुभानो रहै
होति लहू - लोहित न लोभ की लहर है ॥११॥

आँखि फारि देखे आँखि काहू कोन फोरि देत
आह भरे भुस खाल माँहिँ ना भरत है ।
जीह के हिलाये जीह काहू की न खँचि लेत
मुँह खोले कठ पै कुठार ना धरत है ।
'हरिऔध' धोर-बीर वनत अधीर नाँहिँ
धाक हित जेवरी न धूरि मैं बरत है ।

एक टूक रोटी - हित बतिया दो टूक कहे
काहू को करेजो टूक टूक ना करत है ॥ १२ ॥

कमनीय-रुचि को वलंकित करत नाँहि
कोमलता कोमल हृदैं की ना हरत है ।
बनि बनि कीट ना बसत सुमनन माँहि
पावक न भोरे-भोरे-भाव मैं भरत है ।
'हरिऔध' लोभ-हीन ललित ललक-वारो
काहू के न अनुकूल-काल ते लरत है ।
लाल लाल आँख करि लाल हूँ न काल होत
लहू नाँहि लोक-लालसान को करत है ॥ १३ ॥

वेद की बिभूति ते बिभूति-मान बनि बनि
लोक - बंदनीय - बर - बिरद बरत है ।
गौरव गहत गाइ गाइ गौरवित - गुन
ज्ञान - रवि पाइ उर - तिमिर हरत है ।
'हरिऔध' धर्म-वारो सारो मन-मानो छोरि
मुनिन - मतन काहिँ मनन करत है ।
भारत के भूत-हित भरे भाव - पंकज पै
मत्त मन भौर भूरि - भावरैं भरत है ॥ १४ ॥

महिमा महंतन की मति को करति मंजु
संतन की संतता असंतता हरति है ।
पावनता परसे अपावतना दूर होति
देव-रुचि दुरित - दुरंतता दरति है ।
'हरिऔध' मानवता भावुकता भूति बनि
भावन मैं लोक - हितकारिता भरति है ।

धर्म - धुर - धारी के सुधारे लोक सुधरत
धर्म के उधारे सारी धरा उधरति है ॥ १५ ॥

कूर होत कंपित मथित मगरूर होत
पामरता दूर होति परम - नकारे की ।
धरकति छाती है अधम - अधिकारिन की
दहलति दानवता दानवी - दुलारे की ।
'हरिऔध' धरती अनीति-भरी धसकति
सुनि कै धुकार धर्म - ध्वनित नगारे को ।
हाँक सुने बड़े बड़े हाँक-बारे हहरत
मानत न कौन धाक धर्म-धाकबारे की ॥ १६ ॥

सुरसरि - सलिल बनावत सुरा को नॉहिं
सुर बनि बनि ना असुरता पसारे देत ।
बिधि बॉधि बॉधि नॉहिं बॉधत अबिधि बॉध
बंदित है बंदनीय-बानो ना बिगारे देत ।
'हरिऔध' पूत-नीति-पथ को पथिकप्यारो
बातन ते तारे ना गगन के उतारे देत ।
बारिद है बहुधा बरसि ना अंगारे जात
सुधा-मिस बसुधा पै बिस ना बगारे देत ॥ १७ ॥

दोहा—

अमल-आरसी-रम अहै बिपुल - बिमल - मन तौन ।
पूत - भाव - प्रतिबिंब ते प्रतिबिंबित है जौन ॥१८॥
द्रवत पसीजत जो रहत लहि परितापन कौहिं ।
वाको उर नवनीत है या अवनीतल मॉहिं ॥१९॥

है वाके मुख - चंद्र को चित अनुराग चकोर ।
 पर - हित - रुचि चोरत नहीं जाके चित को चोर ॥२०॥
 लोचन - वारे को न क्यों सब थल लसत लखाहिं ।
 जगत-त्रिलोचन बसत हैं जब जन लोचन माँहिं ॥२१॥
 ललित - लुनाई जगत की दिन दिन होत रसाल ।
 लोने लोने नयन मैं वसे सलोने - लाल ॥२२॥
 क्यों सुधरति जो नहिं लहति धरम - धुरधर - सूरि ।
 तो कैसे उधरति धरा जो न धरति पग - धुरि ॥२३॥
 अति - पावन - पग - संत को जो नहिं परसत अंग ।
 पावनता कैसे लहति पतित - पावनी - गग ॥२४॥
 बहु सजीवता दान करि जीव - बिहीनन काँहिं ।
 सुधा बहावत संत - जन बहुधा बसुधा माँहिं ॥२५॥

कर्मवीर

कर्तव्य - परायणता और कार्य-सिद्धि के निम्नातों पर दृढ़ विश्वास आल-
 वन, कार्यकारिणी शक्ति के सफल प्रयोगों का अनुधावन और चितन
 उद्दीपन विभाव, कार्य-सिद्धि के साधनों और प्रयोगों का समुचित व्यवहार
 अनुभाव एव वृत्ति, मति, गर्व, उग्रता आदि सचारी भाव हैं। कर्मवीर के
 कार्य-साधन में पूर्ण उत्साह की पुष्टि है।

उदाहरण

कवित्त—

विपुल अलौकिक - कलान ते कलित बनि
 रेलतार काज क्यों अकल्पनीय करते ।
 दामिनी क्यों कामिनी लौं सारति सदन-काम
 कैसे दिवि - विभव दिवा - पति बितरते ।

‘हरिऔध’ जो न कर्म बीरता धरा मैं होति
 बारिधि को बाँधि कैसे बानर उतरते ।
 फिरते विमान अनगन क्यों गगन माँहि
 कैसे नग-निकर नगन ते निकरते ॥ १ ॥

कैसे पृथु प्रथित बनत पृथिवी को दूहि
 कैसे सातो सागर सगर-सुत सँवारे लेत ।
 कैसे पार करत पवन-पूत पारावार
 गिरि कर-धारी कैसे गिरिवर धारे लेत ।
 ‘हरिऔध’ जो न कर्म-बीर की बिरद होति
 बार बार बीर कैसे बसुधा उबारे लेत ।
 दृगन के तारे क्यों सहारे होते माघन के
 नभ-तल-तारे कैसे मानव उतारे लेत ॥ २ ॥

कैसे मघवा के घन प्रबल बिलीन होते
 ब्रज की बसुंधरा विभूति कैसे लहतो ।
 करति सजीव क्यों सजीवन सी मूरि मिलि
 दूर होति कैसे कौसलेस-बिथा महतो ।
 ‘हरिऔध’ जो न करदूत-करदूत होति
 साहसी सपूत की सपूती कैसे रहतो ।
 कसे धूरि-धारा को उधारि या धरातल पै
 सुर-सरि-धारा सी पुनीत-धारा बहतो ॥ ३ ॥

जल-निधि कैसे दान करत अपार-निधि
 गाढ़ी कैसे गगन विभूतिन ते छनती ।
 नाना कल केते लोक-यान क्यों जनम लेते
 बोजुरी क्यों विपुल-निरान्नी-जोति जनती ।

‘हरिऔध’ जो न करतूत होति मानव मैं
 बायु बहु - बिभुता - बितान कैसे तनती ।
 कैसे रमा राजति बिराजित बिभूति माँहिं
 रजमयी महि क्यों रजत-वती बनती ॥ ४ ॥

कैसे बास बनत असन को बिधान होत
 बिबिध-सुपास के बसन कैसे सिलते ।
 दीपक क्यों दिपत दिखात तम-पुंज माँहिं
 निकसति कैसे सुधा सागर - सलिल ते ।
 ‘हरिऔध’ जो न काम धुन होति कामुक मैं
 राख माँहिं कनक-कनूके कैसे मिलते ।
 कैसे मरु-भूमि फल-मूल अनुकूल होति
 धूल मैं क्यों परम अनूठे फूल खिलते ॥ ५ ॥

साधक की साध सारी साधना निकेतन है
 सिद्धि बिना ‘इति’ है न साहसी के ‘अथ’ मैं ।
 संगिनी सफलता सफल करतूत की है
 बिजय बिराजति है कर्म-समरथ मैं ।
 ‘हरिऔध’ सारी बाधा बाधति अबाध गति
 भू मैं बिचरत बीर बैठि ‘भूति-रथ’ मैं ।
 पार करि लेत है अपार-पारावार हूँ को
 मानत न हार है पहार परे पथ मैं ॥ ६ ॥

काम-धुन-वारो कौन काम है न साधि लेत
 वाको सारो काम किये साधना सरत है ।
 धरा मैं धँसत पैठि जात है पतार हूँ मैं
 बिहरत नभ मैं दिसा मैं पसरत है ।

‘हरिऔध’ संभव बनावत असंभव को
 लोक को अलौकिक-विभूति बितरत है ।
 बूझ-बल नागर करत है अनागर को
 सूझ-बल गागर मैं सागर भरत है ॥ ७ ॥

तोरि दैहै पवि को मरोरि दैहै मेरु-दंड
 मरुत महान मरु-महि की निवरिहै ।
 दूरि कै प्रखर पवनातप प्रकोप-ताप
 अवरोधि पावक पयोधि पार परिहै ।
 ‘हरिऔध’ बाधा परे साध-भरे साधन मैं
 कर्म-बीर बाधक - अबाध - गति हरि है ।
 दरिहै दिगंत-दंति-कुल को दुरंत-दाप
 प्रबल-प्रहार कै पहार चूर करिहै ॥ ८ ॥

भूरि-भाग-भाजन न भाजत सभीत बनि
 बहि बहि भारन भरत भव-धाम है ।
 कसि कै कमर कौन समर करत नाँहि
 अजर अमर है रखत कुल-नाम है ।
 ‘हरिऔध’ कर्म-बीर पोछे ना धरत पग
 बोछे बीछे पथ पै अरत बमु-जाम है ।
 जमदूत - जोरा - जोरी किये हूँ जुगत जात
 काल हूँ की छोरा-छोरी छोरत न काम है ॥ ९ ॥

कैसे मुख-लालिमा रहति लोक-कामना की
 काम की लगन कृति-कालिमा न खोती जो ।
 कैसे भव-सुख-लाभ-तरु पल्लवित होत
 बीज - हित - कारिता के बीरता न बोती जो ।

‘हरिऔध’ कैसे धरा धारति उधार - व्रत
 धीर-मति धाम धाम का मल न धोती जो ।
 कैसे अन्ननी मैं बड़े कमनीय काम होते
 काम - धुन-वारे मैं न काम - धुन होती जो ॥१०॥

दोहा—

तजत काज अपनो नहीं लहत विजय को हार ।
 हार न मानत साहसी सिर पर गिरे पहार ॥११॥
 परि कंटक - बाधान मैं होत चौगुनो चेत ।
 काज - कंज - सुमिलिद बनि वीर - वृंद रस लेत ॥१२॥
 जन निज बल ते बनि बलो होत भूति को भौन ।
 किये भरोसो भाग को भागवान भो कौन ॥१३॥
 पावन चरित सजीव - जन है जग जीवन - मूरि ।
 ताप निवारत कर - परस पाप हरत पग-धूरि ॥१४॥
 करतूती - कर - तल परसि मुकृत कहावत पोत ।
 रजत बनति रज - राजि है कनक लौह - कन होत ॥१५॥
 गुन - आगर - जन मनि लहत पहुँचत उरग समीप ।
 मोती ते गागर भरत लहि सागर की सीप ॥१६॥
 दूर होत घर - घर तिमिर जगति जगत मैं जोति ।
 तेज - वंत - तरवा परसि नवनी अवननी होति ॥१७॥
 सबाल - बाहु - वैभव मिले सकल होत अनुकूल ।
 कंटक - जाल कलित - कुसुम बनत रसाल ववूल ॥१८॥
 दै अबिक्त को बित्त बहु हरत कुपित को पित्त ।
 सचल बनावन अचल को परम - अविचलित - चित्त ॥१९॥
 मानस - बल बलवान - तन संकट पावत छू न ।
 नावक बनत मयंक - कर पावक बनत प्रसून ॥२०॥

युद्धवीर

शत्रु का प्रताप, पौरुष और ऐश्वर्य आदि आलंबन, मारु वाद्य और सैन्य कोलाहल आदि उद्दीपन, अग-स्फुरण और नेत्र - लालिमा आदि अनुभाव, गर्व, उग्रता और घृति आदि सचारी भाव हैं ।

युद्ध वीर में बल पौरुष प्रतापादि जनित उत्साह की पुष्टि है ।

कवित्त—

धूरि मैं समैहैं गोले ओले के समान गिरि
 टूक टूक हैहै तोप बार बार दनकी ।
 घोर घमासान बीरता की धूमधाम हैहै
 धीरता रही जो बनी धीरन के मन की ।
 'हरिऔध' बिरद निबाहत बिरद्वारो
 बात अबिदित है न बात - भरे तन की ।
 बर - बीर छिति मॉहिं छोरत अब्रूतो जस
 सुधि हूँ न लेत छिदी छाती के छतन की ॥ १ ॥

पीछे ना परैगो कबौं परम - उमंग भरो
 रण - रंग - रँगो दंग करिकै पधारैगो ।
 बार बार धूआँधार कठिन समर करि
 कीरति अपार या धरा पर पसारैगो ।
 'हरिऔध' बैरिन को उदर विदारि दैहै
 लात मारि मारि आँत अरि की निकारैगो ।
 जाकी करतूत मैं लगी ना छूत एकौ बार
 राजपूत - पूत भूत सिर को उतारैगो ॥ २ ॥

उठो उठो बीरो चीरो अरिन - करेजन कौ
 पीरो मुख परे बनी बात हूँ बिगारिहै ।

छटक छटक छाती छगुनी करैयन को
 कौन आज उछरि उछरि कै कचरिहै ।
 'हरिऔध' कहै वीर-बुंद ना अबेर करौ
 हाँक ते तिहारी धीर हूँ ना धीर धरिहै ।
 पारावार - धार मैं उड़ैगी छार आँच लगे
 ठोकर की मार ते पहार गिरि परिहै ॥ ३ ॥

बहँके वहँकि सारी बहँक निवारि दैहौ
 बाल बाल वीनिहौँ बलकि बने बलवान ।
 तमके तमकि तम हरिहौँ तमारि सम
 दाँत पीसिहैं तो दाँत तोरिहौँ मरदि मान ।
 'हरिऔध' बैरिन की बीरता बिफल कहौ
 बादिन पै बदिनै बगारिहौँ बिखीले बान ।
 मुँह जो बनैहैं तो पकरि मुँह तोरि दैहौँ
 आँखि जो दिखैहैं तो निकारि लैहौँ अँखियान ॥ ४ ॥

बिदित पुरारि - बज्र बज्रता बिलोप कहै
 बिकराल - काल की करालता को खलिहै ।
 चक्री के प्रबल - चक्र काँहिँ चूर चूर कै है
 कालिका - कृपान की कृपानता को छलिहै ।
 'हरिऔध' कोऊ रन - बाँकुरो उमंग भरि
 बंक करि भौँहैं सनु सौँहैं जब चलिहै ।
 खंड खंड करिहै पिनाकी के पिनाक काँहिँ
 ठोकि भुज - दंड यम - दंड हूँ को दलिहै ॥ ५ ॥

बीर - कुल-बाल ह्वै न सहिहौँ त्रिकाल माँहिँ
 लोक-प्रतिकूल की अकल्पित-कुचाली को ।

खलन की खाल खींचि लैहौ खलता के किये
 बाल बाल बीनिहौ विरोधी-बल-शाली को ।
 'हरिऔध' कर मैं कराल - करवाल गहि
 अरि-कुल काल है रिभँहौ मैं कपाली को ।
 मानव अमंडनीय - मुंडन को काटि काटि
 मुंडन को मालिका पिन्हैहौ मुंडमाली को ॥ ६ ॥

पातक को पल पल प्रबल - प्रसार देखि
 जा दिन अपार - बिकरार रूप धरिहौ ।
 करिकै प्रकपित पताल के प्रवासिन को
 गरल सहस्र - फन फूँक लौं बितरिहौ ।
 'हरिऔध' दिपत-दिगंत मैं द्वारि भरि
 प्रलय - प्रभाकर लौं व्योम मैं बिचरिहौ ।
 ज्वाल पर ज्वाल ज्वालामुखी लौं बमन करि
 सारी मेदिनी को ज्वाल-माला-मयी करिहौ ॥ ७ ॥

बाल बाल बिने पै मनोबल न जाको जात
 सोई बलवान गयो सबल बखानो है ।
 सोई साहसी है जो समर मैं सपूती करै
 रोम रोम माँहिँ जाके साहस समानो है ।
 'हरिऔध' बाहु - बल विजय - बधावरो है
 सूरन की सूरता अमरता बहानो है ।
 हँबो ना अधीर धीर - धीरता को बैभव है
 हँबो ना अ-बीर बीर बीरता को बानो है ॥ ८ ॥

परम अकुंठित बिरोधिनी स - कंठता की
 कुलिस सी कठिन कठोरता मैं ढाली है ।

अंग-भंग-निपुन तरंगित तरंगिनी सी
 भरित - उमंग रन - रंग - मतवाली है ।
 'हरिऔध' बैरि-उर-विवर-विहारिनी है
 काल को कराल रसना सी कंपवाली है ।
 लहू-लाली-भरी कै कपाल-माली-आली अहै
 बीर-करवाल काल-ब्याली किधौं काली है ॥ ६ ॥

पग जो न दैहैं साथ पंगु तो बनैहौं तिनैं
 कर जो न कैहैं कही लुंजता सकारिहौं ।
 बार बार ताको छत विछत बनैहौं छेदि
 जाति-दुख-छत जो न छाती मैं निहारिहौं ।
 'हरिऔध' जाति-हित जीहौं जाति-हित कैहौं
 प्रतिकूल भये रोम रोम मैं उखारिहौं ।
 बिमुख बनैगो तो न मुख रहि जैहै मुख
 रस जो न राखिहै तो रसना निकारिहौं ॥१०॥

कंचन बिहाइ काँच पै जो मोहि जैहै मन
 तो मैं ताको मानवी बिमोह सब हरिहौं ।
 बासना सतैहै तो बसैहै नाँहि बासना की
 बिचलित चाव ते बचाव कै उबरिहौं ।
 'हरिऔध' जाति पीसि पेट पालिहौं ना कबौं
 आँखि जो फिरी तो आँखि-माँहि धूर भरिहौं ।
 चूक पर चूक जो निबोरी हित होति जाति
 रसना निगोरी को तो टूक टूक करिहौं ॥११॥

एक बूँद सधिर रहैगो जौ लौं गात माँहिं
 देस-अनुराग-ताग तब लौं न तोरिहौं ।

अपनी विभूति को बचैहौं बाल बाल बिने
 खाल के खिंचे हूँ रक्त अरि को निचोरिहौं ।
 'हरिऔध' पैहौं दिव्य हार हारहूँ के भये
 बजर परे हूँ सिद्धि छूटी गाँठ जोरिहौं ।
 छाती के छिले हूँ मोरिहौं ना छमता ते मुख
 रोम रोम छिदे जाति-ममता न छोरिहौं ॥१२॥

फुंकरत देखि फनि-पति को न भीत होत
 देव सेनापति की दुरंतता द्रत है ।
 दबत न देखि भूरि भैरवता भैरव की
 संयमिनी-नाथ दंड - पानिता हरत है ।
 'हरिऔध' मानत धरा-पति की धाक नाँहिँ
 सौँहैं परे नाक-पति हूँ को निदरत है ।
 करवाल गहे ना डरत लोक-पाल हूँ ते
 वीर-बर विकराल काल ते लरत है ॥१३॥

करिकै समर धूआँधार धीर वीर नर
 बार बार अरि को पछारि, है उड्डरतो ।
 काटत फिरत गज-बाजि की कतार काँहिँ
 पीर भीर-भार मैं सँभारि, है उभरतो ।
 'हरिऔध' तार बाँधि बाँधि तीखे तीरन को
 भीरु-भावना मैं, है भभर-भूरि-भरतो ।
 हनित कटार पार होत है करेजन के
 बार पर बार तरवार की है करतो ॥१४॥

बड़े-बड़े वीरन को पकरि पछारि देत
 भारी-भारी-भीरन हनत पत्त-भर मैं ।

रोम रोम छिदे छनौ छोरत उछाह नाँहिँ
 छत लगे हाथी को उछारत अधर मैं ।
 'हरिऔध' करि कै धरा को शर-धारा-मयी
 मुंड - माला देत मुंड-मालिका के कर मैं ।
 कसि कै कमर बनि अमर अमर-सम
 सूरमा करत सूरमापन समर मैं ॥१५॥

रन की विभीषिका ते भीत कबहूँ ना होत
 रन-रंग-रँगो-बीर बीरता बरत है ।
 काल-दंड गहि दंड देत है उदंड काँहिँ
 बरि-वंड-दल को विहंडि विहरत है ।
 'हरिऔध' मारतंड - मंडल-समान बढि
 तामसिक-मंडली को तामस हरत है ।
 खंड-खंड-परम-प्रचंड भुज - दंड करि
 रंड - मुंड - भुंड मैं वितुंड लौं लरत है ॥१६॥

रोहा—

पवि - समान तोरत रहत करिवर-कुंभ-अपार ।
 काहु गदा-धर-करन को गुरु-तर गदा-प्रहार ॥१७॥
 लोक - लाल - प्रतिपाल - रत कुल-कलंक - नर - काल ।
 कामद-कल्पलता सरिस है नृपाल-करवाल ॥१८॥
 जिअत न जो नर-केहरी नर-केहरि - ब्रत धारि ।
 कदाचार-करि-कुंभ को कैसे सकत विदारि ॥१९॥
 गरजि गरजि जो बीर-बर करत न बारिद काज ।
 पर - अकाज - रत कु-जन पै कौन गिरावत गाज ॥२०॥
 भू-मंडल मैं जो नहीं होत बीर-भुज-दंड ।
 दंडित करत उदंड को तो काको कोदंड ॥२१॥

जो काली-रसना-सरिस होति न बीर-कृपान ।
 रुधिर-पान-रत-नरन को रुधिर करत को पान ॥२२॥
 बीर-भाब मैं भूति को होतो जो न उभार ।
 तो, को करतो भूत-हित को हरतो भू-भार ॥२३॥
 परति भार मैं काहि लखि भार-भूत जन-भीर ।
 उबरति कैसे बसुमती जो न उबारत बीर ॥२४॥
 किमि दुरंत-नर-दव-दही-मही लहति रस-सोत ।
 जो न बान-धारा-बलित बीर-बारि-धर होत ॥२५॥
 लाला प्रानन को परत लहत न कोऊ त्रान ।
 जब दामिनि लौं समर मैं दमकति बीर-कृपान ॥२६॥

दयावीर

दीन, आर्त्त और दुःख-दग्ध जन आलबन, आर्त्त स्वर, करुण-क्रन्दन, दुःख-पूर्ण वर्णन और हृदयद्रावी विनय आदि उद्दीपन, मृदु भाषण, उदार आश्वासन, दुःख-दूरीकरण चेष्टा आदि अनुभाव, एवं चंचलता, उत्कठा और धृति आदि संचारी भाव हैं । दयावीर मे चित्तार्द्रता सभूत उत्साह की परिपुष्टि है ।

कवित्त—

ताको सुर-तरु के समान है फलद होत
 मूठी नाज काज जो तिगूनो तरसत है ।
 परम प्रवंचित अक्किचन-कु-धातु काँहि
 फली-भूत पारस-समान परसत है ।
 'हरिऔध' दीनन को दीनता तिमिर हरि
 ससि के समान है सरस सरसत है ।
 बार 'बार जन - बिटपालि पै बरद - बर
 बारिद - समान बारि धार बरसत है ॥ १ ॥

बिपुल - पिपासित - पिपासा कैसे दूर होति
 कैसे पेट भूरि - भूखे लोगन को भरतो ।
 कैसे द्रवीभूत होत पाहन - समान उर
 गज कैसे ग्राह के बदन ते उबरतो ।
 'हरिऔध' होति जो दयालु मैं दयालुता न
 मंजु - मोती कैसे पातकीन पै बगरतो ।
 बनतो सद्य कौन दुखियान - दुख देखि
 कौन दयनीयन पै दौरि दया करतो ॥ २ ॥

मानवता - मंजु-बेलि चित-आलबाल माँहिं
 प्रतिदिन फैलि फैलि फूलति फलति है ।
 पर - उपकारिता - बिलोचन मैं बिलसति
 लोक - हित-कारिता करन ते पलति है ।
 'हरिऔध' बार बार बिपति - हरन - बानि
 बिबिध - बिथा को अ-बिथा ते बदलति है ।
 दलित - जनन के दलन की दलक सारी
 दयावान दिल की दयालुता दलति है ॥ ३ ॥

पगन मैं सुपथ - गमन बेस मैं है बसी
 करन मैं मंजु - दान - मिस निवसति है ।
 बदन मैं सोहति सनेह - सने - बैन बोलि
 पर - काज साँसत सहति बिहँसति है ।
 'हरिऔध' दया-वान-जन की निराली दया
 असरस - पाहन परसि सरसति है ।
 उर मैं बसति है तरलता - निवास बनि
 लोयन मैं बारि है बिपुल बिलसति है ॥ ४ ॥

कैसे गिरि - अंक ते प्रसूत - सरि-वारा होति
 मंजुल - सलिल क्यों सरन माँहिँ रहतो ।
 मा की छतियान मैं भरत क्यों अछूतो छीर
 विबुध - बरूथ क्यों रसा को रसा कहतो ।
 'हरिऔध' होति दयामय मैं दया जो नाँहिँ
 कैसे तो मयंक ते सुधा को सोत बहतो ।
 कैसे तरु - लता मैं सरसता - निवास होत
 तोयद को तोम तो तरलता क्यों लहतो ॥ ५ ॥

कुसुम - सरिस होत कोमल, कठोर - पवि
 मंजुल - मृनाल लौं मृदुल होत मूसरो ।
 सुधा होति सुरसरि - सलिल - समान पूत
 नोरसता छोरि कै सरस होत ऊसरो ।
 'हरिऔध' तेरी कृपा - कोर ते उधरि जात
 धीर तजि धूरि मैं मिलत धमधूसरो ।
 कोऊ तोसों दीन - बंधु दीखत दुनी मैं नाँहिँ
 दया - निधि तोसों दयावान कौन दूसरो ॥ ६ ॥

प्रभु - पग - बल पवि - प्रबल - प्रहार ही ते
 चूर होत पातकीन - पातक - पहार है ।
 तेरो वर - विरद निवारत त्रिविधि - ताप
 दूर करि देत भव - बिबिध विकार है ।
 'हरिऔध' ऐसो अपकारी है अपर कौन
 तोसों कौन करत अपार - उपकार है ।
 तोसों कौन बिदित - दयानिधि दुनो मैं अहै
 दिवि - माँहिँ तोसों कौन उदित - उदार है ॥ ७ ॥

बिभा देत भानु सुधा स्रवत सुधा - कर है
 बरसत बारि - धर वर बारि - धार है ।
 सरस बनावत रसा को है विपुल - रस
 मंद मंद बहति मनोरम - बयार है ।
 'हरिऔध' बगर बगर मैं बगरि भूरि
 करति विनोदित बसंत की बहार है ।
 छहरि छहरि जात तारन - कतार हूँ मैं
 कृपा - पारावार की कृपालुता - अपार है ॥ ८ ॥

दोहा—

तृन - तरु - हित बसतो न जो प्रभु - दयालुता माँहिँ ।
 पाहन तो न पसीजतो तजि पाहनता काँहिँ ॥ ९ ॥
 जो न दया-निधिता लहे सरसत दया-निधान ।
 कैसे जीवन को करत जीवन जीवन - दान ॥१०॥
 सुख - मय नहिँ होतो दिवस रस-मय होति न राति ।
 जो न दया - मय की दया दया - मयी दिखराति ॥११॥
 जो न दया - निधि की दया घेरति बन घन - घोर ।
 कौन दूबरी दूब पै बरसत बारि - अथोर ॥१२॥
 ब्रज - ललना लोनी - लवा कैसे होति ललाम ।
 दया-बारि ते सींचतो जो न बारि - धर - स्याम ॥१३॥

दानवीर

याचकगण और दानपात्र आलबन, वर्तव्यज्ञान, कलित-कीर्ति-धवलिमा, दानपात्र की पात्रता आदि उद्दीपन, अकृपणता और सर्वस्वदान एवं औदार्य आदि अनुभाव और हर्ष आदि सचारी भाव हैं।

दानवीर में दान करने के उत्साह की पुष्टता है।

कवित्त—

कंचन - समान है अकिचन - जनन काज
पर - हितकारिता सरस मंजु रस है।
कौमुदी है सब सुख-साधना कुमोदिनी की
कामुक निमित्त काम - धेनु को दरस है।
'हरिऔध' दोनता-धरा की है परम-निधि
कु-दिन - कु-धातु काँहि पारस - परस है।
जीवन - विधायिनी है अरुणि - उदारता की
तेरी दान-धारा सुधा-धारा ते सरस है ॥ १ ॥

पलुहति कैसे उपकार की कलित - बेलि
सुफल उदारता - लता हूँ कैसे लहती।
भूरि - दुख-धूरि की दुखदता क्यो दूर होति
जीव - दया - सरिता सरस कैसे रहती।
'हरिऔध' कैसे अकिचनता तुनावलि में
लसति हरीतिमा - बिभूति - बती - महती।
दीन - तरु होत क्यो हरित हित - बारि लहे
दीनता धरा पै जो न दान-धारा बहती ॥ २ ॥

दीन-दुख दुसह-दवारि बर-बारिद, है
 दारिद-अपार-पारावार पूत-बेरो है ।
 भवन है विपुल-उदार-उर-भावन को
 चारु-भूत-चावन को रुचि-कर-खेरो है ।
 'हरिऔध' पर हितकारिता-विकास-भूमि
 लोक-उपकारिता को लसित-बसेरो है ।
 चेरो अहै दया-मान-विगलित-मानस को
 तेरो दान दया-मंजु-आनन-उँजेरो है ॥ ३ ॥

अविभव मॉहिं है बिराजत विभव बनि
 भाव हँ कै विपुल अभाव मैं बसत है ।
 रस है अरस मैं बिभा है बिभा-हीनन मैं
 सुख हँ कै असुखीन मॉहिं निवसत है ।
 'हरिऔध' भोजन हँ भूखे की हरत भूख
 नीर हँ पिपासित-गरे मैं प्रविसत है ।
 दीनता निवारि, कै अदीन सब दीनन को
 दिन दिन दानिन को दान बिलसत है ॥ ४ ॥

सौंचन को बंस-बिरदावलि-दलित-बेलि
 गात को रुधिर बारि-धारा लौ बहैहौं मैं ।
 तन बेंचि बेंचि रोम रोम ते निबाहि पन
 बंचित समाज-बंदनीयता बचैहौं मैं ।
 'हरिऔध' धन-वारि बंधन-निवारि पैहौं
 सिर दै दै साँची-देस-बंधुता दिखैहौं मैं ।
 जीवन-बिहीन को सजीवन बनैहौं जूभि
 जाति-हित जीवन हूँ दान करि दैहौं मैं ॥ ५ ॥

तेरो पद ऊँचो पद ऊँची पदवीन को है
 दारिद-दुरित को दरन तेरो दर है ।
 तेरो प्यार दाता है अपार-अधिकारन को
 बिपुल-बिभूति को बिधाता तेरो बर है ।
 'हरिऔध' तौ मन मृदुलता निकेतन है
 तेरो उर अतुल उदारता को घर है ।
 फलद दयालुता तिहारी कल्प-बेलि-सी है
 कामधेनु - कामद तिहारो कांत-कर है ॥ ६ ॥

तो सों कौन दूसरो द्रवत पर-दुख देखि
 तोसों कौन दानी को दयालुता-निकेत है ।
 याचकन कौहिं कौन करत अयाचक है
 कंचन बरसि जात कौन चित-चेत है ।
 'हरिऔध' रंकन को करत कुबेर कौन
 सकल अकिचन की कौन सुधि लेत है ।
 काने सनमाने दीन-जन जानि दीनन को
 जाने अनजाने को खजाने खोलि देत है ॥ ७ ॥

धन, जन, असन, बसन, बासनन देइ
 दानबीर दीनन की दीनता दरत है ।
 हीर-हार मंजु-मनि-मोतिन की माल देत
 भूरि भव-बिभव भवन में भरत है ।
 'हरिऔध' राजी है करत बर-बाजी देइ
 साजी धेनु-राजि दै अघेनुता हरत है ।
 लावत 'अबार' न बराकन-उबारन में
 बार बार बारन-कतार बितरत है ॥ ८ ॥

रसकलस

दिन दिन रतन-बखेरन को बानि हेरि
रतन - समूह - आकरन मैं अरो अहै ।
धरनि मैं धन, भूधरन मैं छिपे हैं नग,
मुकुत अगाध-अंबुनिधि मैं परो अहै ।
'हरिऔध' तेरी दान - वीरता बखान सुने
भभरि कुबेर भूरि - भोति ते भरो अहै ।
कनक - अपार बार बार बितरत देखि
सोने को पहार एक कोने मैं खरो अहै ॥ ९ ॥

घनता तिहारी ही रसालता की अवलोकि
घन - माला घूमि घूमि नभ मैं धिरति है ।
रवि की किरिन बिकसित हूँ बसुंधरा पै
तेरी गुरुता ते गौरवित हूँ गिरति है ।
'हरिऔध' तेरी ही दमक को दमामो दै दै
दमकत दामिनी दिगंत मैं फिरति है ।
लहि कै तरनि लौं तिलोकतम - हारी तेज
तारावलि तेरी दानधारा मैं तिरति है ॥१०॥

दोहा—

जगतीतल मैं कौन है दानी जलद-समान ।
जो जीवन हित करत है अपनो जीवन दान ॥११॥
बायु सहत, छीजत, दहत, गरत गँवावत मान ।
तब हूँ जलधर जगत को करत रहत जल - दान ॥१२॥
दानी साँसत हूँ सहे दान देइ जस लेत ।
सहि पाहन बनि बनि बिफल सफल बिटप फल देत ॥१३॥

जो न सुधा - निधि लेत सुधि बनि बनि दया - निधान ।
 सरस - सुधा तो करत को बसुधा तल को दान ॥१४॥
 वा सम कौन दयालु है अवनी - तल मैं आन ।
 पर - दुख देखि द्रवत रहत जो नवनीत - समान ॥१५॥
 वा सम दानी कौन जो गात उघार निहारि ।
 बस न चलत हूँ देत है अपने बसन उतारि ॥१६॥
 साँचो दानी सरस - उर अहै घन - सरिस कौन ।
 ऊसर मैं सर ते अधिक रस बरसत है जौन ॥१७॥
 मान गुमान कबौ नहीं होत दान अनुकूल ।
 बिन फूले फल देत है गूजर - तरु को फूल ॥१८॥

रौद्र

स्थायी भाव—क्रोध

देवता—रुद्र

वर्ण—अरुण अथवा रक्त

आलंबन—शत्रु अथवा वह पुरुष जो जाति और देश का द्रोही हो-
कदाचारी और कपटाचारी व्यक्ति आदि—

अनुभाव—भ्रमंग, अधरदशन, ताल ठोकना, डाँटना, ललकारना,
रोमांच, स्वेद, मद, परुष-भाषण आदि—

संचारी भाव—गर्व, चपलता, मोह, अमर्ष, उग्रता, आवेग आदि—

उद्दीपन—शत्रु की चेष्टाये और उसका व्यवहार, उसका आस्फालन,
अस्त्र-शस्त्र-प्रहार और आक्रोश देशद्रोही, जाति-शत्रु और कदाचारी पुरुषों
का कार्य-कलाप और उनकी कूट नीति आदि—

विशेषता

इस रस में उद्दीत क्रोध की प्रबलता और पुष्टता होती है ।

उदाहरण

अहंभाव

कवित्त—

कब लौं अभाग तू बनाइहै अभागो मोहि
जो न भागिहै तो तोको पौरुख दिखैहौं मैं ।
काढ़ि हौं कचूमर पकरि मुँह लाल कैहौं
चाल चलिहै तो बाल बाल बीनि लैहौं मैं ।

एरे कूर मानिहै कही ना 'हरिऔध' की तो
 धूर मॉहिं तोको चूर चूर कै मिलैहौ मैं ।
 पसुता दिखैहै तो पिसान करि दैहौं पीसि
 मसक समान मूढ़ तोको मीसि दैहौं मैं ॥ १ ॥

सामने जो ऐहै महा बिकराल-काल हूँ तो
 लोहा लेइ तासो ताल ठोंकि ठोकि लरिहौं ।
 गरजि गिराइहौं गुमान मगरूरिन कौ
 तरजि तिलोक - पति हूँ को तेह हरिहौं ।
 'हरिऔध' धाइहौं कँपाइ दिगदंतिन कौ
 बड़े बड़े धीर - धुर - धारिन कौ धरिहौं ।
 बैरिन की अखियाँ बनैहौं बारि - धारा - मयी
 धूरि - धारा-मयी मैं बसुंधरा कौ करिहौं ॥ २ ॥

दून की जो लैहै ताप दैहौं तिगुनो तो ताहि
 बहँके बहँक - बानि काँहि बहकैहौं मैं ।
 कीच जो उछारिहै तो पकरि पछारि दैहौं
 पीछे जो परैगो तो न पीछे पाँव नैहौं मैं ।
 'हरिऔध' करिकै बिरोध का बिरोधी कैहै
 वाको अवरोध बारि - धारा मैं बहैहौं मैं ।
 बल जो दिखाइहै बिलाइहै बलूले सम
 बैर-बलि - बेदिका पै वाको बलि दैहौं मैं ॥ ३ ॥

उत्तेजिता बाला

कवित्त —

बीजुरी बिलसि घन-अंक मैं जो कैहै केलि
 तो मैं ताको फूटी-अँखि हूँ ते ना निहारिहौं ।

सारी वारि-बूँदन को बारिंधि मैं बोरि दैहौं
 बसुधा ते बरखा - बयारि को निकाहिहौं ।
 'हरिऔध' बैर करिहैं जो मो बियोगिनी ते
 तो मैं मोर - कुल को मरोरि मारि डारिहौं ।
 आदर न दैहौं कबौं कादर - पपीहन कौ
 बजमारे - वादर को उदर विदारिहौं ॥ १ ॥
 मंजुल - रसाल मंजरीन को बिथोरि दैहौं
 रसना - बिहीन कैहौं कोकिल - नकारे को ।
 कुसुम - समूह की कुसुमता निवारि दैहौं
 मारि दैहौं गुंजत - मिलिद - मतवारे को ।
 ए हो 'हरिऔध' जो सतैहैं दुख दैहैं मोहिँ
 बिरस बनैहौं तो सरोज - रस - वारे को ।
 अंतक लौं सारे-मुख - तंत को निपात कैहौं
 अंत करि दैहौं या बसंत बजमारे को ॥ २ ॥

पवि-प्रहार

मनहरण

कवित्त—

कैसे तो रसातल पठाइ दैहौं तोको नाँहि
 ताड़ित जो तोते होत भारत अवनि है ।
 तू जो बार बार बार करत हितून पै तो
 मेरो कर कैसे ना कटारी तोहि हनिहै ।
 'हरिऔध' कहै एरे कुल के कलंक जो तू
 तमकि तमकि जाति - नेहिन पै तनिहै ।
 मेरी बंक - भौं तो तेरी बंकता नसैहै क्यो न
 मेरो लाल-नैन क्यो न तेरो काल बनिहै ॥ १ ॥

षड़ी और चोटी को पसीनो करि एक जो तू
 खोटी है करत क्यो न दाँत कोट कैहौं मैं ।
 रोटी के निमित्त पेट काटि लेत औरन के
 ऐसी छोटी बातन ते कैसे ना धिनैहौं मैं ।
 'हरिऔध' तू जो जाति-पीठ की चमोटी बन्यो
 कैसे तो न बार बार पोटी दूहि लैहौं मैं ।
 मोटी-मोटी-बाहँ बदी-मोटै जो बनति हैं तो
 एरे नर तेरी बोटी बोटी काटि देहौं मैं ॥ २ ॥

कमनीय - कामिनी मैं कुल मैं कुलीनता मैं
 कालिमा लगाइ क्यो कलंक मैं सनत है ।
 काहँ बहु - आनन के मुनत अनैसे बैन
 काहँ अपकीरत - बितानन तनत है ।
 'हरिऔध' तोते जो पै हिदू हित होत नाँहि
 हिदू हूँ कै जो तू जर हिदू की खनत है ।
 काहँ करवाल कालिका की ना परति तो पै
 काहँ तो न काल को कलेवा तू बनत है ॥ ३ ॥

कोऊ गिरि काहँ तेरे सीस पै गिरत नाँहि
 धाक खोइ काहँ तू धरा मैं ना धँसत है ।
 काहँ ना रसातल सिधारत रसा के हिले
 काहँ ना कपालिनी - कुफाँस मैं फँसत है ।
 'हरिऔध' हिदू बनि हिदू - कुल-बाल होइ
 हिदू - गरो जो तू जेवरीन ते कसत है ।
 काहँ तो प्रचंड - यम - दंड ना लगत तोहि
 काहँ तोको कारो काल - नाग ना डँसत है ॥ ४ ॥

मानव की कहा हैहैं कुपित अमानव हूँ
 खग मृग मीनन की मंडली कँपावैगी ।
 तरु काल हैहै फूल फल मैं समैहै सूल
 दल दलि दैहै बेलि लता कलपावैगी ।
 'हरिऔध' कहै देस-द्रोही तू न पैहै कल
 धाई धूरि-धारा असि-धारा सी सतावैगी ।
 भारत के कोटि कोटि कीट काटि काटि खैहैं
 चींटे चोट कैहैं चींटी तोको चाटि जावैगी ॥ ५ ॥

दिनकर-किरिनैं करेजो तेरो बेधि दैहैं
 चद की कलायें तोको गरल पिआइहैं ।
 अंत तेरो करिहैं दिगंतन के दंति दौरि
 धूरि माँहिं तोको धरा-धरहूँ मिलाइहैं ।
 'हरिऔध' जो तू कुल-लाल है बनैगो काल
 हिदुन को तेरे दग-लाल जो कँपाइहैं ।
 कारे-कारे-बारि-बाह ते तो पवि-पात हैहै
 नभ-तारे तो पै तो अंगारे बरसाइहैं ॥ ६ ॥

रेति रिति जाति-गरो कौलौं तू मनैहै मोद
 चेति चेति कौलौं लोक-चित्त-चाव हरिहै ।
 काल बनि बनि काहूँ काँहिं कलपैहै कौलौं
 लाल हैहै कौलौं तू लहूँ सों हाथ भरिहै ।
 मानत है काहें 'हरिऔध' की कही ना कूर
 कालिमामयी तू कौलौं मेदिनी को करिहै ।
 कोऊ ज्वाला-मुखी फूटि कैहै टूक टूक तोहि
 एरे महा-पापी तो पै बज्र दूटि परिहै ॥ ७ ॥

दोहा—

गरल बमत बहकत रहत दहत हरत चित चैन ।
 कैसे लोने नैन मै राई लोन परै न ॥११॥
 कैसे ऐंची जाय नहिँ क्यों न बनहि बदनाम ।
 जब चलि जीभ चलावतै रहति चाम के दाम ॥१२॥
 संत बनेहुँ जो हरत काहू गर को हार ।
 काहँ वाके सीस पै टूटि न परत पहार ॥१३॥
 ते असंत हैं संत नहिँ क्यों न गहहिँ करवाल ।
 जिनकी अँखियाँ लाल हैं बनहिँ लोक-हित काल ॥१४॥
 जो भिरि हैं करिहौँ उभरि बीर भाव को अंत ।
 हौँ बैरिन कौ तोरि हौँ सकल - बिखीले - दंत ॥१५॥
 बचि पै है बैरी नहीं परि सौँहँ करि सौँह ।
 हरिहै सारी बंकता बंक भई मम भौँह ॥१६॥

दोहा—

गरल बमत बहकत रहत दहत हरत चित चैन ।
 कैसे लोने नैन मै राई लोन परै न ॥११॥

कैसे ऐंची जाय नहिं क्यों न बनहि बदनाम ।
 जब चलि जीभ चलावतै रहति चाम के दाम ॥१२॥

संत बनेहूँ जो हरत काहू गर को हार ।
 काहें वाके सीस पै टूटि न परत पहार ॥१३॥

ते असंत हैं संत नहिं क्यों न गहहि करवाल ।
 जिनकी अखियाँ लाल हैं बनहिं लोक-हित काल ॥१४॥

जो भिरि हैं करिहौं उभरि वीर भाव को अंत ।
 हौं बैरिन कौ तोरि हौं सकल - बिखीले - दंत ॥१५॥

बचि पै है बैरी नहीं परि सौहैं करि सौह ।
 हरिहै सारी बंकता बंक भई मम भौह ॥१६॥

भयानक

स्थायी भाव—भय

देवता—काल

वर्ण—श्याम अथवा कृष्ण

आलंबन—भयंकर दृश्य, घोर दर्शन जन्तु अथवा प्राणि विशेष, भीति-वर्द्धक स्थान आदि ।

उद्दीपन—भयंकर दृश्यों का अवलोकन, भयजनक प्राणियों और स्थानों का दर्शन, उनकी चेष्टाये और उनके कार्यकलाप ।

अनुभाव—विवर्णता, कप, मूर्छा, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग आदि ।

संचारी भाव—आवेग, मोह, त्रास, दैन्य, शका, तथा मृत्यु आदि ।

इस रस में इंद्रिय विद्वोभ के साथ भय की पुष्टि होती है । इसके पात्र कापुरुष और भीरु स्त्री आदि हैं ।

विशेष

किसी किसी ने इस रस का देवता यमराज को माना है ।

भय की विभूति

मनहरण

कवित्त—

याजन यजन बहु - साधन - विराग राग

व्रत उपवास काल - त्रास करतूति है ।

साँसत - सहन नाना - सासन प्रतीति प्रीति

सहज - भयानक - बिभावना प्रसूति है ।

‘हरिऔध’ विविध - विभीषिका थहर भरी
 सकल - ससंक - भाव भव - गात-भूति है ।
 भभरे जनन की भभर भूत - प्रेत - भीति
 भीरु - जन - अनुभूति भय की विभूति है ॥ १ ॥

भूत - प्रेत परम - भयावनी कुमूर्ति देखे
 चैन से कवौं ना भूतहूँ को पूत सूति है ।
 फुँकरत फनि - गन फनिता बतै है कौन
 कालिका-करालता कहाँ लौं कोऊ कृति है ।
 ‘हरिऔध’ काहि से गरल - कंठता है छिपी
 काको ना कपाल-नैन-ज्वाल - अनुभूति है ।
 भैरव समेत भूत - नाथ की प्रभूत - भूति
 भूरि - भय - भावना भयंकर - विभूति है ॥ २ ॥

कहा अजगुत वक्र - दंत बिकराल - काय
 कदाकार कोऊ भूरि - भीति उपजै है जो ।
 कौन है विचित्रता विकल्पित विपुल - मूर्ति
 बनिकै भयंकरी विभीषिका बदै है जो ।
 ‘हरिऔध’ कछू ना अचंभौ तम-तोम - तरु
 भैरव - विभूति है अपार डरपै है जो ।
 जहाँ तहाँ खरे क्यों दिखै हैं ना प्रभूत - भूत
 भय - अभिभूत - मनभूत बनि जै है जो ॥ ३ ॥

विभीषिका

कबिता—

सूरता बिलोके साँचे-सूर - कुल - केसरी को
 बड़े - बड़े - साहसी समर में सकाने हैं ।

बीरता - विकंपित भई है बाँके - बीरन की
 बैरिन के बैभव बल्ले लौं बिलाने हैं ।
 'हरिऔध' कर - करवाल - गहे केते भीरु
 भीत ह्वै कै गिरि की गुहान में समाने हैं ।
 धनु ताने केते हहराने केते थहराने
 केते भहराने केते भभरि पराने हैं ॥ १ ॥

बासर बड़े हैं पै अबासर बनैगे विधि
 लोमसता चाव कौलौं लोमस दिखावैगे ।
 चिरजीवी जेते हैं न वेऊ चिरजीवी अहैं
 कैसे चिर - जीवन जगत जोव पावैगे ॥
 'हरिऔध' अमरावती न अमरावती है
 सारे लोक काल के उदर में समावैगे ।
 कौन है अमर ? है अमरता निवास कहाँ ?
 एक दिन अमरं - अमर मर जावैगे ॥ २ ॥

प्रलय काल

कबित्त—

सारे - लोक लोकपाल सहित विलोप ह्वैहैं
 कुल - कलां-निधि काल - गाल में समावैगे ।
 तारकता तजि तजि तारक तिरोहित ह्वै
 प्रलय - पयोधि में बल्ले पद पावैगे ।
 'हरिऔध' देव देव - लोक हूँ दुरैगे कहूँ
 दिवि मैं दिवा - पति न दिपत दिखावैगे ।
 मिलि जैहैं सारे भूत ही न पंच भूत साँहैं
 एक दिन पंच - भूत भूत बन जावैगे ॥ १ ॥

सिव की समाधि भई भंग भीम - नाद भयो
 कँपे लोक - पाल धीर ध्रुव ना धरे रहे ।
 सहमे सुरासुर स-संकित दिगंत भयो
 सारे पारावार ना प्रपंच से परे रहे ।
 'हरिऔध' प्रलय - बिभूति को बिकास देखि
 भुवन - स - भूधर भयातुर अरे रहे ।
 भीत भये भूत भारी - भीरुता घरा मैं भरी
 सित - भानु डरे भानु भभरे खरे रहे ॥ २ ॥
 धाँय धाँय दहिहै धरातल मसान - सम
 अगनित खानै ज्वाल - माल-जाल जनिहैं ।
 पावक ते पूरित दिगंत हूँ दुरंत ह्वैहै
 दव के अधर मैं बितान बहु तनिहैं ।
 'हरिऔध' ऐहै ऐसो बार जब नाना लोक
 लोक - पाल - सहित हुतासन मैं सनिहैं ।
 सूर साँस जारे जैहैं प्रलय - अँगारे माँहिं
 सारे तारे तपत - तवा को बूँद बनिहैं ॥ ३ ॥
 डरपैहै धिरि घेरि दानव - समान घन
 परम - प्रचंडता प्रभंजन दिखावैगो ।
 कर्न - भेदी - गरज कँपैहै दिग्गजन काँहिं
 काको बिज्जु-ब्यापक-प्रकोप ना कँपावैगो ।
 'हरिऔध' बारि - धर मूसल-समान-धार
 बारि-निधि प्लावन लौं बिबस बनावैगो ।
 भूमि - तल निलय बनैहै भू - बलय माँहिं
 सारो - लोक प्रलय - सलिल मैं समावैगो ॥ ४ ॥
 सारे - प्रांत प्लावन मैं परिकै बिलीन ह्वैहैं
 पुर - ग्राम - पत्तन की सत्ता लोप पावैगी ।

पवि - पात भये विनिपात हैं हैं जीवन कौ
 प्रलय - प्रबलता ते जनता बिलावैगी ।
 'हरिऔध' प्रखर - प्रभंजन - प्रकोप काने
 बिदलित पूरी - पादपावलि दिखावैगी ।
 मिलि जैहै धरि मैं धरा - धर विधूनित है
 धारा - धर - धारा मैं बसुंधरा समावैगी ॥ ५ ॥

ज्वाल - माला - बमन सहस-फन-सेस कैहै
 काल - ज्योति ज्वलित - दिगंतन मैं जगिहै ।
 मदन - दहन को दहन - पटु खुलैगो नैन
 दाहकता दाहक - त्रिसूल की उमगि है ।
 'हरिऔध' प्रबल - प्रलय - परिपाक भये
 लोक-ओक पावक - बिपाक - पाक पगि है ।
 परम - प्रचंड - मारतंड उगिलैगो आग
 अनल - अखंड महि - मंडल मैं लागि है ॥ ६ ॥

कूदि कूदि उछरि उछरि कै लगैहै आग
 लाग कै लवर - व्योम - ब्यापिनी उठावैगो ।
 दाहैगो अनंत - जोव - जंतु - यातुधान-दल
 बरत - मसाल घर बार को बनावैगो ।
 'हरिऔध' करिहै दिगंत को द्वारि - दग्ध
 बसुधा-बिभूति को बिभूति कै दिखावैगो ।
 प्रलय - प्रकोप - पौन - पूत अति बंका-बीर
 डंका दै दै नाना - लोक-लंका को जरावैगो ॥ ७ ॥

ज्वाल-माल जगे दग्ध हैं हैं जगती के जीव
 घर-बार बसन - बितान जैसो बरि है ।

नून-पुंज-सरिस दहत दिखरैहै मेरु
 बन मैं भयंकरी-लवर फूटि परिहै ।
 'हरिऔध' बारहो-दिवाकर उदित भये
 दुसह-द्वारिता दिगंतन मैं भरिहै ।
 तूल-सम सकल-धरातल को तरु-तोम
 तेल-सम तोय-निधि तोय-रासि जरिहै ॥ ८ ॥

नाचि नाचि जरति जमात मनु-जातन को
 बारि ही मैं बरत रहत बारि-वारे हूँ ।
 बिहग उड़त गिरि परत दहत जात
 पसु-बृंद पावक मैं परि पचि हारे हूँ ।
 'हरिऔध' कहाँ जाँय, कहा करै, कैसे बचै,
 प्रलय-प्रपंच ते प्रपंचित बिचारे हूँ ।
 अवनि गगन ही अहैं न उगिलत आग
 सरित-पतीन हूँ मैं भरित अँगारे हूँ ॥ ९ ॥

भानु ते भभरि भूरि-कंपित-भयो है लोक
 पवि - उर प्रलय-प्रकोप ते हिलत है ।
 द्रवी-भूत-धातुन को प्रबल-प्रवाह आइ
 पल पल नाना-प्रानि-पुंज को गिलत है ।
 'हरिऔध' हाहाकार पूरित दिगंत भयो
 कहाँ जाय कोऊ कहीं त्रान ना मिलत है ।
 तारे ही गगन ते न गिराहैं सरारे-भरे
 भूतल हूँ आग है अँगारे उगिलत है ॥१०॥

भभरि भभरि भागिहैं पै कहाँ जैहैं भागि
 हहरि हहरि काँपिहैं पै क्यों उबरि हूँ ।

कहाँ कै हैं माता पिता भ्राता क्यों बचै हैं काहि
 आप ही जो प्रबल दवारि माँहि परि हैं ।
 'हरिऔध' कैसे तो बिमूढ़ जन हैं हैं नाँहि
 सिगरे सदन जो बरूद जैसे बरि हैं ।
 धरती बनैगी जो पै जरती चिता-समान
 कैसे तो न सारे जगती के जीव जरि हैं ॥११॥

घसके, धरातल मैं धँसि जै हैं नाना जीव
 ज्वाल माल लगे गेह धू धू धू धू जरि हैं ।
 परि परि पावक मैं विपुल-पहार-पंक्ति
 प्रलय-पटाका है प्रचंडरव करि हैं ।
 'हरिऔध' बार बार भू पै बज्र-पात है है
 काल-पेट दहत - भुवन भूरि भरि हैं ।
 काँचे-घट-तुल्य सारे-लोक फूटि फूटि जै हैं
 टकराये कोटि कोटि तारे टूटि परि हैं ॥१२॥

नभ-तल भू-तल पताल है दवारि भरो
 दिवि है दहत है उद्धि-बारि बरतो ।
 तारक-क्तार परि पावक मैं झार होत
 प्रानि-पुंज-भ्रान है दुरंत-दव हरतो ।
 'हरिऔध' नाना-पुर-नगर-अंगारन मैं
 उलका निपात है अँगारन को भरतो ।
 कोपे काल प्रलय-अनल विकराल भयो
 जगे ज्वाल-माल है जगत सारो जरतो ॥१३॥

कोऊ हाहा खात थहरात कोऊ भहरात
 कोऊ परो दुसह दवारि मैं दिखात है ।

तरु हैं जरत धू धू धू धू हैं जरत मेरु
 धाँय धाँय बरत धरातल को गात है ।
 'हरिऔध' ठौर ठौर धधकत आग ही है
 ब्वाल मैं जरति जीव - जंतु की जमात है ।
 महा हाहाकार है सुनात ओक-ओक मॉहिं
 प्रलय जराये लोक लोक जरो जात है ॥ १४ ॥

करको प्रहार तारकावलि को लोप कैहै
 दिवि को दलैगो दिवा - पति को मिटावैगो ।
 नाना-अंग - चालन दिगंतन को कैहै चूर
 ध्वंस कै धरातल को धूरि मैं मिलावैगो ।
 'हरिऔध' होत महा-काल को कराल - नृत्त
 सहस - बदन - ब्याल - बैभव बिलावैगो ।
 लात लगे दूटिहै अतल - तल पत्ता - सम
 पल में पताल हूँ को लत्ता उड़ि जावैगो ॥ १५ ॥

सृंग - नाद सुने घोर - डमरू-डिमिक भये
 कोपे महा - काल के सुरासुर सिहरिगे ।
 उच्छ्रलत - बारिधि को बारि विचलित भयो
 धसके धरा - तल धरा - धर बिदरिगे ।
 'हरिऔध' चौदहो भुवन भय - भीत बने
 काँपे पंच - भूत दसो दिग्गज भभरिगे ।
 कोल गयो डोल काठ मारिगे कमठ हूँ को
 बैल बिललानो ब्याल - बदन बिहरिगे ॥ १६ ॥

हुँकरत बैल के बलूले लौ बिलाने लोक
 फुँकरत फनि के अनंत - ओक जरिगे ।

प्रकटे त्रिलोचन - त्रिसूल ते दुरंत - द्व
 सारे प्रानी दावा मैं पतंग - सम परिगे ।
 'हरिऔध' कहै प्रलयंकर - प्रकोप भये
 मरिगे अमर बारि - धार - वारे बरिगे ।
 गरे के गरल ते अंगारे करे भूतल पै
 नयन उघारे तारे पावक ते भरिगे ॥ १७ ॥

चाम देव वामता ते मर ह्वै अमर जैहैं
 कोटि कोटि मनु - जात कीट जैसे मरिहैं ।
 धूरि माँहिँ मिलिहैं सुमेर से धरा - धर हूँ
 बारिद - प्रलै के तेल - बिंदु जैसे जरिहैं ।
 'हरिऔध' त्रिपुरारि - नयन तृतीय खुले
 तीनी लोक तूल के अंबार जैसे बरिहैं ।
 काल - कोप पौन के हिलाये ब्योम-तरु-तोम
 फल के समान सारे तारे करि परिहैं ॥ १८ ॥

लोकन की सत्ता औ महत्ता महा-भूतन की
 प्रलय महान विकराल कर लूटैगो ।
 अंतक-अनंत की अनंतता को अंत हैहै
 दूक दूक हैबे ते छपा - कर न छूटैगो ।
 'हरिऔध' हर के अकांड - तांडवों के भये
 भांड के समान सारो ब्रहमांड फूटैगो ।
 प्रबल प्रचंड - मारतड खंड खंड हैहै
 परम - उदंड - यम काल - दंड दूटैगो ॥ १९ ॥

प्रलय प्रकोप

दोहा—

रवि ससि रहि जैहैं नहीं बचि है नाँहि अनंत ।
 अंत समय करिहै प्रलय अंतक हूँ को अंत ॥ १ ॥
 जरि जैहै सारो जगत बरि जैहै बनि घास ।
 उगे दिवाकर बारहो बहे पवन - उनचास ॥ २ ॥

नरक वर्णन

दोहा—

पग पग पै पग - बेधिनी पथ - पौरुख - गिरि गाज ।
 है कंटक - मय नरक - महि कुल - कंटक जन कांज ॥ १ ॥
 पग पारत जरि बरि उठत तरफन हाहा खात ।
 अहै आततायीन हित नरक - अवनि अय - तात ॥ २ ॥
 साँसत पै साँसत सहत पिसत दहत दिनरात ।
 जब कौरव से पातकी रौरव मै परि जात ॥ ३ ॥
 कौन नारकी बिन जिअत निज तन लोहू चाटि ।
 को काकी पोटी दुहत बोटी बोटी काटि ॥ ४ ॥
 जरहिं बरहिं पल पल पिसहिं मिसहिं खाहिं तरवारि ।
 कौन यातना ना सहहिं नरक परे नर-नारि ॥ ५ ॥
 काल - ब्याल - मय - महि मिले दहत देखि सब ओक ।
 भागे भागे फिरत हैं नरक अभागे - लोक ॥ ६ ॥
 गिरत परत - सोनित बमत फूटत रहत कपार ।
 पापी पावत नरक मै पल-पल प्रबल - प्रहार ॥ ७ ॥
 जरत नरक को जीव है पै न होत जरि छार ।
 धरा आगि उगिलत रहत बरसत गगन अँगार ॥ ८ ॥

वीभत्स

स्थायो भाव—जुगुप्सा अथवा ग्लानि वा घृणा

देवता—महाकाल

वर्ण—नील

आलंबन—दुर्गन्धि युक्त पदार्थ, मांस, रधिर, चर्बी, विष्टा, मूत्र आदि—

उद्दीपन—दुर्गन्धित पदार्थों में कीड़े पड़ना, उनपर मच्छिकादि पतन ।

अनुभाव—थूकना, मुँह फेर लेना, आँख बंद करना, नाक सिकोड़ना, रोमांच आदि ।

सं चारी भाव—मोह, मूर्छा, आवेग, व्याधि, आदि ।

इस रस में ग्लानि और घृणा की परिपूर्णता होती है और इन्हीं भावों द्वारा यह पुष्ट होता है ।

विशेष

इस रस में जुगुप्सा की पुष्टि और ग्लानि एवं घृणा की अधिकता होती है इस रस का पात्र उद्वेगमय मानस होता है ।

युद्ध-भूमि

मनहरण

कवित्त—

काटि काटि खात मुंड-माल में के मुंडन कौ

मास मेद मञ्जा ते अघाइ उमहति है ।

असित - कलेवर, डरावने विसाल - नेत्र,

चावि - चावि हाड़ विकरालता गहति है ।

‘हरिऔध’ रण मैं लुठत है विपुल-लोथ
 पल पल शोणित प्रवाह अधिकात है ।
 घात माँहिँ बैठि गीध आँत ऐँचि ऐँचि लेत
 गात नोचि नोचि खात जम्बुक-जमात है ॥ ४ ॥

सवैया—

काल कलेऊ बनावत लोक को कालिका मुंडन ठाट है ठाटति ।
 गीध-समूह निकारत आँत है त्यों करवार घने-सिर काटति ।
 ए ‘हरिऔध’ अरी रण-बाहिनी लोथते है धरनी-तल पाटति ।
 नाचति हाड़ चबाइ कै योगिनी चाट ते लोहू चुरैल है चाटति ॥५॥

मानव-तन

कवित्त—

कीचर भरे हैं नैन नेटा भरी नासिका है
 थूक औ खेखार लार पूरित बदन है ।
 नख ते बिहीन अहै एक आँगुरी हूँ नाहिँ
 हाड़ को है ढाँचो रोम-संख्या अनगन है ।
 ‘हरिऔध’ अंग अंग अहै चाम-आबरित
 रक्तमेद मज्जा मास स्वेद को सदन है ।
 कूर-करतूत-भरो छूत-भरो खूँत-भरो
 मल-भरो मूत-भरो मानव को तन है ॥१॥

स्मशान-भूमि

कवित्त—

कहूँ धूम उठत बरति कतहूँ है चिता
 कहूँ होत रोर कहूँ अरथी धरो अहै ।
 कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध-जरो बाँस
 कहूँ गीध-भीर मास नोचत अरी अहै ।

‘हरिऔध’ रण में लुठत है विपुल-लोथ
 पल पल शोणित प्रवाह अधिकात है ।
 घात माँहि बैठि गीध आँत ऐचि ऐचि लेत
 गात नोचि नोचि खात जम्बुक-जमात है ॥ ४ ॥

सवैया—

काल कलेऊ बनावत लोक को कालिका मुंडन ठाट है ठाटति ।
 गीध-समूह निकारत आँत है त्यों करवार घने-सिर काटति ।
 ए ‘हरिऔध’ अरी रण-बाहिनो लोथते है धरनी-तल पाटति ।
 नाचति हाड़ चबाइ कै योगिनी चाट ते लोहू चुरैल है चाटति ॥५॥

मानव-तन

रुचि—

कीचर भरे हैं नैन नेटा भरी नासिका है
 थूक औ खेखार लार पूरित बदन है ।
 नख ते बिहीन अहै एक आँगुरी हूँ नाहि
 हाड़ को है ढाँचो रोम-संख्या अनगन है ।
 ‘हरिऔध’ अंग अंग अहै चाम-आबरित
 रक्तमेद मज्जा मास स्वेद को सदन है ।
 कूर-करतूत-भरो छूत-भरो खूत-भरो
 मल-भरो मूत-भरो मानव को तन है ॥१॥

रुचि—

कहूँ धूम उठत बरति कतहूँ है चिता
 कहूँ होत रोर कहूँ अरथी धरो अहै ।
 कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध-जरो बाँस
 कहूँ गीध-भीर मास नोचत अरी अहै ।

'हरिऔध' कहूँ काक कूकर हैं शव खात
 कतहूँ मसान मैं छड्डूंदरी मरी अहै ।
 कहूँ जरी लकरी कहूँ है सरी - गरी - माल
 कहूँ भूरि - धूरि - भरी खोपरी परी अहै ॥ ७ ॥

कूकर शूकर

कवित्त—

चंद - मुखी चाव ते बनावत चुरैल काँहि
 ताको कहै 'कंज जो बिसिख - बिख-धर है ।
 नरक - बिधायिनी को मानत सुरांगना है
 आमिख के पिड को गिनत गौरि - बर है ।
 'हरिऔध' काहै काम कामिनी-विजित - नर
 कूकर कि सूकर कि काक है कि खर है ।
 मान जो हरत ताके मुख को चबात पान
 मूसत जो माल ताको चूसत अघर है ॥ १ ॥

नरपिशाच

कवित्त—

साँप ते डरावने भयावने हैं भूतन ते
 काक जैसे कुटिल अपार - अरुचिर हैं ।
 अपजस - भाजन कलंक के निकेतन हैं
 कामुकता - मंदिर के निदित अजिर हैं ।
 'हरिऔध' मानव - स्वरूप माँहि दानव हैं
 आँखि कान आछत ते आँधर बधिर हैं ।
 हाड़ जे चिचोरत बेचारी - बिधवान के हैं
 भोली - बालिकान के जे चूसत रुधिर हैं ॥ १ ॥

ग्रनि कै सजीवन जे जीवन हरत जात
 जीवन को केते छल करि जे छरत हैं ।
 सतत पतंग - प्राणि - पुंज के दहन काज
 मेदिनी में दीपक - समान जे बरत हैं ।
 'हरिऔध' का हैं वे अमानव कि मानव हैं
 छाती पै सजातिन के मूँग जे दरत हैं ।
 औरन को मूसि मूसि जिनको बढ़त मास
 लहू चूसि चूसि कै जे फूलत फरत हैं ॥ २ ॥

नराधम

दोहा—

ताको थूकै क्यों न जन होठ दुखनते काटि ।
 जाकी काया पलति है थूक पराया चाटि ॥ १ ॥
 पहलो दिवि को दूत है दूजो है यम - दूत ।
 साँचो पूत सपूत है है कपूत तो मूत ॥ २ ॥
 लाज न आई नीच को भयो कान नहिं तात ।
 बात बात पै देखियत जनता थूकत जात ॥ ३ ॥
 वा सम अधम न दूसरो जो दुख देत दुलारि ।
 जाकी मुँह - लाली रहत ललना - लोहू गारि ॥ ४ ॥
 सो मानव है जगत में तो दानव है कौन ।
 मास - खात लोहू पिअत हाड़ चिचोरत जौन ॥ ५ ॥

कलंक कथा

बिगरत है परलोक हूँ कीने काज अपूत ।
 खरो खिन्न नर को करत नरक भरो मल - मूत ॥ १ ॥

सौँहैं मुँह वैसे करै है कलंक - मय गाथ ।
 लहू बने लोचन अहँ लहू भरे हैं हाथ ॥ २ ॥
 ताके चित की बासना तासु चाव कहि देत ।
 अगल बगल अवलोकि कै बगल सूँधि जो लेत ॥ ३ ॥
 मैलो मुख मल बमत है जव कबहूँ समुहात ।
 भेद बतावत भीतरी स्वेद-गंध-मय गात ॥ ४ ॥
 बोलि अनैसे-बैन जो बरबस बनत बलाय ।
 तो मुँह मैं कीरे परै तुरत जीह सरि जाय ॥ ५ ॥

शांत

स्थायी धार-रूप अथच निर्वेद

देवता-शांतिमूर्ति विष्णु

वर्ण-बुंद-दुर्ग-कान्ति समान शुक्ल

आलंबन—ससार की असारता और अनित्यता का ज्ञान, परमात्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव ।

उद्देश्य—न्दगुरु प्राप्ति, सत्संग, पवित्र आश्रम, पवित्र तीर्थ, रमणीय एकांत बन, सच्छाल अनुशीलन, श्रवण मनन आदि ।

अनुभाव—रोमांच, पुलकावली, अश्रु-विसर्जन आदि ।

संचारीभाव—धृति, मति, हर्ष, स्मरण, प्राणियों पर दया आदि ।

विशेष

काम क्रोधादि शमन पूर्वक निर्वेद की परिपुष्टता को शांत कहते हैं, इसका आश्रय उत्तम पात्र है ।

असार संसार

मनहरण

कवित्त—

मिलि जैहैं धूरि मैं धरा-धर धरा-तल हूँ
 काल-कर सागर-सलिल को उलीचिहै ।
 बड़े बड़े लोक-पाल बिपुल बिभव - वारे
 पल मैं बिलैहै ज्यो बिलाति बारि-बीचि है ।

‘हरिऔध’ बात कहा तुच्छ-तन-धारिन की
 कबौं मेदिनी हूँ मीच-भै ते आँख मीचिहै ।
 सरस-बसंत है विरस सरसैहै नाँहि
 बरसि सुधा-रस सुधा-कर न सोँचिहै ॥१॥

ऐसी ही लसैगी हरिआरी हरे-रूखन में
 ऐसी ही ललामता ललित-लता लहिहै ।
 ऐसोई करैगो कूजि कूजि कल गान खग
 सुमन - सुरभि लै समीर मंद बहिहै ।
 ‘हरिऔध’ एक दिन तू ही आँखि मूँदि लैहै
 ऐसी ही रहैगी मोद-मयो जैसी महि है ।
 ऐसी ही चमक चारु-चाँदनी चुरैहै चित
 ऐसोई हँसत मंद मंद चंद रहिहै ॥ २ ॥

प्रान बिन ताको तजि भजति सदा की नारि
 तरसत हुती जाको किन्नरी बरन को ।
 दाहत चिता पै राखि सुंदर सरीर वाको
 जाकी पलिका को पावा हुतो सुबरन को ।
 ‘हरिऔध’ देखत मसान मॉहि ताको परो
 जाकी धाक कंपत करेजो भू-धरन को ।
 चौर होत हुती जिनै मसक निवारन को
 तिनै खात देखे नोचि नोचि गीदरन को ॥ ३ ॥

पूजित-सचीस-धनाधीस औ फनीसहूँ के
 जगदीस ईसहूँ के सीस जो धरी रहै ।
 कामिनी के कंठ कुच करन चरन हूँ की
 जाते जेवरन हूँ की सुखमा खरी रहै ।

निर्वेद

कवित्त—

मेरी नारि मेरो पूत मेरो परिवार सारो
 मेरो गाँव मेरो गोह मेरो धन जन है ।
 मेरो मीत मेरो तात मेरो हित मेरो नात
 मेरो मुख मेरो नैन मेरो यह तन है ।
 'हरिऔध' ऐसे नाना चावन को चेरो अहै
 मोह - भरे - भावन मैं रहत मगन है ।
 छोरि छोरि हारे छोरे बंधन न छूटि पाये
 मोरि मोरि हारे मोरे मुरत न मन है ॥ १ ॥

सवैया—

चाह नहीं सुर पादप की तर बाँ के तरून के जो रहि जैयै ।
 प्यास पियूखहूँ की न हिये 'हरिऔध' जो पूखन-जा लखि लैयै ।
 काम - दुघाहूँ सों काम कहा वह गो - धन जो अपनो धन कैयै ।
 त्यागिये राज तिहूँ पुर को अज - पूजित जो ब्रज की रज पैयै ॥ २ ॥
 मुख जोहत जो नित मेरे रहे उनको अब बैन सुनातो नहीं ।
 जिन सामुहें दीठ न कीनी कबौं उनको अब जोम जनातो नहीं ।
 'हरिऔध' कहा कहै औरन की सगहूँ लगतो नगिचातो नहीं ।
 अब तो जग - जीवन तेरे बिना जग आपनो कोऊ दिखातो नहीं ॥ ३ ॥
 आरस छोरि लहौं तुलसी - दल पारस पाइ पलौं न उमाहौं ।
 गावत वे प्रभु के गुन - पावन पावत मोद पलास की छाँहौं ।
 या जग मैं जकरे सँकरे परौं भाग छुटे 'हरिऔध' सराहौं ।
 साँवरे राज ते काज कहा हमैं रावरे पायन की रज चाहौं ॥ ४ ॥
 पाइ बिभौ कबहूँ गरवात कबौं हित पेट के आतुर धावै ।
 मोद सों मत्त बनै कबहूँ अति चिंतित है कबहूँ अकुलावै ।

निर्वेद

कविता—

मेरी नारि मेरो पूत मेरो परिवार सारो
 मेरो गाँव मेरो गेह मेरो धन जन है ।
 मेरो मीत मेरो तात मेरो हित मेरो नात
 मेरो मुख मेरो नैन मेरो यह तन है ।
 'हरिऔध' ऐसे नाना चावन को चरो अहै
 मोह - भरे - भावन मैं रहत मगन है ।
 छोरि छोरि हारे छोरे बंधन न छूटि पाये
 मोरि मोरि हारे मोरे मुरत न मन है ॥ १ ॥

सवैया—

चाह नहीं सुर पादप की तर वाँ के तरुन के जो रहि जैयै ।
 प्यास पिपूखहुँ की न हिये 'हरिऔध' जो पूखन-जा लखि लैयै ।
 काम - दुघाहुँ सों काम कहा वह गो - धन जो अपनो धन कैयै ।
 त्यागिये राज तिहुँ पुर को अज - पूजित जो ब्रज की रज पैयै ॥ २ ॥
 मुख जोहत जो नित मेरे रहे उनको अब बैन सुनातो नही ।
 जिन सामुहें दीठ न कीनी कबौं उनको अब जोम जनातो नही ।
 'हरिऔध' कहा कहै औरन की सगहुँ लगतो नगिचातो नही ।
 अब तो जग - जीवन तेरे बिना जग आपनो कोऊ दिखातो नहीं ॥ ३ ॥
 आरस छोरि लहौं तुलसी - दल पारस पाइ पलौं न उमाहौं ।
 गावत वे प्रभु के गुन - पावन पावत मोद पलास की छाँहौं ।
 या जग मैं जकरे सँकरे परौं भाग छुटे 'हरिऔध' सराहौ ।
 साँवरे राज ते काज कहा हमैं रावरे पायन की रज चाहौं ॥ ४ ॥
 पाइ बिभौ कबहुँ गरबात कबौं हित पेट के आतुर धावै ।
 मोद सो मत्त बनै कबहुँ अति चितित है कबहुँ अकुलावै ।

भूलै कबौ 'हरिऔध' सनेह मैं सोक पगो कबहूँ बिलखावै ।
 या बिध बावरो जीव बनो रहै कैसे कबौ गुन रावरो गावै ॥५॥
 का पदवी जन - मान बिभौ मिले जो पल मैं तजि संग पराहीं ।
 बिद्या विवेकते काज कहा छल छोरिकै तोको न जो पतियाही ।
 तौ 'हरिऔध' दया - निधि साँवरे और कछू कबौ चाहत नाही ।
 काहू उपावन प्रीति बनी रहै भावन वा पद पावन माँहीं ॥६॥

विनाग

दोहा—

थोरे मैं अचसर परे ओरे लौं गरि जात ।
 गोरे - गोरे - गात पै कत कोऊ गरबात ॥ १ ॥
 बाहु हेरि बहकत वृथा बनि पर - सुख - ससि राहु ।
 सहसन के देखे कटी सहस - बाहु की बाहु ॥ २ ॥
 कोऊ बल करि अबल पै कत बलकत इतरात ।
 लखे बलूले के सरिस बहु - बल - वान बिलात ॥ ३ ॥
 सारी धरती मैं रही जासु धाक की धूम ।
 धूमिल सक्यो मसान करि तासु चिता की धूम ॥ ४ ॥
 जाके धौंसे की रही महि मैं भरी धुकार ।
 धू धू धू धू जरि भयो सो छिति - तल की छार ॥ ५ ॥
 तीन हाथ महि मैं परो तिनको गात लखात ।
 जे अवननी - तल - पति रहे अवननी मैं न समात ॥ ६ ॥
 का अनगन जन बाजि गज का धन लाख करोर ।
 मनुज लेत मुँह मोरि जब देखि काल - दृग - कोर ॥ ७ ॥

भक्त और भगवान

सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रसखान, बिहारी, भारतेन्दु, सत्य-नारायण तथा अष्टछाप के भक्त कवि-पुंगवों के भगवान के प्रति जो अनुपम उद्गार हैं उनका इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर संकलन किया गया है। भक्तों के वास्ते तो यह अपूर्व पुस्तक है। मूल्य १॥)

बिहारी की वाग्बिभूति

बिहारी हिन्दी के बहुत लोक-प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी सतसई की पढ़ाई कई परीक्षाओं में होती है। पर बिहारी की विशेषताओं का सम्यक् उद्घाटन करनेवाली हिंदी में कोई भी पुस्तक नहीं थी। इस पुस्तक से बिहारी-सम्बन्धी सभी बातों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। मूल्य १॥॥)

हिन्दी ज्ञानेश्वरी

महाराष्ट्र प्रान्त के प्रसिद्ध महात्मा श्री ज्ञानेश्वर जी ने भक्तों को भगवद्गीता का वास्तविक मर्म समझाने के लिए श्री शंकराचार्य के मतानुसार 'ज्ञानेश्वरी' नामक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और विशद टीका लिखी है। जितनी गीता पर टीकाएँ आज तक निकली हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मूल्य सजिल्द का ४॥)

भाषा-भूषण (सटीक)

अलंकार का ज्ञान प्राप्त करानेवाली यह सबसे छोटी और सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। दोहों में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं इससे कंठस्थ कर अलंकार का ज्ञान प्राप्त करना सरल-सा है। मूल्य १।

भक्त और भगवान

सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रसखान, बिहारी, भारतेन्दु, सत्य-नारायण तथा अष्टछाप के भक्त कवि-पुंगवों के भगवान के प्रति जो अनुपम उद्गार हैं उनका इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर संकलन किया गया है। भक्तों के वास्ते तो यह अपूर्व पुस्तक है। मूल्य १॥)

बिहारी की वाग्द्विभूति

बिहारी हिन्दी के बहुत लोक-प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी सतसई की पढ़ाई कई परीक्षाओं में होती है। पर बिहारी की विशेषताओं का सम्यक् उद्घाटन करनेवाली हिन्दी में कोई भी पुस्तक नहीं थी। इस पुस्तक से बिहारी-सम्बन्धी सभी बातों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। मूल्य १॥॥)

हिन्दी ज्ञानेश्वरी

महाराष्ट्र प्रान्त के प्रसिद्ध महात्मा श्री ज्ञानेश्वर जी ने भक्तों को भगवद्गीता का वास्तविक मर्म समझाने के लिए श्री शंकराचार्य के मतानुसार 'ज्ञानेश्वरी' नामक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और विशद टीका लिखी है। जितनी गीता पर टीकाएँ आज तक निकली हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मूल्य सजिल्द का ४॥)

भाषा-भूषण (सटीक)

अलंकार का ज्ञान प्राप्त करानेवाली यह सबसे छोटी और सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। दोहों में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं इससे कंठस्थ कर अलंकार का ज्ञान प्राप्त करना सरल-सा है। मूल्य १)

हिन्दी-नाट्य-साहित्य ✓

इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्रायः ५० पृष्ठों में संस्कृत-नाट्य-साहित्य की उत्पत्ति, विकास, नाटक तथा लक्षण-ग्रन्थों का संक्षिप्त इतिहास, रूपक-भेद, वस्तु, रस आदि पर एक पूरा प्रकरण दिया गया है। इसके अनन्तर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पूर्व के नाटकों का इतिहास देकर भारतेन्दु जी की नाट्य-रचनाओं का विवरण आलोचना सहित क्रमशः तीन प्रकरणों में दिया गया है। इसके बाद भारतेन्दु-काल के अन्य नाटककारों का विवरण एक प्रकरण में देकर वर्तमान-काल के प्रमुख नाटककार 'प्रसाद' जी की रचनाओं की ६० पृष्ठों में विवेचना की गई है। पुस्तक में नाटकों के इतिहास-सम्बन्धी समग्र ज्ञातव्य बातें दी गई हैं। मूल्य २॥)

५ कहानी-कला

इस पुस्तक में कहानियों की रचना कैसे होती है, इसका आकर्षक ढंग से, एक-एक बात का प्रेमचन्द जी तथा 'प्रसाद' जी आदि प्रसिद्ध कहानी लेखकों की कहानियों में से उद्धरण देकर वर्णन किया गया है। जो लोग कहानी लिखना सीखना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। मूल्य १।)

✓ वैदेही-वनवास

यह हरिऔध जी की कृष्ण-रस-प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आप कृष्ण-रस के सागर में इतने निमग्न हो जायेंगे कि आपकी आँखों से आँसू गिरने लगेंगे। लेखक ने एक-एक पंक्ति इसकी आँसू पोंछ-पोंछ कर लिखी है। ग्रंथारंभ में काव्य-संबन्धी अनेक बातों का दिग्दर्शन कराते हुए लेखक ने २५ पेज की भूमिका भी लिखी है। सभी पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। सचित्र व सजिल्द पुस्तक का मूल्य २।)

पुष्प-विज्ञान

इस पुस्तक में पुष्पों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनकी सामाजिक आवश्यकता आदि का वर्णन तो दिया ही है, साथ ही प्रायः सभी भारतीय पुष्पों का आयुर्वेद मतानुसार गुणावगुण एव रोग विशेष में उनके विशेष उपाय भी बतलाए गए हैं। मूल्य ॥१॥)

ठंढे-छींटे

यह बात प्रसिद्ध ही है कि श्री हरि जी गद्य-काव्य लिखने में एक ही हैं। यह आपकी गद्य-काव्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्रान्तिकारी रचना है। मूल्य ॥१॥)

खड़ी बोली हिंदी-साहित्य का इतिहास

खड़ी बोली के सभी अंगों के विषय में इस पुस्तक द्वारा अच्छी तरह समाधान हो सकता है। हिंदी-साहित्य में अपने विषय की यह अकेली पुस्तक है। मूल्य १॥१॥)

भाषा की शिक्षा

हिन्दी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने विषय की यह अपूर्व पुस्तक है। यह ग्रन्थ उन सभी अध्यापकों के काम का है जो प्राथमिक कक्षाओं से लेकर ऊँची कक्षाओं तक भाषा की शिक्षा देते हैं। हर एक अध्यापक को उसकी आवश्यकतानुसार इसमें सामग्री मिलेगी। मूल्य २)

मिलने का पता—

हिंदी-साहित्य कुटीर, बनारस